

बुद्ध पूर्व का भारतीय इतिहास

रावराजा डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र रायबहादुर
तथा

रायबहादुर पंडित शुक्रदेवबिहारी मिश्र

बुद्ध पूर्व का भारतीय इतिहास

अर्थात्

भारतवर्ष का इतिहास—प्रथम भाग



वैदिक पूर्व से आदिम कलि काल तक
[२७५० बी० सी० से ५६३ बी० सी० पर्यन्त]



लेखक

रावराजा डाक्टर श्यामविहारी मिश्र रायबहादुर }
डी० लिट० तथा } मिश्र बन्धु
रायबहादुर पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र

प्रकाशक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग



तृतीय संस्करण }
१००० प्रतियाँ }

संवत् १९९६

{ मूल्य २।। }

वक्तव्य


इस भारतीय इतिहास को हम बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हैं। इस ग्रन्थ के पूरे विषय को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिन में से पहला अब जनता के सम्मुख है। इसमें हमारे प्राचीन इतिहास का वर्णन है जिसे बहुतेरे लोग यदि बिलकुल नहीं तो मुख्यतः कहानी मात्र मानते हैं। हमें आशा है कि इधर की खोज के सविधि अवलोकन से आलोचकों को विश्वास हो जायगा कि हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ऐसी प्रचुर सामग्री वर्तमान है, जिसकी सहायता से प्राचीन भारत का सच्चा और क्रमबद्ध इतिहास लिखा जा सकता है।

इस इतिहास का पहला खण्ड, अर्थात् यह जिल्द प्रायः २२ शताब्दियों पर विस्तृत है (बी० सी० २७५० से बी० सी० ५६३ तक)। दूसरा खण्ड बौद्ध काल (बी० सी० ५६३) से चल कर हिन्दू साम्राज्य के अन्त पर समाप्त होगा और तीसरे में मुसलिम तथा आँगरेजी समयों का हाल इस काल तक पाया जायगा। स्मरण रहे कि हिन्दू काल ४००० वर्षों से भी बड़ा है, पर मुसलिम और ब्रिटिशकाल पूरे १००० वर्षों के भी नहीं हैं। द्वितीय समय का अन्त काल विविध प्रान्तों के लिये भिन्न है।

आशा करते हैं कि हमारे इस दीन परिश्रम से कदाचित् विद्वानों की प्रवृत्ति भारतीय प्राचीन इतिहास की ओर कुछ झुक जाय, क्योंकि इस पर श्रम करने से वास्तव में अलौकिक आनन्द आता है। इस ग्रन्थ के विषय तथा आधारों के विवरण भूमिका और ग्रन्थ में मिलेंगे।

लखनऊ
१९९३ }

श्यामबिहारी मिश्र,
शुकदेव बिहारी मिश्र, } मिश्र बन्धु



भूमिका

हमारे प्राचीन इतिहास के दो प्रधान और एक दूसरे से पृथक् साधन हैं, अर्थात् वैदिक साहित्य और पुराण। वैदिक साहित्य में संहिता (ऋक्, यजुः, साम और अथर्व), ब्राह्मण, उपनिषद्, आरण्यक, और सूत्र ग्रन्थों की गणना है। मुख्यतया ये सब धार्मिक साहित्य में माने जा सकते हैं और इनमें ब्राह्मण लेखकों का प्राधान्य है तथा विषय बहुत करके धार्मिक हैं। पुराणों में लौकिक साहित्य की प्रधानता है और आदि में इसका मूल प्रधानतया अब्राह्मण लेखकों और सहायकों से भी सम्बन्ध रखता है। वेदों में सूतों, मागधों, चारणों आदि के कथन आये हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों ने वैदिक साहित्य को स्मरण-शक्ति द्वारा मुरक्षित रक्खा, उसी प्रकार सूतों आदि ने (स्मरण शक्ति द्वारा) लौकिक साहित्य एवं राजवंशों के मूलों की रक्षा की। पुरोहितों आदि ने भी ऐसा ही किया। जब भगवान् वेदव्यास ने प्राचीन साहित्य और सामग्री को इतना बढ़ा हुआ पाया कि बिना घरानों के विषय-विभाग किये हुये उसके नष्ट हो जाने का भय देख पड़ा, उस काल उन्होंने स्वयं वेदों का सम्पादन करके उनके चार भाग किये, और एक एक वेद को एक एक प्रधान शिष्य परम्परा में बांट दिया। उसी समय उन्होंने रक्षणार्थ और वर्द्धनार्थ अन्य विषयों को अन्य शिष्यों में बांटा। इस प्रकार स्वयं एक पुराण रचकर आपने इतिहास का विषय लोमहर्षण सूत को दिया। इस के दृढ़ आधारों का विवरण ग्रन्थ में मिलेगा। वैदिक साहित्य में घटनाओं के कथनों में अत्युक्ति का प्रयोग पुराणों की अपेक्षा बहुत ही कम है। मेगास्थनीज कहता है कि उसने महाराज चन्द्रगुप्त के यहाँ प्रायः ६००० बी० सी० से चलने वाले राजाओं के वंशवृत्त देखे थे। इन बातों से प्रकट है कि हमारा प्राचीन ऐतिहासिक विभाग अत्युक्तिपूर्ण तो है किन्तु निर्मूल नहीं।

इतिहास प्राचीनों के केवल गुणगानार्थ नहीं लिखा जाता वरन् हम लोगों का यह भविष्य के लिये सबसे बड़ा पथ-प्रदर्शक है। हमारे तथा पूर्व पुरुषों के सभी अनुभव बहुत करके इतिहास द्वारा ही सुर-

क्षित रह कर मनुष्य जाति के विचारों को उन्नत बनाते हैं। बिना प्राचीन कर्म समुदाय तथा उसके फलों को जाने हुए मनुष्य भविष्य के लिये नितांत अनभिज्ञ रहेगा। इसलिये इतिहास का अस्तित्व मानव जाति के लिये परमोपयोगी है।

इतिहास की आवश्यकता राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों ही के लिये नहीं है वरन् सभी बातों की उन्नति-सम्बन्धी अभिज्ञता के लिये तद्विषयक ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता है। फिर भी केवल “इतिहास” कहने से उपर्युक्त तीनों विषयों ही का कथन माना जाता है, विशेषतया राजनीति का। हमने इस इतिहास में इन्हीं तीनों विषयों की प्रधानता रखी है। इनका प्राचीनकालिक ज्ञान बहुत करके भारतीय साहित्य से होता है। इस लिये इन विषयों के साथ साहित्योन्नति-सम्बन्धी भी कुछ कथन कर दिये गये हैं। हमारे ऋषिगण की प्राचीन रचनायें धर्म से ऐसी मिली हुई हैं कि बहुत करके ये दोनों एक ही हैं। अतः इनमें से किसी एक का भी पूर्ण वर्णन करने से वह कथन दोनों के सम्बन्ध में हो जायगा। राजनैतिक वर्णन धार्मिक और सामाजिक विषयों से पृथक् किया जा सकता है। हमने इस भारतीय इतिहास में धार्मिक तथा साहित्यिक वर्णन राजनैतिक से पृथक् अध्यायों में किये हैं। सामाजिक कथन जहाँ राजनैतिक से अधिक सम्बन्ध रखते थे वहाँ वे राजनैतिक अध्यायों में आ गये हैं और जो सामाजिक विषय धार्मिक विवरणों से मिलते हुए देख पड़े, उनका वर्णन धार्मिक अध्यायों में हुआ है।

शुद्ध इतिहास लिखने के लिये गुण-दोष दोनों का उचित कथन होना चाहिये, क्योंकि केवल गुण-कथन से वह अधूरा एवं भ्रमोत्पादक हो जायगा, और ज्ञान-वर्द्धन के स्थान पर उसका संकुचन करेगा। प्रत्येक मिथ्या कथन हमारे ज्ञान को मिथ्या बनाने की ओर जाता है और लोगों में अंध-विश्वास की टेव उत्पन्न कर देता है। हमारे भारत-वर्ष में बहुत काल से प्राचीनता का बहुत बड़ा मान होता आया है। इसलिए अपने पूर्व पुरुषों की वास्तविक भूलां तक का कथन हमारे यहां अप्रयुक्त समझा जाता रहा है। वीर-पूजन के साथ यहां पूर्व-पुरुष-पूजन भी चला आया है। यह गुण भारत, चीन, जापान आदि

सभी पूर्वी देशों में पाया जाता है। इस ग्रन्थ के लेखक भी इस विषय पर भक्ति रखते हैं और श्राद्ध के विषय पर भी उन्हें श्रद्धा है। फिर भी सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब किसी विषय विशेष का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जावे तब लेखक को वर्य्य विषय का यथावत् रूप दिखलाना पड़ेगा, चाहे उसमें उसकी इच्छा के प्रतिकूल बहुत से दोष ही क्यों न आ जावें। जब तक ऐसा वर्णन न होगा तब तक ग्रन्थ इतिहास कहलाने की पात्रता न रखेगा।

पूर्वज-पूजन के विचारों ने यहाँ पौराणिक समय में विशेष बल पाया। इसीलिए उस काल का साहित्य न केवल प्राचीन छिद्रों का गोपन करता है, वरन् अत्युक्तिपूर्ण कथनों की भरमार करके माहात्म्य बढ़ाने का प्रयत्न बहुधा कहीं भी नहीं छोड़ता। फल बिलकुल विपरीत हुआ। जिन लोगों का माहात्म्य बढ़ाने का पौराणिक ऐतिहासिकों ने दोष-गोपन और अत्युक्तिपूर्ण कथन किये, उन्हीं लोगों के अस्तित्व पर भी सभ्य संसार को आज संदेह हो रहा है। यह संदेह इतिहासाभाव से नहीं है, वरन् ऐतिहासिकों की अनुचित भक्ति के कारण ही आज यह बुरा दिन हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ है कि रामचन्द्र, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को न केवल बहुतेरे पाश्चात्य ऐतिहासिक, वरन् कुछ भारतीय लेखक भी कल्पित पुरुष मात्र मानते हैं।

रावण के दस शिर, तथा नृसिंह का साथ ही साथ मनुष्य और सिंह होना, जनमेजय का सारे संसार के सर्पों को मंत्रों से पकड़ बुलाकर अम्रिकुण्ड में डालना, महावीर का शतयोजन समुद्र कूद जाना तथा द्रोणाचल पर्वत उठा लेना, प्रियव्रत द्वारा नौ दिनों तक रात ही न होने देना, किसी का दस हजार वर्ष जीना, बानरों, रीछों, यहां तक कि साँपों का भी मनुष्यों की भाँति बातचीत करना और विज्ञान के गूढ़ तत्त्वों को हल करना तथा उनके नर-मादाओं का मनुष्यों से विवाह तक होना (यथा जाम्बवन्ती और उलूपी), सूर्य या हवा का मानुषी स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करना (यथा कर्ण और भीम), सुरसा साँपिन का १०० योजन (८०० मील) मुँह फैला देना इत्यादि के कथन अनर्गल हैं ही। वेदादि पूज्य ग्रन्थों में इनका कहीं पता भी नहीं है। वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों, तथा पुराणों में पुराण ही अत्युक्ति पूर्ण हैं।

शेष ग्रन्थों में ऐसे प्रमत्त कथन नहीं पाये जाते और उनमें असंभव घटनाओं का अभाव सा है, किन्तु प्राचीन साहित्य में पुराण ही सब से नवीन हैं और इन्हीं का चलन देश में अधिक है। इसीलिये अधीर लोगों की दृष्टि में हमारा पूरा प्राचीन काल अमत्त इतिहास की कोटि से बाहर निकल जाता है।

इस विषय पर परिश्रम करने वाले पर एक और पगड़बाज पण्डित तो इसलिये बिगड़ेंगे कि उसने कुम्भकर्ण की मूर्छ का एक योजन से तिल भर भी कम क्यों माना, और दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा-प्रहीत भारतवासी बिना मुसकराये न रहेंगे और यही कहेंगे कि इस पोपलीला को इतिहास के सुन्दर वस्त्र पहिनाने का प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ और तिरस्करणीय है। उनके विचार से ऐसे विषय पर परिश्रम करनेवाला मनुष्य अपने समय को नष्ट करता है। अब पंडितों का विचार है कि वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों और पुराणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अथच माहात्म्य-सम्बन्धी अत्युक्तियों को सहज ही में अलग कर, हमारे प्राचीन ग्रन्थों एवं अन्य ऐतिहासिक आधारों से सच्चा बुद्धि-प्राप्त इतिहास निकल सकता है।

इस विषय पर इन दिनों अँगरेजी में तीन महत्तायुक्त ग्रन्थ निकल चुके हैं, जिनके लेखक पार्जिटर महोदय, डाक्टर राय चौधरी, तथा डाक्टर सीतानाथ प्रधान हैं। इन तीनों महाशयों ने हमारे वैदिक और लौकिक साहित्य तथा इतर आधारों का ख़ासा मथन करके अपने साधार विवरणों में सिकन्दर पूर्व भारतीय इतिहास का पूज्य कथन किया है। इनमें से पार्जिटर ने तो पूरा समय लिया है, किन्तु प्रधान ने रामचन्द्र से महाभारतीय युद्ध तक का विवरण उठाकर उसे खूब दृढ़ कर दिया है, अथच राय चौधरी ने महाभारतीय युद्ध से गुप्त काल तक का इतिहास लेकर उसे बुद्ध काल पर्यन्त बहुत दृढ़ बनाया है। सिकन्दर से इधर का इतिहास आपने बहुत संक्षेप में कहा है किन्तु वह इतर अनेक ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक मिलता है। फल यह है कि रामचन्द्र से गौतम बुद्ध तक के समय का इतिहास इन दोनों लेखकों के द्वारा बहुत कुछ पुष्ट हो गया है। ऐसे प्राचीन विषय पर मतभेद बना ही रहेगा, क्योंकि अनेकानेक आधारों तथा अर्थों के सहारे नवीन

कथन होते ही रहेंगे, किन्तु प्रधान और राय चौधरी के परिश्रमों से रामचन्द्र से इधर वाला सन्दिग्ध इतिहास बहुत कुछ दृढ़ हो गया है। इन दोनों महाशयों ने अपने कथनों के आधारों को प्रचुरता पूर्वक लिख दिया है। पार्जितर महोदय ने भी आधार उसी प्रचुरता से लिखे हैं, किन्तु उन्होंने अयोध्या के मानव कुल की वंशावली में जो प्रायः २६ नाम पौराणिक सम्पादकों की भूल से रामचन्द्र के पूर्व या पश्चात् वाली बिरादरी की नामावली से उठकर पूर्वपुरुषों की गणना में आ गये हैं, उन्हें अलग नहीं कर पाया, वरन् इन २६ नामों के इस वंशावली में अनुचित प्रकारेण बढ़ जाने से सारी सम सामयिक ऐल वंशावलियों को अधूरी मानकर उनके पूर्व पुरुषों की दस बारह नामावलियों से चौबीस पच्चीस नाम छूटे हुये निराधार समझा। इस कारण से उनके सम सामयिक कथनों में स्वभावशः बहुत से भ्रम पड़ गये हैं। उन्हें इसी कारण से अनेकानेक वशिष्ठों और विश्वामित्रों के अस्तित्व की निराधार कल्पना करनी पड़ी है। इसलिये यद्यपि उन्होंने वंशावलियाँ वैवस्वत मनु से अन्त पर्यन्त दी हैं, तो भी वे स्थान स्थान पर भ्रमात्मक हैं।

इन सब बातों पर ध्यान देने से निश्चय होता है कि बुद्ध से रामचन्द्र तक के समय की नामावलियाँ तो दृढ़ हैं, किन्तु वैवस्वत मनु से रामचन्द्र तक के समय वाले वंश वृत्तों पर अब तक उतनी दृढ़ता नहीं आई है। इसलिये हमें वंशावलियों के इस भाग पर विशेष छान-बीन करनी पड़ी है। वैवस्वत मनु से पूर्व वाले जो छै और मन्वन्तर हैं, उनमें से स्वायम्भुव मन्वन्तर की वंशावली तो प्रायः सभी पुराणों में है, किन्तु इतर पाँचों मनुवों में से चार के वंश मात्र ज्ञात हैं तथा चालुष मनु का वंश वृत्त यद्यपि दिया हुआ है, तथापि है वह अधूरा। यह पुराणों से प्रकट है कि ये पाँचों मनु स्वायम्भुव मनु के ही वंशधर थे। इन छवों मन्वन्तरों का पार्जितर महोदय न न तो विवरण लिखा है, न वंश वृत्त। प्रधान और राय चौधरी के विषय रामचन्द्र से पहले जाते ही नहीं, सो उनके द्वारा इन मन्वन्तर कालों का कथन न होना स्वाभाविक ही है। हमने मन्वन्तरों के समयों का भी विवरण, जहाँ तक पुराणों में मिलता है वहाँ तक दे ही दिया है। इस काल को

अनिश्चित समझकर छोड़ देना अनुचित है, क्योंकि जिन पौराणिक और वैदिक आधारों पर इतर कालों का इतिहास दृढ़ किया गया है, वही दोनों आधार इन मन्वन्तर कालों का भी कथन करते ही हैं।

हमारे विवरण में यह प्राचीन काल चार भागों में विभक्त है, अर्थात् सत्ययुग या मन्वन्तर काल, त्रेता या मनु-रामचन्द्र काल, द्वापर या राम-युधिष्ठिर काल, और आदिम कलिकाल या युधिष्ठिर-बुद्ध काल। ऊपर के तीनों आधारों द्वारा बुद्ध से द्वापरान्त तक का इतिहास निर्णीत है, तथा सत्ययुग और त्रेतावाले पर हमें अधिक परिश्रम करना पड़ा है, क्योंकि सत्ययुग का हाल तो इधर किसी ने कहा ही नहीं, और त्रेता के सम्बन्ध में उपर्युक्त २६ पुस्तों के बढ़ जाने से पार्जितर कृत समकालीनताओं के कथन बिगड़ गये हैं। आशा है कि पाठक महाशय इन २६ पुस्तों सम्बन्धी कथनों एवं समकालीनताओं के विवरणों पर विशेष ध्यान देंगे। इन २६ नामों के मुख्य वंशावली से अलग करने का सूत्रपात प्रधान और राय चौधरी में प्रस्तुत है, केवल अन्य विषयों के विवरण लिखने के कारण उन्होंने इस विषय पर विशेष कथन नहीं किया है। फिर भी प्रधान महाशय के ग्रन्थ में इसका कुछ वर्णन है भी। इन २६ नामों को हमने दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र और सगर सम्बन्धी राजकुलों में विभक्त किया है। इस विभाजन के कारण ग्रन्थ में यथास्थान मिलेंगे। इसके मान लेने से सारी पौराणिक समकालीनताओं का सामंजस्य बैठ जाता है। वंशावलियों के लिखने तथा आधारों के खोजने में हम को इन तीनों ग्रन्थ-रत्नों से बहुत कुछ सहायता मिली है।

लखनऊ
सं० १९९३

विनीत
मिश्र बन्धु

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
वक्तव्य
भूमिका
१—भूगोल एवं अन्य जानने योग्य बातें	...	१
२—भारतीय इतिहास के आधार	...	८
३—भारतीय इतिहास का महत्त्व	...	१६
४—पौराणिक राजवंश	...	२४
५—वेद पूर्व का भारत	...	५१
६—ऋग्वेद पहला-मंडल	...	८९
७—ऋग्वेद शेष मंडल तथा अन्य वेद	...	११७
८—चारों वेद	...	१४५
९—समय निरूपण	...	१६१
१०—त्रेतायुग, सूर्य वंश	...	१८३
११—त्रेतायुग, पौरव वंश	...	२१०
१२—त्रेतायुग, चन्द्र वंश की इतर शाखायें तथा सम्मिलित विवरण	...	२२८
१३—त्रेतायुग, (भगवान रामचन्द्र)	...	२५३
१४—द्वापर युग-पूर्वार्द्ध	...	२७६
१५—द्वापर युग महाभारत	...	३१७
१६—आदिम कलिकाल	...	३५३
१७—ब्राह्मण साहित्य काल	...	३८५
१८—सूत्र साहित्य काल	...	४०२

पृष्ठ १६२ तथा १६९-७१ Pargiter, Dr. Roy Chaudhri,
Dr. Pradhan.

पृष्ठ २८ तथा ७२ स्वायम्भुव मनु—प्रियव्रत

२७ विषम्योति

- " ७७-९ स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रैवत
" ७९ चालुष मनु नं० ३६ ४५ दत्त
" ३० हरिश्चन्द्र
" ३१ सगर
" ३७ सुदास
" ४१ विश्वामित्र, कान्यकुब्ज काशी शाखा
" ५१ मोहंजोदड़ो, हड़प्पा
" ७२ स्वायम्भुव मन्वन्तर
" ११३-६ वेदों का समय
" १६१ समय निरूपण
" १६३ राम के समय का राज चक्र
" १६७ द्वापर का राजचक्र
" १८३ मनुरामचन्द्र काल
" १९५ हरिश्चन्द्र वंश
" २०० सगर वंश
" २०२ दक्षिण कोशल वंश } तीनों पर विचार पृष्ठ २०३
" २०७ सूर्य वंशी वैदिक References
" २१० पौरव वंश
" २२८ यदु वंश
" २४४ त्रेतायुग का सम्मिलित विवरण
" २४८ References
" २५३ भगवान रामचन्द्र
" २७६ द्वापर पूर्वार्द्ध
" ३५३ आदिम कलिकाल
" ३७० सोलह रियासतें
" ३८२ प्रजातन्त्र रियासतें

भारतवर्ष का इतिहास



पहला अध्याय

भूगोल एवं अन्य जानने योग्य बातें ।

भारतवर्ष एशिया महाद्वीप के तीन दक्षिणात्य प्रायद्वीपों में से एक है । इसका क्षेत्रफल १८,०२,६२९ वर्गमील है और १९३१ में इसकी जन-संख्या बर्मा छोड़ कर ३३,८३,४०,९०७ थी । उत्तर से दक्षिण तक इसकी बड़ी से बड़ी लम्बाई प्रायः १९०० मील है और अधिक से अधिक चौड़ाई भी बहुत करके इतनी ही है । इसके उत्तर में हिमाचल नामक भारी पहाड़ है, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूरब में बर्मा और बङ्गाल की खाड़ी, तथा पश्चिम में सफेद कोह, सुलेमान पहाड़, बलाचिस्तान एवं अरब का समुद्र । हिमालय पहाड़ प्रायः १,५०० मील लम्बा और २०० मील चौड़ा है । इसकी ऊँचाई बहुधा २०,००० फीट के लगभग है और कहीं कहीं इससे भी अधिक है यहाँ तक कि ऊँची से ऊँची चोटी गौरीशंकर २९,००२ फीट ऊँची है । इसकी अन्य ऊँची चोटियों के पहाड़ किंचिचंगा, धौलागिरि, नन्दादेवी और नंगा पर्वत कहलाते हैं । इस पहाड़ में कई देश बसे हैं जिनमें कश्मीर, गढ़वाल, तिब्बत, नैपाल, भूटान और शिकम की मुख्यता है । तिब्बत का सम्बन्ध प्राचीनकाल से भारत से न रहकर चीन से रहा है और शेष उपरोक्त पार्वतीय देश भारत से सम्बद्ध रहे आये हैं । हिमाचल की वृहदंश लम्बाई बर्फ से ढकी रहती है । इसीलिये इसका नाम हिमालय पड़ा । इसका जल-वायु पार्श्वत्य देशों के समान ठंडा एवं स्वास्थ्यकर है । यहाँ के रहने वाले भारतीय शेष प्रांतों के निवासियों से गोरे भी हैं । यहाँ केसर, मृगमद, पश्मीने आदि का अच्छा व्यापार होता है ।

भारत में हिमालय के अतिरिक्त विन्ध्याचल, पूर्वी घाट, पश्चिमी-घाट, नीलगिरि आदि पहाड़ हैं। हिमाचल पर एक छोटा सा ज्वालामुखी भी है और सीताकुण्ड आदि कुछ गरम जल के सोते हैं। भारत में नदियाँ बड़ी और लम्बी हैं। इनमें सिन्धु, सतलज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम, सरस्वती, गंगा, जमुना, सरजू, गोमती, गण्डक, घसान, चम्बल, केन, सोन, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तामी की मुख्यता है। भारतीय नदियों में गंगा, सिन्धु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, गोमती, चर्मण्वती (चंबल), क्षिप्रा, वेतवती, महानदी और गण्डकी विशेष पुनीत समझी जाती हैं।

भारत के इस समय दो मुख्य भाग हैं अर्थात् अंग्रेजी-राज्य और देशी रियासतें। बर्मा अब भारत का भाग नहीं है। देशी रियासतें भी अङ्गरेजी रक्षा में हैं किन्तु नैपाल, भूटान और तिब्बत स्वतन्त्र हैं। अंगरेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन का भार भारत सचिव को सौंपा गया है, जिनका उत्तरदायित्व अंगरेजी पार्लिमेंट को है जिसके हाथ में उनकी बहाली तथा बर्खास्तगी है। इन्हीं की सलाह से ब्रिटेन के बादशाह भारत का शासन करते हैं। भारत में सम्राट् के प्रतिनिधि स्वरूप एक वाइसराय नियुक्त रहते हैं जिन्हें बड़े लाट कहते हैं। एक वाइसराय प्रायः पाँच वर्ष तक रहता है। उनकी दो सभायें हैं। बड़े लाट का एक मन्त्रिमंडल भी है। आईन इन्हीं सभाओं की सम्मति से बनता है और और भी कई बातों में इन्हें मुख्य मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। अंगरेजी भारत में इस काल १६ प्रांत हैं, अर्थात् मद्रास, बम्बई, बङ्गाल, युक्तप्रांत, पञ्जाब, बिहार, मध्यदेश व बरार, आसाम, वायव्य सीमाप्रान्त, सिंध, उड़ीसा, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, बलोचिस्तान, दिल्ली और अंडमन निकोबार टापू। उपर्युक्त प्रथम ११ प्रान्तों के शासक एक एक गवर्नर हैं। शेष छोटे छोटे प्रान्तों का पृथक प्रबन्ध है। प्रत्येक प्रान्त में कई जिले हैं जिनके शासक जिला अफसर कहलाते हैं। सारे ब्रिटिश भारत में प्रायः २६७ जिले हैं। प्रति गवर्नर के यहाँ भी एक सभा तथा मन्त्रिमण्डल है।

देशी भारत में प्रायः ७०० रियासतें हैं जिनमें हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर, कश्मीर, उदयपुर, ट्रावंकूर, इन्दौर, जयपुर, पटियाला, कोल्हापुर, जोधपुर, भरतपुर, भूपाल, भाऊनगर, जलवर, रोवां, आदि की प्रधानता है। इन रियासतों को अन्तरंग शासन में बहुत करके स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु ये बाहरी रियासतों से सन्धि विग्रह आदि नहीं कर सकतीं।

मुख्य प्रान्तों एवं रियासतों का क्षेत्रफल तथा सन् १९३१ की जनसंख्या नीचे दी जाती है:—

नाम प्रान्त या रियासत	रकबा वर्गमीलों में	सन् १९३१ की जनसंख्या
बङ्गाल ...	७८,९९९	८,१७,१३,७६९
बिहार उड़ीसा ...	८३,१८१	३,७६,७६,५७६
बंबई सिंध ...	१,२३,०६४	२,१८,५४,८४१
मध्यदेश वरार ...	८१,३९९	१,५५,०७,७२३
मद्रास ...	१,४२,३३०	४,६५,७५,६७०
पंजाब ...	९९,७७९	२,३५,८०,८५२
युक्तप्रान्त ...	१,०७,२६७	४,८४,०८,७६३
देशी रियासतें ...	भारत का प्रायः २/५	८,१७,१३,७६९
योग भारत का	१८०२६२९	३३,८३,४०,९०७

देशी भारत फैलाव में भारत का प्रायः $\frac{३}{५}$ है और जनसंख्या में $\frac{३}{५}$ । समस्त भारत का फैलाव १८ लाख वर्गमील उपर लिखा जा चुका है। इसमें से ७,०९,५५५ वर्गमीलों में देशी रियासतें हैं।

भारतवर्ष एक प्रकार से संसार भर का सारांश है। इसमें सभी प्रकार की जलवायु है और दुनिया भर की प्रायः सारी वस्तुयें यहाँ कहीं न कहीं पाई जाती हैं। भारत पहाड़ों तथा समुद्रों द्वारा सारी दुनिया से पृथक् सा है। इसमें घुसने के लिये खैबर, बोलन घाटियाँ आदि मानो फाटक हैं। इन्हीं मार्गों से समय समय पर यहाँ कई जातियाँ आईं, अर्थात् आर्य, सीदियन, शक, कुशान, हूण और मुसलमान। इनमें से अब आर्य और मुसलमान ही पृथक् रह गये हैं, तथा शेष जातियाँ और भारत के आदिम निवासी आर्यों में ही मिल गये हैं। आसाम तथा तिब्बत की ओर से भी भारत में आने के मार्ग हैं किन्तु इन मार्गों से आर्य तथा कुछ मंगोल जातियों को छोड़ कर भारत में कोई विजयिनी धारा आई नहीं। यूरोपीय जातियाँ समुद्र मार्ग द्वारा दक्षिण से आईं। पहले विजयिनी जातियाँ उत्तर से प्रारम्भ होकर दक्षिण तक फैलती थीं किन्तु यूरोपीय जातियाँ दक्षिण से चल कर उत्तर फैलीं। हिमालय पहाड़ ने हमारे लिये हजारों वर्षों तक एक दुर्गम दुर्ग का काम दिया और आज भी दे रहा है। संसार के सभी पहाड़ों से यह ऊँचा है। रक्तक होने के अतिरिक्त मेघों को रोक कर हमारे लिये जलप्रद भी है। भूगर्भ विद्या विशारदों ने जाना है कि किसी समय यही हिमालय पहाड़ समुद्र का पेंदा था। जो जो बातें समुद्र के पेंदे में मिलती हैं वही हिमालय के ऊँचे से ऊँचे शिखरों पर पाई जाती हैं। जाना गया है कि प्राचीनकाल में दक्षिणी भारत ही देश था और शेष समुद्र का पेंदा। दक्षिणी भारत से लेकर मडागास्कर तथा पूर्वी अफ्रीका तक खुला हुआ भूभाग था। जिस प्रकार के जीवजन्तु मडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका में पाये जाते हैं तथा पृथ्वी के अन्य देशों में नहीं मिलते, वे भी दक्षिणी भारत में वर्तमान हैं। इन्हीं बातों एवं अन्य कारणों से जाना गया है कि पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी भारत कभी एक देश था। समय के साथ समुद्रीय पेंदे का उतार चढ़ाव प्रारम्भ हुआ और धीरे धीरे पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी भारत के बीच की भूमि समुद्र गर्भ में लीन होगई एवं हिमाचल सागर गर्भ से इतना ऊँचा उठ गया। पूर्वी अफ्रीका से दक्षिणी भारत पर्यन्त समुद्र के नीचे अब भी पृथ्वी की एक ऊँची रीढ़ सी बनी है जो दक्षिणी ध्रुव के

बर्फीले ठंडे पानी को उत्तर की ओर न आने देकर उत्तर का जलवायु ताहश ठंडा नहीं होने देती। हिमाचल और दक्षिणी भारत के बीच में फिर भी समुद्र भरा रहा, किन्तु यह पृथ्वी भी धीरे धीरे उठती गई तथा सिन्धु, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, घाघरा आदि नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी यहाँ जमती गई, यहाँ तक कि समुद्र बंगाल की खाड़ी तक ढकेल दिया गया और पूरा देश बनकर तैयार हो गया। गंगा जी के मुहाने पर सुन्दरबन के पास अब भी नई भूमि निकलती आती है। एक समय वह था कि मध्य यूरोप तथा मध्य एशिया में भारी समुद्र लहराता था। धीरे धीरे वहाँ की भी भूमि उठकर जर्मनी आदि देश बन गये। इसी समुद्र के विषय में छाया समान कुछ कुछ कथन प्राचीन ग्रंथों में पाये जाते हैं।

भारत में तीन ऋतुएँ प्रधान हैं अर्थात् जाड़ा, गर्मी और बर्सात। कार्तिक से आधे फाल्गुन तक जाड़ा समझा जाता है, चैत्र से आषाढ़ तक गर्मी और श्रावण से क्वार तक वर्षा। मुख्य बर्साती महीने सावन भादों हैं। माघ में भी प्रायः १५ दिन बर्सात होती है। भारतवर्ष में कितने ही देशों तथा विदेशी संवत् थोड़े या बहुत प्रचलित हैं। विशेषतः विक्रमी संवत्, सन् ईस्वी एवं शालिवाहन शाके का अधिक प्रचार है। धर्म कार्य संकल्पादि में सृष्टि संवत् का हवाला दिया जाता है। भूमि सम्बन्धी हिसाब के काराजों में फसली संवत् पूर्व भारत में प्रायः लिखा जाता है। विक्रम-संवत् चांद्र वर्ष है और शक संवत् सौर। अधिकांश भारतनिवासी हिन्दू हैं जिनके मतानुसार द्वारिका, बदरीनाथ, जगन्नाथ और सेतुबन्ध रामेश्वर चारों दिशाओं में चार धाम हैं तथा अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका सप्त पुरियों में हैं। ये दशों स्थान परम पवित्र माने जाते हैं। भारत में १२ ज्योतिर्लिंग परम पवित्र हैं। इनमें विश्वनाथ, घृष्णेश्वर, बदरीनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, श्रीनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, त्र्यम्बकेश्वर, ओंकारेश्वर तथा रामेश्वर की गणना है।

धान्य में पूर्वी देशों में चावल की प्रधानता है। शेष भारत में धनी पुरुष विशेषतया गेहूँ का व्यवहार करते हैं और साधारण लोग जौ, जुवार, चना, बाजरा आदि का। अधिकांश लोग मांस नहीं खाते।

उनके यहाँ दाल और दूध का अधिक व्यवहार होता है। पशु पक्षी भारत में हजारों प्रकार के पाये जाते हैं। प्राचीनकाल में सुगन्धित पुष्पों ही की महिमा थी किन्तु अब योरोपीय लोगों की देखा देखी सुन्दर निर्गन्ध पुष्पों का भी माहात्म्य बढ़ रहा है। मृदुल स्वभाव भारतीयों का मुख्य गुण है। प्राचीनकाल से इनमें धर्म का बड़ा मान रहा है। यहाँ के धर्मों में हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुसल्मान और ईसाई मतों की प्रधानता है। वेद हमारे परम पूज्य और प्राचीन ग्रंथ हैं। बौद्धों का धर्म - ग्रन्थ त्रिपिटक है, मुसल्मानों का कुरान और ईसाइयों का बाइबुल। हिन्दू मत के मुख्य आधार स्वरूप कृष्ण द्वैपायन व्यास, बादरायण व्यास तथा शंकराचार्य हैं, बौद्ध मत के गौतम बुद्ध, मुसल्मानों के मुहम्मद, ईसाइयों के जीजस क्राइस्ट, तथा जैनों के आदिनाथ।

भारतवर्ष इस काल ८ जातियों का मिश्रण स्थल है। इसने प्राचीनकाल से नवागन्तुकों का आदर किया है। फिर भी अद्यपर्यन्त इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आर्यों का पड़ा है क्योंकि उन्होंने न केवल आदिम निवासियों को अपनाया वरन् सीदियनों, शकों, कुशानों और हूणों को भी अपना बना कर सारे देश में एकता स्थापित की। अंग्रेजों के पूर्व सारा भारत कभी एक शासनाधीन नहीं रहा। बंगालियों पंजाबियों, कौशलों, महाराष्ट्रों और मद्रासियों में इतना अंतर है कि उन्हें कोई एक जाति के मनुष्य नहीं कह सकता। उनकी सूरत शकल, पहिनाव उदाव, बोली भाषा सभी कुछ भिन्न हैं और राजनैतिक भिन्नता भी उनमें कम नहीं है। सब के इतिहास अलग अलग हैं और सब के देशों में एक दूसरे से पृथ्वी आकाश का अन्तर है। एक जल प्रधान है तो दूसरा रेगिस्तान, एक समथल है तो दूसरा पहाड़ी, एक की पृथ्वी लाल है तो दूसरे की काली, एक अग्नि के समान तपता है तो दूसरा हिम के समान गलानेवाला है। इन सब भिन्नताओं के होते हुये भी इन सब प्रान्तों में भारतीयता क्या है सो बहुत से विदेशी पण्डित नहीं जान पाते, किन्तु इन भिन्नताओं को रखते हुए भी इन सब प्रान्तों में ऐक्य धर्म, सभ्यता और विचारों का है। भारतीयता का मुख्य साधन हमारे सारे प्रान्तों की सभ्यता एवं विचारों का साम्य है। देश में २००० शासक होते हुए भी बिना किसी लेजिस्लेटिव कौन्सिल के

विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा को सभी शिरोधार्य मानते आये हैं। यदि कुरुक्षेत्र के द्वैपायन व्यास एक प्रधान आचार्य थे तो ठेठ दक्षिण के शंकराचार्य दूसरे। उत्तरी गौतम और दक्षिणात्य आपस्तम्ब के कथन समभाव से सारे देश में माने गये और लोगों ने यह जानने की कभी इच्छा न की कि यह किस प्रान्त के निवासी थे। शेषनाग, काश्मीरी मम्मट और कान्यकुब्जीय भरत समभाव से काव्याचार्य माने गये हैं। उनकी जातीय भिन्नता से किसी प्रान्त ने उनके कथनों में अभ्रद्धा न दिखलाई। वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों, स्मृतियों, और पुराणों का सभी कहीं समभाव से मान होता आया है। अतः यदि राजनैतिक सम्बन्ध, भाषा और जलवायु हमें पूरी एकता नहीं देते, तो सभ्यता और विचार साम्य उसके पूर्ण सहायक हैं। इन्हीं बातों पर भारत की भारतीयता निर्भर है। आशा है कि आगे के पृष्ठावलोकन से इन कथनों के पुष्टीकरण में कुछ विचार मिलेंगे।

हमारा भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो एक साथ ही वृद्ध और बालक है। प्राचीन सभ्यता की उन्नति प्रदर्शन में यह वृद्ध भारत है किन्तु वर्तमानकाल की पाश्चात्य सभ्यता के लिये, कला कौशल और व्यापारिक गरिमाओं के विचार से, यही बूढ़ा आज कल बाल भारत हो रहा है। पयफोन सी श्वेत पगड़ी के साथ अब इसे सलमे सितारे की टोपी भी पसंद आने लगी है। धार्मिक विचारों तथा दर्शनशास्त्रों में यह आज आधी दुनिया का गुरु है और शेषार्द्ध भी थोड़े ही दिनों में इसका महत्व मानती हुई देख पड़ती है। राजनैतिक उन्नति भी इसने ८वीं शताब्दी पर्यन्त सब से अच्छी की किन्तु पीछे समय के उलट फेर से इसने अपना पाठ भुला दिया और अब बाल भारत होकर पाश्चात्य राजनैतिक प्रणाली की प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण होने का यत्न कर रहा है। कला कौशल और व्यापार में भी यही आशा है कि यह वृद्ध बालक थोड़े ही दिनों में अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त होगा। अङ्गरेजों के सम्बन्ध से इसने थोड़े ही दिनों में नवीन विचारों में भी अच्छी उन्नति कर ली है और आग भी उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा है। इन दिनों थोड़े ही वर्षों से उन्नति की धारा इस वेग के साथ प्रवाहित हो रही है कि जिससे शीघ्र सारे देश के आप्यायित होजाने की दृढ़ आशा है।

दूसरा अध्याय

भारतीय इतिहास के आधार

विनसेंट स्मिथ महाशय ने भारतीय इतिहास के आधारों को चार भागों में विभक्त किया है, अर्थात् स्वदेशी ग्रंथ, विदेशियों की रचनाएँ, पाषाण लिपि, सिक्के, आदि और सम सामयिक ऐतिहासिक ग्रन्थ। इन दिनों मोहंजोदड़ो और हड़प्पा की खोदाइयों से भी परमोत्कृष्ट ऐतिहासिक मसाला प्राप्त हुआ है। स्वदेशी ग्रंथों में स्मिथ ने राजतरङ्गिणी, महाभारत, रामायण, जैन पुस्तकें, जातक और अन्य बौद्ध-पुस्तकें, लंका के पाली में ऐतिहासिक ग्रन्थ, पुराण आदि का वर्णन किया है। राजतरङ्गिणी १२वीं शताब्दी का ग्रन्थ है और स्मिथ साहब का विचार है कि उसमें कथित समय से थोड़े ही पहले का वर्णन ऐतिहासिक सत्यता रखता है, शेष अनिश्चित है। कई महाशयों ने व्याकरण एवं अन्य ग्रन्थों के साधारण वर्णनों से इतिहास की पुष्टि की है। ऐसे अनेक वर्णन खोज निकाले गए हैं जिनसे इतिहास की भारी पुष्टि हुई है। मुख्यतया जैन और जातक ग्रन्थों से सातवीं वा छठवीं शताब्दी बी० सी० का अच्छा चित्र मिलता है। लंका के उपयोगी ग्रंथों में द्वीपवंश और महावंश प्रधान हैं। यह तीसरी चौथी शताब्दी के हैं। विद्वान लोग वायु, ब्रह्माण्ड, हरिवंश, पद्म और मत्स्य पुराणों का विशेष प्रमाण मानते हैं। स्मिथ महाशय छठी शताब्दी बी० सी० से ऐतिहासिक काल मानते हैं, उससे पहले से नहीं। इसलिए आप वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का हवाला नहीं देते। वास्तव में वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों और स्मृतियों से भी बहुत कुछ ऐतिहासिक मसाला उपलब्ध होता है, किन्तु इनसे सन् संवत्तों का ब्योरा हट्ट होते न देख कर आपने वैदिक को ऐतिहासिक काल से निकाल डाला है। हमारी समझ में ६०० बी० सी० से ही भारत का वर्णन बहुत अधूरा है, क्योंकि हिन्दुओं की वास्तविक महत्ता इसके

पहले ही बहुत रही है। आपने महाभारत और हरिवंश पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, यद्यपि इन ग्रंथों से भी इतिहास लेखक को बहुत बड़ी सहायता मिलती है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैकडानल महाशय ने महाभारत के मूलरूप को बौद्धकाल से भी पुराना माना है। तिलक महाशय ने भी इस विषय पर अनेक प्रमाण दिये हैं। पार्जिटर महाशय ने पुराणों पर अच्छा श्रम किया है। पुराणों की प्राचीनता आपने मानी है। हम इन ग्रंथों को भी बहुत करके प्रमाणनीय मानते हैं। स्मिथ महाशय का भी मत है कि योरोपीय लेखकों ने पुराणों की उचित से अधिक अवहेलना की है। विष्णु और मत्स्य पुराणों ने मौर्य तथा आन्ध्र घरानों का इतिहास बहुत करके शुद्ध दिया है। जैसा कि भूमिका में हमने लिखा है, संहिता, ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थ वैदिक तथा बहुत कर के ब्राह्मण साहित्य के अंग हैं और पुराण मूलतः बहुधा अब्राह्मण के।

विदेशी लेखकों में भारत का सब से पहला कथन फारस के बादशाह हिस्टस्पस के पुत्र डेरियस ने परसेपुलिस और नक्रश रुस्तम में किया। इस दूसरे ग्रन्थ का समय ४८६ बी० सी० है। इससे कुछ पीछे हेरोडोटस ने और भी कुछ अधिक वर्णन किया। सिकन्दर का धावा ३२५-२३ बी० सी० में हुआ। इसके थोड़े ही पीछे सीरिया और मिश्र के राजदूत मौर्य-महाराजाओं के यहाँ पटना में रहने लगे। इन लोगों ने अपने विवरण छोड़े हैं जिनमें मेगास्थनीज का सर्व प्रधान है। दूसरी शताब्दी के एरियन का वर्णन भी अच्छा है। यह यूनान और इटली का राजसेवक था। पहली शताब्दी बी० सी० में चीनी लेखक सोमाचीन ने भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया। ३९९ में चीनी यात्री फाहियेन और ६२९ में ह्ययन्-त्सान भारत में आये। इन दोनों के कथन बहुत ही उपयोगी हैं विशेष कर के ह्ययन्-त्सान के। इस यात्री ने भारत में १६ वर्ष रह कर अपना अनमोल ग्रंथ रचा जिसका ऐतिहासिक मूल्य वर्णनातीत है। इन्होंने कन्नौज, वल्लभी, दक्षिण और कांची के राज्यों का वर्णन किया और बहुत सी ऐसी बहुमूल्य कथायें भी लिख दीं जो बिना इस प्रकार रचित हुए नष्ट हो जातीं। आठवीं शताब्दी का मंजुश्री मूलकल्प

नामक एक उत्कृष्ट बौद्ध ग्रन्थ निकला है जिस में प्रायः ३०० श्लोकों में प्राचीन से तत्कालीन पर्यन्त इतिहास कथित है। महमूद गज़नवी के साथ अलबरूनी नामक एक ऐसा अरबी पंडित आया था, जिसने संस्कृत भाषा पढ़कर भारत का वर्णन लिखा जो बहुत उपयोगी है। मुसलमानी ऐतिहासिक फ़रिश्ता आदि ने भी भारत का इतिहास रचा है किन्तु इन्होंने मुसलमानी बल बढ़ा हुआ कहने के विचार से हिन्दुओं का प्रताप घटा कर लिखा। बनियर मनुची आदिने भी मुगल भारत का आँख देखा कथन किया और हाल में प्रोफ़ेसर जदुनाथ सरकार ने औरङ्गजेब का विशद इतिहास पाँच भागों में रचा है। पश्चात्य विद्वानों में से सर विलियम जोन्स, कोलब्रुक, विल्सन, डा० मिलर, पार्जिटर, प्रिंसेप, डा० बरनल, डा० फ़्लीट, प्रोफ़ेसर कीलहार्न और रायल एशियाटिक सोसायटी तथा एशियाटिक सोसायटी आफ़ बङ्गाल, भारतीय विषयों पर प्रामाणिक माने जाते हैं।

शिला लेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों आदि से भारतीय इतिहास का बहुत विशद पता चला है। अशोक, समुद्रगुप्त आदि ने पाषाणों पर अपने हाल खुदवाए। दक्षिणी भारत में ऐसी सामग्री बहुत प्रचुरता से मिलती है। प्राचीन ग्रन्थों में भी इतिहास का वर्णन है, किन्तु इनसे अधिक लाभ नहीं हुआ है क्योंकि इनमें से बहुतों में अत्युक्ति की मात्रा बहुत अधिक है। कश्मीरी ग्रन्थ राजतरंगिणी भी कुछ अत्युक्ति पूर्ण है। राजतरंगिणी सन् ११४८ में लिखी गई। उसकी प्रत्यक्ष भूलें यह हैं कि उसमें अशोक का समय १२०० बी० सी० तथा मिहिर कुल का ८१८-७४८ बी० सी० लिखा है और रणादित्य का भी समय सन् २२२-५२२ ई० अर्थात् ३०० वर्षों का दिया है। मिहिर कुल के पिता तोड़मन को मिहिर कुल के उपरांत ७ वीं शताब्दी का लिखा है। बाणकृत हर्षचरित्र और बिल्हण-कृत विक्रमाङ्कदेव चरित्र अच्छे ग्रन्थ हैं। रामचरितम् में बंगाली पाल राजाओं का वर्णन एवं जैन ग्रंथों में पश्चिमीय चालुक्य राजकुल का कथन है। भारत में बहुत से संवत् होने के कारण यहाँ का समय निरूपण एक कठिन काम है। कनिंघम ने बीस से ऊपर संवत्तों का वर्णन किया है। अलबरूनी ने १०३० ई० में विष्णु पुराण में लिखित १८ पुराणों के नाम लिखे और कहा कि भारत का कोई

क्रम बद्ध इतिहास नहीं है। बाणभट्ट ने ६२० के ग्रन्थ 'हर्षचरित्र' में भी १८ पुराणों कहीं तथा अग्नि, भागवत और स्कन्द पुराणों का व्यवहार किया। "मिलिन्द के प्रश्न" नामक बौद्ध ग्रन्थ ३०० ई० से प्रथम का है। इसमें भी पुराणों के किसी न किसी रूप का कथन आया है। गुप्त राजाओं के समय में पुराणों को बहुत करके वर्त्तमान रूप मिला। उस समय कुछ घटा बढ़ा कर इनका जीर्णोद्धार हुआ।

उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त बहुत से अन्य आधार भी मिलते हैं। इनमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, टाड राजस्थान, गुजराती राष्ट्र माला आदि प्रधान हैं। सरकारी ग्रन्थ गज्जेटियरों में भी प्रायः प्रत्येक स्थान का इतिहास थोड़े में दे दिया गया है। राजपूताने की रियासतों में भी अच्छे इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध हैं विशेषतया मेवाड़ तथा जैसलमेर में। इनके अतिरिक्त हिन्दी, मराठी, बंगला आदि के प्राचीन साहित्य ग्रंथों में ऐतिहासिक सामग्री प्रचुरता से मिलती है। भारत में ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है पर समय निरूपाण एवं अत्युक्ति और पक्षपात पूर्ण वर्णनों से उचित ऐतिहासिक घटनाओं का निकालना कुछ कठिन काम है। मुसलमानी लेखक अपने पक्ष में खींचतान करते हैं और हिन्दू राजवाड़े अपना प्रभाव बढ़ाकर लिखते हैं। कुछ हिन्दू धर्म ग्रन्थ प्राचीन घटनाओं को लाखों वर्षों की प्राचीनता देना चाहते हैं और यूरोपीय लेखक प्राचीन से प्राचीन घटनाओं को कल की प्रमाणित करते हैं। इन सब झगड़ों से बचकर कोई सर्वमान्य इतिहास लिखना बहुत सरल नहीं है। इसीलिए स्मिथ महाशय ने ६०० बी० सी० से ही ऐतिहासिक काल माना है। इससे प्रथम वाले इतिहास के आधार स्वरूप बहुत करके हिन्दू धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रन्थ हो मिलते हैं। इनमें वेदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों, सूत्रों, पुराणों आदि को प्रधानता है। वेदों में घटनाएँ घटा बढ़ा कर नहीं लिखी गयी हैं, वरन् सच्चे और प्रामाणिक कथन उनमें पाये जाते हैं। यदि देवताओं के माहात्म्य एवं प्रकट धार्मिक अत्युक्तियों को निकाल डालिये, तो वेदों का एक एक अक्षर सच्ची ऐतिहासिक सामग्री देता है। वस्तुतः वेदों का सब से बड़ा मूल्य ऐतिहासिक है। फिर भी इतनी कठिनाई है, कि वेद इतिहास

कथन के लिए नहीं बनाये गये वरन् उनमें ऐतिहासिक सामग्री अप्रासंगिक प्रकार से है। उनके मुख्य विषय कुछ और ही हैं और उपमा, रूपक, उदाहरण, महिमा-कथन आदि के सहारे हम लोगों को ऐतिहासिक सामग्री वेदों में मिलती है। फिर भी इतनी त्रुटि रह जाती है कि पूरा ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता, वरन् उनके इशारे मात्र उपलब्ध हैं। वेदों में मनु, इक्ष्वाकु, पृथु, दिवोदास, सुदाम, ययाति, यदु, पुरु, त्रैतन, शम्बर, वृत्र, नमुचि, बलि, पुरोचन, प्रह्लाद आदि सैकड़ों महाशयों के नाम आए हैं और बहुतों के सम्बन्ध में कुछ कुछ घटनाएँ भी लिखी हैं, किन्तु पूर्वापर क्रम, मिलित वर्णन आदि कुछ भी नहीं है। उनमें ऐतिहासिक रीति पर कुछ नहीं कहा गया है वरन् स्फुट प्रकार से घटनाएँ कथित हैं।

यह त्रुटि ब्राह्मण ग्रन्थों में गाथाओं द्वारा कुछ कुछ दूर की गयी है, किन्तु इनमें भी गाथाएँ हैं अप्रासंगिक मात्र, क्योंकि इतिहास से इतर विषयों की पुष्टि में वे स्फुट प्रकार से कही गयी हैं। शास्त्रों का कथन है कि ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद ही हैं। हमें इस कथन पर मत प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा विषय धार्मिक नहीं है। हम संहिता मात्र को वेद कहेंगे और ब्राह्मणों को ब्राह्मण। सूत्रों और स्मृतियों में भी सामाजिक ज्ञान प्रदायिनी प्रचुर सामग्री मिलती है। सब से पहले ऐतिहासिक ग्रन्थ जो हमारे यहाँ लिखे गए वे पुराण हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों से ही धार्मिक विषयों की महिमा बढ़ने लगी। यह परिपाटी सूत्रों तथा स्मृतियों में बढ़ी और पुराणों में पराकाष्ठा को पहुँच गयी। जहाँ वेदों में मानुष जीवन सौ से सवा सौ वर्षों का माना गया और कोई मनुष्य अमर नहीं कहा गया, वहीं पुराणों में कहीं कहीं वह दश हजार वर्षों का होगया और कई मनुष्य अमर कहे गए। इस एक भूल ने पौराणिक ग्रन्थों के ऐतिहासिक मूल्य को बहुत घटा दिया है। देखने में पुराणों के कथन वेदों से दृढ़तर अथच पूर्ण मिलते हैं, किन्तु संहिता का जो प्रत्येक शब्द दृढ़ है, यही उसकी महत्ता है। शेष वैदिक साहित्य भी इसी कारण से पुराणों की अपेक्षा अधिक मान्य है। गुप्त काल पर्यन्त पुराणों में सम्पादकों द्वारा घटाव बढ़ाव हुये, जिससे उनका प्रत्येक भाग वैदिक साहित्य के समान

प्रामाणिक नहीं है। इसलिए सत्यता की जांच में सारा वैदिक साहित्य पौराणिक से दृढ़तर है। फिर भी पुराणों के शुद्ध कथन मान्य अवश्य हैं। उनमें सामग्री प्रचुर तथा अच्छी है। समय सम्बन्धी अभाव अवश्य कठिन आपत्ति है, किन्तु प्रसिद्ध राजघरानों के वंशवृत्त मिलाने से और समकालिक नामों के सहारे उनका पूर्वापर क्रम स्थिर करने से मोटे मोटे समय मिल जाते हैं जिनमें इतिहास का वर्णन हो सकता है। फिर भी प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में सन् संबंधों का व्योरा खोज निकालना अभी तक असाध्य समझ पड़ता है। इसलिए आदिमकाल से ६०० बी० सी० तक के समय को हम भी अनैतिहासिक काल कहेंगे। अपने ग्रंथ को ३ भागों में हमने विभक्त किया है जिसमें पहला भाग यही अनैतिहासिक काल सम्बन्धी है, दूसरे भाग में ६०० बी० सी० से प्रायः १३१४ ई० तक का वर्णन होगा और तीसरे में १३१४ से अब तक का। हम ऊपर वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों तथा पुराणों को इतिहासाधार कह आये हैं। कोई ग्रन्थ उसी समय के इतिहास का आधार हो सकता है जब कि वह बना हो या उससे कुछ पहले का। वेद, ब्राह्मण और सूत्र विशेषतया ब्राह्मणों द्वारा कहे और रचित किये गये। इस प्रकार यह वैदिक साहित्य बहुधा ब्राह्मण कृत है। पौराणिक साहित्य का मूल बहुधा चारणों, सूतों, मागधों आदि के द्वारा रचित हुआ जैसा कि भूमिका में कहा गया है। इसके व्यास कृत पुराण तथा इतरों के चार मीमांसा ग्रन्थ प्राचीन काल में बने। अब हम कुछ अन्य आधारों का कथन करके यह अध्याय समाप्त करेंगे।

डाक्टर राय चौधरी के विचार

ऐतिहासिक ज्ञान के लिए हमारे निम्नलिखित ग्रन्थ मान्य हैं:—

अ—परीक्षित के पीछे दृढ़ किया हुआ हिन्दू साहित्य।

१—चारों वेद, मुख्यतया अथर्ववेद की अन्तिम पुस्तक।

२—एतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय एवं अन्य प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ।

३—बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तथा अन्य प्राचीन उपनिषद्।

आ—बिम्बिसार के पीछे का हिन्दू साहित्य, रामायण, महाभारत, और पुराणग्रन्थ ।

इ—बिम्बिसार के पीछे का निश्चित कालीन हिंदू साहित्य ।

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, पातंजलि महाभाष्य, पाणिनीय अष्टाध्यायी ।

ई—बौद्ध सुत्त, विनय सुत्त तथा जातक ग्रन्थ । ये प्रायः शुंग पूर्व के हैं ।

उ—जैन ग्रन्थ ४५४ ई० में लिपिबद्ध हुए ।

श्रीयुक्त पार्जितर के विचारानुसार सूत पौराणिक हैं, मागध वंश वृत्त के ज्ञाता तथा वन्दिन प्रशंसक । जहाँ इतिश्रुति लिखा रहता है वहाँ वेद से प्रयोजन है । व्यास ने पहले पुराण बनाई, फिर महाभारत, जिसका नाम उन्होंने जय रक्खा । वर्तमान पुराणों में वायु और ब्रह्माण्ड सबसे पुराने हैं । पहले ये दोनों एक थीं और पीछे दो हुईं । उग्रश्रवस रोम हर्षण के पुत्र थे तथा छः शिष्यों में पाँच ब्राह्मण थे । वायु के पीछे मत्स्य, ब्रह्म और हरिवंश बनी । पुराणज्ञ, पुराणवित, पौराणिक और वंशवित् प्राचीन हाल जानते थे । ब्युलरके अनुसार आपस्तम्ब तीसरी शताब्दी बी० सी० में थे या डेढ़ दो सौ वर्ष और पूर्व । वे भविष्यत और मत्स्य पुराणों से उद्धरण देते हैं, जिससे ये ५०० बी० सी० से पूर्व चली जाती हैं । भविष्य का प्रारम्भ शाम्ब से होता है । वायु पुराण अधिसीम कृष्ण को सुनाई गई । कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र चौथी शताब्दी से पहली बी० सी० तक का है । इस समय पुराणें भली भाँति ज्ञात और सर्वमान्य थीं । पहली व्यास कृत पुराण पाण्डवों के समय बनी, तथा भागवत् नवीं शताब्दी में । वायु, ब्रह्माण्ड, हरिवंश, पद्म और मत्स्य पुराण औरों से अधिक मान्य हैं । उनमें मूल वृत्तान्त है । विष्णु पुराण में बौद्धों तथा जैनों के पराजय भी कथित हैं, जिससे वह ५०० ई० तक आ जाती है ।


डाक्टर प्रधान के विचार

प्राचीन कथनों में सूत, मागध, पौराणिक, पुराणज्ञ, पुरावित, गाथा आदि के विवरण आते हैं । पुराणें इस प्रकार हैं—पहला व्यास

कृत, दूसरे ग्रंथ मागध नरेश सेनजित के समय के, तीसरे नन्दवंश के समय के और चौथे गुप्त कालीन। भागवत बहुत पीछे की। वायु अन्य पुराणों से पहले की है।

इतर आधारों के अनुसार कथन

वायु, ब्रह्माण्ड और विष्णु पुराणों का कथन है कि व्यास ने चारों वेद पेल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को दिये। अनन्तर आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प जोक्तियाँ बाँटीं। कल्प वाक्यों के आधार पर उन्होंने एक पुराण बनाई, तथा उसे एवं इतिहास को अपने शिष्य रोम हर्षण या लोम हर्ष को सिखलाया। रोम हर्षण ने उसको छः रूपों में अपने निम्न षट् शिष्यों को पढ़ाया:—आत्रेय सुमति, काश्यप-कृतव्रण, भरद्वाज, अग्निवर्चस, वशिष्ठ, मित्रयु, सावर्णि, सोमदत्ति और सुदर्शन शांशपायन। इनमें से काश्यप सावर्णि, और शांशपायन ने एक एक संहिता बनाई। पहली संहिता रोमहर्षण कृत थी। इनमें से शांशपायन की संहिता का आकार नहीं दिया हुआ है; शेष तीनों संहितायें चार चार हजार श्लोकों की थीं।



तीसरा अध्याय

भारतीय इतिहास का महत्व

कुछ इतिहासज्ञों ने लिखा है कि भारतीय इतिहास बहुत फीका है। इसमें बार बार एक बड़ा साम्राज्य कायम होकर तथा कुछ दिन भारी रियासत चला कर टूट जाता है और विविध प्रान्तों में छोटी छोटी रियासतों में बँट कर छिन्न भिन्न हो जाता है। सुदास, रामचन्द्र, जरासन्ध, युधिष्ठिर, अजातशत्रु, अशोक, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त, शर्बवर्मन, हर्षवर्द्धन, अलाउद्दीन, औरंगजेब, माधवराव आदि अवश्य भारी सम्राट थे, किन्तु इन सब के पीछे समय पर देश की एकता छिन्न भिन्न हो गयी और वह छोटी छोटी रियासतों में बँटकर मांडलिक राजाओं से भर गया। एक दो नहीं बारह पन्द्रह बार ऐसे दृश्य देख कर भी स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि बल, प्रजा के अधिकार आदि में समय के साथ कोई विशेष वृद्धि न होने से यदि कोई आलोचक हमारे राजनैतिक इतिहास को फीका बतलावे तो हम उसे वकालोचक नहीं कह सकेंगे। यह नहीं कि हमारे यहाँ स्वतन्त्रता आदि के विचार उत्पन्न हुए ही नहीं और उनकी उन्नति का सूर्य कभी चमका ही नहीं, किन्तु फिर भी इतना दुःख के साथ मानना पड़ेगा कि समय के साथ इन सुविचारों की समुचित उन्नति नहीं हुई, विशेषतया बारहवीं शताब्दी के पीछे।

यदि हिन्दू राजाओं का प्राचीन इतिहास देखा जावे तो प्रत्यक्ष प्रकट होगा कि “राजा करै सो न्याव, पाँसा पड़ै सो दाँव” वाली कहावत हमारे यहाँ कभी चरितार्थ नहीं हुई। यहाँ राजा लोग सदैव सनातन विचारों और धर्मों को मानते रहे। आज तक देशी रियासतों में प्रजा को जब कोई बात अनुचित जान पड़ती है तब वह हाकिमों से यही कहती है कि “अब तुम नई नई बातें करने लगे।” हाकिम लोग भी प्रायः ऐसे ही उत्तर देते हुये देखे जाते हैं कि “कौन नई करियति है? सनातन से का यही नाई चली आई है?” प्राचीनता का इतना मान है कि

खंड में आज तक लगान की रीति कहते हैं । यदि कहीं नेवते जावें तो जा साधारण मान मरातब होता है उसे दस्तूर कहते हैं ।

हमारे यहाँ प्राचीन और नवीन राजाओं में से प्रायः किसी ने घर जानी मन मानी नहीं की । सब लोग लोक प्रचलित विचारों तथा आचारों पर शासन करते रहे । धार्मिक सहनशीलता इतनी रही है कि हिन्दू, जैन, बौद्धादि सभी मिल मिल कर एक ही जगह बने रहे और पारसी भी यहीं आ बसे, किन्तु कभी धार्मिक महा संग्राम नहीं हुए । सभी को अपने विचारों एवं आचारों पर चलने का पूरा अधिकार रहा । हमारे सभी प्रधान शासकों में से अशोक बड़ा धर्म फैलानेवाला था, किन्तु उसने भी बौद्धों तथा ब्राह्मणों का सदैव प्रायः समभाव से सत्कार किया और धर्म फैलाने में कभी बल का प्रयोग नहीं किया । यही दशा गुप्तवंशी हिन्दू-शासकों की रही । प्रसिद्ध महाराज हर्षवर्द्धन का भी यही हाल था । केवल एक मात्र राजा बेन ऐसा हुआ जिसने अपने को ब्राह्मणों से पुजवाने की आज्ञा प्रचारित की । उसको प्रजा ही ने उसका बध कर डाला और फिर भी राज्य लाभ न करके उसी के पुत्र प्रसिद्ध राजा पृथु को शासक बनाया, जिसने इस उत्तमता से राज्य किया कि धरणी उसी के नाम पर पृथ्वी कहलाने लगी । कानून बनाने के लिये हमारे यहाँ राजा को कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ता था और विद्वान ब्राह्मणों के रचे हुये ग्रन्थ अपनी भलाई अथवा लोक-मान्यता के कारण राज्य सभा में कानून की भाँति माने जाते थे । यही दशा पेशवाओं के राज्य तक में रही । इतनी भारी उन्नति प्राप्त करने के लिए थोड़ी शिक्षा अथवा थोड़ा प्रभाव पर्याप्त नहीं हो सकता ।

यूरोप तथा अमेरिका में दास प्रथा उठाने के लिये भारी-भारी संग्राम हुए किन्तु हमारे यहाँ यह प्रथा कभी बलवती हुई ही नहीं । जितनी उन्नति हिन्दू राज्य ने शासन पद्धति, प्रजा-अधिकार, स्वतंत्रता आदि के विचारों में कर ली उतनी तत्कालिक किसी साम्राज्य ने पृथ्वी-मंडल में नहीं कर पाई । यदि समय मिलता तो अन्य उन्नत देशों की भाँति भारत भी बारहवीं शताब्दी के पीछे इन विचारों को दृढ़ करता,

किन्तु हिन्दू मुसलमानों की सामाजिक एवं धार्मिक भिन्नता ऐसी पड़ गई कि प्रजा और राजा में एकता का भाव मुसलमानी राज्य में नहीं आया। इसी से मुसलमान लोग अपने को सदा विजयी समझते रहे और उनकी पाँच शताब्दियों में प्रजा के अधिकार समुचित प्रकारेण उन्नत नहीं हुए। यह दशा राजनैतिक विचारों एवं अधिकारों की रही और एक प्रकार से कुछ फीकी कही जा सकती है, किन्तु अन्य बातों में भारतीय इतिहास फीका नहीं है। गौतम बुद्ध के पूर्व से हमारे यहाँ कुछ प्रजातन्त्र राज्य थे। ऐसे कुछ राज्य गुप्त काल तक चले। किसी देश की ऐतिहासिक गरिमा उसके द्वारा सांसारिक सभ्यता की उन्नति पर निर्भर है, अर्थात् इस उन्नति में उसने जितनी सहायता पहुँचाई होगी उसी के अनुसार उसका इतिहास अच्छा अथवा बुरा कहा जावेगा। संस्कृत के इतिहास-लेखक मैकडानल महाशय ने इस विषय पर २० पृष्ठों का एक अध्याय लिख कर भारत को बहुत बाधित किया है। उन्होंने दिखलाया है कि किन किन बातों में भारत ने सांसारिक सभ्यता को वर्द्धमान किया। उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ वर्णन करके तब हम आगे बढ़ेंगे।

५०९ बी० सी० में स्किलैक्स नामक एक यूनानी भारत में आया और उसने सिन्ध नदी पर नाव चलाई। उसके वर्णनों से हेरोडोटस ने भारत का हाल जाना। ४८० बी० सी० में जर्कसीज जो सेना प्रीस को ले गया उसमें भारतीय दल भी था। इस फारसी सेना का वर्णन इतिहास लेखक हेरोडोटस ने किया। सिकन्दर ने जब ३२५ बी० सी० में भारत पर धावा किया तब यूनानियों ने मेलम और सिन्ध के बीच जोगियों को देखा। यूनानी एलची मेगास्थनीज ३०५ बी० सी० के पीछे कुछ साल पटना में रहा। उसने टा इन्डिका नाम्नी एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत का वर्णन किया। उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग इन्द्र और गङ्गा की पूजा करते थे। उसके लेख से विदित है कि उसके समय में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के विचार दृढ़ हो चुके थे तथा विष्णु, शिव एवं कृष्ण का पूजन होता था। अन्तिम पूजन मेगास्थनीज मथुरा में लिखता है। उसका यह भी कथन है कि भारत में कोई दास न था। इधर कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में दास कल्प

का विवरण इसी काल में है। इससे जान पड़ता है कि दास थे अवश्य किन्तु गणना में वे इतने कम थे तथा उनके साथ ऐसा सुव्यवहार था कि मेगास्थनीज को समाज में उनका अस्तित्व ही न समझ पड़ा। इसके बाद प्रायः २०० वर्ष तक यूनानियों का आना जाना भारत में रहा।

डिओक्रिसास्टुमस नामक एक यूनानी का समय ५१ से ११७ ई० तक का है। इसने लिखा कि हिन्दुस्तानी लोग अपनी भाषा में होमर-कृत इलियड के वीरों का गीत गाते हैं। इससे उसका प्रयोजन महा-भारत से समझ पड़ता है और जान पड़ता है कि यह लोग उस समय महाभारत को जानते थे। महमूद गजनवी के जब धावे हुये तब उसके साथ अलबरूनी नामक एक पंडित आया।

कुछ पादरियों ने श्रीकृष्ण सम्बन्धी बहुत सी घटनाओं को ईसा वालियों से मिलती देखकर कृष्ण पूजन की उत्पत्ति उन से मानी है, किन्तु कृष्ण पूजन मेगास्थनीज के समय भी चलता था, जिसके ३०० वर्ष पीछे ईसा उत्पन्न हुए। दूसरी शताब्दी बी० सी० में रचित महाभाष्य में लिखा है कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक भी खेले जाते थे। इन बातों से प्रकट है कि ईसा की जीवनी में घटना वर्णन पर कृष्ण की जीवनी का प्रभाव पड़ा है। बालकृष्ण पूजन पीछे का है और इसके विवरण में ईसाई कथनों का कुछ प्रभाव असम्भव नहीं है।

भारतीय पर यूनानी नाटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा मैकडानल महाशय ने दिखलाया है। फिर भी यूनानी लोगों का भारत में बहुत आना जाना था जिससे संभव है कि भारतीय का यूनानी नाटकों पर प्रभाव पड़ा हो। शकुन्तला नाटक की प्रस्तावना के आधार पर प्रसिद्ध जर्मन कवि गेटी ने फ़ाउस्ट की प्रस्तावना बनायी। भारतीय भूत प्रेतों की कथा कहानियों तथा उपन्यासों का प्रभाव योरोप में बहुत अधिक पड़ा। छठवीं शताब्दी में पंचतंत्र के समान एक बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद फारसी वैद्य बरजोई ने पहलवी भाषा में सासानी बादशाह

खुसरो अनुशीरवाँ की आज्ञा से किया। यह बौद्ध ग्रन्थ और अनुवाद अब दोनों लुप्त हो गये हैं, किन्तु इस पहलवी पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में ८ वीं शताब्दी में हुआ, जो अब भी प्रस्तुत है। इसका नाम कलैला दमना है। इसमें लिखा है कि बिदबा नामक एक हिन्दुस्तानी दाशनिक ने एक दुष्ट राजा को भला बना दिया। बिदबा विद्यापति था। इसी कलैला दमना से समय पर फारसी ग्रन्थ अनवार सुहेली निकला और मध्य कालिक योरोप में अनेकानेक भाषाओं में कई ग्रन्थ रचे गये। छान्दोग्य उपनिषत् में भी ऐसी ही कहानियाँ पाई जाती हैं जिससे प्रकट है कि यह भारत में बहुत काल से प्रचलित थीं। शतरंज का खेल भी योरोप में भारत से गया। इसे संस्कृत में चतुरंग कहते हैं, क्योंकि इसमें चतुरंग सेना होती है, अर्थात् रथी, गजी, हयसादी और पदाती।

दर्शन शास्त्र में भारत का प्रभाव यूनान पर बहुत पड़ा। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक पिथैगुरस के प्रायः सभी सिद्धान्त छठी शताब्दी बी० सी० से ही भारत में ज्ञात थे। जान पड़ता है कि पिथैगुरस ने फारस में हिन्दुस्तानियों से मिलकर वे सिद्धान्त जाने थे। प्लाटनस और उसके शिष्य पारफ्री (२३२-३०४ ई०) के सिद्धान्तों में योग और सांख्य के प्रभाव देख पड़ते हैं। दूसरी और तीसरी शताब्दियों में ईसाई दर्शन शास्त्र पर सांख्य का प्रभाव पड़ा। १९ वीं शताब्दी में शोपिनहार और हार्टमैन के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव देख पड़ता है।

विज्ञान में भी योरोप हिन्दुस्तान का थोड़ा ऋणी नहीं है। आठवीं और नवीं शताब्दी में हिन्दुस्तानियों ने अरबवालों को गणित एवं बीज-गणित सिखलाया। रेखागणित में कैन्टर महाशय के अनुसार यूनानी विचारों और हमारे शूल्ब सूत्रों में इतना मेल है कि वे इन सूत्रों को यूनानी ग्रन्थों पर आश्रित समझते हैं। कैन्टर महाशय गणित-शास्त्र के ऐतिहासिक हैं और जिस ग्रन्थ को वे शूल्ब सूत्र का आधार मानते हैं वह २०५ बी० सी० का है किन्तु हमारे शूल्ब सूत्र श्रौत सूत्रों के अङ्ग हैं जो ५०७ बी० सी० से भी पुराने हैं। अतः यूनानी रेखागणित का

शूल्ब सूत्रों पर ही अवलम्बित होना सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र में भारतीय ऋषियों ने यूनान आदि से कुछ सहायता ली, जैसा कि हेली, होरा शास्त्र, रोमक सिद्धान्त आदि शब्दों से भी प्रकट होता है। फिर हिन्दुस्तानियों ने स्वतन्त्र उन्नति बहुत की और इसका प्रभाव पश्चिम पर भी पड़ा है। ८वीं एवं ९वीं शताब्दी में भारतीयों ने अरबों को ज्योतिष विद्या सिखलाई और हिन्दू ज्योतिष ग्रन्थों का अनुवाद अरबी में हुआ। यवनाचार्य आदि ब्राह्मण ज्योतिषी अरब में हुये। बगदाद के खलीफा ने कई बार हिन्दू ज्योतिषाचार्यों को इस काम के लिये अपने यहाँ बुलाया। आयुर्वेद में हिन्दुओं के कई ग्रन्थ खलीफा बगदाद द्वारा ७ वीं शताब्दी के लगभग अनुवादित कराये गये। चरक और सुश्रुत के कई ग्रन्थ ८ वीं शताब्दी में अरबी में अनुवादित हुये। १० वीं शताब्दी का अरबी वैद्य अलरज्जी इनको प्रमाण स्वरूप लिखता है। चरक महाराजा कनिष्क का राजवैद्य था। १७वीं शताब्दी तक अरबी आयुर्वेद इस योरोपीय शास्त्र का आधार स्वरूप रहा। अरबी आयुर्वेदीय ग्रन्थों के जो लैटिन में अनुवाद हुये उनमें चरक का नाम बहुधा आया जिससे प्रकट है कि अरबी वैद्यगण चरक का बड़ा आदर करते थे। वर्तमान यारोप ने कृत्रिम नाक का बनाना भारत से ही सीखा। जब सिकन्दर का धावा हुआ तब उसके वैद्य सर्पदंश निवारण नहीं कर सकते थे। इसलिये इस काम पर उसने भारतीय वैद्य रक्खे। अनेकानेक योरोपीय साहित्यिक भाव बौद्ध ग्रन्थों से निकले। यहाँ तक इस विषय पर जो विचार लिखे गये हैं वे मैकडानल महाशय के आधार पर हैं।

बाबू गंगाप्रसाद एम० ए० पेंशनर डेपुटी कलेक्टर युक्त प्रान्त ने “धर्मों के मूल स्रोत” (Fountainhead of Religion) नामक ग्रन्थमें बड़ी विद्वत्ता पूर्वक सिद्ध किया है कि संसार के सारे भारी धर्म अन्त में वैदिक पर अवलम्बित हैं। यह तो प्रकट ही है कि बौद्धमत वैदिक धर्म का सन्तान है। बाबू साहब ने अकाट्य तर्कों से सिद्ध किया है कि मुसलमानी मत का आधार ईसाई है तथा ईसाई का बौद्ध। वे यहूदी का पारसी और इसका वैदिक मत आधार स्वरूप सिद्ध करते हैं।

अतः ऐसा प्रकट होता है कि संसार के सारे मत अन्त में वैदिक धर्म पर अवलम्बित हैं। जूरास्टर और आब्रहम के मत वैदिक पर अवलम्बित माने जा सकते हैं अथवा कम से कम इन के मूल एक थे। “जान दि बैपटिस्ट” ईसा के गुरु बौद्ध सिद्धान्तों से अभिन्न थे। उन्हीं से ईसा ने बौद्ध मत जाना होगा। बाबू साहब ने बहुत से बौद्ध और ईसाई सिद्धान्त एक ही जगह रख कर उनकी समानता दिखलाई है। रमेशचन्द्र दत्त ने दिखलाया है कि बौद्ध और ईसाई गिरजाओं में बहुत बड़ी समानता है। अवेहू नामक ईसाई पादरी ने तिब्बत में जो बौद्ध रीतियाँ देखीं, उनसे उसे ईसाई रीतियों की इतनी बड़ी समानता देख पड़ी कि उसे जान पड़ा कि वे इस मत से ली गयीं, किन्तु इतिहास से सिद्ध हुआ है कि वह रीतियाँ ईसा के पूर्व से इसी प्रकार चली आयी हैं। इसलिये बौद्ध मत का ही आधार स्वरूप होना सिद्ध होता है। ईसा से बहुत दिन पूर्व से बौद्धमत की एक शाखा पैलेस्टाइन में स्थापित थी। मध्य एशिया, लङ्का, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, स्याम आदि में भारतीय बौद्धमत फैला सो प्रत्यक्ष ही है। बालगानदी पर आष्ट्राखान में एक हिन्दू बस्ती अद्यापि वर्तमान है और कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर हिन्दू अग्नि मन्दिर बना हुआ है। मेक्सिको में एक हाथी के सरवाले मनुष्य रूपी देवता का पूजन होता था। हाल ही में वहाँ एक पत्थर की मूर्ति मिली, जो कदाचित् श्रीकृष्ण या बुद्धदेव की है। अतः भारत ने एक प्रकार से सारी दुनिया को धर्म सिखलाया, और मनुष्य जाति में आधी से अधिक आज भी सीधा सीधा भारती मत मानती है।

जो कोमलता, दयालुता, पर-दुख-हानीच्छा आदि भारतीय मत समुदाय ने सिखलायीं, वे अन्यत्र देख नहीं पड़तीं। कारीगरी भी हमारे यहाँ की लोकमान्य है। ताजमहल आज भी संसार के सात आश्चर्यों में गिना जाता है। इसी भाँति कांची, मदुरा, साँची, खजुराहा, भुवनेश्वर एलीफैन्टा, अजेन्टा, इलोरा कार्ली आदि की कारीगरी आज भी संसार को चकित करती है। १७ वीं शताब्दी तक बंगाली कपड़े की बारीकी योरोपीय महिलाओं को मुग्ध करती थी और उसका प्रचार रोकने को

इंग्लैण्ड में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी । कपड़े की बारीकी यहाँ बहुत प्राचीन काल से स्थिर थी । दर्शन शास्त्र का तो भारतवर्ष मानों केन्द्र ही रहा है और यहाँ का साहित्य संस्कृत, प्राकृत एवं देशी भाषाओं में बहुत ही प्रशंसास्पद है । ऋषियों तथा योगियों की यहाँ इतनी भरमार मची रही है कि इनका बाहुल्य उचित से बहुत अधिक कहा गया है । ऐसी ऐसी अनेकानेक अन्य बातें दिखलाई जा सकती हैं । अतः केवल पूर्ण राजनैतिक उन्नति न होने के कारण ही भारतीय इतिहास को फीका कहना नहीं फबता जब कि उपरोक्त अन्य उन्नतियाँ इसे गौरव प्रदान करती हैं ।



चौथा अध्याय

पौराणिक राजवंश

पौराणिक इतिहास लिखने में सबसे बड़ा गड़बड़ सन् संवत्‌ों का न मिलना है। किसी स्थिर सन् संवत्‌ के अभाव में हम लोगों को अपनी ओर से बड़े बड़े समय दृढ़ करके इतिहास लिखना पड़ता है। इन समयों के स्थिर करने के लिये पौराणिक राजवंशों का ज्ञान आवश्यक है। इसी के सहारे हम ऐतिहासिक काल स्थिर करेंगे। प्राचीन मनु, सूर्य तथा चन्द्र कुल के राजघरानों का वर्णन सभी पुराणों में आया है। उन्हीं को देख और मिलाकर यहाँ राजकुलों की पीढ़ियों का हाल कहा जावेगा। इन पीढ़ियों के कथन में यह गड़बड़ भी है कि कोई कुछ कह सकता है और कोई कुछ, क्योंकि पृथक् पुराणों में पीढ़ियों की संख्या और नामों में बहुत कुछ अन्तर पड़ता है। उदाहरण के लिये हम यहाँ उस राजवंश का हाल कहेंगे जो पुराणों में वैवस्वत मनु से चलकर सुमित्र पर समाप्त हुआ, जिसमें रामचन्द्र हुये और युधिष्ठिर के समय में राजा बृहद्रथ थे। इसकी पीढ़ियों की संख्या विविध ग्रंथों के अनुसार इस तरह से है। यह संख्या वैवस्वत मनु से जोड़ी जाकर रामचन्द्र, बृहद्रथ और सुमित्र तक दिखलाई जाती है।

ग्रन्थ	मनु से राम-चन्द्र तक पीढ़ी	मनु से वृहद्वल तक	मनु से सुमित्र तक	विवरण
विष्णु पुराण	६३	९२	१२१	इसमें सुमित्रसुरथ तक का नाम है, सुमित्र का नहीं।
शिव पुराण	५६	८२	११०	
भविष्य पुराण	६२	९१	११९	
{ वाल्मीकीय रामायण	३६	—	—	रामके आगे वंश नहीं कहा गया।
श्री भागवत	६०	८८	११५	

इस चक्र के देखने से प्रकट है कि रामायण को छोड़कर शेष सभी ग्रन्थों की संख्याएँ बहुत मिलती हैं। रामायण में केवल ३६ नाम हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वाल्मीकि महाराज ने पूरा वंश वृत्त न कह मुख्य मुख्य नाम ही दिये हैं। बाकी चारों ग्रन्थों में नामों के लिखने में भी कुछ कुछ अन्तर है, अर्थात् कोई उसी नाम को कुछ ऊपर लिखता है और कोई नीचे। इसी तरह कोई उसी पीढ़ी के लिये औरों से अनमिल नाम देता है। बहुत से राजाओं के कई नाम थे, जैसे एक श्रीकृष्ण के ही नाम यदि गिनाये जावे तो बहुत बड़ी संख्या हो जावे। इसलिये जहाँ एक ही नाम में भेद है वहाँ प्रायः उसी राजा के कई नाम होने से ऐसा हुआ है। फिर भी मुख्य मुख्य नाम सब ग्रन्थों में एक ही हैं और मामूली नामों में भी बहुत थोड़ा भेद है। इसलिये ध्यान पूर्वक पढ़कर मानना पड़ेगा कि कुल ग्रन्थों का मिलान करने से भी पौराणिक राजवंश वर्णन में ऐसा गड़बड़ नहीं देख पड़ता कि कोई प्रवीण पुरुष उसे प्रामाणिक न माने। सब पुराणों तथा अन्य ग्रन्थों की गवाही जोड़ने से राजवंश दृढ़ जँचते हैं।

पुराणों के लक्षण कहने में पंडितों ने पाँच मुख्य बातें मानी हैं जिनका वर्णन अन्यत्र होगा। उनके अनुसार जाँचने पर विष्णु पुराण एक बहुत ही माननीय ग्रन्थ ठहरता है। इसमें राजवंशों का कथन है भी बहुत अच्छा, बड़ा और पूरी पीढ़ियों तक। यह ग्रन्थ कहने को तो विष्णु पर है, किन्तु साम्प्रदायिक ग्रन्थों की भाँति इसमें कट्टरपन कहीं नहीं है और सर्वत्र गम्भीरता देख पड़ती है। इसलिए हम अपना पौराणिक राजवंश मुख्यतया विष्णु पुराण के ही आधार पर कहेंगे, किन्तु फिर भी ऊपर लिखे हुये ग्रन्थों तथा महाभारत, हरिवंश, अग्नि पुराण आदि को भी मिलाकर जहाँ तक हो सकेगा शुद्ध राजवंश लिखे जावेंगे। विष्णु पुराण और हरिवंश के कथन पूर्ण हैं।

जैन पंडितों ने भी पुराणों के महत्व को माना है। ५ वीं शताब्दी की जैन पुस्तक शत्रुंजय माहात्म्य में लिखा है कि “पुराणों के तीन भेद हैं, अर्थात् हिन्दू, जैन और बौद्ध। उनमें वायु, मत्स्य और विष्णु पुराणों की राजवंशावलियाँ माननीय हैं और कितने ही विषयों के सम्बन्ध में कुछ लोगों को विष्णु पुराण अन्य दो पुराणों से कम प्रामाणिक प्रतीत होता है।” तंत्रों की ऐतिहासिक तथा भौगोलिक टिप्पणियों से भी अच्छी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है।

पौराणिक राजवंश मुख्य करके तीन ही हैं, अर्थात् स्वायम्भुवमनु वंश, सूर्यवंश और चन्द्रवंश। हमने सुभीते के लिये दैत्यों, दानवों आदि का भी कुछ कथन कर दिया है तथा प्रद्योतन, शिशुनाग और महापद्म के वंशों का भी कथन मिला कर कुल सात राजवंश कहे हैं। सूर्य और चन्द्रवंशियों की शाखाओं को अलग नम्बर न देकर नम्बर के साथ अ, आ, आदि करके कहा है, जिसमें हर एक वंश की एकता पाठक के ध्यान से न उतरे।

द्वितीय संस्करण तक हमने विष्णु और हरिवंश के आश्रय पर वंशावलियाँ लिखी थीं। दूसरा संस्करण सन् १९२३ में निकला था, और पहला सन् १९१९ में। इधर पौराणिक राजवंशों पर दो और प्रधान ग्रन्थ निकले हैं अर्थात् पहला पार्जितर कृत Ancient Indian Historical Tradition 1922 का, और दूसरा डा० सीतानाथ प्रधान कृत chronology of Ancient India १९२७ का। डा०

रायचौधरी महाशय का एक तीसरा ग्रंथ इन्हीं दोनों के बीच में निकला है। उसमें परीक्षित के समय से गुप्त काल के पूर्व तक का हाल दृढ़ है। प्रधान ने रामचन्द्र के समय से महाभारत काल तक का वर्णन बड़े परिश्रम के साथ वैसा ही अच्छा लिखा है, जैसा कि रायचौधरी ने परीक्षित से पीछे वाला हाल कहा। इन दोनों ग्रन्थों से भगवान रामचन्द्र के समय तक का इतिहास दृढ़ हो जाता है। उसके पूर्व के विवरण में अब तक सन्देह उपस्थित है। रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त वंशावली निरूपण करके प्रधान महाशय ने बड़ा ही भारी कार्य किया है। उन्होंने तेरह वंशावलियाँ प्राचीन पौराणिक ग्रन्थों से निकाल कर यह प्रमाणित कर दिया है कि उपर्युक्त समय में १२ से १५ तक पीढ़ियाँ हुई थीं। पुराणों में जो वंशावलियाँ दी हुई हैं, उनमें से प्रधान की विधि पूर्वक जाँच में कई पीढ़ियाँ अशुद्ध हो गयी हैं। वे सब कारण यहाँ भी कहने से हमारे ग्रन्थ की अनावश्यक वृद्धि होगी। वह ग्रन्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय ने छपवाया है। उसकी कारण माला हमें भी दृढ़ मालूम पड़ती है। अतएव यहाँ प्रधान महाशय के निष्कर्ष मात्र दिए जावेंगे। पार्जितर महाशय ने जितने कथन किए हैं, वे कोई आधार शून्य नहीं हैं। उन्होंने अपने प्रत्येक कथन के आधार-पाद नोटों में दे दिये हैं। फिर भी वंशावलियों के कथन में प्रधान के तर्कों से उनकी बहुतेरी पीढ़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। भेद मिटाने के विचार से हम यहाँ पार्जितर और प्रधान को मिलाकर पीढ़ियाँ लिखेंगे। राम से पहले वाली पीढ़ियाँ प्रधान में सब हैं नहीं, तथा पार्जितर वाली बहुतेरी (पुराणों पर अवलम्बित होकर भी) गड़बड़ हैं। इसलिए सब बातों पर विचार करके हमको इस ग्रन्थ में कुछ नवीनता के साथ वंश-वृत्त लिखने पड़े हैं। इनमें प्रधान से तो प्रायः पूरा का पूरा साम्य है, किन्तु प्रकट कारणों से अन्यो से थोड़ा सा भेद है। भेद के कारण यथा स्थान दे दिए जायेंगे। अब मुख्य विषय उठाया जाता है। पार्जितर ने मनु वैवस्वत से वंश-वृत्त उठाया है, किन्तु पुराणों में स्वायम्भुव मनु का भी वंश है। हम उसका तथा दैत्यों आदि का भी कथन करेंगे।

ब्रह्मा विष्णु के अवतार थे (वि० पु०)। उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार नामक चार मानस पुत्र उत्पन्न किये, अर्थात्

साधारण रीति से न रचकर इन्हें मन से बनाया । इन चारों ने उनके कहने पर भी सृष्टि न चलाई । तब ब्रह्मा ने और दस मानस पुत्र उत्पन्न किये, अर्थात् अत्रि, क्रतु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, शृगु, प्रचेता, पुलस्त्य, वशिष्ठ और नारद । इनके अतिरिक्त स्वायम्भुव मनु, इन्द्र और दक्ष नामक तीन और ब्रह्म पुत्र हुये । इन्हीं से प्रसिद्ध पौराणिक वंश चले, जिनका वर्णन अब किया जाता है । पुराणों के अनुसार मनुष्यों की सृष्टि दो बार कर के हुई । इस कथन से भारत में आनेवाली आर्य्यों की दो धाराओं का पता पड़ता है ।

मनु स्वायम्भुव वंश ।

वंश नं० (१)

(१) स्वायम्भुव मनु—प्रियव्रत (उत्तानपाद भाई)—अग्नीध्र—नाभि (किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल भाई)—(५) ऋषभ—भरत—सुमति—इन्द्रद्युम्न परमेष्ठि—(१०) प्रतिहार—प्रतिहर्ता—भुव—उद्गीम्य—प्रस्तार—(१५) पृथु—नक्त—गय—नर—विराट—(२०) महावीर्य्य—धीमान—महान—मनुस्थ—त्वष्टा—(२५) विरज—रज—(२७) विषगज्योति ।

मनु स्वायम्भुव की कन्यायें प्रसूति, आकृति और देवहूति थीं । आदिम बटवारे में भारत नाभि को मिला । भारत नाम भरत (नं० ७) पर पड़ा । विष्णु पुराण के अनुसार स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रैवत मनु सब प्रियव्रत के वंशधर थे । इन चारों मन्वन्तरो में चार ही और नाम मानने से स्वायम्भुव मनु की प्रियव्रत वाली शाखा में ३५ राजे पाये जाते हैं । इनके पीछे उत्तानपाद के वंशज चातुष छठवें मनु हुए । ये मनुवंशी ३६ वें नरेश थे ।

वंश नं० (१ अ)

(१) स्वायम्भुव मनु—उत्तानपाद—ध्रुव (उत्तम भाई)—शिल्पि (भव्य भाई)—ऋषु (ऋषु)—(नं० ६ से ३५ तक अज्ञात नाम)—

(३६) चाक्षुष मनु—ऊरु (सुद्युम्न भाई)—अंग—(३९) वेन—(४०) पृथु (निषाद भाई)—अन्तर्द्धान (पालित भाई)—हविर्द्धान—प्राचीन वर्हिष (प्रभावशाली; प्रजा की वृद्धि हुई ।) शुक्ल (कृष्ण भाई)—(४४) प्रचेतस—(४५) दत्त ।

सूर्य वंश ।

ब्रह्मा के मानस तनय मरीचि के पुत्र कश्यप हुये जिन्होंने दत्तपुत्री अदिति में सूर्य को उत्पन्न किया । वैवस्वत मनु इन्हीं सूर्य के पुत्र थे । इसीलिये मनुवंशी सूर्यवंशी कहलाते हैं । इन्हीं मनु से सूर्य और चन्द्र दोनों वंशों वाली पीढ़ियों की गिनती होगी । यह सूर्य वंश इस प्रकार है :—

वंश नं० २ सूर्यवंश ।

१. मनुवैवस्वत—इक्ष्वाकु (नृग या नाभाग, धृष्ण या धृष्ट, शर्याति, प्रांशु, प्रषघ्न, नाभानेदिष्ठ, सुद्युम्न, करषु, नरिष्यन्त आदि भाई)—विकुन्ति उपनाम शशाद (निमि दंड आदि कई भाई)—पुरंजय उपनाम ककुत्स्थ—५. अनेनस—पृथु—विष्टराश्व (विश्वगश्व)—आर्द्र—युवनाश्व (प्रथम)—१०. श्रावस्त—वृहदश्व—कुवलयश्व (उपनाम धुंधमार)—दृढाश्व—प्रमोद—१५. हर्यश्व (प्रथम)—निकुम्भ—संहताश्व—अकृशाश्व—प्रसेनजित—२०. युवनाश्व (दूसरे)—मान्धातु—पुरुकुत्स (अम्बरीष, मुचकुन्दभाई)—त्रसदस्यु—सम्भूत (वेद में वृत्ति)—२५. रुरुक—वृक—श्रुत—नाभाग—अम्बरीष—३०. सिन्धु द्वीप—शतरथ (कृतशर्मन)—विश्वशर्मन—विश्वसह (विश्वमहत) प्रथम—दिलीप खलङ्ग—३५. दीर्घबाहु—रघु—अज—दशरथ—३९. राम—४०. कुश—अतिथि—निषध—नल—नभस—४५. पुण्डरीक—क्षेम धृत्वन—देवानीक—अहीनगु—(रूप—रुरुभाई पारिपात्र के) पारिपात्र (सहस्राश्व छोटेभाई) शल—दल—५०. बल (शल और दल बल के बड़े भाई, तथा उनसे पूर्व राजा थे)—उक्थ—वज्रनाभ—शंखन—व्युषिताश्व—५५. विश्वसह—हिरण्यनाभ—

नं० २ (अ)—कुशवंशी नं० ४९ पारिपात्र के भाई सहस्राश्व का वंश ।

४९. सहस्राश्व—५०. चन्दावलोक—तारापीड—चन्द्रगिरि—भानुश्चन्द्र—५४. श्रुतायुस ।

नं० २ (आ) सूर्यवंशी नं० ३९ के पुत्र लव का वंश, श्रावस्तीराज्य ।

३९. राम—४०. लव—पुष्प—ध्रुवसन्धि—सुदर्शन—अग्निवर्णशीघ्र—४५. मरु—अशुश्रुत—सुसन्धि—अमर्ष—विश्रुतवन्त—५०. विश्वबाहु—प्रसेनजित—तक्षक—वृहद्वल—वृहत्क्षणा—५५. उरक्षय—वत्सव्यूह—प्रतिव्यूह (प्रतिव्यूह)—दिवाकर—सहदेव—६०. वृहदश्व—भानुरथ—प्रतीताश्व—सुप्रतीक—मरुदेव—६५. सुनक्षत्र—किन्नर (पुष्कर)—अन्तरिक्ष—(सुषेण)—सुवर्ण (सुषेण इनके बड़े भाई थे—तथा सुपर्ण और सुतपस छोटे)—अमित्रजित (सुमित्र भाई)—७०. वृहद्राज (भरद्वाज भाई)—धर्मिन—(वर्हिष भाई) कृतंजय (ब्रात)—रणंजय, (ब्रात इनके बड़े भाई थे)—संजय—७५. महाकोशल (शाक्य भाई)—प्रसेनजित—विदूदम (छुद्रक भाई)—लुलिक—सुरथ—८० सुमित्र ।

प्रधान का कथन है कि वृहद्वल नं० ५३ से प्रसेनजित नं० ७६ तक २३ पीढ़ियां पड़ती हैं । प्रसेनजित ५३३ बी० सी० में गद्दी पर थे । वृहद्वल महाभारत युद्ध में लड़े थे । आप एक पीढ़ी के २८ वर्ष जोड़ते हैं । अतएव $५३३ + २३ \times २८ = ५३३ + ६४४ = ११७७$ बी० सी० महाभारत युद्ध का समय इस हिसाब से पड़ता है ।

नं० २ (इ) लववंशी महाकोशल, नं० ७५ के भाई शाक्य का विष्णुपुराण के अनुसार वंश ।

७५—शाक्य—शुद्धोदन—गौतमबुद्ध—राहुल—छुद्रक—८०. कुण्डल—सुरथ—८२. सुमित्र ।

नं० २ (ई) हरिश्चन्द्र का राजवंश ।

३०. अनरण्य, त्रसदस्व (प्रषदश्व)—हर्यश्व—वसुमनस (वसुमत)

—तृधन्वन—३५. त्रय्यारुण—सत्यव्रत (त्रिशंकु)—हरिश्चन्द्र—
रोहिताश्व—हरित—४०. चंचु—४१. विजय ।

यह वंश पुराणों तथा पार्जितर में उपरोक्त सूर्यवंश के नं० २४ सम्भूत के पीछे चलता है, और हमारे नं० २५ रुरुक । हमारे हरिश्चन्द्र वंश के नं० ४१. विजय चंचु के पुत्र लिखे हैं । इसमें कठिनता यह पड़ती है कि पुराणों तथा एतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि हरिश्चन्द्र के शुनः शेष वाले बलिदान सम्बन्धी यज्ञ में विश्वामित्र और जमदग्नि मौजूद थे । यही विश्वामित्र रामचन्द्र तथा उत्तर पांचाल महीप सुदास के समकालीन थे । वेद के तृतीय एवं अन्य मंडलों से भी विश्वामित्र और जमदग्नि की मित्रता, शुनः शेष से उनका सम्बन्ध तथा सुदास के यहाँ होना प्रकट है । वशिष्ठ की म्लेच्छ सेना से हार कर ही विश्वामित्र तपस्या करने लगे । उसी दशा में त्रिशंकु द्वारा अपने कुटुम्ब पर उपकार होने से आप इनके सहायक बने । फिर वशिष्ठ को हटा कर आप तृशंकु को राज्य दिला उनके पुरोहित बने । अनन्तर तृशंकु पुत्र हरिश्चन्द्र के अश्वमेध में आप वशिष्ठ से पराजित हो कर फिर तप करने पुष्टकर चले गये । अतएव हरिश्चन्द्र के समय वाले विश्वामित्र वही कौशिक कान्यकुब्ज नरेश थे । उनके तृतीय मंडल वेद में इनके पिता गाथिन (गाधि) के भी मंत्र हैं । इनका सुदास का पुरोहित होना तृतीय मंडल ऋग्वेद में प्रकट है । वहाँ कुशिक भी इनके पितामह या पूर्व पुरुष हैं । सुदास और राम प्रायः समकालीन थे । इसके कारण इस ग्रन्थ में अन्यत्र हैं । ऐसी दशा में यदि हरिश्चन्द्र राम के पूर्व पुरुष हों, तो विश्वामित्र का जीवन काल सूर्य वंशी २० पीढ़ियों के बराबर पर जावेगा, तथा सूर्यवंश में ये १२ पीढ़ी जुड़ जाने से राम की सुदास से समकालीनता नष्ट हो जावेगी, जो दृढ़ प्रमाणों पर आधारित है । अतः यह हरिश्चन्द्र का वंश राम के पूर्व पुरुषों का न होकर बिगदरी वालों का था ।

नं० २ (उ) सगर का राजवंश ।

३८. बाहु—सगर—४०. असमंजस—अंशुमंत—दिलीप—४३.
भगीरथ ।

काशीराज प्रतदर्न ने ह्यहय वंशी वीतिहोत्र को पराजित किया जिससे वह राज्य छोड़ कर भरद्वाज के साथी भार्गव ऋषि हो गये। उनके पुत्र अनन्त, पौत्र दुर्जय और प्रपौत्र सुप्रतीक के नाम हैहय भूपालों में लिखे हैं। सगर ने इस वंश का राज्य ही नष्ट कर दिया। (प्रमाण आगे सगर के वर्णन में मिलेंगे।)

उनके द्वारा सुप्रतीक का राज्य जीता जाना सिद्ध है। अतएव सगर प्रतदर्न के पौत्र अलर्क के प्रायः समकालीन होंगे। उधर रामायण के अनुसार अलर्क के पितामह प्रतदर्न रामाभिषेक के समय अयोध्या में नेवते आए थे। हरिवंश के अनुसार अगस्त्य की स्त्री लोपामुद्रा ने अलर्क को आशिर्वाद दिया। उधर रावण को जीतने में अगस्त्य ने राम की शस्त्रास्त्रों द्वारा सहायता की। अतएव अलर्क, प्रतदर्न, सगर और राम प्रायः समकालीन बैठते हैं। सगर ने हैहयों को हराकर वैदर्भ राजकुमारी से विवाह भी किया। प्रशस्ति के पूर्व वे और्व अग्नि ऋषि के आश्रम में रहते थे। ये अग्नि और्व ऋचीक के पिता और्व के वंशधर थे। अतएव बाहु और सगर राम के बहुत पहले नहीं हो सकते थे। सगर मध्य भारतीय भूपाल समझ पड़ते हैं। कम से कम वे रामचन्द्र से २३ पीढ़ी ऊँचे पूर्व पुरुष नहीं हो सकते, जैसा पौराणिक वंशावलिओं में दर्ज है। वहाँ बाहु, (मुख्य वंश नं० २६) वृक के पुत्र लिखे हुए हैं। सम्भव है, बाहु और सगर हरिश्चन्द्र के वंशधर हों, जैसा कि पुराणों में कथित है, किन्तु वे राम के पूर्व पुरुष न थे। उपर्युक्त वीतिहोत्र सुदास के पिता के समकालीन भरद्वाज के साथी थे। उससे भी वे बहुत पुराने न थे।

नं० २ (ऊ) दक्षिण कोशल का राजवंश।

३५. अयुतायुस (उपनाम भगस्वर) ३६. ऋतुपर्ण—सर्वकाम—सुदास—३९. मित्रसहकल्माषपाद—अश्मक—४१. उरकाम—४२. मूलक।

नं० ३९. कल्माषपाद का (दूसरा वंश)—सर्व कर्मन—अनरण्य—निन्न—४३. अनमित्र (रघुभाई)। दक्षिण कोशल वर्तमान जिलों रायपुर, बिलासपुर, और सम्भलपुर तथा कभी कभी गंजाम के भी अंश पर

विस्तृत था। उसकी राजधानी रायपुर जिले में श्रीपुर थी। ऋतुपर्ण के यहाँ प्रसिद्ध नैषध राजा नल रहे थे। नल उत्तर पांचाल नरेश (नं० ३५) के सम्बन्धी थे, क्योंकि इनकी पुत्री इन्द्रसेना उनके पुत्र मुद्गल की ब्याही थी। नल विदर्भ के यादव नरेश भीम रथ नं० ३४ के दामाद थे। इसलिए इनका स्थान दो समकालीनताओं से दृढ़ होता है। नल की पुत्री इन्द्रसेना को वैदिक साहित्य में नलायनी कहा है। मुद्गल वेदर्षि भी थे। नल श्रेष्ठ रथ संचालक थे। उनकी पुत्री नलायनी ने भी रथ संचालन द्वारा एक युद्ध में अपने पति को विजय दिला कर उनका प्रायः खोया हुआ प्रेम फिर से प्राप्त किया। नल मुद्गल के श्वसुर होने से उनसे एक पीढ़ी ऊँचे थे। इधर मुद्गल के पुत्र वध्यश्व के पुत्र एवं कन्या दिवोदास एवं अहल्या थी। अहल्या शरद्वन्त गोतम की ब्याही थी और उसे राम ने पवित्र किया। तिमिध्वज शम्बर को जीतने में राम के पिता दशरथ ने दिवोदास की सहायता की। इन्हीं दिवोदास के चचेरे भाई पित्रवन के पुत्र प्रसिद्ध वैदिक विजयी सुदास थे। ऋतुपर्ण नल के साथी होने से दिवोदास से चार पीढ़ी ऊँचे के समकालीन थे। अतएव कल्माषपाद राम के प्रायः समकालीन बैठते हैं। पौराणिक वंशावलियों में उनके प्रपौत्र मूलक राम से आठ पीढ़ी ऊँचे पूर्व पुरुष हैं जो बात उपराक्त कारणों से असिद्ध है। कल्माषपाद राम के समकालीन विश्वामित्र और वशिष्ठ के भी समकालीन थे। रामायण में दशरथ का शम्बर के जीतने में भाग लेना लिखा है। इधर वेद में दिवोदास शम्बर को जीतते ही हैं। समझ पड़ता है कि गुप्त काल के पौराणिक सम्पादकों ने सगर, हरिश्चन्द्र तथा दक्षिण कोशल का पूरा हाल जाने बिना ही उनकी वंशावलियाँ मुख्य सूर्यवंश में मिला दी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस वंशावली को निम्न प्रकार से लिखा :—

१. वैवस्वतमनु—इक्ष्वाकु—कुक्षि—विकुक्षि—५. बाण—अनरण्य—
पृथु—वृशङ्कु—धुन्धमार—१०. युवनाश्व—मान्धातु—सुसन्धि—ध्रुव-
सन्धि—(प्रसेनजित भाई)—भरत—१५. असित—सगर—असमंजस—
दिलीप—भगीरथ—२०. काकुत्स्थ—रघु—कल्माषपाद—शंखण—

सुदर्शन—२५. अग्निवर्ण—शीघ्रग—मनु—प्रशुश्रुक—अम्बरीष—३०.
नहुष—ययाति—नाभाग—अज—दशरथ—राम ।

यह वंश वृक्ष बालकाण्ड के ७०वें अध्याय में रामचन्द्र के वैवाहिक शाखाञ्चार में लिखा हुआ है। इसमें हरिश्चन्द्र तथा दक्षिण कोशल के वंश तो प्रायः नहीं हैं, किन्तु सगर उपस्थित हैं, तथा लववंशी ध्रुव-सन्धि, सुदर्शन, अग्निवर्ण आदि भी राम के पूर्व पुरुषों में लिखे हैं। चन्द्रवंशी नहुष और ययाति भी यहीं आ गए हैं। यह वंश वृक्ष व्यासों द्वारा सुरक्षित न था, वरन इक्ष्वाकुओं में प्रचलित था, जिनसे प्रायः छठी सातवीं शताब्दी बी० सी० में इसे बाल्मीकि ने पाया। तो भी यह मनु से राम तक केवल ३० पीढ़ियाँ मान कर कम से कम ६३ पीढ़ी मानने वाले वंश वृक्ष के बहुत प्रतिकूल है।

उपरोक्त वंशावली में हमने दक्षिण कोशल की शाखा अलग करने में प्रधान का भी अनुगमन किया है। सगर और हरिश्चन्द्र की शाखायें सर्वमान्य घटनाओं के आधार पर अलग की गई हैं। सुदास तथा राम की शाखाओं की समकालीनता प्रधान ने भी दिखलाई है। वंशावली में राम पर्यन्त बहुत करके पार्जितर, विष्णु पुराण और हरिवंश का अनुगमन है। राम के पीछे प्रधान के निष्कर्ष माने गये हैं। वे सब वैदिक अथवा पौराणिक साहित्य पर आधारित हैं। उपर्युक्त कई स्थानों पर जो विविध घटनायें अंकित हैं, उनके आधार उनके यथा-स्थान वर्णनों में दिये जायेंगे। *सुदास और राम की समकालीनता* के कारण उत्तर पांचाल वंश के नीचे भी लिखे जावेंगे—

नं० २. (ए) विदेह का सूर्यवंश—मैथिल शाखा

मुख्यवंश का (नं० २) इक्ष्वाकु—(३ से १४ तक नाम अज्ञात)—निमि—१६. मिथि—जनक—उदारवसु—नन्दिवर्द्धन—२०. सुकेतु—देवराट—२२. बृहदुक्थ—महावीर्य—धृतिमन्त—सुधृति—धृष्टकेतु—२७. हर्यश्व—मरु—प्रतिन्धक—कीर्तिरथ—देवमीढ—विबुध—महाधृति—कीर्तिराट—महारोमन—स्वर्ण रोमन—३७. ह्रस्वरोमन—सीर-ध्वज (कुशध्वज भाई)—३९. भानुमन्त—शतद्युम्न—मुनिशुचि—४२. उरजवह—सनद्वाज—शकुनि—४५. स्वागत (ऋतुजित भाई)—

सुवर्चसश्रुत ४७. सुश्रुतजय - विजय--ऋतु--सुनय--वीतहव्य--५२.
धृति -५३. बहुलाश्व--५४ कृति ।

नं० २. (ऐ) मैथिल सांकाश्य शाखा ।

वंश नं० २ ए का (नं० ३७) ह्रस्वरोमन--कुशध्वज--धर्म-
ध्वज--कृतध्वज (मितध्वजभाई जिसका पुत्र खांडिक्य था) ४१. केशि-
ध्वज ।

नं० २. (ओ) मैथिल वंश की ऋतुजित शाखा

वंश नं० २, ए, का नं० ४४ शकुनि--ऋतुजित--अरिष्ट नेमि--
४७. श्रुतायुस - सूर्याश्व संजय--क्षेमरि--अनेनस--मीनरथ--सत्यरथ
५३. सात्यरथी--उपगुरु--श्रुतअग्नि - ५६. उपगुप्त (शायद उग्र-
सेन हों) । सीरध्वज जनक, नं० २ ए ३८. (सूर्यवंशी ३८) दशरथ के
समधी समकालीन थे । इस शाखा में वंशावलियों से प्रायः १२ नाम
छूट रहे हैं, ऐसा समझ पड़ता है । सम्भव है कि इक्ष्वाकु से ही निमि
अथवा मिथि कई पीढ़ी नीचे हों ।

नं० २. (औ) वैशाली का सूर्यवंश

१. मनुवैवस्वत नाभानेदिष्ठ--भलन्दन--बत्सपी--५. प्रांशु--
प्रजाति--खनित्र--लुप--विंश--१०. विविंश--खनीनेत्र--करन्धम--
अवीक्षित--१४. मरुत्त--१५, नरिष्यन्त--दम--राष्ट्रवर्द्धन--सुधृति--
नर--२०, केवल--बन्धुमन्त--बेगवन्त--बुध--तृणबिन्दु--२५, निश्र-
वस--विशाल--हेमचन्द्र--सुचन्द्र--धूम्राश्व-- ३० संजय--सहदेव--
कृशाश्व--सामदत्त--जनमेजय--३५. उपरोक्त वंश वृत्त पार्जितर
महाशय ने कई पुराण मिला कर लिखा । अश्वमेधपर्व म० भा०
में वही निम्नानुसार लिखा है:—

१. मनु--प्रसन्धि--लुप--इक्ष्वाकु--५. विंश (९९ भाई
और)--विश्वास--खनिनेत्र (चौदह और भाई)--सुवर्चस--
१०. कारन्धम--अवीक्षित ११. मरुत्त ।

पहला वंश वृत्त प्रमाणनीय समझ पड़ता है ।

अब चन्द्रवंश का कथन चलता है । ब्रह्मा के मानसपुत्र अत्रि

के पुत्र चन्द्रमा थे, जिनके पुत्र बुध का विवाह मनु वैवस्वत की पुत्री इला से हुआ। इसी विवाह से पुरूरवस पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे चन्द्रवंश चला। सूर्यवंश से पीढ़ी गिनने के लिए यह वंश भी मनु से चलाया जाता है। चन्द्र और मनु वैवस्वत समधी और समकालीन थे ही।

वंश नं० ३. पौरवचन्द्रवंश

१—मनुवैवस्वत—इला (बुध की स्त्री)—पुरूरवस—आयु—
 ५. नहुष—ययाति—पुरु—जनमेजय (प्रथम)—प्रचिन्वन्त—१०.
 प्रवीर—मनस्यु—अभयद—सुधन्वनधुन्व—१४. सुदुम्न—बहुगव—
 १६. संयाति—अहंयाति—१८. रौद्राश्व—ऋचेयु—मतिनार—२१.
 तंसु (अनिल या सुरोध) २२. दुष्यन्त—भरत—विदथिन भरद्वाज—
 वितथ—२७. अभुवमन्यु—२८. बृहत्क्षत्र—२९. सुहोत्र—हस्तिन—
 अजमीद—३२. ऋक्ष—३३—चित्ररथ—जहनु—३५. सुरथ—
 ३६. विदुरथ—३७. संवर्ण—३८. कुरु—३९. सार्व भौम (ऋक्ष
 छोटा भाई)—जयत्सेन—अपराचीन आराधि—४२. महाभौम—अयुता-
 नाइन—४४. अक्रोधन—देवातिथि ऋक्ष—भीमसेन—४७. दिलीप-
 प्रतिमुत्वन—प्रतोप—४९. अरिष्टशेण—शंतनु या शान्तनु (देवापि और
 बाह्लोक बड़े भाई)—विचित्रवीर्य (भीष्म तथा चित्रांगद बड़े भाई)
 पांडु (धृतराष्ट्र बड़े भाई)—५३ अर्जुन (युधिष्ठिर बड़े भाई व राजा)—
 अभिमन्यु—परीक्षित ५६. जनमेजय (दूसरे)—५७. शतानीक (प्रथम)—
 (भाई चन्द्रापीड—तत्पुत्र श्वेतकर्ण, तत्पुत्र अजयाश्व)—अश्वमेधदत्त-
 अधिसीम कृष्ण—६०. निचलु (विवलु भाई)—उष्ण (उक्त भाई)—
 चित्ररथ—शुचिरथ—६४. वृष्णिवन्त—सुषेण—सुनोथ—६७. नृचलु—
 सुखीदल—६९. परिप्लुत—सुनय—७१. मेधाविन—७२. नृपंजय—
 ७३. निग्म—बृहद्रथ—वसुदामन—शतानीक (दूसरे)—७७. उद्यन
 (५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे)—वहीनर (नर वाहन, बांधि भाई)—
 ७९. दंडपाणि—निर मित्र—८१. क्षेमक। अरिष्टशेण वैदिक साहित्य
 में देवापी के पिता लिखे हैं, पुराणों में नहीं। किसी किसी का मत है

कि वे देवापी के गुरु अथवा ब्राह्मण दत्तक पिता मात्र थे, शान्तुन के भी पिता नहीं।

परीक्षित से उदय तक २२ पीढ़ियाँ हैं = ६१६ वर्ष (२८ वर्ष प्रति पीढ़ी के हिसाब से)। परीक्षित से ३६ वर्ष पूर्व भारत युद्ध हुआ। उदयन ५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे। इस प्रकार भारत युद्ध का समय प्रधान के अनुसार $५०० + ६१६ + ३६ = ११५२$ बी० सी० आता है। नं० ३७. संवर्ण, नं० ३२. ऋक्ष के पुत्र कहे गए हैं, किन्तु, नं० ४०. उत्तर पांचाल नरेश सुदास से हारते हैं। इसलिए उनका स्थान ३७ पर समझ पड़ता है।

वंश नं० ३. (अ) विदर्भ का द्विमीढ़ वंश

(वंश नं० ३ का नं० ३०) हस्तिन—द्विमीढ़—यवीनर—(३३ से ३९ तक अज्ञात नाम)—४०. धृतिमन्त—सत्यधृति—दृढ़नेमि—सुधर्मा (या सुवर्मेन)—सार्वभौम—४५. महन्तपौर—रुक्मरथ—सुपार्श्व—सुमति—सन्ततिमन्त—५०. सनति—कृत—उग्रायुध—क्षेम्य—सुवीर—५५. नृपंजय—५६. बहुरथ।

इस वंश में ७ नामों की जगह बढ़ानी पड़ी है। इसका नं० ५२ उग्रायुध चन्द्रवंश के नं० ५१ भीष्म से लड़ कर मारा गया। उसी ने उत्तर पांचाल के नं० ५० पृषत् को तथा दक्षिण पांचाल के नं० ५४ जनमेजय को हराया था। इसी लिए उसका भी नं० इन्हीं तीनों के प्रायः बराबर होना चाहिए। पुराणों में मुख्यवंश तो पूर्ण हैं, किन्तु अमुख्यों की बहुतेरी पीढ़ियाँ छूट भी रही हैं। इसलिए अज्ञात नाम की पीढ़ियाँ बढ़ा कर समकालीनों की पीढ़ियाँ मिलानी पड़ती हैं।

वंश नं० ३ (आ) उत्तर पांचाल का वैदिक सुदासवंश।

(वंश नं० ३ का नं० ३०) हस्तिन—अजमीढ़—सुशान्ति—पुरुजानु—३४. ऋक्ष (वृक्ष)—भरत (भृम्यश्व भाई)—देववात—सृंजय (चयमान भाई। इनके पुत्र अभ्यावर्तिन चायमान थे)—३८. सहदेव (प्रस्तोक, पिजवन भाई। पिजवन के पुत्र प्रसिद्ध राजा सुदास थे)—३९. सोमक—अर्कदन्त (४१ से ४७ तक प्रधान के अनुसार

अज्ञात नाम) — ४८. दुष्टरीतु — ४९. पृषत् — ५०. द्रुपद — ५१. धृष्टद्युम्न — ५२. धृष्टकेतु। हरिवंश में लिखा है कि मुद्गल, सृजय, बृहस्पि, क्रिमिलाश्व और जयीनर का बसाया हुआ देश पांचाल कहलाया। इस काल इस वंश में राजबल मुद्गल, काम्पिल्य, दिवोदास, प्रस्तोक और सहदेव में बटा हुआ समझ पड़ता है। सुदास के पिता पिजवन थे और सुदास का दिवोदास से इतना मेल था कि दूर के चचा हो कर भी दिवोदास वेद में सुदास के पिता कहे गए हैं। यादव नं० ४४ भजमान को उत्तर पांचाल नं० ३७ संजय की दो पुत्रियां ब्याही थीं। भजमान के पितामह सत्वन्त राम के समकालीन थे। इससे भी सुदास का समय राम के निकट आता है। भजमान के विवाहों के प्रमाण यादववंश के कथन में हैं। उपरोक्त नं० ३४ ऋत्त के पुत्र भृम्यश्व के पुत्र मुद्गल और काम्पिल्य थे। मुद्गल को निषधनाथ प्रसिद्ध नल की बेटी इन्द्रसेना नलायनी ब्याही थीं। मुद्गल अच्छे युद्धकर्ता तथा वेदवि थे। इनके बेटे वेद में ख्यात वधप्रश्व के पुत्र दिवादास थे, तथा कन्या शरद्वन्त गौतम की स्त्री अहल्या। राम ने अहल्या को पुनीत किया, तथा उनके पिता दशरथ ने शम्बर को जीतने में दिवादास की सहायता की। वेद में सुदास, पिजवन और दिवोदास दोनों के पुत्र लिखे हैं। सम्भवतः दिवादास ने इन्हें गोद लिया हो, या काका होने के कारण वे पिता लिखे हों। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध पौरव भीष्म ने अपने ताऊ बालहीक को पिता कहा था। दिवादास के पुत्र थे मित्रयुस, पौत्र सोम, और प्रपौत्र मैत्रयस। वाजिनंथ भरद्वाज वैदिक ऋषि थे। उनके मंत्रों में आया है कि दिवादास प्रस्तोक तथा अभ्यावर्तिन चायमान ने उनका मान किया। दशरथ उनके समकालीन थे। अभ्यावर्तिन चायमान के पुत्र थे। भरद्वाज के बेटे थे पायु और शुनहोत्र। प्रसिद्ध वैदिक ऋषि गृत्समद शुनहोत्रात्मज थे। अहल्या के पुत्र शतानन्द, सीरध्वज जनक के पुराहित थे। हरिवंश सत्यधृति का शतानन्दात्मज बतलाता है। द्रोण की स्त्री कृपी और साले कृपाचार्य सत्यधृति के वंशधर थे। हरिवंश में यह सत्यधृति की पुत्री और पुत्र ही कहे गए हैं, किन्तु पुश्यों का बीच पड़ता है, सो वास्तव में थे दूर के वंशधर। द्रोणाचार्य से उत्तर द्वार कर द्रुपद उत्तर से दक्षिण पांचाल मात्र के राजा रह

गए, तथा उत्तर पांचाल के शासक द्रोणाचार्य और फिर अश्वत्थामा हुए। बौद्ध ग्रन्थ मंजु श्री मूलकल्प में अश्वत्थामा प्रसिद्ध मन्त्री लिखे हैं।

वंश नं० ३ (इ) दक्षिण पांचाल वंश।

(वंश नं० ३ का नं० ३०) हस्तिन—अजमीढ—बृहद्वसु—बृहदिषु ३४. बृहद्वसु—बृहद्वर्मा (हरिवंश के अनुसार)—जयद्रथ—३७. विश्वजित—सेनजित—३९. रुचिराश्व—४०. पृथुषेण—पौरपार (प्रथम)—नीप—समर—पार (दूसरे)—४५. पृथु—सुकृति—विभ्राज—४८. अणूह (इनको किसी शुकदेव की कन्या व्याही थी)—ब्रह्मदत्त—५०. विश्वसेन—दृढसेन—(उदप्रसेन)—भल्लाट—५३. जनमेजय। इनके पीछे दक्षिण पांचाल में द्रुपद का राज्य हुआ। पहले दोनों पांचाल द्रुपद के हुए, किन्तु द्राण से हारने पर केवल दक्षिण पांचाल द्रुपद के पास रहा। प्रधान में इसकी कुछ पीढ़ियाँ निम्नानुसार हैं:—बृहद्वसु—बृहन्त—बृहन्मनस—बृहद्वसु—बृहद्वसुहसु—बृहत्कर्मन—जयद्रथ।

वंश नं० ३ (ई) मागध शाखा।

(वंश नं० ३ का नं० ३८) कुरु—सुधन्वन (प्रथम। चित्ररथ भाई। हरिवंश में सुधन्वन कुरु के पुत्र लिखे हैं किन्तु प्रधान उन्हें चित्ररथ का पुत्र कहते हैं)—४०. सुहोत्र—४१. च्यवन—कृतयज्ञ—४३. उपरिचरवसु—४४. बृहद्रथ—कुशाम्न—वृषभ (या ऋषभ)—पुष्पवन्त—सत्यहित (या सत्यधृति)—४९. सुधन्वन (दूसरे)—उर्ज—सम्भव—५२. जरासन्ध—सहदेव—५४. सोमाधि—श्रुत श्रवस—अयुतायुस—निरमित्र—सुचेत्र—५९. बृहत्कर्म—सेनजित—श्रुतजय—महाबाहु (बिभु, विप्रभाई)—शुचि—६४. क्षेम—भूव्रत—(अनुव्रत, सुव्रतभाई)—६६. धर्मनेत्र (सुनेत्र भाई)—विवृति (नृपति भाई)—सुव्रत—(सुश्रय, सम, तृनेत्र भाई)—६९. दृढसेन (द्युमत्सेन भाई)—महीनेत्र (सुमति भाई)—सुचल (अचल भाई)—सुनेत्र—७३. सत्यजित—विश्वजित (५८८ बी० सी० में गद्दी पर बैठे)—७५. रिपुञ्जय (५६३ बी० सी० में गद्दी

पर बैठे, तथा ५१३ बी० सी० में अपने मन्त्री पुणिक द्वारा मारे गए)।

प्रधान के अनुसार सोमाधि नं० ५४ से रिपुञ्जय नं० ७५ तक २२ पीढ़ियों का भोगकाल $२८ \times २२ = ६१६$ वर्ष होता है। नं० ६० सेन-जित के समय वायु पुराण सुना कर कहा गया कि १६ भविष्यत् बार्हद्रथ राजे होंगे। ये सेनजित (लववंशी नं० ५९) दिवाकर तथा (पुरुवंशी नं० ५९) अधिसीम कृष्ण के समकालीन थे। सोमाधि नं० ५४ से विश्वजित नं० ७४ तक २१ पीढ़ियाँ ($२१ \times २८ = ५८८$ वर्ष) हैं। इनका अन्त काल ५६३ बी० सी० में है, सो भारत युद्ध ५६३ + ५८८ = ११५१ बी० सी० में आता है। सोमाधि के पिता सहदेव उसी युद्ध में मारे गए थे। पुराणों में सोमाधि से रिपुञ्जय तक ६३८ वर्ष लिखे हैं। पौरव तथा मागध वंशों में प्रधान और पार्जितर में काफ़ी अन्तर है। यहाँ प्रधान माने गये हैं, क्योंकि इन्होंने कई पुराणों को मिला कर तथा दृढ़ विचार करके अपने कथन किए हैं। वे अभी तक अकाट्य हैं। इतिहास के लिए सौर, पौरव, और मागधवंश बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये महाभारत के पीछे भी कई पीढ़ियाँ तक चले हैं। महाभारत के समय पौरव नं० ५३ अर्जुन के समकालीन लववंशी नं० ५४ बृहद्बल, कुशवंशी नं० ५४ श्रुतायुस तथा मागधवंशी नं० ५३ सहदेव थे।

वंश नं ३ (उ) चेदिशाखा।

(वंश नं० ३ का नं० ३८) कुरु—सुधन्वन—४०. सुहोत्र—४१. क्रयबन—४२. कृतयज्ञ—चेदि—४४. वसुचैद्य—प्रत्यग्रह—(४६ से ५० तक अज्ञात नाम) ५१. दमघांष—५२. शिशुपाल—५३. धृष्टकेतु। मागधवंशी नं० ४३ उपरिचर वसु ने चौद नं० ४४ की सहायता से मागध जीत कर राज्य प्राप्त किया। शिशुपाल चैद्य से तीन ही पीढ़ी नीचे लिखे हैं, यद्यपि वे पौरव नं० ५३ अर्जुन तथा मागध नं० ५३ सहदेव के समकालीन थे। इससे जान पड़ता है कि चेदिवंश की प्रायः पाँच पीढ़ियाँ पुराणों से छूट गई हैं। नैषधनल के चैद्य सुबाहु समकालीन थे। वे दमयन्ती के मौसिया थे

(वनपर्व)। इनका नाम ही उपरोक्त वंशावली में न होकर उसका अधूरापन प्रकट करता है।

वंश नं० ३ (ऊ) काशी शाखा।

(वंश नं० ३ का नं० २४) भरत—विदधिनभरद्वाज, २६—वितथ—सुहोत्र—काशिक—काशेय—३०. दीर्घतमा—धन्वन्तरि—केतुमान (प्रथम)—भीमरथ—३४. दिवांदास (प्रथम) (अष्टारथ, भाई)—३५. हर्यश्व—सुरेश्व—दिवांदास (दूसरे)—प्रतर्दन—वत्स (अन्यनाम ऋतध्वजक्षत्रपी या कुवल्याश्व)—४०. अलर्क—सन्तति—सुनीथ—क्षेम्य—केतुमान (दूसरे) ४५. सुकेतु—धर्मकेतु—सत्यकेतु—विभु (सुविभु) आनत—५०. सुकुमार—धृष्टकेतु—वेणहांत्र—५३. भग—अजातशत्रु—भद्रमेन—५५. दिवांदास (राक्षसों के नाशक लिखे हुये हैं, हरिवंश में)। प्रतर्दन ने भद्रशेण्यवंश का नाश किया। उपयुक्त वंश हरिवंश में कथित है। अन्य पुराणों तथा हरिवंश में भी यही वंश दूसरे प्रकार से भी लिखा है। वहाँ सुहोत्र उपनाम सुनहोत्र के पिता क्षत्रवृद्ध और पितामह नहुष लिखे हैं। इस प्रकार जोड़ने से अलर्क मनु से केवल बीसवीं पीढ़ी पर पड़ते हैं, यद्यपि वे ३९वीं पीढ़ी वाले राम के समकालीन थे। अतएव पहले लिखा हुआ वंश ही मान्य है।

वंश नं० ३ (ए) कान्यकुब्ज शाखा।

वंश नं० ३ ऊ, का (नं० २७) सुहोत्र—अजमीद—३०. जहनु—अजक—(सिन्धुद्वीप म० भा० शान्ति पर्व) बलाकाश्व—वल्लभ (म० भा० शान्तिपर्व)—कुशिक—गाधि—३५. विश्वामित्र—अष्टक—३७. लौहि।

उपरोक्त वंशावली हरिवंश में है। यही कुछ अन्य पुराणों में निम्नानुसार है:—

वंश नं० ३ का नं० ३. पुरुरवस—अमावसु—५. भीम—कांचन-प्रभ—सुहोत्र—जहनु—सुनह—१०. अजक—बलाकाश्व—कुश—कुशाश्व—कुशिक—१५. गाधि—विश्वामित्र—अष्टक—१८. लौहि।

पुराणों में उपर्युक्त काशी वंश में कथित दूसरी वंशावली के आधार पर विश्वामित्र का नं० १६ आता है। उत्तर पांचाल के (नं० ३९) सुदास के पुरोहित विश्वामित्र, ऋग्वेद के अनुसार थे। अतएव विश्वामित्र का नं० १६ बिलकुल गड़बड़ बैठता है, अथच, ३५ ठीक आता है। इस प्रकार पहली वंशावली यहाँ भी ठीक उतरती है, और दूसरी अशुद्ध। शान्ति पर्व दान धर्म म० भा० में यही शुद्ध वंशावली अजमीढ़ से विश्वामित्र तक है। इसमें केवल एक पीढ़ी अधिक है, अर्थात् कुशिक के पिता वल्लभ हैं, और पितामह बलाकाश्व। विश्वामित्र वशिष्ठ से लड़कर राज छोड़ ब्राह्मण होगए। उनके पौत्र लौहि का राज्य हैहयों द्वारा छिन कर कान्यकुब्ज राज्य उस काल गिर गया। ब्राह्मण होकर विश्वामित्र ने वेद का तीसरा मण्डल गाया। उसमें गाधि की भी ऋचाये हैं। कुशिक की ऋचाएँ दशवे मण्डल में हैं। शुनःशेष थे तो विश्वामित्र के भागिनेय, किन्तु राजा हरिश्चन्द्र की नरबलि से उसे बचा कर आपने पुत्रत्व में ले लिया। भागिनेय जमदग्नि भी आपको परम प्रिय थे। इन दोनों का जन्म भी प्रायः साथ ही हुआ। प्रसिद्ध परशुराम इन्हीं जमदग्नि के पुत्र होने से, थे तो विश्वामित्र से दो पीढ़ी नीचे, किन्तु आयु के विचार से केवल एक पीढ़ी नीचे थे। इन्हीं ने हैह्यराज अर्जुन को मारा।

विश्वामित्र के मुख्य ब्राह्मण पुत्रों में मधुच्छन्दस वेदर्षि, कतियाकत, ऋषभ, रेणु, गालव, शुनःशेष (देवराट) के नाम हैं। कुछ बड़े पुत्रों ने शुनःशेष के पुत्रत्व को न माना, जिससे विश्वामित्र ने उन पुत्रों को छोड़ दिया। विश्वामित्र वंशियों में निम्न गोत्र हैं:—

वभ्रु, देवराट, गालव, हिरण्याक्ष, जाबाल, करीश या कौशिक, लोहित, मधुच्छन्दस, कात्यायन, पाणिनि, सैन्धवायन, शालंगायन, सुश्रुत, तारकायण और याज्ञवल्क्य। वशिष्ठ में भी एक याज्ञवल्क्य गोत्र है। याज्ञवल्क्य वैशम्पायन के भागिनेय और शिष्य थे। महाभारत शान्ति पर्व दान धर्म में विश्वामित्र के उपर्युक्त संतानों का कथन है। ये वंश मत्स्य पुराण में भी कथित हैं। निरुक्त, ऐतरेय तथा पंचत्रिंश ब्रह्मणों द्वारा वेदर्षि विश्वामित्र का आदिम राजत्व प्रमाणित है। इन्होंने देवराज वशिष्ठ को जीत कर सत्यव्रत त्रिशंकु को गद्दी दिलाई।

(वायु पु ० ८८, ७८—११६, हरिवंश १२, ७१७ से १३, ७५३ तक विष्णुपुराण, IV ३, १३, १४, भागवत IX ७, ५-६; म० भा० XIII १३७, ६२५७)

वंश नं० ३ (ऐ) यदुवंश माथुर शाखा ।

मनुवैवस्वत—इला—पुरुवस—आयु—५. नहुष—ययाति—७. यदु—क्रोष्ट,—वृजिनीवन्त—१०. स्वाहि—रुषगदु—चित्ररथ—पृथुश्रवस—अन्तर (तम)—१५. सुयज्ञ—उशनस—काशिनेयु—मरुत—कम्बल वर्हिष—२०. शशिबिन्दु—रुक्म कवच—परावृत—ज्यामत—विदर्भ २५. क्रथभीम—कुन्ति—धृष्ट—निर्वृति—विदूरथ—३०. दशाह—व्योमन—जीमूत—विकृति—भीमरथ—३५. दशरथ (रथवर या एका-दशरथ) शकुनि—करम्भ—देवराट—देवक्षत्र (या देवन)—मधु—४०. पुरुद्वन्त (या पुरवश)—जन्तु (या अंशु)—४२. सत्वन्त, ४३. भीम सात्वत—अंधक (भाई भजमान, देववृद्ध तत्पुत्र बभ्रु)—४५. कुकुर—वृष्णि—कपोत रोमन—रेवत (विलोमन या तित्तिरि)—भवरैवत—५०. अज्ञात नाम (प्रधान के अनुसार)—पुनर्वसु—आहुक—उग्रसेन (देवक भाई, देवकी भतीजी)—कंस—५५ श्रीकृष्ण (भागिनेय) ।

उपर्युक्त नं० ५२ आहुक के समकालीन देवमीदस थे, जो नं० ४६ वृष्णि से इतर किसी वृष्णि के वंशज थे । इनके पुत्र सूर, पौत्र बसु-देव, और प्रपौत्र नं० ५५ श्रीकृष्ण थे । इनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्र नं० ५८ थे । श्रीकृष्ण ५५ पौरव नं० ५३ अर्जुन के समकालीन और साले थे । अन्धक के भाई भजमान ने उत्तर पाँचाल नरेश संजय की दो कन्याओं के साथ विवाह किया । (वायु पु ० ९६, ३, हरिवं० ३८, २०००१, मत्स्य ४४, ४९, पद्मपथ १३७३३)

वंश नं० २ (ओ) यदुवंशी हैहय का माहिष्मती वंश

दक्षिण मालवा में ।

(वंश नं० ३ ऐ का नं० ७) यदु—सहस्रजित—९. शतजित—(१० से २४ तक अज्ञात नाम)—२५. हैहय—२६. धर्मनेत्र—कुन्ति—

२८. साहंज—महिष्यमन्त—३०. भद्रश्रेय—दुर्दम—कनक—३३. कृतवीर्य—३४. अजुन—जयध्वज—३६. तालजंघ—३७. बीतिहोत्र (या बीतिहृदय)—अनन्त—दुर्जय—४०. सुप्रतीक। प्रतर्दन और सगर ने हैहय वंश को नष्ट किया, और वह राज्यच्युत हो गया। सुप्रतीक के पीछे इस वंश का पता न रहा। इस काल दो हैहय वंश थे। वे दोनों गिर गए।

वंश नं० ३ (औ) की वैदर्भ चेदि शाखा।

(वंश नं० ३ ए का नं० २४) विदर्भ—२५. कथ कैशिक—चिदि—वीरबाहु—२८. सुबाहु। इस वंश में केवल मुख्य नाम हैं, सब नहीं। शेष का पता नहीं है।

वंश नं० ३ (क) तुर्वश का मरुत वंश (उत्तरी बिहार)।

(यादववंश ३ ए का नं० ६) ययाति—तुर्वश (या तुर्वसु)—वन्धि—गर्भ—१०. गोभानु — (११ से १९ तक अज्ञात नाम) २०. तृसानु—करन्धम—२२. मरुत्त—२३. दुष्यन्त।

राजा मरुत्त बड़े प्रसिद्ध यज्ञकर्त्ता थे। बृहस्पति के भाई संवर्त ने इन्हें यज्ञ कराया। पुत्र के अभाव में आप ने पौरववंशी दुष्यन्त को गोद लिया। यह पौरव वंश प्रायः नं० २१ तंशु के समय मान्धाता द्वारा राज्यच्युत किया गया था। पीछे से उत्तरी बिहार का राज्य पाकर दुष्यन्त ने अपना पौरव राज्य फिर से प्राप्त किया। इसी से पौरव कुल में आप वंशकर कहलाये। यद्यपि दुष्यन्त गोद से तुर्वश वंशी होगए थे, तथापि इनका वंश कहलाया पौरव ही। किसी विश्वामित्र की मेनका अप्सरा से उत्पन्न पुत्री शकुन्तला से आपको भरतपुत्र प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध कौशिक विश्वामित्र इन्हीं भरत के वंशधर थे। प्रसिद्ध ऋषि गौतम दीर्घतमस ने भरत का ऐन्द्र महाभिषेक किया। दीर्घतमस आनव नरेश बलि के भी समकालीन थे।

वंश नं० ३ (ख) द्रुह्यु वंश, पंजाबी नरेश।

(यादव वंश ३ ए का नं० ६) ययाति—द्रुह्यु—वभ्रु (नं० ९ से नं० १९ तक अज्ञात नाम)—सेतु—२१. अंगार—अरुद्ध—गान्धार—धर्मघृत—दुर्दम—२६. प्रचेतस—२७. सुचेतस।

नं० २१ अंगार से सूर्यवंशी, नं० २१, मान्धाता का युद्ध हुआ ।
(ह० वं० ३२, १८३७, ८, म० भा० १२६, १०४६५)

वंश नं० ३ (ग) आनव वंश आंग शाखा ।

(यादव वंश ३ ए का नं० ६) ययाति—अनु—सभानर—काला
नल—१०, सृजय—(११ से १७ तक अज्ञात नाम) १८. पुरञ्जय—
जनमेजय—महाशाल—महामनस—२२. तितिह—उशद्रथ—हेम (फेन)
सुतपस—२५. बलि—२६. अंग—दधिवाहन—२८. दिविरथ—(२९ से
३५ तक अज्ञात नाम)—३६. धर्मरथ—चित्ररथ—सत्यरथ—३९.
लोमपाद—चतुरंग—पृथुनाक्ष—४२. चम्प—हर्यंग—४४. भद्ररथ—
बृहत्कर्मन—बृहद्रथ—(बृहद्रथ के भाई थे बृहत्कर्मन तथा बृहद्भानु)—
बृहन्मनस (बृहद्रथ के पुत्र) ४८. जयद्रथ (विजय भाई)—दृढरथ—५०.
विश्वजित—अंग—५२. कर्ण—वृषसेन—५४. पृथुसेन ।

दूसरा वंश ।

उपयुक्त नं० ४७ बृहन्मनस—विजय—धृति—धृतिव्रत—५१.
सत्यकर्मन—अधिरथ—५३. कर्ण—वृषसेन—५५. पृथुसेन ।

समझ पड़ता है कि कर्ण अधिरथ और अंग दानों के द्वैमुद्यायन
पुत्र थे । वे वास्तव में कुन्ती से सूर्य नामक किसी व्यक्ति द्वारा कानीन
पुत्र हुये थे । फिर अधिरथ द्वारा पाले जाकर उसके पालित पुत्र हुए ।
माता का नाम राधा हाने से आप राधेय भी कहलाते थे । इस वंश
के किसी पूर्व पुरुष ने एक ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था जिससे
अनुलोमपन के कारण वंश सूत हो गया । जान पड़ता है कि जब कर्ण
ने जरासन्ध को जीत कर खाया हुआ अंग राज्य फिर से प्राप्त
किया, तब अंग ने भी इन्हें अपना पुत्र मान लिया ।

वंश नं० ३ (घ) आनव कुल (उत्तर पश्चिमी शाखा)

(वंश नं० ३ ग का नं० २१) महामनस— २२. उसीनर—२३.
शिबि (नृगभाई)—(नं० २४ से ३६ तक) अज्ञात नाम—३७. कैकेय
(कैकेयी कन्या सूर्यवंश नं० ३८. दशरथ को ब्याही गई) युधाजित
(कैकेयी के भाई थे) ।

इसके पीछे यह वंश शत्रुओं द्वारा नष्ट हो गया और इनका राज्य राम के भाई भरत के दोनों पुत्रों पुष्कर और तक्ष ने पाया। तक्ष का राज्य तक्षशिला में हुआ और पुष्कर का पुष्करावती में। इनके वंशधर उधर ही के क्षत्रियों में मिल गए; अथवा शायद राज्य खो बैठे। (वायु पु० ८८, १८९—९०, विष्णु पुराण ४, ४७, पद्म २७१, १०, अग्नि, ११, ७, ८, रघुवंश ८८—८९)। दोनों आनव शाखाओं में जो अज्ञात नाम की पीढ़ियाँ जोड़नी पड़ी हैं, वे समसामयिक अन्य नामों के कारण। केकय राजा दशरथ के समुर थे, तथा लोमपाद इन्हीं दशरथ के मित्र थे। बलि की स्त्री में उन्हीं की आज्ञा से दीर्घतमस ने पुत्र उत्पन्न किए। अनन्तर उन्हीं दीर्घतमस ने पौरव वंशी नं० २४ भरत को यज्ञ कराया। ये कथन म० भा० और रामायण पर आधारित हैं।

अब कुछ ऋषियों के भी वंश वृत्त दिए जाते हैं। प्राचीन भारत में राजा के पीछे पुरोहित का ही दर्जा होता था। इन वंशों से भी कुछ राजाओं के समय सिद्ध होते हैं।

वंश नं० ४ कान्यकुब्ज का विश्वामित्र वंश।

१. गाथिन (गाधि)—विश्वामित्र—सामकाश्व—(देवराट मधुच्छन्दस भाई) व्यश्व—५. विश्वमनस—उद्दालक—सुम्नुषु—बृहदिव—९. नाम अज्ञात—१०. प्रतिवेश्य—सौम प्रतिवेश्य—अज्ञात—१३. सौमाप्य—प्रियव्रत सौमपि—१५. अज्ञात—उद्दालक आरुणि—कहोड़—कौशी-तकि—गुणाख्य शांखायन—२०. शांखायन आरण्यक के कर्ता। ऋषि इमावर्त के पुत्र प्रतिदर्श थे। ये विश्वामित्र के समकालीन थे।

वंश नं० ४ (अ) काश्यप वंश।

१. विभाण्डक काश्यप—ऋष्य शृङ्ग काश्यप (राम के बहनोई) मित्रभुकाश्यप (ये ऋष्य शृङ्ग के समकालीन थे)—इन्द्रभुकाश्यप—अग्निभुकाश्यप—५. शावस देवतरस—शावसयन—प्रतिथि देव-तरस—निकेथक भायजात्य—वृषशुष्म वातावत जातुकर्ण्य—१०. इन्द्रोत दैवापशौनक—धृति इन्द्रोत शौनक—पुलुष प्राचीन योग्य—

१३. सत्ययज्ञ पौलुषि । यह शाखा वंश ब्राह्मण में कथित है । शतपथ ब्रा० के अनुसार इन्द्रोत्तशौनक ने जनमेजय को यज्ञ कराया । ऋष्य शृंग राम के बहनोई थे ।

वंश नं० ४ (आ) वेदव्यास का वंश

१. पराशर (दूसरे)—वेदव्यास (कृष्ण द्वैपायन)—शुक—जैमिनि—सुमन्तु—सुत्वन् (कबन्ध भाई, तत्पुत्र पथ्य और वेददर्श । अन्तिम के पुत्र मौग्द और प्रश्नोपनिषत् के पिप्पलाद ऋषि) सुकर्म्मन् (सुत्वन् के पुत्र) पौष्यंजि (हिरण्य नाभ भाई) लौगाच्छि (कुथुमि, कुसी दिन, लांगलि भाई) पराशर (तीसरे भावित्ति भाई) पागाशर्य कौथुभ—प्राचीनयोग्य (पतंजलि प्रथम, आसुरायण भाई) । उपर्युक्त सुकर्मन्, हिरण्यनाभ—याज्ञवल्क्य (प्रोत्तिकौसुर, विन्दि, अश्वल भाई), आसुरि, (त्रैवनि, औप जन्धिनि भाई) हिरण्यनाभ कौशल नरेश थे ।

वैशंपायन और उपमन्यु चन्द्रवंश ३ के नं० ५६ जनमेजय तथा उपरोक्त पिप्पलाद के समकालीन थे । प्राचीन शाल उपमन्यु के पुत्र थे, तथा याज्ञवल्क्य वैशंपायन के भागिनेय और शिष्य । सत्यकाम जाबाल जनमेजय के पौत्र अश्वमेध दत्त के समसामयिक थे । उपरोक्त नं० १६ पतंजलि के समकालीन यास्क थे, जिनके भाई पंचशिख थे । यास्क का वंश यों चलता है:— १६. यास्क—जातूकर्ण्य—पाराशर्य—बादरायण—२०. तांडि (शाट्यापति भाई) ।

ये वंश लिखने में प्रधान ने पराशर के पितामह शक्ति और वशिष्ठ को नहीं लिखा है । प्रधान ने जिस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और पौत्र पराशर कहे हैं, उन्हें दक्षिण कोशल नरेश सुदास का समकालीन माना है ।

वंश नं० ४ (इ) नवीन भार्गव वंश ।

वीत हव्य (या वीति होत्र हैहयवंशी नं० ३७) गृत्समद (वेद के दूसरे मण्डल के ऋषि)—सवेतस—४०. वर्चस सावेतस—विहव्य—वितस्त्य (वितस्त्य भाई)—सत्य—शिवस्त—सन्तस—४५, श्रवस—

तमस—प्रकाश—वाग्निन्—प्रमति—५०. रुद्र—शुनक—देवापि शौनक
—इन्द्रोत दैवापि शौनक ५४. धृति ऐन्द्रोत दैवापि शौनक ।

वंश नं० ४ (ई) उद्दालक आरुणिवंश ।

१. तुरकावधेय—यज्ञवल्क्यसराजस्तम्बायन—कुश्रि (वाजश्रवस के पुत्र) —उपवेश अरुण आपन्शी—५. उद्दालक, आरुणि (शिष्यपुत्र, वेद-भाई) शिष्य याज्ञवल्क्य विजयसेन (शिष्य तथा पुत्र) गुरुकावशेष पौरव वंश नं० ५६ जनमेजय के समय में थे । ऐतरेय पुराण में आया है कि इन्हीं तुरकावशेष से जनमेजय ने महाभिषेक पाया ।

वंश नं० ४ (उ) अष्टावक्र का वंश ।

१. अम्भण—वाक—कश्यपैनधुवि—शिल्पकश्यप—५. हरि कश्यप—असितवर्ष गण—जिह्वावन्त वाध्योग—वाजश्रवस कश्ट वाजश्रवस—उपवेश—१०. अरुण—कुशीतक [उद्दालक, ब्रह्मराट, श्वेतकेतु याज्ञवल्क्य अश्वतराश्व भाई] कहाड़ १३. अष्टावक्र ।

बुद्धिल

वंश नं० ४ (ऊ) पैल और भारद्वाज वंश ।

१. वेदव्यास पैल—इन्द्रप्रभति (वात्सकल भाई) माण्डूकेय (शूरवीर) —सत्यश्रवस—५. सत्यहित—सत्यश्री—शाकल्य (रथीतर शाकपुणि भाई) ८. सुकेश—भारद्वाज (कात्स आश्वलायन भाई) ।

वंश नं० ४ (ए) माण्डव्य का वंश ।

वंश नं० ४ ई का ३ कुश्रिवाजश्रवस—शाण्डिल्य—५. वात्सुण—कामकलायण—माहिस्थि—कात्स—माण्डव्य १०. माण्डूकायनि—११. सांजीवीपुत्र ।

बृहद्दारण्यक में कथित उद्दालक आरुणि और याज्ञवल्क्य मैथिल सम्राट जनक के दरबार में थे । उद्दालक आरुणिवंश नं० ४ ई में नं०

५ है, तथा तुरकावशेय नं० १ है। अतएव जनक जनमेजय से पांच पीढ़ी नीचे थे।

वंश नं० ४ (ए) शिष्य गुरुवंश नकि पिता पुत्र।

१. अमात्य के शिष्य—पाथिन—वत्सनपात—विदर्भि—कौडिन्य—

५. गालव—कुमार—हारीत—कैसार्य—शांडिल्य—९. वात्स्य (वृह-
दारण्यक वाले)।

वंश नं० ४ (ऐ) शिष्य वंश।

वंश नं० ४ ई का नं० १, तुरकावशेय का शिष्य—यज्ञवचस—
कुश्रि—शांडिल्य—५. वत्स्य—वामकज्ञायण—माहिथि—कौत्स—
९. मांडव्य।

ये उपर्युक्त ब्रह्मवंश प्रधान तथा पार्जितर के ग्रन्थों में साधार प्रमाण से कहे गये हैं।

वंश नं० ५ दैत्य वंश।

१. मरीचि (ब्रह्मा के मानसिक पुत्र)—कश्यप—हिरण्य कशिपु
(हिरण्याक्ष, वज्रांग, अन्धक भाई)—प्रह्लाद (अनुह्लाद, ह्लाद, संह्लाद
भाई)—५. विरांचन—बलि—बाण।

हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनि, भूत संतापन, महानाभि, महाबाहु, कालनाभ, ये पुत्र हुये। वज्रांग का पुत्र तारक था। उपर्युक्त वंश कश्यप की स्त्री दिति का है। इन सबकी दैत्य संज्ञा है। कश्यप की अन्य स्त्री दनु थी, जिसके वंश की दानव संज्ञा है। दनु के शम्बर, शंकर, एक-चक्र, महाबाहु, तारक, वृषपर्वा, पुलोमा, विप्रचित्ति आदि पुत्र हुये। वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से राजा ययाति के पुरुनाम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलोमा और कालिका नाम्नी कन्यायें दनु के वंश में थीं, जिनके वंशज प्रसिद्ध दानव पौलोम और कालिकेय कहलाये। दिति की पुत्री सिंहिका विप्रचित्ति को व्याही थी। इन दोनों के पुत्रों के नाम शल्य, बातापी, नमुचि, इल्वल, नरक, कालनाभ, चक्रयोधी आदि थे। प्रसिद्ध दैत्य निवत कवच तपस्वा थे। ये संह्लाद के वंश में हुये। ये सब चालुष मन्वन्तर में थे (वि० पु०)। यहाँ जा पुत्र कहे गये हैं वे कभी कभी दूर के भी वंशधर हैं।

वंश नं० ६ ।

शुनक—प्रद्योतन—पालक—विशाखयूप—जनक—नन्दि-वर्द्धन ।
पुराणानुसार इन लोगों ने १३८ वर्ष मगध में वंश नम्बर (३ ई) के पीछे राज्य किया ।

वंश नं० ७ ।

शिशुनाग—काकवर्ण—क्षेमधर्म्म—क्षत्रोज—बिन्दुसार—अजात
शत्रु—दर्भक—उदयन—नन्दि-वर्द्धन—महानन्दी । इन लोगों का राज्य
मगध में वंश नम्बर ६ के पीछे हुआ । विष्णु पुराण इनका राजत्व
काल ६६२ वर्ष कहता है, किन्तु यह काल उचित से अधिक है जैसा
कि आगे विदित होगा ।

वंश नं० ८ ।

महापद्म (यह राजा शूद्रा से उत्पन्न था)—सुमाली (७ भाई) ।
इन लोगों ने वंश नम्बर ७ के पीछे मगध में राज्य किया । विष्णु
पुराण इनका राजत्व काल १०० वर्ष मानता है ।

इन सब राजवंशों और नामों का व्योरा चाहे कुछ पाठकों को
फीका लगे पर विचारने से इसमें बहुत सी जानने योग्य बातें
मिलेंगी ।

पांचवां अध्याय

वेद पूर्व का भारत ।

समय १९०० बी० सी० से पूर्व ।

प्राचीन समय में इस विषय का विवरण प्रायः वैदिक आधारों पर ही दिया जाता था, किन्तु सन् १९२२ से २७ तक जो खांदाई मोहंजो दड़ो (सिन्ध) तथा हड़प्पा, पञ्जाब में हुई, उससे परम प्राचीन भारतीय सभ्यता की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है । उसके विषय में पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल सरजान मार्शल ने कई भागों में एक भारी ग्रन्थ बनाया है, जिसमें फोटो का प्रचुर प्रयोग हुआ है । उसी के आधार पर हम यहाँ कथन करेंगे । इसी विषय पर जनवरी सन् १९३५ में लखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिहासज्ञ श्रायुत डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने एक छोटा सा व्याख्यान भी दिया । पहले उसका सारांश कह कर हम सरजान के विचारों का विवरण देंगे ।

डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी के आधार पर कथन

शिकागो ओरियन्टल इन्स्टिट्यूट ने इराक में जाँच कराई तो प्रायः २५०० बी० सी० के एक अखद राजा की कुछ सामग्री बगदाद के निकट मिली । इसमें भारत से तत्काल कुछ मोहरें मिलीं जो मोहंजो-दड़ो के बीचवाले परतों में प्राप्त हुई मोहरों के समान थीं । इसमें सात तहें निकली थीं जिनमें से प्रत्येक नीचे वाली तह ऊपर वाली तह से सैकड़ों वर्ष पुरानी है । जब २५०० बी० सी० में प्राप्त मोहरें बीच की तहों में हैं, तब मुकर्जी महाशय का विचार है कि मोहंजो दड़ो की सब से नीचे वाली तह प्रायः ४००० बी० सी० के निकट की होगी । बगदाद की इन मोहरों में, सिन्ध (मोहंजो दड़ो) की लिखावट है तथा बैबिलोन में अप्राप्त भारतीय जानवर हाथी और गैंडे इनमें खुदे हैं । सभ्यता की दृष्टि से मोहंजोदड़ो के लोग बहुत बातों में संसार

सभ्यता में सर्व प्रथम थे। शहरों में रहना, शहर बनाना, पक्की ईंटें बनानी, पत्थर पर खोदाई और कारीगरी, गेहूँ और जौ की उत्पत्ति, ऊन एवं सूत कातना और बुनना, मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेज़ का काम करना, गाड़ी बनाना, लेख लिखना (जो अब तक पढ़ा नहीं गया है), दूर देशों में व्यापार आदि के ऐसे काम हैं जिन में वे संसार में प्रायः प्रथम थे। सोना, चाँदी, हीरा जवाहिरात आदि के अलंकार उनके पास थे। हाथी, गाय, ऊँट आदि पालते तथा चांते, गेंडे या बनैले सुअर का शिकार खेलते थे। उनके सोना, ताँबा, टीन और जवाहिरात कोलार, अनन्तपुर, फ़ारस, जैसलमेर, नीलगिरि, बदख़्शा, खुरासन, तुर्किस्तान, तिब्बत आदि से आते थे।

जानवरों के होने से उनके यहाँ जंगलों का होना सिद्ध है, जिससे जलवायु प्रकट है। मोहरों और समय से प्रकट है कि उनकी कारीगरी संसार में प्रथम थी। उन्होंने पत्थर और जस्ते में मनुष्य की मूर्तियाँ बनाईं। धर्म में वे आदिम मातृ देवी, शिव और शक्ति का पूजन करते थे। जानवर देवताओं के बाहन थे, तथा तरु पूजन भी चलता था। उनमें ध्यानमग्न शिव-मूर्तियाँ मिली हैं, तथा नासिका पर दृष्टि लगाये हुये ध्यान धारे योगियों की मूर्तियाँ हैं। इन बातों से इतने प्राचीन काल में ऐसे विचारों का अस्तित्व मिलता है।

सर जानमार्शल के ग्रन्थ के आधार पर।

उस काल सिन्ध देश की उपज बहुत बढ़िया थी, किन्तु आबहवा निकृष्ट। गर्मी Zero (शून्य) के नीचे से १२० तक होती थी। समय के साथ सिन्ध की आबहवा बहुत बदली है। चौदहवीं शताब्दी तक (अरबों के राज्यकाल में) सिन्ध में निहरान या हकरा और सिन्ध नाम की दो नदियाँ थीं, जिनमें पञ्जाबी नदियों का पानी बहता था। अनन्तर अकेली सिन्ध रह गई। इन नदियों के मार्ग प्रायः बदला किए हैं। यहाँ की लिपि दायें से बायें ओर चलती है। ब्राह्मी लिपि शायद इसी से निकली हो। इनमें पृथ्वी या सिंहवाहिनी मातृदेवी बहुत पाई जाती हैं। त्रिनेत्र शिव के तीन सर हैं। शायद इसी प्राचीन भाव से हिंदू त्रिमूर्ति का विचार निकला हो। त्रिशूल है। योग का विचार

भी पुराना था। शिव के निकट हाथी, चीता, गैंडा, और भैंसा हैं। नाग उनकी पूजा करते हैं, और वे दो मृग चर्मों पर बैठे हैं। पशुपति वे उस काल भी समझ पड़ते हैं। वहाँ लिंग और योनि के पूजन थे। सिन्ध और बलोचिस्तान में वर्तमान अरघों (जलेरियों) के समान लिंगयुक्त अर्घे मिले हैं। जानवरों का भी पूजन था। सींग देवत्व का चिन्ह था। आराम की सभ्यता में वे आर्यों से बढ़े हुये थे। भाषा उनकी अब तक पढ़ी नहीं गई है, सो उसमें लिखित विचार अज्ञात हैं। उनके सम्बन्ध का अब तक जो ज्ञान है, वह बन्तुओं मात्र से प्राप्त है। हिन्दुओं में पीछे से शिव, मातृदेवी, कृष्ण, नाग, जानवर, वृक्ष, पत्थर लिंग, योग, शक्ति, संसार भक्ति आदि के पूजन-विधान जो उठे, उनके मूल इनमें पाये जाते हैं। स्नान पर बड़ा खोर था। शायद यह धार्मिक हो। मोहजोदड़ों में शव प्रायः जलाए जाते थे; कुछ पूरे शव पाये भी गए हैं। इस सभ्यता का समय ३२५० बी० सी० से पुराना नहीं है और २७५० बी० सी० से नया भी नहीं। आजकल के पंडित इसे २८वीं शताब्दी बी० सी० मानते हैं। यहाँ ५९० मोहरें मिली हैं, जिन सब की तसवीरें ग्रन्थ में हैं। खियों का नाच, अच्छी मूर्तें, मिट्टी के बर्तन, कारीगरी, स्नानागार-प्राचुर्य आदि प्राप्त हैं। पूजनालय शायद न थे। बूड़ा का भय था। नदियों के पेंदे समय पर ऊँचे होगए। इमारतों में मकानात, खम्भोंदार हाल, छोटे-बड़े हम्माम और अनिश्चित कामों के कमरे मिले हैं। शायद ये अन्तिम मन्दिर या पूजनालय हों। ये लांग गेहूँ और जौ खाते थे। नंगी नर मूर्तें भी मिली हैं। कारीगरी अच्छी है। मोहजोदड़ों में जो मनुष्यों की पूरी हड्डियाँ मिली हैं, उन पर विद्वानों के विचार से जाना गया है कि वहाँ चार प्रकार के मनुष्य थे, अर्थात् प्रोटो आस्ट्रेलवायड, मेडिटरेनियन, आल्प्स शाखा के मंगोलियन तथा शुद्ध आल्प्स शाखा। पहली शाखा भारत की थी, दूसरी दक्षिणी एशिया से, तीसरी पाश्चात्य एशिया से, और चौथी प्राच्य एशिया से। यह सभ्यता वैदिक आर्यों से असम्बद्ध थी, किन्तु द्राविड़ों तथा सुमैरियनों का सम्बन्ध सोचा जाता है। मोहजोदड़ों में ताँबे के सिक्के भी हैं। कोई गोल खम्भा नहीं है, कुएँ हैं। बांट छेददार हैं। धातुओं के

छड़े, अँगूठी और सुइयाँ मिली हैं। मनुष्य की ऊँचाई ६१ से ६७ इंच तक थी। मार्शल साहब के ग्रन्थों में जो यहाँ के सैकड़ों चित्र हैं, उनके देखने से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। यहाँ की प्रचुर सामग्री जो शिमले में रक्खी थी, उसे भी हमने जाकर देखा। इस चित्रमय संसार से उस काल का जो परमोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त है, वह बहुत अनमोल है। वेदों की सभ्यता का चित्र हमारे सामने लेखों से आता है, और यहाँ का चित्रों द्वारा।

यारोपियन लेखकों का विचार है कि भारत में सबसे पहला आर्या-गमन २५०० बी० सी० के निकट हुआ। उनका दो धाराओं में आना लिखा है। उसका उत्कृष्ट विवरण मुख्यतया ऋग्वेद से प्राप्त है।

उस समय यहाँ कैसे मनुष्य रहते थे और उनकी सभ्यता तथा देश की दशा क्या थी, इन बातों को जानने के लिये सिवा उपयुक्त खोदाई तथा आर्य्य ग्रंथावलोकन के और कोई उपाय हम लोगों के पास नहीं है। आर्यों का प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद है जिसमें भारतीय आदिम निवासियों की अनास, भाषाहीन, और केवल चिल्लाने वाले कहा गया है। आदिम निवासियों में पिशाच जाति चिल्लाती बहुत थी। जिस समय में यह लिखा गया तब आर्यों का उनसे युद्ध होता था और इन दोनों जातियों में सामाजिक सम्बन्ध बिल्कुल स्थिर नहीं हुआ था। ऐसी दशा में आर्यों का उनकी भाषा को चिल्लाना मात्र कहना स्वाभाविक था। आदिम निवासियों ने आर्यों से जैसा प्रचंड संग्राम किया और अपनी जातीयता एवं स्वतंत्रता स्थापित रखने के जो-जो उपाय किये, उनके देखने से अनार्यों की सभ्यता बहुत ओछी नहीं मालूम पड़ती। उन लोगों ने भाषाहीन वनमानुषों की भाँति कभी व्यवहार नहीं किया, वरन् सैकड़ों वर्षों तक दल बाँध बाँध कर आर्यों से युद्ध किए और हर प्रकार से यथा साध्य इनकी गति रोकी। उनके कई बड़े बड़े नेता भी थे। इन बातों से प्रकट है कि उनमें भाषा अवश्य थी। मोहंजोदड़ो से भाषा और लिपि दोनों प्राप्त हैं किन्तु वे अभी पढ़ी नहीं जा सकी हैं। वर्तमान समय में ज्ञात आर्यों की प्राचीनतम भाषा आसुरी कहलाती है, जिसमें वेदों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे अनार्यों की भाषा पर यह आर्य्य भाषा अपना प्रभाव डालती गई,

यहाँ तक कि समय पर उसका एक रूप बन गया, जो अब पहली प्राकृत या पाली कहलाती है और जिसका वर्णन आगे आवेगा। भारत की जो दशा थी उसका अनुमान उपर्युक्त खोदाई तथा ऋग्वेद के कथनों से होता है।

भारत की स्थिति उस काल आज से बहुत ही भिन्न थी। नदियाँ, पहाड़ आदि तो प्रायः ऐसे ही थे, किन्तु ग्राम आदि बहुत कम थे और सारा देश प्रायः जंगल से भरा हुआ था। अनार्यों में खेती का प्रचार बहुत कम था। जिस काल आर्य लोग देश में बसने लगे, तब उन्हें जंगल जला कर खेती और निवास के लिये भूमि निकालनी पड़ी। जङ्गल की बहुतायत से समझ पड़ता है कि उन दिनों जङ्गली जीव अधिकता से होंगे। व्यापार इत्यादि की क्या दशा थी सो हम नहीं जान सकते। ऊन और खाल का चलन बहुतायत से था। अनार्य लोग धनुष बाण से शिकार खेलते और प्रायः जङ्गलों ही में रहते थे। मोहंजोदड़ो आदि बड़े बड़े नगर भी थे, किन्तु अधिकतर मनुष्य उस उच्च सभ्यता से असम्बद्ध होंगे। पहाड़ों पर उनके किलों का भी होना वेद में लिखा है, किन्तु यह निश्चय नहीं है कि इन लोगों ने आर्यों की नक़ल करके अपनी रक्षा के लिए दुर्ग रचे थे अथवा वे पहले ही से थे। आर्यों से संघट्ट होने पर यह लोग पहाड़ों और जङ्गलों में छिपे रहते थे और वहीं से सहसा धावा करके जानवर छीन ले जाते और खेती उजाड़ जाते थे। जान पड़ता है कि दूध आदि के लिए यह जानवर पालते और उनका भक्षण भी करते थे। देश के जङ्गली हाने से आर्य लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े।

इसलिए अनार्यों ने पूरे देश में विजित होने से पूर्व आर्यों से बहुत कुछ सीख लिया था। अतः हम साथ ही साथ इन लोगों के परम ओछे और गंभीर वर्णन पाते हैं। जान पड़ता है कि ओछे वर्णन आदिम काल के हैं और गंभीर उस समय के जब यह लोग आर्य सभ्यता से बहुत कुछ सीख चुके थे। हिरण्य कशिपु, बलि, शुम्भ, निशुम्भ, आदि के समय में इन लोगों ने अच्छी उन्नति कर ली थी। किसी किसी का यह भी विचार है कि देवासुर संग्राम फ़ारस में हुआ और तब आर्यों का दूसरा धारा भारत आई।

अनाय्यों की कई जातियाँ थीं, जिनका हाल वेदों, इतिहासों और पुराणों से विदित होता है। इन में महिष, कपि, नाग, मृग, ऋक्ष, राक्षस, ब्राह्म, आर्जिक, दैत्य, दानव, कीकट, महावृष, बाल्हीक, मूजवन आदि प्रधान हैं। कीकट गया प्रान्त को कहते हैं। वहीं के निवासी कीकट अनाय्य थे। इन सब को अनाय्य कहते हैं और पौराणिक काल में इनमें कुछ जातियाँ असुर भी कहलाती थीं। वैदिक समय में पहले असुर देवताओं को कहा गया और इन लोगों को राक्षस, यातुधान, दस्यु, सिन्धु आदि नामों से पुकारा गया। कुछ ऐतिहासिकों का विचार है कि जो अग्नि पूजक पार्सी ईरान में थे, उनके तथा भारतीय आय्यों के पूर्व पुरुष एक ही थे और साथ ही फारस आदि में रहते थे। युद्ध के पीछे भारतीय होने वाले आय्य इधर चले आये। इन विचारों का कथन आगे होगा।

ऐतिहासिकों ने आय्यों से पहले वाले भारतियों की दो प्रधान शाखाएँ कही हैं, अर्थात् कोल और द्रविड़। नाग नाम्नी एक और प्राचीन जाति थी। ये कोल या द्रविड़ों की शाखा थे या स्वतंत्र जाति, सो अनिश्चित है। ये तीनों जातियाँ श्याम वर्ण की थीं। भील और सन्थाल कोलों की पशाखाएँ हैं। इस काल भारत में ३० लाख कोल हैं। ये लोग मुंडा भाषा बोलते हैं। कोल पत्थर और हड्डी के आयुध बनाते थे। ये वीर, चतुर, प्रसन्नचित्त, आलसी और सन्तोषी थे। कोलों के पीछे द्रविड़ भारत में आये। इन्होंने कोलों को हराया। खांड और गोंड इनकी उपशाखाएँ हैं। आज कल प्रायः ५,७०,००००० द्रविड़ भारत में हैं। यह लोग खेती और व्यापार करते, नगरों और ग्रामों में बसते, सूती कपड़े पहनते, सोने के गहने धारण करते और ताँबे के आयुधों का व्यवहार करते थे। ये भूमि, वृक्ष, सर्प आदि की पूजा करते और अपने देवताओं से डरते थे। मंगोल लोग पाल नरेशों के समय भारत में आसाम होकर आये और आसाम, बंगाल आदि में बसे। आसामी मंगोल आहम कहलाते हैं। योरोपियनों की कल्पना है कि आधुनिक भारतवासियों में केवल कश्मीर, पञ्जाब और राजपूताना में असली आय्य लोग हैं। गंगा यमुना की घाटियाँ और बिहार आदि में आय्यों और द्रविड़ों का मिश्रण पाया जाता है। गुजरात,

सिन्ध, बम्बई में सीदियनों तथा द्रविड़ों का मिश्रण है, नैपाल, भूटान आसाम आदि में मंगोलों का प्राधान्य है, बंगाल, छोटानागपूर और उड़ीसा में मंगोल द्रविड़ों का मिश्रण है और वायव्य सीमा प्रांत के लोग तुरुष्क (तुर्की ईरानी) हैं । यह योरोपीय अनुमान ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर है । जहाँ जहाँ जो जो जातियां बसी हैं वहीं वहीं उन सब का मिश्रण देशवासियों में माना गया है । कोलों के कारण भारत में परम प्राचीन समय कोलैरियन काल कहा गया है और उसके पीछे वाला द्रविड़ काल । द्रविड़ों के विषय में अभी पूरी दृढ़ता नहीं है कि वे कौन थे और कहाँ से आये, जैसा कि आगे कहा जायगा ।

अब हम उपर्युक्त महिष, कपि आदि के विषय में कुछ हाल लिखते हैं जो वेद, पुराणादि प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है ।

महिष—इनको दुर्गासप्तशती में महिषासुर करके कहा गया है । यह आर्यों के शत्रु थे और इसी लिये देवी ने इन्हें पराजित किया । कुछ पंडितों का मत है कि इस जाति के लोग दक्षिण में अब भी पाये जाते हैं । मैसूर प्रान्त के प्राचीन ग्रन्थों में महिष मंडल कहा है ।

कपि अथवा बानर—इन लोगों ने रामचन्द्र की सहायता की । किष्किन्धा में इनका राज्य था और बालि, सुग्रीव, हनुमान आदि नेता थे । कुछ लोगों का विचार है कि दक्षिण की वर्तमान टोड़ा जाति के लोग शरीर पर केश बाहुल्य के कारण उस काल कपि करके पुकारे गये । रामायण में जो इनकी पूँछ आदि के वर्णन हैं वे अत्युक्ति पूर्ण एवं प्रक्षिप्त समझने चाहिये । ऋक्ष भी इसी प्रकार के लोग समझ पड़ते हैं । इनकी सभ्यता समय पर इतनी बढ़ गई थी कि जाम्बवंत नामक एक ऋक्ष की कन्या के साथ स्वयम् श्रीकृष्ण चन्द्र ने विवाह किया । इन लोगों को वास्तव में बन्दर, भालू, भैंसा आदि समझना भारी भूल है, क्योंकि कोई रीछ रामचन्द्र का मंत्री तथा श्रीकृष्ण का ससुर नहीं हो सकता था । इन लोगों की सभ्यता के जैसे वर्णन ग्रन्थों में आए हैं, उनसे प्रकट है कि यह लोग वन्यजन्तु न होकर द्रविड़ जातियों के मनुष्य थे ।

नाग—इस जाति के लोगों का वर्णन पहिले पहल समुद्र मन्थन के समय में आया है। इन लोगों ने देवताओं की सदैव सहायता की। राजा जनमेजय को छोड़ और किसी आर्य राजा से इनका भारी युद्ध नहीं हुआ। शेष, वासुकि, तक्षक, धृतराष्ट्र आदि इनके सरदार थे। इनका वैवाहिक सम्बन्ध आर्यों से हुआ अवश्य किन्तु बहुतायत से नहीं। विशेषतया पाताल में नाग लोक कहा गया है। सिन्धुप्रान्त में पाताल नगर था जहाँ वासुकि वंशी एक नाग राजा का शासन था। वहाँ से बैबिलोन का भारतीय व्यापार चलता था। ये कथन आरियन के हैं। कहीं कहीं पूर्वी बंगाल के समुद्र तट वाले भाग को भी पाताल कहा है। भारत में भी यह लोग रहते थे और गंगा, सरजू आदि नदियों के सहारे इनके देश में पहुँचने के वर्णन आए हैं। वहाँ जल का बाहुल्य समझ पड़ता है। समुद्र मन्थन में इन लोगों ने आर्यों की सहायता की, जिससे इनका समुद्र तट वासी होना अनुमान सिद्ध है। बंगाल में कुछ जातियों की नाग संज्ञा अब तक है और बिहार में शिशु-नाग वंशियों का कुछ दिन राज्य भी रहा। इन सब बातों से इन लोगों का आदिम निवास स्थान बंगाल समझ पड़ता है। छोटा नाग-पुर के उत्तर इनका मुख्य केन्द्र था। आर्य वंशी राजा युवनाश्व और हर्यश्व की बहिन धूम वर्ण नामक नाग को व्याही थी। उसी की ५ कन्याओं का विवाह हर्यश्व के दत्तक पुत्र यदु के साथ हुआ था। युधिष्ठिर के भाई अर्जुन ने नाग सुता उलूपी के साथ व्याह किया था, जिससे इराबान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुकि की बहिन जरत्कार का विवाह इसी नाम के एक ऋषि से हुआ। आस्तीक इन्हीं का पुत्र था जिसने जनमेजय के यज्ञ में नागां की रक्षा की। रामचन्द्र के पुत्र कुश ने भी एक नाग कन्या के साथ विवाह किया। दक्षिणात्य ग्रन्थ मणि मेगलय के अनुसार चोल राजा वेणु ऋवेयर किल्ली ने पील बलय नाम्नी नाग कन्या के साथ विवाह किया। श्रीकृष्ण ने वृन्दावन के समीप से कालीय नाग को सपरिवार खदेर कर आज्ञा दी कि वह समुद्र के निकट जाकर वास करे। इससे भी अनुमान होता है कि नाग लोक समुद्र के निकट था। नागों के वैवाहिक सम्बन्ध और भी यत्र तत्र राजाओं से निकलेंगे। ऋषिवर उत्तंक ने अपने खोए हुए

कुंडल नागों से ही छीने। सुरसा नाम्नी नाग माता ने उद्धि उल्लंघन के समय देवताओं के कहने से हनुमान के बल की परीक्षा की। राजा बलि को कैद करके जब भगवान बामन ने पाताल भेजा था, तब उनके निरीक्षक नाग लोग नियत हुए। कुशान वंश का पराजित करके नागों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया अथर्व हिन्दू सभ्यता की रक्षा की। उसी वंश का दौहित्र तृतीय वाकाटक नरेश पीछे शासक हुआ, जिससे वाकाटक राज्य चला। इनके पीछे गुप्त साम्राज्य जमा। इतनी बातों के होते हुए भी पुराणों में बहुत स्थानों पर ऐसे वर्णन मिलते हैं कि नाग लोग वास्तव में सर्प ही थे। ऐसे वर्णन अग्राह्य हैं।

मग—इन लोगों का वर्णन भविष्य पुराण में कई अध्यायों द्वारा हुआ है, जहाँ इनकी पृथक् जाति सी मानी गई है। वहाँ लिखा है कि यह लोग सूर्य के उपासक थे। इनके कई राजा सरदारों आदि के नाम भी वहाँ पर आए हैं। मग शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इन्हें कृष्ण पुत्र शाम्ब ने बाहर (फारस) से लाकर मुल्तान में बसाया था और वहाँ एक सूर्य मन्दिर भी बनवाया जो ह्यूयन्त्सांग के समय तक प्रस्तुत रहा।

दैत्य—इनका वर्णन वेदों में कुछ है और पुराणों में बहुत अधिकता से आया है। इनके सरदार हिरण्यकशिपु, बज्रांग, अंधक, बज्रनाभि आदि थे। इनकी माता दिति थी, जिससे इनकी दैत्य संज्ञा हुई। इनके पिता कश्यप ऋषि कहे गए हैं, किन्तु ये ही दैत्य, दानव, देवता, पशु, पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष आदि के पिता हैं। इससे यह पितृत्व का वर्णन दाष्टान्तिक है। इन लोगों की देवताओं से बहुत काल पर्यन्त शत्रुता रही। देवताओं से ऐसे स्थानों पर रूपक द्वारा आर्यों का प्रयोजन समझना चाहिए। समझ पड़ता है कि यह केवल अनार्य ही अनार्य न थे, वरन् अनार्यता के साथ इनमें कुछ आर्य रुधिर भी मिला हुआ था। यह लोग आर्य सभ्यता गृहीत थे। प्रह्लाद विष्णु भक्त थे और बलि बहुत बड़े दानी और यज्ञकर्त्ता। आर्यों से इनका वैवाहिक सम्बन्ध अधिकता से था। पुलोमा दैत्य

की पुत्री राक्षी पौलोमी इन्द्र को व्याही थी। उसकी कन्या जयन्ती का विवाह भार्गव शुक्राचार्य और फिर ऋषभ देव से हुआ। मधुदैत्य की कन्या मधुमती सूर्यवंशी हर्यश्व को व्याही थी। इसी प्रकार वृषपर्वा दैत्य की कन्या शर्मिष्ठा से सम्राट् ययाति का विवाह हुआ। जगत् प्रसिद्ध पुरुवंश इसी शर्मिष्ठा से चला। वाण दैत्य की कन्या ऊषा से कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का व्याह हुआ। इसी प्रकार बज्रनाभि दैत्य के कुटुम्ब की तीन कन्याओं के विवाह प्रसिद्ध यादवों में हुये। सूर्यवंशी राजा जनक से जब रावण ने विवाहार्थ उनकी कन्या सीता माँगी, तब उन्होंने उसके राक्षस होने के कारण इस बात से इनकार नहीं किया।

दानव—इन लोगों की उत्पत्ति दनु से है जो कश्यप की एक दूसरी स्त्री कही गई हैं। इनमें भी विप्रचित्ति आदि कई बड़े बड़े सरदार हुये हैं। इन लोगों का सदैव दैत्यों से बड़ा मेल रहा, और जो बातें उनके विषय में लिखी गई हैं वे इन पर भी घटित होती हैं। यह भी सोचा जाता है कि फारस में रह जाने वाले प्राचीन पारसी दैत्य, दानवादि थे।

राक्षस, यातुधान—यह दोनों नाम प्रायः हिले मिले रहते हैं और यह नहीं समझ पड़ता कि दोनों पृथक् जातियाँ हैं अथवा एक ही। इनका एक ही होना अधिक दृढ़ समझ पड़ता है। मय दानव की कन्या मन्दोदरी रावण राक्षस को व्याही थी। इनमें और दैत्य, दानवों में सभ्यता की दृष्टि से बड़ा अन्तर था, क्योंकि यह लोग नरभक्षक थे किन्तु वे नहीं। आर्य धर्म से विशेष शत्रुता राक्षस ही रखते थे। दैत्य दानवों की आर्यों से लड़ाई बहुत करके जाती थी, धार्मिक नहीं। राक्षस लोग यज्ञ आदि के कट्टर विरोधी थे किन्तु दैत्य स्वयं यज्ञ करते थे। कुछ राक्षस भी यज्ञ करते थे।

व्रात्य—इन लोगों का वर्णन पृथक् जाति के स्वरूप में अथर्व-वेद में आया है। वहाँ इनके पहनाव, उड़ाव, चाल-ढाल के भी कुछ कथन हैं। उन वर्णनों से यह भी ध्वनि निकलती है कि यज्ञ द्वारा सब से पहले आर्यमत ग्रहण करनेवाले ये ही लोग थे।

महावृष, मूजवन, बाल्हीक आदि के विषय में अथर्ववेद में ज्वर रोग को सम्बोधन करके कहा गया है कि हे ज्वर ! तुम हम लोगों में न रह कर इन लोगों में जाओ । ऐसे ही ऐसे कथनों से यह लोग अनार्य्य समझ पड़ते हैं । दैत्यों का निवास स्थान फारस या पंजाब में जान पड़ता है । अथर्ववेद से विदित होता है कि अंग और मगध देशों में भी अनार्य्य लोग बहुतायत से रहते थे । यह निष्कर्ष भी ज्वर के ही सम्बोधन से निकला है । राक्षस लोगों का बल विशेषतया लंका और दक्षिणी भारत जनस्थान में था । बाल्हीक लोग पश्चिमी पंजाब और पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में रहते थे । अतः जिस काल आर्यों ने भारत में पदार्पण किया, तब अनुमान से पंजाब में दैत्य और दानवों का प्राबल्य था, अफ़ग़ानिस्तान में बाल्हीकों का, बङ्गाल में नागों का, मगध में मागध अनार्यों का और दक्षिण, मध्य एवं पश्चिमीय भारत में वानरों, ऋक्षों, महिषों और राक्षसों का । ब्राह्मण, मूजवन, महावृष आदि कहाँ रहते थे इसका कोई अनुमान हम नहीं कर सके हैं । यह भी एक प्रश्न है कि आर्य्य भारत में खैबर दर्रा होकर आये या तिब्बत होकर ।

कीकटों का राजा प्रमगंड था । यह लोग दक्षिणी अवध में भी रहते थे । पारावत लोग रावी नदी के किनारे बसनेवाले आर्य्य अथवा अनार्य्य थे यह निश्चित नहीं है । आर्जिक भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे । इन तीनों जातियों का हाल ऋग्वेद में मिलता है ।

अनार्य्यों के धार्मिक सिद्धान्त कैसे थे इस प्रश्न पर कथन मोहंजोदड़ो के विषय में हो चुका है और अन्यत्र भी ।

यहां भील, गोंड, संथाल, सौर आदि के नाम पृथक् नहीं आए हैं । इन लोगों के ये वर्तमान नाम प्राचीन महिष, कपि, ऋक्ष, राक्षस आदि जातियों के होंगे । दक्षिण के द्रविड़, तामिल आदि लोग अनार्य्य हैं अथवा नहीं, इस विषय पर कुछ कहना मतभेद से खाली नहीं है । बहुतों का मत है कि उत्तर के पंच गौड़ ब्राह्मण आर्य्य हैं और दक्षिण के पंच द्राविड़ों में बहुतायत से अनार्य्य रुधिर पाया जाता है । द्राविड़ों का यह मत नहीं है । द्राविड़ लोग वास्तव में कौन हैं और भारत में कैसे आये या हुये इस विषय पर पण्डितों में अभी कुछ भी दृढ़ता नहीं

हुई है। अब तक की जाँच से यह विषय पूर्णतया अज्ञात है। पार्श्वीय पण्डितों का विचार है कि उत्तर से ब्राह्मण इतनी संख्या में दक्षिण कभी नहीं गये कि वहाँ आर्यों की इतनी भारी बस्ती होती जैसी आज पाई जाती है। हम को इस मत के ग्रहण करने में संकोच है। महाराजा रामचन्द्र के समय से कुछ ही पहले वीर वर अगस्त्य मुनि के नेतृत्व में आर्यों का एक बड़ा उपनिवेश दक्षिण में स्थापित हुआ था। शरभंग ऋषि भी वहाँ पहुँच चुके थे तथा परशुराम भी वहीं के हैं। जनस्थान में बहुत से ऋषि राम से मिले। राज्ञसों द्वारा जो ब्राह्मण खायें गये थे, उन की अस्थि का टीला सा राम ने देखा। पुलस्त्य ऋषि के वंशी भी बहुतायत् से वहीं रहे। रामचन्द्र के समय में दक्षिण का उत्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। युधिष्ठिर के समय में दक्षिण में आर्यों के कई राज्य स्थापित थे। गौतम बुद्ध, अशोक, समुद्रगुप्त आदि के समयों में भी यही दशा थी। इन सब बातों के होते हुये भी महाकालान्तर वन इतना बिकराल नहीं माना जा सकता कि कोई उसको पार ही न कर सकता। इसलिये आर्यों का बहु संख्या में दक्षिण जाना कुछ असंभव नहीं है। मिश्र अथवा उत्तरी भारत की इस आर्य शाखा की सभ्यता पहुँचने के पूर्व ही वहाँ हिन्दू सभ्यता स्थापित हो चुकी थी। ब्राह्मणों की दस प्रधान शाखाएँ हैं, जिनमें उत्तरवाली पञ्चगौड़ कहलाती हैं और दक्षिणवाली पंचद्राविड़। कम से कम कुछ ब्राह्मणों का दक्षिण जाना सर्वमान्य है। इन सब बातों से पंचद्राविड़ ब्राह्मण आर्य सभ्यता गृहीत और कुछ अंशों में आर्य रुधिर सम्पन्न द्रविड़ समझ पड़ते हैं। दक्षिण के क्षत्रियों और वैश्यों में अनार्य रुधिर अवश्य पाया जाता है जैसा कि वहाँ के ब्राह्मण भी कहते हैं। तामिल जाति की अनार्यता के विषय में बहुत से पण्डितों का मत है कि ये आर्य नहीं हैं।

मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न जातियाँ आदिम काल में निम्न-स्थानों में बसी थीं:—दैत्य दानव (श्वेत पर्वत या सफेद कोह पर), देवगण [सुमेरु (पामीर) पर], राज्ञस, पिशाच, यक्ष (हिमालय पर), गन्धर्व और अप्सरस (हेमकूट अर्थात् कराकुरम पर), नाग और तक्षक (निषध अर्थात् निस्सा पहाड़ पर), ऋषि (नीलाचल

में) और पितृ शृङ्गवान पर्वत पर जो सुमेरु से पश्चिम कास्पियन समुद्र के निकट है। ये स्थान किसी समय में इन लोगों के निवास-स्थान थे। समय पर इनमें बहुत से हेर फेर भी हुये जैसे कि स्थान स्थान पर दिखलाये जावेंगे।

आर्य लोग कौन थे और भारत में कहां से आये इन प्रश्नों के जानने के लिये सांसारिक जातियों का कुछ वर्णन करना ठीक समझ पड़ता है। मानव-शास्त्र-वेत्ताओं ने मनुष्यों को पांच जातियों में विभक्त किया है, अर्थात् काकेशियन, मंगोलियन या तातार, हबशी, मलय और अमरीकन। रंगों के अनुसार यही लोग क्रमशः गोरे, पीले, काले, बादामी और लाल हैं। गोरे लोग प्रधानतया योरोप, पश्चिमी और दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में रहते हैं और उत्तरीय एवं दक्षिणीय अमरीका में हाल में बस गये हैं तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में बसते जाते हैं। मंगोल लोग प्रधानतया चीन, जापान, बर्मा, स्याम आदि में रहते हैं। हबशी लोगों का स्थान अफ्रीका है तथा मलयों का मलक्का, मडागास्कर, न्यूजीलैण्ड आदि। अमरीकन लोग जो लाल इंडियन कहलाते हैं दोनों अमरीकाओं में रहते हैं।

इन सब में गोरी जाति प्रधान है। मिश्र, असीरिया, बैबिलोनिया, फिनिशिया, फारस, यूनान, इटली आदि के लोग सब गोरे थे। हिन्दू और हिब्रू लोग भी गोरे हैं। इस गोरी जाति की तीन प्रधान शाखाएँ हैं, अर्थात् आर्य, सेमेटिक और हैमेटिक। सेमेटिकों में हिब्रू लोगों, अरबों एवं फिनिशिया, बैबिलोनिया और असीरियावालों की गिनती है, तथा हैमेटिकों में मिश्रवालों की। यह दोनों नाम नूह के पुत्रों शेम और हेम के नामों से निकले हैं।

आर्य जाति संसार में सर्वप्रधान है। इसी में भारतवासियों, जर्मनों, रूसियों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों आदि की गणना है। सब योरोपवासी आर्य नहीं हैं। पाश्चात्य पंडितों में से कुछ का विचार है कि आर्य लोग मध्य एशिया में रहते थे और कुछ लोग उन्हें पूर्वीय योरोप का निवासी मानते हैं। पंडितवर मैक्समुलर का मत है कि एक वह समय था कि जब हिन्दुओं, जर्मनों, रूसियों, यहूदियों, अफगानों,

अँगरेजों, फ़ारसियों आदि के पूर्व पुरुष सेमेटिक और हैमेटिक जातियों से पृथक् एक ही स्थान पर रहते थे। यह एक छोटी सी जाति थी और इसकी भाषा वह थी जो तब तक संस्कृत, यूनानी अथवा जर्मन नहीं हुई थी, वरन् इन सब का मूल अपने में रखती थी। योरोपीय पंडितों के अनुसार सांसारिक जातियों का विभाग उपर्युक्तानुसार है। यही मत ठीक भी समझ पड़ता है।

ज्यों ज्यों आर्यों की संख्या तथा साहस में वृद्धि होती गयी, त्यों त्यों यह अपने निवास स्थान से आगे बढ़ते गये। इन लोगों ने क्रमशः भारत, पश्चिमी एशिया और सबसे पीछे योरोप में फैलकर इन देशों में आर्य्य सभ्यता का बिस्तार किया। केल्ट भी आर्य्य थे जो फ़्रांस और ब्रिटेन में पाये जाते हैं। इन लोगों ने पहले मध्य और दक्षिणी योरोप को अपना निवासस्थान बनाया। धीरे धीरे यूनानियों, रूमियों एवं ट्यूटनों ने केल्टों को इटली, ग्रीस, मध्य-योरोप, डेन्मार्क, स्वीडन और नार्वे से निकाल दिया। इसके पीछे स्लाव लोग रूस, पोलैण्ड, बोहेमिया, सर्बिया आदि में फैल गए। लिथुएनियावाले रूस में बाल्टिक के किनारे रहते हैं।

समग्र आर्य्य जाति की आदिम एकता की साक्षी स्वरूपा बहुत करके अब आर्य्य भाषा ही है। संस्कृत, ज़िंद, अँग्रेज़ी, यूनानी, लैटिन, फ़ारसी, अरबी आदि भाषाओं के मिलाने से प्रकट होता है कि इन सब की मूल स्वरूपा कभी एक ही भाषा थी। इन सब में साधारण बातों, औज़ारों, कामों, रिश्तों आदि के लिये प्रायः एक ही से शब्द हैं। इन भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ हजारों वर्षों से पृथक् हैं, सो एक दूसरी से शब्द नक़ल नहीं कर सकती थीं और न ले सकती थीं। अतः इनकी आदिम एकता प्रमाणित होती है। इसी भाषा सम्बन्धी जाँच से इस प्रभावशालिनी जाति को उस काल तक की उन्नतियों का परिचय मिलता है जब तक कि उसने अपना आदिम निवास स्थान नहीं छोड़ा था। पंडितों ने निष्कर्ष निकाला है कि उस समय भी आर्य्य लोग मकानों में रहते, पृथ्वी जातते और चक्षियों से अनाज पीसते थे। वह भेड़, गाय, बैल, कुत्ता, बकरा आदि का पालते और शहद से निकाला हुआ मद्य पीते थे। वे ताँबा, चाँदी, सोना आदि का व्यवहार करते

और धनुष बाण तथा तलवार से लड़ते थे। उनमें राज्य शासन प्रणाली का आरम्भ हो चुका था। वे आकाश अथवा आकाशवासी देवता का पूजन करते थे।

कुछ पाश्चात्य पंडितों का विचार है कि प्राचीन संसार का सब से बड़ा इतिहास स्थल मेडिटरेनियन समुद्र का किनारा है। वे समझते हैं कि चीनी स्वपांडित्याभिमानी मात्र रहे हैं, हिन्दू स्वप्नवत् विचाराश्रयी मात्र, ग्रीक विचारशील तथा कारीगर और रूमी पूरे मनुष्य। अभिमानी कुछ सिखला नहीं सकता था, स्वप्नाश्रयी ने कुछ नहीं किया, कारीगर ने अपनी और अपने पड़ोस की उन्नति की और पूर्ण मनुष्य ने संसार पर शासन किया। आशा है कि ऐसे ओछे विचारों का कुछ संशोधन इन पृष्ठों के अवलोकन से हो जायगा, क्योंकि हिन्दुओं ने बहुत सी उन्नति अवश्य की थी। मिश्र, शे (चै) लिड्या, भारतवर्ष और चीन में अति प्राचीन समय से यथेष्ट सभ्यता वर्तमान थी। इनमें आर्य जाति सब से अधिक सभ्य थी। मिश्र और असीरियावासियों ने कई बार भारतवर्ष पर चढ़ाईयाँ कीं।

भारतीय इतिहास आरम्भ करने के पूर्व यह ठीक समझ पड़ता है कि अपने पड़ोसी फारस का कुछ सूक्ष्म दिग्दर्शन करा कर तब आगे बढ़ें। दलाल महाशय ने १९१४ के निकट प्राचीन भारत पर एक ग्रन्थ अँगरेजी में प्रकाशित किया। उसमें आर्यों के विषय में उनके जो विचार हैं उन में से कुछ का सारांश यहाँ दिया जाता है। ८००० से ७००० बी० सी० तक ग्लेशियरों (समुद्र में तैरनेवाले बर्फ के पहाड़ों) से शीताधिक्य एवं जनवृद्धि के कारण आर्य लोग अपने प्राकृति कसदनों को छोड़ कर नीचे उतरे। अनन्तर वे योरोप और एशिया में बँट गए। ७००० से ६००० बी० सी० तक वे मध्य एशिया में बसे, तथा ४००० बी० सी० में फारस एवं भारत पहुँचे। ८००० से ६००० बी० सी० तक वे खाद का हाल नहीं जानते थे, किन्तु रथ, नाव, बुनाई का काम, यव और मधुपान से अभिज्ञ थे। उनके देवता उषस, युस और बरुण थे और वे यज्ञ करते थे। ६००० से ४००० बी० सी० तक वे बैबिलोन के निवासियों से मिले। उनकी सभ्यता उच्च थी, सो आर्यों की गति

अवरुद्ध हुई और इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा । तदनन्तर आर्यों का फारस और भारत से संबंध प्रारम्भ हुआ । फारसी और भारतीय आर्य प्रायः एक ही थे । उनमें बहुत कुछ साम्य था । जन्दावस्ता के शब्द और विचार बहुत कुछ ऋग्वेद से मिलते हैं । यथा:—

वृत्रध्न (इन्द्र) ईरानी वैरेथूध्न । जैतन = थइतौन ।

तृत, वेदों का, थृत ईरानी । प्रथम वैद्य मित्र = मिथ्र ।

शतपथ ब्राह्मण ९, ५, १ से निष्कर्ष निकलता है कि देव तथा असुर प्रजापति के पुत्र थे । देव सत्य पर रहे, असुर असत्य पर । देवासुर युद्ध होने से देव ईरान के उत्तर पूर्व में बसे, और वहां से भारत आये । यह युद्ध दीर्घ कालीन और भारी था ।

भारत में आने पर आर्यों ने यहां द्रविड़ों तथा कोलों को पाकर उन्हें दास या दस्यु कहा । कोल उत्तर पूर्व से और द्रविड़ उत्तर पच्छिम से आये थे । कोई कोई इन्हें बलूचिस्तान से आनेवाले समझते हैं । कोलैरियनों को विन्ध्य के निकट पराजित करके द्रविड़ दक्षिण चले गए । कुछ लोगों का विचार है कि कोल आदिम भारतीय थे । द्रविड़ों का बैबिलोन से अच्छा व्यापार था । वे पृथ्वी और शेषनाग को पूजते थे । ग्राम्य समाजों का चलन द्रविड़ों ने चलाया । तरु पूजन भी उनका था । खेती का अच्छा प्रचार दक्षिण में हुआ । उनके कुटुम्ब माताओं पर थे । ऋग्वेद में ये राक्षस और यातुधान हुए । पिशाच लाली लिए हुए बहुत चिल्लाने वाले थे । बृहत्कथा मूलतः पैशाची भाषा में थी । नागों और यक्षों की भी दो जातियां थीं । कुबेर यक्ष थे । दक्षिण में नागों के चित्र मनुष्यों के हैं न कि सर्पों के । आर्यों की दूसरी धारा गिलगिट और चितराल होकर आयी । पहले देव असुरों से हार गए, किन्तु पीछे पुरंजय की सहायता से विजयी हुए । पुरकुत्स नर्मदा तक बढ़े ।

पार्जितर महाशय का विचार हिन्दू शास्त्रों के अनुसार चलता है । हिन्दुओं में तिब्बत गन्धमादन आदि तो पवित्र देव देश हैं, किन्तु पंजाब अफगानिस्तान आदि ऐसे नहीं हैं । इससे आपका कथन है कि आर्य लोग भारतवर्ष में उत्तर पच्छिम से न आकर इधर ही से आये ।

फारस का राज्य—यह राज्य पहले पहले पारसियों के अधीन हुआ। ये लोग आर्य्य थे और हमारे पूर्व पुरुषों की भाँति मध्य एशिया अथवा पूर्वीय रूस से आए थे। इनकी भाषा जन्द पुरानी संस्कृत से मिलती-जुलती है। इस भाषा में जन्दावस्ता नामक इनका प्राचीन धर्म ग्रन्थ मात्र रह गया है। हेरोडोटस ने बी० सी० १४०० के लगभग वाले फारस राज्य के भारतीय सम्बन्ध का हाल कहा है। पारसियों ने कई जातियों को पराजित किया, किन्तु ये लोग उनका एकीकरण न कर सके। फारस पहले मीडिया के अधीन रहा, किन्तु ७०० बी० सी० के लगभग इन लोगों का शासक पृथक हो गया। फिर भी वह रहा मीडियों के अधिकार में, किन्तु ५५० बी० सी० में साइरस ने मीडिया को जीत कर फारस का राज्य स्थापित किया। यह शासक बहुत बड़ा विजयी था। इसने ५४६ में लिडिया और ५३८ में बैबिलोनिया को भी जीत कर फारस में मिला लिया। पूर्व में इसने हिन्दूकुश तक अपना राज्य फैलाया। यह बड़ा प्रतापी राजा था, किन्तु ५२९ में सीरिया वालों से युद्ध करने में मारा गया। इसके पुत्र कम्बोसिस ने ५२९ में मिश्र देश को जीत लिया। ५२१ से ४८५ बी० सी० तक इसके पुत्र दारा ने राज्य किया। इसने फारस के विशाल राज्य को हट करके उसे कई प्रान्तों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रान्त का शासक सद्रैप कहलाता था। दारा ने सड़कें बनवायीं और डाकखानों का अच्छा प्रबन्ध किया। इसने योरोपीय प्रान्त, थ्रेस और मैसिडोनिया को भी जीत कर फारसी राज्य में मिलाये। इसके पीछे दारा ने यूनान (ग्रीस) जीतने का प्रबन्ध किया, किन्तु ४९० में मराथान के जगत्प्रसिद्ध युद्ध में फारसी लोगों ने करारी पराजय पायी और योरोपीय पंडितों के अनुसार एशिया की योरोप विजय वाली कामना सदा के लिये अस्त हो गयी। इसके पुत्र ने फिर यूनान विजयार्थ युद्ध किये किन्तु फल यह हुआ कि उसके हाथ से मैसिडोनिया और थ्रेस भी जाते रहे। ४१४ में मिश्र स्वतन्त्र हो गया। ३३६ में तीसरा दारा गद्दी पर बैठा। इसने ३३१ में सिकन्दर के हाथ अर्बला में वह करारी पराजय पायी कि जिससे फारस का राज्य ध्वस्त हो गया। इसके पीछे फारस साम्राज्य पद से गिर कर एक साधारण

राज्य रह गया। फारस का भारत से कभी कोई ऐतिहासिक भारी युद्ध नहीं हुआ। भारत के बहुत से शक राजे अपने को सद्रैप (क्षत्रप) कहते थे, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे लोग फारस के अधीन थे, क्योंकि फारस के प्रान्तीय शासक सद्रैप कहलाते थे, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं।

भारतीय इतिहास के लिये यह वर्णन कुछ कुछ अप्रासंगिक समझा जा सकता है, किन्तु प्राचीन भारत का इस देश से बहुत कुछ सम्बन्ध रहा है। तिलक महाशय ने अपने 'ओरियन' ग्रन्थ में सिद्ध किया है कि आर्य लोग सब से पहले उत्तरीय ध्रुव के निवासी थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं के दिन रात छः छः महीनों के होते हैं। यह बात उत्तरीय ध्रुव के विषय में आज भी घटित है। आइसलैण्ड नामक टापू में भी यही दशा है। जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक वहाँ बराबर दिन रहता है। इसी प्रकार दक्षिणायन सूर्य में छः मासों तक रात बनी रहती है। इस प्रकार ध्रुव प्रदेशों में वर्ष में एक ही दिन रात होती है। हिन्दू शास्त्र देवताओं का यही दिन मानते हैं। इससे कुछ ध्वनि निकलती है कि आदिम आर्य लोग उत्तरीय ध्रुव में रहते थे। सम्भवतः वहीं से चल कर वे पूर्वीय रूस और मध्य एशिया होते हुए भारत, पश्चिमी एशिया और योरोप में फैले। तिलक महाशय के अनुसार आर्यों का पदार्पण भारत में ६००० बी० सी० के लगभग हुआ और ४००० से २५०० तक ऋग्वेद तथा सामवेद की रचना हुई। यजुर्वेद और अथर्ववेद इस से कुछ पीछे के हैं। इसलिये इस अध्याय में वेदों का वर्णन न करके हम उसे यथा स्थान कहेंगे। यहाँ वेदों एवं अन्य ग्रन्थों के सहारे से आर्यों के आगमन का कथन किया जायगा और पुराणों आदि के आधार पर शेष इतिहास कहा जायगा। वायु पुराण का कथन है कि भूत, पिशाच, नाग और देव उत्तर से भारत को आये। भूतगण भूत स्थान (भूटान) में बसे। भविष्य पुराण बतलाता है कि आर्य उत्तर कुरु (साईबेरिया) में रहते थे और वहीं से मध्य भूमि (युक्त प्रान्त) में आए।

आर्यों की संख्या आगमन के समय बहुत अधिक न थी। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि भारत में आने के पूर्व आर्य लोग खेती

तथा राज्य व्यवस्था से कुछ कुछ अभिज्ञ थे । अपने देश में स्थानाभाव तथा देशान्तरों में भ्रमण का चाव उन्हें हिन्दुस्तान तक ले आया । यहाँ की भूमि को बहुत उपजाऊ देख वे जङ्गलों को जला और मैदानों को साफ़ कर यहीं बस गए । अनार्य लोगों ने धनुष बाणों से उनका सामना किया, किन्तु बड़ी हुई आर्य सभ्यता के सम्मुख भारतीय शिकारीगण बलवान होने पर भी ठहर न सके । उस काल अधिकतर भारतीयों की सेना बना कर लड़ने की प्रथा ज्ञात न थी । वे बिना दल जोड़े और बिना मंत्रणा किए सौ सौ दो दो सौ के झुंडों में आर्यों से लड़ लड़ कर हारते गये । जो जहाँ हुआ वह वहीं लड़ पड़ा । ये लोग घोड़े का हाल नहीं जानते थे । आर्यों के घुड़सवार देख कर इन लोगों ने घोड़ा और सवार को एक ही व्यक्ति समझा । ऐसे भयानक व्यक्ति से विजय की कुछ भी आशा न रख कर बेचारे अनार्य हाय हाय करके भागे । यही भ्रम अमरीका में स्पेन वालों के घुड़सवार देखकर वहाँ के आदिम निवासियों (रेड इंडियनों) को हुआ । घोड़े से विशेष कार्य सिद्ध होने के कारण आर्यों में उसका मान बहुत बढ़ा, यहाँ तक कि दधिक्रवण के नाम से वेदों में उसकी पूजा तक हुई । इसी अवसर पर आर्यों ने प्राचीन भारतीयों को भाषाहीन पशु मात्र समझा । ये लोग रङ्ग में काले और सभ्यता के सभी अंगों में आर्यों से बहुत नीचे थे । अतः आर्यों और अनार्यों के भेद को वर्ण भेद की उपाधि मिली । इसी से समय पर जाति भेद निकला जैसा कि आगे दिखलाया जावेगा ।

अनार्यों ने बहुत शीघ्रता से अपनी हार नहीं मान ली, वरन् वे जङ्गलों, पहाड़ों आदि में छिप जाते थे और मौक़ा पाकर आर्यों को भारी हानि पहुँचाते थे । इसी प्रकार इन दोनों जातियों में सैकड़ों वर्षों तक युद्ध होता रहा । ज्यों ज्यों आर्य आगे बढ़ते जाते थे त्यों त्यों अनार्य लोग पीछे हटते जाते थे, किन्तु प्रत्येक जङ्गल और पहाड़ को उन्होंने कठिन युद्ध करके छोड़ा और प्रत्येक नदी पार करने में आर्यों को पूरी अड़चन डाली । इसलिए नदियाँ पार करने के वास्ते आर्यों को बहुत बड़े बड़े जलयान बनाने पड़े । १०० मस्तूलों तक के जलपोतों का वर्णन वेदों में कई स्थानों पर आया है । इस

चिरकालिक युद्ध के कारण आर्यों तथा अनार्यों में भारी शत्रुता हो गयी। इसीलिए ऋग्वेद में जहाँ कहीं अनार्यों का कथन आया है, वहाँ वह विद्वेषपूर्ण शब्दों में है। प्रार्थनाओं में यहाँ तक कहा गया है कि हे इन्द्र तू इनकी काली चमड़ी उधेड़ दे। यह दशा यजुर्वेद और अथर्ववेद के समयों में नहीं रही थी, क्योंकि उन में अनार्यों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार का परिचय मिलता है। हड़प्पा मोहंजोदड़ो आदि के समान कुछ उन्नत नगर और प्रान्त भी थे। वेदों में भी शम्बर, वृत्र आदि के पाषाण दुर्ग लिखे हैं। और भी अनेकानेक भारी अनार्य नेता थे। उनके जीतने में आर्यों को कठिनता पड़ी, किन्तु अन्त में ये ही विजयी हुये।

इस लम्बे समय में आर्यों का जीवन बहुत करके वैसा ही था जैसा कि ऋग्वेद में पाया जाता है। इन आर्यों ने वेद मंत्रों तक न पहुँचने वाले गद्य पद्य मय साहित्य की भी रचना की, जिसे निविध कहते हैं। यह अब हम लोगों के पास प्रस्तुत नहीं है, किन्तु इसके तात्कालिक अस्तित्व की खोज पंडितों को वेदों से ही मिली है। इस लम्बे समय में आर्यों की भाषा भी अन्य बातों के साथ उन्नति करती तथा बदलती रही, यहाँ तक कि इस समय के पीछे ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया वह आर्यों की प्राचीन भाषा ज्ञान्द से मिलती होने पर भी बहुत कुछ भिन्न हो गयी थी। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि आर्यों की प्राचीन भाषा ज्ञान्द ही थी। हम लोगों को केवल इतना ज्ञात है कि आर्यों की दूसरी धारा जो फारस में रही, उसकी प्राचीन भाषा ज्ञान्द थी। आर्यों का कथन कुछ विस्तार के साथ वैदिक वर्णन में आवेगा। यहाँ केवल उतना ही कहा गया है जो उनकी अवैदिक समय वाली दशा का दिग्दर्शन करा सके। पूर्वोक्त कथन विशेषतया वेदों के आधार पर किये गए हैं। अब हम पुराणों के आधार पर इस काल का इतिहास लिखते हैं।

हमारे यहाँ पौराणिक विवरणों में समय का विभाग मन्वन्तरों के अनुसार किया गया है। पूरा भूत भविष्य काल चौदह मन्वन्तरों में बाँटा गया है, जिसमें से ६ मन्वन्तर हो चुके हैं और ७ वां इस समय चल रहा है, तथा सात आगे आने वाले हैं। एक मन्वन्तर

७१ चतुर्युगियों से कुछ अधिक होता है। प्रत्येक चतुर्युगी में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग होते हैं। सत्ययुग की संख्या ४००० वर्षों की है और चार-चार सौ वर्षों की उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश होते हैं। त्रेतायुग ३००० वर्षों का है और उसकी सन्ध्या-सन्ध्यांश में ६ सौ वर्ष लगते हैं। द्वापर में २००० वर्ष और चार सौ वर्षों की सन्ध्या-सन्ध्यांश हैं तथा कलियुग में १००० वर्ष और दो सौ वर्षों की सन्ध्या-सन्ध्यांश हैं। प्रयोजन यह है कि जितने हजार वर्षों का युग होगा उतने ही सौ वर्षों की सन्ध्या होगी और उसी के बराबर सन्ध्यांश होगा। अतः एक चतुर्युगी में १२००० वर्ष होते हैं।

यह गणना अच्छी थी, किन्तु पौराणिक पंडितों ने इस काल को देवताओं का समय कह कर बहुत बढ़ा दिया। इस पौराणिक मत के अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष हमारे ३६० वर्षों का होता है, क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर है। अतः एक चतुर्युगी ४३२०००० वर्षों की हो जाती है और एक मन्वन्तर में ऐसी ऐसी ७१ चतुर्युगियां पड़ जाती हैं। इसलिए यह पौराणिक समय संख्या बिल्कुल बेकार हो गयी है। फिर भी मन्वन्तरों के कथन से इतना लाभ अवश्य है कि वैवस्वत मनु के पहले हमें छः मन्वन्तर मिलते हैं और जिस मन्वन्तर में जो कथाएँ पुराणों में वर्णित हैं, उनके अनुसार घटनाओं का पूर्वापर क्रम मिल जाता है। युगों के अनुसार घटनाओं का कथन भी कुछ कुछ सहायता देता है, किन्तु प्रत्येक राजत्व काल के विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं ज्ञात होता है कि वह किस युग में था। मोटे प्रकार से बलिवन्धन सत्ययुग में हुआ, रामावतार त्रेता में, महाभारत युद्ध द्वापर में और इधर की घटनाएँ कलियुग में हुईं। महाभारत का काल बहुत लोग ६०० गत कलि में भी मानते हैं, यद्यपि पुराणों में कृष्ण के शरीर-त्याग, महाभारत युद्ध अथवा परीक्षित के समय से कलि का प्रारम्भ लिखा है। जो हो, हम युगों, मन्वन्तरों तथा राजवंशों के सहारे इतिहास लिखना श्रेष्ठतर समझते हैं।

चौदहों मनुओं के नाम ये हैं:—स्वाम्भुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चालुष, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि,

धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि। इन सब में सावर्णि वाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, न कि भूत और वर्त्तमान कालों से। अतः इनका कथन अनावश्यक है और इनके नाम केवल वर्णन पूर्णता के विचार से यहाँ लिख दिए गये हैं। इन सब का भोग काल समान मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथक् पृथक् राजघरानों के समान इनका समय भी न्यूनताधिक अवश्य होगा। स्वायम्भुव मनु पहले थे। इनके वंश का वर्णन राजवंश कथन वाले अध्याय में न० १ पर दिया हुआ है। ऋग्वेद का निर्माण काल मोटे प्रकार से चालुष मन्वन्तर से प्रारम्भ होता है। इसी में समुद्र मन्थन भी हुआ जैसा कि आगे कहा जायगा। अतः समझ पड़ता है कि चालुष मन्वन्तर आर्यों के लिये बहुत ही गौरवपूर्ण समय था। सातों मनुओं में से केवल चालुष और वैवस्वत वेदार्थी थे, शेष कोई नहीं। इससे भी चालुष मन्वन्तर से ही मुख्यतया वैदिक समय चलने की झलक मिलती है। वेदों में आर्यों की बहुत छोटी छोटी बातों तक के वर्णन हैं, किन्तु यह साफ़ कहीं नहीं लिखा है कि वे लोग कहीं बाहर से आकर भारत में बसे। इससे प्रकट होता है कि आर्य लोग वेद निर्माणारम्भ के समय इतने दिन पहले से भारत में बसते थे कि वे अपना बाहर से आना बिलकुल भूल चुके थे। यह बात तिलक महाशय के इस सिद्धान्त को पुष्ट करती है कि आर्य लोग वैदिक समय से बहुत वर्ष पूर्व भारत में आए थे। यहाँ जैसे जैसे उनकी संख्या और शक्ति में वृद्धि हुई, वैसे ही वैसे वे आगे बढ़ते गए।

स्वायम्भुव मन्वन्तर

स्वायम्भुव से चालुष पर्यन्त छवो मन्वन्तरों में जो विवरण है, वह श्रीभागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश और दुर्गा सप्तसती के आधार पर है।

ऋग्वेद में कहा गया कि हे इन्द्र तू ने यह देश मनु को दिया। इस से स्वायम्भुव मनु का प्रयाजन समझ पड़ता है। वैवस्वत मनु का कथन वेदों में जहाँ हुआ वहाँ वैवस्वत भी कह दिया गया है। वेदों में घटनाओं का पूर्वापर क्रम नहीं कहा गया है। पुराणों से हमें ज्ञात

होता है कि स्वायम्भुवमनु १४ मनुआ में पहले थे । इनकी ४५ पीढ़ियों ने भारत में राज्य किया । इस कारण से यह मन्वन्तर कई सौ वर्षों का समझ पड़ता है । इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे । ये दोनों बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं । आर्यों के सब से पहले राजा स्वायम्भुव मनु थे । इन्हीं से नरवंश का चलना कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह कई भारी राजवंशों मात्र के पूर्व पुरुष थे । उत्तानपाद और प्रियव्रत साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों के स्वामी हुए ।

मनु के दो पुत्रों के अतिरिक्त आकूति, प्रसूति और देवहूति नाम्नी तीन कन्यायें भी थीं । देवहूति का विवाह पुलह के पुत्र कर्दम ऋषि के साथ हुआ जिनसे कपिल का जन्म हुआ । कर्दम की कन्या के साथ मनु पुत्र प्रियव्रत का विवाह हुआ जिससे दस पुत्र और दो कन्याओं का जन्म हुआ । कहा गया है कि प्रियव्रत ऐसे प्रतापी राजा थे कि उन्होंने राज्य में कई दिन तक रात्रि नहीं होने दी थी । इन्होंने राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया । अग्नीध्र को जम्बू द्वीप (शायद एशिया) मिला, वृतिमान को क्रौंच द्वीप, भव्य को शक द्वीप (शायद योरोप) तथा औरों को अन्य प्रान्त । बुढ़ापे में इस प्रकार पुत्रों में राज्य बांट कर प्रियव्रत गृहत्यागी हो गये । षष्ठी देवी की पूजा इन्हींने चलाई । बंगाल में स्त्रियां पुत्र कामना से अब भी षष्ठी का पूजन करती हैं । अग्नीध्र के नौ पुत्र थे जिनमें इन्होंने अपना राज्य बांट दिया । नाभि को हिम वर्ष मिला जो हिमालय से अरब समुद्र पर्यन्त कहा गया है । हरि को नैषध उपनाम हरि वर्ष (रूसी तुर्किस्तान), इलाव्रत को इला वर्ष (पामीर), रम्यक को चीनी तातार, हिरण्य को मंगोलिया, कुरु को कुरु वर्ष (साइबेरिया), किम्पुरुष को उत्तरी चीन, भद्राश्व को दक्षिणी चीन और केतुमान को रूसी तुर्किस्तान मिले । महाराजा नाभि भारत का शासक हुआ । इसके पुत्र ऋषभदेव थे । हरि वर्ष को कहीं कहीं अरब या तिब्बत भी कहा है । इन्द्र की कन्या जयन्ती का विवाह ऋषभदेव से हुआ ।

ऋषभदेव न केवल भारी सम्राट थे वरन् भारी धर्मोपदेशक भी हो गये हैं । आप जैनों के प्रथम तीर्थंकर होने से आदिनाथ भी कहलाते

हैं। इनके सिद्धान्त निम्नानुसार कहे जाते हैं:—(१) ईश्वर सम्बन्धी विचारों से इतर भी मुक्ति संभव है। (२) संसार स्वयं भुव और नित्य है। (३) अहिंसा, आत्म-शिक्षण और दिगम्बरपन सदाचार हैं। इनसे “केवल ज्ञान” प्राप्त होता है। पुराणों में लिखा है कि बुढ़ापे में ऋषभ-देव आँय बाँय बकने लगे। इस कथन से उनके हिन्दुओं के प्रतिकूल विचारों की झलक मिलती है। ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित जो मत ऊपर कहे गये हैं वे ऐतिहासिक ज्ञान-वृद्धि के विचार से उस काल के लिये अयुक्त हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने कुछ नव विचारोत्पादन किया था, जिनका मूल समय के साथ उन्नति करता हुआ अब उपर्युक्त रूप में उन्हीं के विषय में कहा गया है। कहते हैं कि उत्तानपाद के वंशधर वेन को ऋषभदेव ने स्वमत में दीक्षित किया। यह कथन दो कारणों से अयुक्त समझ पड़ता है। एक तो ऋषभदेव मनु से पाँचवीं पीढ़ी पर थे और वेन ३९वीं पर, सो इन दोनों का समकालिक होना असंभव था। दूसरे वेन ने जो मत चलाना चाहा था वह ऋषभदेव के मत से भिन्न था, क्योंकि वेन राजा अपने को प्रजा द्वारा पुजवाना चाहता था जो ऋषभदेव के मत से इतर मत है।

ऋषभदेव के पुत्र महाराजा भरत हुये जिनके नाम पर देश भारतवर्ष कहलाया। भरत बड़े ही पुण्यवान और वीर थे। इन्होंने अष्ट द्वीप जीते जिससे इनका राज्य नौ भागों में कथित है। वायुपुराण कहता है कि इनके नवों द्वीप समुद्र द्वारा एक दूसरे से पृथक् थे। उनके नाम ये हैं:—इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गोभस्तिमान, नागवर, सौम्य, गन्धर्व, वरुण और भारत। मजुमदार महाशय इन्हें सिन्धु, कच्छ, सीलोन, अंडमन, नीकोबार, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और भारत समझते हैं। भरत ने यज्ञ किया। अनन्तर आप राज्य छोड़ कर योगी हुये और योग में आपने इतना मन लगाया कि शरीर तक को भुला दिया जिससे उपाधि जड़ भरत हुई। वन में एक बार सिंह की गरज सुन कर एक मृगी का गर्भपात हो गया और वह मर गई। भरत ने दया से उस मृगशावक को पाला। उसमें ये इतने अनुरक्त हुये कि जप तप सब भूल बैठे। एक बार अन्य मृगों में मिल कर वह उनके साथ जंगल में चला गया और फिर इनके पास न पलटा। उसके

विरह से इन्हें इतना कष्ट हुआ कि अन्त में इनका शरीर ही कूट गया। भरत के पीछे इस वंश का राज्य निर्बल हो गया। किसी ने कोई ख्याति प्राप्त न की।

मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के दो स्त्रियाँ थीं। बड़ी स्त्री सुनीति से ध्रुव पुत्र उत्पन्न हुआ और कनिष्ठा सुरुचि से उत्तम। उत्तानपाद निर्बल चित्त के मनुष्य थे। आप छोटी रानी से अधिक स्नेह करते थे जिससे ध्रुव का भी उचित सम्मान नहीं होता था। इस कारण बाल-वय में ही पिता से कूट होकर ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल को चले गये। श्रेष्ठ भक्तों में इनका नाम ऊँचा है। इनके चरित्र गौरव से माहात्म्य संसार में बहुत बढ़ा। उधर उत्तम को युद्ध में यत्नों ने मार डाला। तब उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना कर स्वयं जंगल का रास्ता लिया। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि उत्तम को जीत कर ध्रुव ने अपना राज्य पाया। आपने यत्नों को पराजित करके बहुत दिनों तक सुख पूर्ण, शान्ति पूर्ण और प्रजा-प्रिय-शासन किया। इनको ब्रह्म-ज्ञान भी प्राप्त होना लिखा है यद्यपि यह कथन काल विरुद्ध दूषण से रहित नहीं है। उत्तरी ध्रुव नक्षत्र में इनका लोक समझा जाता है और उत्तानपाद, प्रियव्रत एवं सप्तर्षि नक्षत्र इनकी सदा परिक्रमा किया करते हैं।

उत्तानपाद के वंश में ४५ पीढ़ी राज्य चला। इन राजाओं में ध्रुव, चालुष मनु, वेन, पृथु, प्रचेतस और दत्त प्रधान थे। दत्त के पीछे इस घराने में राज्य नहीं रहा। अंग ने यज्ञ किया, किन्तु पुत्र वेन के कुव्यवहार से राज छोड़ वे जंगल चले गये। राजा वेन एक दुश्चरित्र पुरुष था। इसने शायद अच्छे घराने की रानी के अतिरिक्त एक नीच वंश की स्त्री भी अपने घर में डाल ली थी जिससे निषाद नामक इस का बड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ। वेन का छोटा पुत्र पृथु कुलीन रानी से था। यह बड़ा सुयशी राजकुमार था। राजा वेन ने एक नया धर्म चलाना चाहा और आज्ञा प्रचारित करदी कि सारी प्रजा देवभाव से राजा ही को पूजै, और किसी को नहीं। उस काल तक जन्म से जाति-भेद स्थापित नहीं हुआ था और लोग अपने अपने कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्री आदि माने जाते होंगे। ब्राह्मणों के कर्म करनेवाले लोग प्रजा

द्वारा शायद पुजते थे यहाँ तक कि राजा लोग भी उनका मान करते थे। उन लोगों को यह आज्ञा बुरी लगी और उन्होंने जाकर राजा वेन को समझाया, किन्तु उसने एक न मानी। इस पर क्रुद्ध होकर इन ब्राह्मणों ने उसी स्थान पर वेन का वध कर डाला और निषाद को राज्य के अयोग्य समझ कर उसके छोटे भाई पृथु को राजा बनाया। पृथु ने बड़ी ही उत्तमता पूर्वक शासन किया और अपने राज्य को इतना बढ़ाया और उसकी ऐसी उन्नति की कि भूमि ने इनकी कन्या का पद पाकर पृथ्वी नाम पाया। इन्होंने जङ्गल जला, टीले आदि खोद तथा गढ़े पूर कर पृथ्वी को समथर बनाया। इन्हीं के विषय में कहा गया है कि

“बीते पृथु जिन पुहुमि सिंगारी। परबत पाँति धनुष सों टारी।”

पृथु ने कई यज्ञ किये और दान दिये तथा भारी कोष भी छोड़ा जिससे इनके पुत्र पौत्रों ने भी यज्ञ करके दान दिये। स्वायम्भुव मनु के वंशजों ने बहुत धर्म पूर्वक राज्य किया और देश की बहुत बड़ी उन्नति की। पृथु वंशी राजा प्रचेतस ने भी बहुत से जंगलों को जला कर नई भूमि निकाली। इन्हें जङ्गल ही में एक परम सुन्दरी कन्या प्राप्त हुई, जिससे इनका पुत्र दत्त उत्पन्न हुआ। प्रचेतस संख्या में दस थे। वे सब राज छोड़ ब्राह्मण होगए और उनके पुत्र दत्त प्रजापति हुये। राजा प्रियव्रत के समय आर्यों को भारत में आए हुए बहुत काल नहीं बीता था। इसलिये इन का बाहर के लोगों से सम्बन्ध नहीं टूटा था। इसी कारण से इन्होंने अपने पुत्रों में सारी पृथ्वी का बटवारा किया और उन सब में अकेला अग्नीध्र भारत में रह गया। इसने भी एशिया को अपने ९ पुत्रों में बाँटा। इस बटवारे में अरब, पामीर, तिब्बत आदि दूर के देश भी शामिल थे। इस प्रकार के बटवारे और किसी पौराणिक राजा के विषय में नहीं कहे गए हैं। अग्नीध्र के ९ पुत्रों में अकेला नाभि भारत में रह गया। जान पड़ता है कि प्रियव्रत और नाभि के समयों में कई आर्य धाराएँ भारत से निकल निकल कर अन्य देशों में शासन करने लगी थीं। इनका वर्णन उन उन देशों के इतिहासों में इस कारण नहीं मिलता कि वहाँ का तात्कालिक इतिहास ज्ञात नहीं है। स्वायम्भुव-मन्वन्तर का उपर्युक्त

विवरण विशेषतया विष्णु पुराण और महाभारत के आधार पर किया गया है।

स्वारोचिष मन्वन्तर

यह मन्वन्तर कितने दिन का है सो हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते।

स्वारोचिष मन्वन्तर में स्कन्द पुराण के अनुसार सुरथ नामक एक सार्वभौम राजा हुआ। दुर्गापाठ में यह भी लिखा है कि भविष्य में राजा सुरथ ही सावर्णि मनु होगा। सुरथ चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ था। यह वंश कहाँ से निकला और इस में कितने और राजा हुए सो अकथित है। सुरथ के राज्य में कोला नामक एक अच्छा शहर अथवा प्रान्त था। इसके शत्रुओं ने कोला को विध्वंस कर डाला और सुरथ को युद्ध में पराजित कर दिया। फिर भी यह अपने देश में कुछ दिन तक राज्य करता रहा। अनन्तर इसके बैरियों ने इसकी राजधानी पर भी चढ़ाई करके इसके कोष और बहुत से दल का अपहरण कर लिया, जिससे घबड़ा कर यह अकेला जंगल को भाग गया, किन्तु इसके मंत्रियों ने कुछ दिनों में कोला विध्वंसियों को पराजित करके इसे जंगल से लाकर फिर गद्दी पर बिठलाया। इसके राज्यच्युत होते समय कुछ मंत्री भी शत्रुओं से मिल गये थे। इसका कोष अच्छा था और यह मितव्ययी था। जंगल में राजा सुरथ को ३ वर्षों तक मेधस ऋषियों के आश्रम में रहना पड़ा। इससे प्रकट होता है कि ऋषि लोग उस काल से ही जंगलों में रहने लगे थे, यहाँ तक कि यह परिपाटी स्वरोचिष मन्वन्तर में बहुत दृढ़ थी। उनके शिष्य भी वहीं रहते थे। ऋषियों ने सुरथ से कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया, जिससे उनका भी इसी मन्वन्तर में अथवा इसके पूर्व होना समझ पड़ता है। जान पड़ता है कि दक्षिण वाली महिष जाति का इस समय में आर्यों से घोर युद्ध हुआ। आर्य लोग उस समय दक्षिण तक नहीं पहुँचे थे, इससे महिषों का ही पंजाब में आकर इन से युद्ध करना सिद्ध होता है। इनका नेता महिषासुर नाम

से पुकारा गया है। उस समय आर्यों की नेत्री देवी नाम्नी एक प्रसिद्ध आर्य महिला थीं। इन्होंने महिषासुर का बध किया।

थोड़े दिनों के पीछे शुम्भ निशुम्भ नामक दो भारी अनार्य राजे हुये। इन्होंने आर्यों को कई युद्धों में पराजित किया, किन्तु देवी ने इनको भी ससैन्य मार कर आर्य संकट दूर किया। चंड मुंड नामक दो प्रसिद्ध सेनापति शुम्भ के सहायक थे। इनका भी देवी ने बध किया। महिषासुर तथा इन लोगों के नाम वेदों में नहीं आये हैं। स्वरोचिष मन्वन्तर की और कोई प्रधान घटना नहीं मिलती, केवल इतना और लिखा है कि उर्युक्त राजा सुरथ से मधु कैटभ का हाल कहा गया। ये दोनों प्रलय के समय में विष्णु से लड़े थे। इससे जान पड़ता है कि महाप्रलय स्वरोचिष मन्वन्तर के पहले हुआ। जिन मनु को मत्स्य देव ने भारी जहाज पर चढ़ा कर बचाया था उनका क्या नाम था सो शतपथ ब्राह्मण में नहीं लिखा हुआ है। वहाँ केवल मनु का बचाया जाना कहा गया है और यह भी लिखा है कि उन्हीं मनु के हवन से इड़ा नाम की एक कन्या हुई थी, जिससे मनु ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्राह्मण ग्रंथों से इन मनु का इससे अधिक कुछ परिचय नहीं मिलता और न वेदों में इसका कुछ हाल कहा गया है। पुराणों में महा प्रलय वाले मनु कहीं कहीं वैवस्वत मनु कहे गये हैं, किन्तु स्कन्द पुराण के अनुसार वे या तो स्वायंभुव मनु हो सकते हैं अथवा स्वरोचिष। श्री भागवत में महा प्रलय सम्बन्धी राजा का नाम सत्यव्रत था, वही प्रलय के पीछे इसी जन्म में वैवस्वत मनु हुये। स्वायंभुव की इड़ानाम्नी कोई कन्या कहीं नहीं लिखी है, वरन् उनकी कन्याओं के नाम आकूति, प्रसूति और देवहूति थे। अतः महाप्रलय से सम्बन्ध रखने वाले स्वरोचिष ही समझ पड़ते हैं। महाप्रलय का कोई ऐतिहासिक विवरण मिलना सर्वथा असम्भव है, किन्तु इसका कथन हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी के धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसलिये इसका सूक्ष्म विवरण यहाँ लिख दिया गया। कुछ पंडितों का मत है कि महाप्रलय तथा मार्कण्डेय का विवरण केवल काल्पनिक था। विष्णु पुराण में लिखा है कि चैत्र, किम्पुरुष आदि स्वरोचिष के पुत्र थे।

उत्तम और तामस मन्वन्तर

उत्तम मन्वन्तर के विषय में कोई विशेष घटना नहीं ज्ञात है। तामस मनु उत्तम के पुत्र थे। इस (तामस) मन्वन्तर में गजेन्द्र मोक्ष की कथा कही जाती है। ख्याति, शतहय, जानुजंघ आदि तामस के पुत्र थे।

रैवत मन्वन्तर

इसमें बैकुण्ठ निर्माण कहा गया है। बैकुण्ठ स्वर्गलोक को भी कहते हैं, किन्तु इस मन्वन्तर में उसका बनना भी श्री भागवत में लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह पृथ्वी पर कोई स्थान था। कश्मीर या तिब्बत में बैकुण्ठ का होना अनुमान होता है। फारसी कवियों ने भी कश्मीर के विषय में कहा है कि “अगर फिरदौस बर रूप जमीनस्त। हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥” तिब्बत को भी बैकुण्ठ मानना युक्तियुक्त है। संस्कृत में बैकुण्ठ को त्रिविष्टप भी कहते हैं जो नाम तिब्बत से बहुत कुछ मिलता है। जो हो, राजा बलि का इन्द्र से शायद इसी लोक के लिये युद्ध हुआ था। हरिवंश में कहा गया है कि जिस काल राजा बलि की फौज बैकुण्ठ विजयार्थ गयी थी, तब वह आसमान में छा गयी थी। इससे उसका किसी पहाड़ पर जाना अनुमान सिद्ध है। विष्णु पुराण के अनुसार स्वरोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत मनु प्रियव्रत के वंशज थे।

चाक्षुष मन्वन्तर

चाक्षुष मनु उत्तानपाद के वंशज कहे गये हैं। ये छठवें मनु हैं। उपर्युक्त चारों मनु प्रियव्रत की २७ वीं पीढ़ी के पीछे के हैं, सो चाक्षुष मनु का ३६ वाँ नम्बर योग्य समझ पड़ता है। इनके वंश वृक्ष से प्रायः तीस नामों का छूट जाना पाया जाता है। इस गिनती में इन चारों मन्वन्तरों में आठ राजे माने गये हैं, अर्थात् चार स्वयं मनु तथा उन चारों मन्वन्तरों में चार और राजे। श्री भागवत के अनुसार समुद्र मन्थन और बलि बन्धन चाक्षुष मन्वन्तर की मुख्य घटनाएँ हैं। बलि बन्धन के थोड़ा ही पीछे वैवस्वत मन्वन्तर प्रारम्भ होता है।

इससे जान पड़ता है कि हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के भी युद्ध चालुष मन्वन्तर के ही अन्तर्गत हैं, क्योंकि बलि हिरण्यकशिपु के प्रपौत्र थे, सो इन दोनों का अन्तर १०० वर्षों से अधिक का नहीं हो सकता, और बलि बन्धन चालुष मन्वन्तर के अन्त में होने से यदि यह मन्वन्तर प्रायः २०० वर्षों का हो, तो हिरण्याक्ष आदि की कथाएँ इसी के अन्तर्गत पड़ेंगी।

पुराणों में कहा गया है कि देवताओं की माता अदिति हैं और दैत्यों की दिति तथा दानवों की दनु। ये तीनों बहनें थीं और अदिति के देवमाता होने से इन तीनों का आर्य महिलाएँ होना अनुमान सिद्ध है। इन तीनों के पति भी एक ही व्यक्ति कहे गये हैं अर्थात् कश्यप। यदि यह बात मान ली जावे तो दैत्यों, दानवों और देवताओं में कोई भी जाति भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उनके मातृ और पितृ दोनों कुल एक ही हो जाते हैं। फिर भी यह बात सभी पौराणिक ग्रन्थों से प्रकट है कि देवताओं का दैत्यों तथा दानवों से भारी जाति भेद था। इससे जान पड़ता है कि दिति और अदिति के पतियों के नाम कश्यप अवश्य थे, किन्तु वे दो व्यक्ति थे न कि एक ही। पुराणों में अदिति के पति का नाम सब जगह कश्यप लिखा हुआ है और वे इन्द्र के पिता कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में अदिति के पति का नाम युस है। इन्द्र का वर्णन अनेक ऐसे समयों में हुआ है जिससे सभी स्थानों पर उन्हें एक ही व्यक्ति मानने से काल-विरुद्ध दूषण आ जावेगा। वेदों में इन्द्र देवता माने गए हैं किन्तु विनितियों में आर्यों द्वारा किये हुए बहुत से कर्म भी इन्द्र द्वारा किये हुए माने गये हैं, जैसे कि भक्त लोग सभी के कर्म ईश्वर कृत मानते हैं। वेदों में प्रायः ऐसे कथन हैं कि इन्द्र, अग्नि आदि ने अमुक के लिये अमुक कार्य किया। ऐसे स्थानों पर वे कार्य उन्हीं राजाओं आदि के हैं और इन्द्रादि के नाम भक्ति के कारण कहे गये हैं। पुराणों में इस विचार का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। वहाँ इन्द्र की बड़ी सेनाएँ हैं और उनके कार्य महाराजाओं के समान हैं। वैदिक इन्द्र कभी पराजित नहीं हुये किन्तु पौराणिक इन्द्र कई बार हारे हैं। वैदिक इन्द्र के प्रायः सभी कर्म उच्चाशय पूर्ण हैं, किन्तु पौराणिक इन्द्र बहुत

से गर्हित कर्मों के कर्त्ता हुये हैं। फिर भी वैदिक इन्द्र के प्रायः सभी गुण पौराणिक इन्द्र में वर्त्तमान हैं। इन सब बातों से समझ पड़ता है कि पुराणों में इन्द्र का विचार वैदिक इन्द्र से उठकर आर्यों के प्रधान सम्राट में परिणत हो गया। महाभारत के शान्ति पर्व में आया है कि कोई सदा को इन्द्र नहीं रहता। बहुत से इन्द्र पहले हो चुके हैं और बहुतेरे आगे होंगे। यह बलि ने इन्द्र से कहा था। दुर्गा सप्तशती में आया है कि देवताओं को जीतकर महिषासुर इन्द्र हो गया। उसके पीछे वह पराजित हुआ।

दैत्यों, दानवों आदि के वंशों का कुछ कथन पौराणिक राजवंशों के अध्याय में हो चुका है। कुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के समय पर्यन्त आर्य लोग सरस्वती नदी के पश्चिम तक रहे और उसके पूर्व नहीं आये। इस कथन के प्रमाण में वे ऋग्वेद की उस ऋचा का सहारा लेते हैं जिसमें लिखा है कि सरस्वती नदी के पूर्व अनार्यों की बस्ती है। हमारी समझ में इससे केवल इतना सिद्ध होता है कि उस काल सरस्वती के पूर्व आर्यों का राज्य न था और वे इधर बसे कम थे, न यह कि वे इस ओर आते जाते ही थे। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आर्य लोग सौ सौ मस्तूलों के जहाज समुद्र पर चलाते थे। कुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि ये जहाज समुद्र पर न चल कर केवल सिन्धु नदी पर चलते थे। हमारी समझ में यह विचार कुतर्क मात्र है। समझ पड़ता है कि सरस्वती के पूर्व अनार्यों की बस्ती बतानेवाली ऋचा चालुष मन्वन्तर के प्रारम्भ काल की है और सारे वैदिक समय से भी सम्बन्ध नहीं रखती।

पौराणिक वर्णनों से अनुमान होता है कि वृत्र-वध दैत्य अभ्युत्थान से पहले हुआ। कहते हैं कि ९९ वृत्रों को इन्द्र ने मारा। कहीं कहीं वेदों में वृत्र के पहाड़ी दुर्गों का कथन है जिन्हें इन्द्र ने विमर्दित किया। ये घटनाएँ चालुष मन्वन्तर की समझ पड़ती हैं। इस मन्वन्तर के प्रायः माध्यमिक समय में दिति पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बड़े प्रतापी हुए। हिरण्याक्ष की सहायता से विशेष बल प्राप्त करके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य बहुत विस्तीर्ण किया। कहा जाता है कि इसका आतङ्क आर्य देश में भी पड़ा और इसने बहुत से

आर्यों को पदच्युत कर दिया। पुराणों में इसके द्वारा तीनों लोकों का जीता जाना कहा गया है, किन्तु बलि के समयवाले देवासुर संप्राम की भाँति कोई युद्ध इसके समय में नहीं कथित है। इससे समझ पड़ता है कि आर्यों पर हरिण्यकशिपु का कुछ आतङ्क अवश्य पड़ा, किन्तु वे पूर्णतया पराजित नहीं हो पाये। इसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा था कि इतने ही में अद्वितीय वीर हिरण्याक्ष का वन में किसी बराह से सामना हो पड़ा, जिसके द्वारा वह मारा गया। इस बात से हरिण्यकशिपु का राज्य कुछ बलहीन होकर ढगमगाने लगा और आर्यों का प्रभाव बढ़ा। कुछ पण्डितों का विचार है कि वेद तथा जेंदावस्ता के विवरणों से समझ पड़ता है कि देवासुर झगड़ा फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान में हुआ होगा। सम्भवतः हिरण्यकशिपु और बलि उत्तर पच्छिमी फ़ारस या अफ़ग़ानिस्तान के शासक हों। ऐसी दशा में समुद्र मन्थन भी उसी ओर की घटना निकलेगी और नागों का भी उस ओर ससर्ग बैठेगा। योग वाशिष्ठ में आया है कि विष्णु ने प्रह्लाद नामक किसी दैत्य को अन्तिम राजा बनाकर कहा कि उस दिन से दैत्य रुधिर पृथ्वा पर नहीं गिरने को था। बलि के बाबा प्रह्लाद राजा न थे, सो ये प्रह्लाद कोई दूसरे भी हो सकते हैं। जान पड़ता है कि विष्णु द्वारा इस सन्धि के पीछे आर्य्य भारत में चले आये। आगे कथा का डार फिर से उठाया जाता है। इन्द्र इस काल एक आर्य्य सम्राट्-वंश की उपाधि समझ पड़ती है। भविष्य में प्रह्लाद भी इन्द्र होंगे। इससे उनकी उन्नति की झलक मिलती है। पद्म, सृष्टि खण्ड ७३ में उनका सुरत्व प्राप्ति भी लिखी है। ये बलि के ही बाबा थे, सो इन्हीं की उन्नति ग्राह्य है।

श्री भागवत में लिखा है कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद बड़ा ही विष्णुभक्त था और इसी बात पर पिता पुत्रों में विरोध हुआ, जिससे नृसिंह भगवान् द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया। इस कथा में दो प्रधान आपत्तियाँ हैं। एक तो यह कि एक थोड़े से मतभेद पर इतना भारी राजा अपने पुत्र को मारने ही को क्यों उद्यत होता? दूसरे जिस काल का यह वर्णन है तब तक विष्णु भक्ति का विचार ही भारत में भली-भाँति नहीं उठा था। यह विचार वैदिक समय से पीछे का है और

प्रह्लाद वैदिक समय के आरम्भ में हुये। श्री भागवत पुराण की अपेक्षा हरिवंश बहुत पुराना और अधिक माननीय है। उसमें प्रह्लाद भक्त अवश्य कहे गये हैं, किन्तु पिता पुत्र का कोई विरोध नहीं लिखा है। जान पड़ता है कि जब हिरण्याक्ष के निधन से हिरण्यकशिपु का बल कुछ मन्द पड़ गया, तब अपने विविध नेताओं में ऐक्य उत्पन्न करके आर्यों ने दल बल समेत इस पर आक्रमण किया। भारी युद्ध हुआ जिसमें दैत्यों की पराजय हो गयी और स्वयं हिरण्यकशिपु नृसिंह नामक एक वीर आर्य पुरुष के हाथ से मारा गया। अब दैत्यों का हत शेष दल पूर्व की ओर भाग गया।

दैत्यों में प्रह्लाद और तत्पुत्र विरोचन ने कोई राजनैतिक महत्ता प्राप्त नहीं कर पाई, किन्तु विरोचन का पुत्र बलि बड़ा पुरुषार्थी हुआ। इसने अपने पिता और पितामह के जीवनकाल में भी प्रबन्ध करना आरम्भ करके दैत्यों के बल को बहुत बढ़ाया और इनके नए निवास स्थान में एक राज्य सा स्थापित कर लिया। बलि ने इस उत्तमता से प्रबन्ध किया और दैत्यों के मुरझाये हुये बल को ऐसा जागृत किया कि इन सभी ने सर्वसम्मति से उसको राजपद अर्पित किया। विरोचन और प्रह्लाद की भी अनुमति बलि के राजा बनने ही में थी। बलि ने राजपद पाने के पीछे और भी उत्साह से प्रजापालन तथा दैत्य बल वर्द्धन में मन लगाया। उसने इस कौशल से काम किया कि दैत्यों तथा दानवों का महत्त्व दिनों दिन बढ़ने और साम्राज्य संगठित होते हुये भी इन लोगों का नागों तथा आर्यों से कुछ भी वैमनस्य न होने पाया। इसका पुत्र युवराज वाणासुर भी बड़ा प्रतापी युद्धकर्त्ता था। स्वयं राजा बलि राजनीतिज्ञता, पुरुषार्थ, न्यायप्रियता, धर्म, दान आदि गुणों में एक ही था।

जब तक हिरण्यकशिपु के समय में पराजित होकर दैत्यों ने बलि के काल में फिर से उन्नति प्रारम्भ की, तब तक उधर आर्यों ने बहुत बड़ी महत्ता प्राप्त कर ली। नागों से अब तक इनका साधारण मेल था, किन्तु अब यातायात के बहुत अधिक बढ़ जाने से वे इनके प्रगाढ़ मित्र हो गए। नाग लोग शायद बाहर के निवासी थे और वहीं से आकर बंगाल में बसे। अपने लोक में समुद्र मार्ग द्वारा प्रायः

जाते आते रहने तथा व्यापार पटु होने के कारण यह लोग समुद्र यात्राओं में विशेष अभ्यस्त होंगे।

जब आर्यों का समुद्र पर आना जाना बढ़ा तब नागों की सहायता से इन्होंने दूर देशों में यात्रा करने के विचार किये। इस विचार में दैत्य लोग भी सम्मिलित हुये और आर्यों, दैत्यों एवं नागों ने मिलकर समुद्र मन्थन का कार्य प्रारम्भ किया। इसका वर्णन पुराणों में दार्ष्टान्तिक है। उनमें लिखा है कि शेषनाग ने मन्दराचल उखाड़ कर समुद्र के किनारे रक्खा, वासुकी नाग रस्सी बने, मन्दराचल मथानी और देव दैत्य मथने वाले। इस प्रकार प्रचुर परिश्रम से समुद्र से चौदह रत्न प्राप्त हुये, अर्थात् लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, रम्भा, वारुणी, अमृत, पांचजन्य शंख, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, कामधेनु, शार्ङ्गधनुष, धन्वन्तरि वैद्य, विष, और उच्चैः श्रवस घोड़ा। इसी वर्णन का साधारण गद्य में लिखने से समझ पड़ता है कि आर्यों, दैत्यों और नागों ने मिलकर समुद्र द्वारा संसार यात्रा का विचार किया। इस पर शेषनाग ने जहाज बनाने के लिये मन्दराचल की इतनी लकड़ी समुद्र के किनारे मँगाई कि मानो पहाड़ का पहाड़ ही समुद्र तट पर आ गया। नागों के दूसरे सरदार वासुकि ने रस्सी मस्तूल आदि लगा कर जहाजों को सजाया, और तब नागों की सहायता से दैत्यों और आर्यों ने सारे संसार में समुद्र यात्राएँ कीं। इन यात्राओं में उन्हें भौँति-भौँति के पदार्थ प्राप्त हुए जिनमें चौदह रत्न प्रधान थे। इन रत्नों में चन्द्रमा भी एक था। इससे जान पड़ता है कि इन्हें चन्द्रमा के समान चमकनेवाला कोई रत्न मिला जिसका नाम चन्द्रमा रक्खा गया, अथवा समुद्र पर चन्द्रोदय देख इन्होंने चन्द्र को समुद्र से ही उत्पन्न मानकर उसे भी यात्रा द्वारा प्राप्त एक रत्न समझा। समुद्र यात्रा द्वारा प्राप्त पदार्थों के बटवारे में आर्यों का दैत्य, दानवों से झगड़ा हो गया यहाँ तक कि युद्ध भी हो पड़ा। राजा बलि को इस युद्ध में पराजित होकर अपने देश में भाग आना पड़ा। फल यह हुआ कि समुद्र मन्थन द्वारा दैत्यों को केवल सुरा प्राप्त हुई और शेष मुख्य मुख्य वस्तुएँ आर्यों को मिलीं। नागों को भी इन लोगों ने प्रसन्न रक्खा। जान पड़ता है कि यद्यपि नागों ने

समुद्र मन्थन में आर्यों तथा दैत्यों को सहायता दी, तथापि प्रधानता उन्हीं लोगों की थी और उन्हीं में भगड़ा भी हुआ, अथच नाग लोग एक भी रत्न न पाकर केवल अन्य सम्मान से प्रसन्न रहे ।

राजा बलि ने अपने प्रपितामह के निधन का बैर छोड़कर आर्यों का साथ दिया था, किन्तु फल कुछ भी न निकला और पूरा परिश्रम करके समुद्र मन्थन में दैत्य लोग खाली हाथ रहे। आर्यों की इस धीमाधीनी तथा स्वजात्यपमान से रुष्ट होकर बलि ने युद्ध की ठानी । इस विचार में सारे दैत्य दानवादि सहमत हुए और प्रह्लाद तक ने न केवल इसका अनुमोदन किया, वरन् प्रगाढ़ भक्ति को भी किनारे रखकर अपनी जाति का अपमान मिटाने के विचार से रण स्थल में स्वयं युद्ध करने की सन्नद्धता दिखलायी । राजा बलि ने अब दूना उत्साह पा रणोन्मत्त होकर रणस्थल में रणचण्डी को तृप्त करने के लिए सेना सजने की आज्ञा दी । दैत्य दल में प्रधान लोग निम्नानुसार थे:—महापद्मिनी, पद्म, कुम्भ, कुम्भकरण, कांचनाक्ष, कपिकन्ध, क्षिति कम्पन, मैनाक, ऊर्ध्वक्र, सितकेश, विकच, सुबाहु, सहस्रबाहु, व्याघ्राक्ष, वज्रनाभि, एकाक्ष, गजस्कन्ध, गजशीर्ष, कालजिह्वा, कपिलाक्ष, धेनुक, युवराजबाण, अनायुषा-पुत्रवलि, नमुचि, यम, पुलोमा, हयग्रीव, प्रह्लाद, शम्बर, अनुह्लाद, (प्रह्लाद का भाई), विरोचन (बलि का पिता), विषपर्वा, वित्र, कनकबिन्दु, कुजंभ, असिलोमा, एकचक्र, राहु, विप्रक्षिति दानव, केशी दानव, हेममाली, मय, वृत्रासुर आदि । जो ब्राह्मण लोग इनके पुरोहित थे वे भी युद्ध में गए । इन्द्र के सहायक निम्नानुसार थे:—विद्याधर, गन्धर्व, यक्ष, डम्बर, तुम्बर, किन्नर, नाग, आदि । बड़ा भारी युद्ध हुआ और देव (आर्य) पराजित हो कर पूर्व दिशा को भाग गए । इसी युद्ध को देवासुर संग्राम कहते हैं । इसमें मय, शम्बर, प्रह्लाद और बलि की प्रधानता रही । मय और शम्बर विशेषतया मायावी कहे गए हैं । यह शम्बर दिवोदास के समय के शम्बर से इतर मालूम पड़ता है । देवताओं के पूर्व दिशा में भागने से विदित होता है कि वे अपने देश में न जाकर नाग लोक में या अकरानिस्तान की ओर गए । इस प्रकार बलि ने आर्यों और नागों को पराजित करके तीनों लोकों की धर्म सहित

पालना की। तीनों लोकों से किस देश का प्रयोजन है सो अनिश्चित है।

बलि से पराजित होकर आर्य लोग न केवल दैत्य लोक का वरन् अपने देश का भी राज्य खो बैठे। अब इन्हें किसी अच्छे नेता की खोज पड़ी। बहुत दूँढ़ खोज के पीछे इन्होंने कश्यप के पुत्र भगवान वामन को परम प्रवीण पुरुष पाकर उनकी शरण ताकी और उन्होंने भी स्वजाति प्रेमवश अपने पराजित भाइयों का पक्ष ग्रहण किया। बहुत मन्त्रणा के पीछे आर्यों ने यह निश्चय किया कि भगवान वामन बलि के यहाँ जाकर उसे किसी प्रकार से राज्य च्युत करें। उधर का पता लगाने से इन्होंने जाना कि बलि अश्वमेध यज्ञ करता है। इस अवसर को और भी शुभ समझ कर भगवान वामन ने आर्य पुरोहित बृहस्पति को साथ ले दैत्यपति के यज्ञस्थल में जाकर बलि की प्रशंसा करते हुए तत्कालिक प्रचलित रीति से चढ़ी बढ़ी यज्ञ विधि कही। यह सुनकर शुक्राचार्य आदि बलि के पुरोहित निरुत्तर हुए। यह देख राजा बलि ने परम प्रसन्न हो वामन की प्रशंसा की और उन्हें यथारुचि वर देने का प्रण किया। भगवान ने तीनों लोक दान में माँगे और सभी से मना किए जाने पर भी राजा बलि ने अपना बचन तोड़ना पसन्द न किया और यही कहा कि ऐसा दान पात्र आज तक किसी ने नहीं पाया। यह कह कर उसने अपनी सारी अल्प अनल्प पृथ्वी वामन भगवान को दे दी। अब दैत्यों ने आर्यों का अधिकार राकना चाहा, किन्तु बलि की सहायता बिना वे कुछ कर न सके और आर्यों तथा नागों ने मिल कर सारी पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया। वामन भगवान ने बलि को नागपाश से बाँधकर सुतल नामक देश में नागों के पहरे में कैद कर दिया। इस प्रकार आर्यों का साम्राज्य सारे देश में फिर फैल गया। इस भाँति चालुष मन्वन्तर के अन्त में आर्यों का प्रभाव खूब बढ़ गया। पुराणों में लिखा है कि वामन भगवान ने बलि से केवल तीन पैग पृथ्वी माँग कर तीनों लोक तीन ही पैग में नाप लिये। ऋग्वेद में भी विष्णु के तीन पैगों का बहुत कथन है, यद्यपि उसमें वामन का नाम नहीं आया है। ज्ञान पड़ता है कि वामन ने

किसी प्रकार लम्बे ढगों का प्रभाव दिखलाया। शत पथ ब्राह्मण में लिखा है कि वामन ने लेट कर सारी पृथ्वी नापी। इसके पीछे किसी दैत्य सरदार प्रह्लाद की अध्यक्षता में आर्यों की दैत्य दानवों से विष्णु द्वारा अन्तिम सन्धि हुई, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये प्रह्लाद चाहे बलि के पितामह ही हों चाहे कोई दूसरे। लिखे एक ही प्रह्लाद हैं। चालुष मन्वन्तर की कथा महाभारत और विशेषतया हरिवंश के आधार पर लिखी गई है। आदिम भाग दुर्गापाठ से आया है।

वैवस्वत मन्वन्तर

इसी समय से वैवस्वत मन्वन्तर का प्रारंभ होता है, जो अब तक चल रहा है। वास्तव में चालुष मन्वन्तर ही अन्तिम है और वैवस्वत मन्वन्तर के प्रायः अनन्त होने से चालुष तक ही मन्वन्तरों के अनुसार कालगणना हो सकती है, तथा वैवस्वत के आरम्भ से नये प्रकार से गिनती करनी पड़ेगी। इसी काल से नवीन आर्य धारा के आगमन से नया युग भी आरम्भ होता है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि प्रसिद्ध अयोध्या नगरी वैवस्वत मनु ही ने बसायी। पुराणों में कहीं कहीं यह भी लिखा है कि मनु पुत्र इक्ष्वाकु ने यह पुरी बसायी। चालुष मन्वन्तर ही में वैदिक समय प्रारम्भ होता है। हम देखते हैं कि पहले आर्यों की यह दशा रही कि स्वायंभुव मन्वन्तर में इन्होंने उत्तरी भारत जीता, अन्य देशों और महाद्वीपों को विजयिनी धारार्य भेजी और जङ्गलों को जलाकर निवास योग्य भूमि निकाली एवं कृषि की उन्नति की। आर्य शब्द का अर्थ ही कृषक है। स्वरोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत मन्वन्तरों में ये लोग धीरे धीरे फैलते गये, यहाँ तक कि बहुत सा देश आर्यों के अधिकार में आगया और इनकी सभ्यता का अनुकरण करके प्राचीन भारतीयों तथा नागों ने भी कहीं कहीं अपने राज्य जमाये। चालुष मन्वन्तर के डेढ़ दो सौ वर्षों में आर्यों ने और भी बढ़ कर अपना शासन फैलाया तथा दैत्य दानवों आदि की अध्यक्षता में अनार्य लोग मध्य और पश्चिमी भारत में बसने लगे। अब हम वेदों के

सहारे समाज का कुछ वर्णन करके क्रमबद्ध इतिहास को फिर से उठावेंगे। इसी स्थान पर भारत में आने वाली पहली आर्य धारा का इतिहास समाप्त होता है, ऐसा हमारा विचार है। अब तक के छवो मनु एक ही घराने के थे। वैवस्वतमनु से इनका वैवाहिक आदि कोई सम्बन्ध नहीं मिलता। वैवस्वत के पिता सूर्य दत्त के दौहित्र अवश्य थे, किन्तु ये दत्त चालुष वंशी अन्तिम राजा ही थे सो अनिश्चित है। पहली धारा ने भारत में बस कर तथा आदिम निवासियों का जीत कर यहाँ अपना प्रभुत्व फैलाया। अन्तिम मन्वन्तर के मनु स्वयं वैदिक ऋषि थे और उनके वंशधरों में पृथुवैन्य अवश्य ही ऋषि थे तथा वेन और ध्रुव भी हो सकते हैं। पहले पांच मन्वन्तरों में कोई वैदिक ऋषि न था। अतएव हम देखते हैं कि छवो मन्वन्तरों में अन्तिम चालुष न केवल राजनीतिक विस्तार में गरिमापूर्ण था, वरन् उसमें वैदिक गान भी होने लगा। इस काल प्रथम आर्यधारा के साथ कुछ दैत्य दानव भी शायद इधर आये हों, किन्तु चालुष मन्वन्तर का देवासुर युद्ध शायद फारस और अफ़-ग़ानिस्तान से ही सम्बद्ध हो। उपर्युक्त अन्तिम सन्धि के पीछे दूसरी आर्य धारा का भारत में आना समझ पड़ता है।

छठवां अध्याय

प्रायः २००० बी० सी० से ६५० बी० सी० तक

ऋग्वेद (प्रथम मण्डल) एवं वेदांग

भारत का आदिम इतिहास वेदों के सहारे ही लिखा जा सकता है। इसलिये स्थालीपुलाकन्यायेन इनका कुछ दिग्दर्शन पाठकों को कराना उचित समझ पड़ता है। इसमें कठिनाता यह है कि वेद-मन्त्रों के अनुवादों में पृथक् मत वाले मनुष्य अपने अपने मतानुसार अर्थों में खींचतान करते हैं, सो असली अर्थ जानना सुगम नहीं है। हमने विशेषतया सायणाचार्य का प्रमाण माना है और यथासाध्य मतभेद वाले स्थानों पर किसी भी मत की ओर न झुक कर निर्विवाद मन्त्रों आदि का अधिक सहारा लिया है। हमारा तात्पर्य किसी भी मत को पुष्ट अथवा अपुष्ट प्रमाणित करने का नहीं है, वरन् हम पाठकों को निर्विवादात्मक मर्म बतलाने की इच्छा रखते हैं कि जिसमें लोग यह जान जावें कि इन पुनीत ग्रन्थों का आशय क्या है अथवा इनके वर्णन और विषय कैसे हैं ?

जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वेद चार हैं अर्थात् ऋक्, यजुष, साम और अथर्व। पंडितों ने सब से अधिक उपयोगी ऋग्वेद को समझा है और इस पर अधिक परिश्रम भी हुआ है।

चारों वेदों के अतिरिक्त सारे ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेदों के अंग हैं। ये गणना में अब प्रायः ७० रह गये हैं। पंडितों का मत है कि बहुत से ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य १४ वीं शताब्दी में थे। यद्यपि इनको हुये प्रायः ६०० वर्ष ही हुये हैं, तथापि इनके समय में भी एक वह ब्राह्मण ग्रन्थ प्राप्त था जो अब अप्राप्य हो गया है। ब्राह्मणों ही के अन्तर्गत उपनिषद् ग्रन्थ हैं। इनके विषय ब्राह्मण ग्रन्थों के शेष भागों से बिलकुल पृथक् हैं

क्योंकि इनमें ज्ञान कथन है और ब्राह्मणों के शेष भागों में कर्मकांड की प्रधानता है। उपनिषत् लगभग ११९४ हैं, जिनमें १२५ के लगभग अथर्ववेद से सम्बन्ध रखते हैं। प्रायः १५० उपनिषत् प्राचीन और महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी १० की प्रधानता है। इन सब के वेदांश होने पर भी सुगमता के लिये हम केवल संहिता भाग को वेद कहते हैं और ऐसा ही आगे भी करेंगे।

हिन्दू धर्मानुसार वेद अनादि हैं, अर्थात् किसी ने इन्हें कभी बनाया नहीं। ये ऋषियों को आप से आप भासित हुये। इसलिये इनका किसी समय में बनाया जाना कहना हिन्दू धर्म के प्रतिकूल है। पहले तीन ही वेद प्रधान थे और अथर्व की गणना वेदों में न थी। इसीलिए वेदत्रयी आदि के कथन हिन्दू ग्रन्थों में प्रायः पाये जाते हैं। धीरे-धीरे अथर्व की भी गणना वेदों में होने लगी। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, बृहदारण्यक तथा शतपथ ब्राह्मण में केवल तीन ही वेद कहे गये हैं। छान्दोग्य में भी ऐसा ही है और अथर्व-को इतिहास माना गया है। साम और अथर्व के आरण्यक नहीं हैं। वेद वर्तमान रूप में सदा से न थे, वरन् वेदव्यास ने इन्हें जनमेजय के समय सम्पादित करके वर्तमान रूप दिया। इसका आधार बारहवें अध्याय के अन्त में है। वेद के विभाग करने ही से उनको व्यास उपाधि मिली। विष्णु पुराण के चौथे खण्ड में लिखा है कि द्वापरयुग में कृष्ण द्वैपायन ने वेद को एक से चार किए और इसी प्रकार पहले के व्यास लोग भी करते आये थे। विष्णु पुराण के अनुसार समय समय पर २८ व्यास हुए। यही मत अन्य प्रकार से भी स्थिर होता है जैसा कि आगे दिखलाया जायगा। भगवान् वेदव्यास से पहले भी एक बार अथर्वण ऋषि वेदों का सम्पादन कर चुके थे। वेद के चार विभाग होने पर पैल ने ऋग्वेद सीखा, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि ने सामवेद और सुमन्तु ने अथर्ववेद। प्रत्येक मंत्र का नाम नाक है। समय पर इन ४ ऋषियों के शिष्यों में कई भेद हो गए जिससे वेदों की अनेकानेक शाखाएँ स्थिर हुईं। वेदों और ब्राह्मणों से इतर ४ उप-वेद, ६ वेदाङ्ग और कई उपाङ्ग हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थ-

शास्त्र । ६ वेदाङ्गों में शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और छन्द हैं । पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र नामक चार उपांग हैं । ये बिस्तार नवम शताब्दी बी० सी० से पीछे के हैं, किन्तु विषय की पूर्णता दिखलाने को इनका आभास मात्र यहाँ कहा गया है ।

आयुर्वेद के विद्वान ब्रह्मा, रुद्र, विवस्वान, दक्ष, अश्विनीकुमार, यम, इन्द्र, धन्वन्तरि, बुद्ध, च्यवन, आत्रेय, अग्निवेश, मेरु या भेल, जातुकर्ण, पराशर, शीरपाणि, हारीत, भरद्वाज और सुश्रुत (विश्वामित्र के पुत्र) थे । विदेहराज जनक ने “वैद्य संदेह भंजनम्” ग्रंथ लिखा । इसी प्रकार अगस्त्य ने “द्वैध निर्णयतन्त्रम्”, जावाल ने “तन्त्रसारकम्”, जाजलि ने “वेदांगसार”, पैल ने “निदान”, कवथ ने “सर्वधर्मतन्त्रम्”, काशिराज ने “चिकित्साकौमुदी” धन्वन्तरि ने “चिकित्साबलविज्ञानम्”, बनारस के दिवोदास ने “चिकित्सादर्पण” आदि ग्रन्थ लिखे । विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने दिवोदास से वैद्यक सीखी । वे शरीरशास्त्र में निपुण हो गए । गोमांस को सुश्रुत और चरक ने भक्ष्य लिखकर उसको भारतवर्ष की जलवायु के प्रतिकूल बतलाया । नकुल और सहदेव भी अच्छे वैद्य हो गए हैं । धनुर्वेद विश्वामित्र का बनाया हुआ है । उसमें आयुध ४ प्रकार के लिखे हैं, अर्थात् मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मन्त्रमुक्त । गान्धर्व वेद के अन्तर्गत ही नाट्यशास्त्र है । गायन के आचार्य नारद थे । महेश के कहने से नृत्य का आरम्भ हुआ । नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा । अर्थशास्त्र की शाखायें नीतिशास्त्र, शालिहोत्र, शिल्पशास्त्र, सूत्रशास्त्र आदि ६४ कलाएँ हैं । नीतिशास्त्र के रचयिता शुक्र, बिदुर, कामन्दक, चाणक्य आदि हैं ।

शिक्षा से उच्चारण की रीति ज्ञात होती है । व्याकरण से शब्दों और वाक्यों के सम्यक प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है । पाणिनि ऋषि शिक्षा और व्याकरण के सब से श्रेष्ठ आचार्य हैं । इनकी माता देवल दाक्षी थी । ये शलातुर में रहते थे । कोई इनका जन्मस्थान तुरी बतलाते हैं । ये अकशान थे । इनका व्याकरण संसार भर में सब से छोटा एवं सर्वाङ्गपूर्ण है । कात्यायन और पतञ्जलि भी व्याकरणाचार्य थे । कात्यायन गोभिल गोणिका के पुत्र और सौनक के शिष्य नन्द

वंश के मन्त्री थे। ये चौथी शताब्दी बी० सी० में हुए। इन्होंने शुक्र यजुर्वेद पर एक २६ अध्यायों का श्रौत सूत्र भी लिखा। आरम्भ में इन्द्र, चन्द्र, महेश और ब्रह्मा ने मिलकर अक्षर और व्याकरण बनाये। निरुक्त से वेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान होता है। यास्क इसके प्रथम आचार्य हैं। कल्प में वेदकर्मों के क्रम का ज्ञान है। कल्प की मुख्य तीन शाखाएँ हैं, अर्थात् श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, और धर्मसूत्र। श्रौतसूत्र के आचार्य लात्यायन, द्राह्यायन आदि हैं। आश्वलायन, गोभिल, पारस्कर आदि गृह्यसूत्र के आचार्य हैं तथा बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन आदि धर्मसूत्र के। ज्योतिषशास्त्र से समय का समुचित ज्ञान होता है। इसमें तिथि, बारादि जानने की रीति निर्दिष्ट है। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की गतियाँ गणित द्वारा बतलाई गई हैं। पाराशरी संहिता ज्योतिष का पहला ग्रन्थ है। इन्होंने यवनादि जातक का उल्लेख किया है। गर्ग ने इनसे प्रायः १०० वर्ष पीछे शकों के समय में गर्ग संहिता बनाई। आर्य भट्ट ने सन् ४७६ में जन्म लिया। इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ये शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इन्होंने पृथ्वी का घूमना लिखा है और पृथ्वी के विस्तार का प्रायः ठीक ठीक निर्णय करके सूर्य, चन्द्र ग्रहण के उचित कारण भी बतलाये हैं। बराह मिहिर भी शाकद्वीपी थे। ये सन् ५०२ में मालवे में हुये। इन्होंने बृहत्संहिता लिखी। इसमें भूगोल, खगोल, गणित, वनस्पति और प्राणि विद्या का भी वर्णन है। ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त के रचयिता कदाचित् ८ वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने गणित और फलित दोनों प्रकार का ज्योतिष लिखा। बारहवीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि, लीलावती और बीजगणित ग्रंथ रचे। उनका कहना है कि जब लंका में प्रातः काल होता है तो रोम में दोपहर। लल्लु, श्रीधर आदि भी अच्छे ज्योतिषकार थे। श्रीधर स्वामी तथा अन्य ज्योतिषियों का कथन है कि महाभारत युद्ध के समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर थे और नन्द-राज्य के समय पूर्वाषाढ़ पर आचुके थे। वे एक नक्षत्र पर १०० वर्ष रहते हैं। सप्तर्षियों से जिस दिशा में ध्रुव पड़ते हैं, उसकी विपरीत दिशा में आकाश में एक सीधी रेखा खींची जाने से वह नक्षत्र राशि में से जिस को काटे उसी

पर सप्तर्षि की स्थिति मानी जाती है। यास्क ने कहा कि चन्द्रमा में सूर्य से प्रकाश पहुँचता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जब चन्द्र पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तब उसकी गोलाई जान पड़ती है। ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कश्यप, भर्ग, नारद, बृहस्पति, विवस्वान, सोम, भृगु, मनु, च्यवन आदि भी उद्योतिषी थे। पौराणिक भूगोलों में ७ द्वीप हैं अर्थात् जम्बू, शाक, शाल्मलि, पुष्कर, प्लक्ष, कुश और क्रौंच। छन्द शास्त्र के आचार्य शेषनाग थे। छन्द दो प्रकार के हैं अर्थात् लौकिक और अलौकिक। वेद में अलौकिक छन्द हैं और साधारण ग्रन्थों में लौकिक। इन दोनों का वर्णन पिङ्गल नाग ने 'छन्दो निवृत्ति ग्रन्थ' में किया। इसी से छन्द ग्रन्थों को प्रायः पिङ्गल भी कहते हैं।

पुराण १८ और उपपुराण भी १८ हैं। न्यायशास्त्र के मुख्य आचार्य गौतम और वैशेषिक के कणाद हैं। पुराणों में कणाद की उल्लेख और गौतम को अपत्तयाद लिखा है। गौतमीय न्याय पर वात्स्यायन का न्याय है और वैशेषिक पर प्रशस्तपाद का। न्याय शास्त्र के अन्य आचार्यों में वाचस्पति मिश्र (८ वीं शताब्दी) उदयन (१२ वीं शताब्दी) रघुनाथ, शिरोमणि व पक्षधर मिश्र (१४ वीं शताब्दी) और गणेश, जगदीश, विश्वनाथ तथा शंकर मिश्र (१६ वीं शताब्दी) प्रसिद्ध हैं। मीमांसा निर्णय को कहते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनि की तथा उत्तर मीमांसा व्यास की है। शबर स्वामी पूर्व मीमांसा के भाष्यकार थे। कुमारिल्ल भट्ट और प्रभाकर भी पूर्व मीमांसावादी थे। शंकराचार्य, रामानुजचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विज्ञानभिक्षु, निम्बार्काचार्य उत्तर मीमांसा के भाष्यकार हैं। धर्मशास्त्र के सांख्य और योग उपभेद हैं। कपिल भगवान सांख्य के ऋषि थे और पतंजलि योग के। व्यास ने योग सूत्रों पर भाष्य रचा। श्वेताश्वतरोपनिषत् में कपिल को परमर्षि कहा गया है।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद की सूर्य से। इतिहासों और पुराणों को पांचवाँ वेद कहते हैं। यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण नामक दो भेद हैं। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि वैश्यम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य

ने अपने गुरु के सामने अहंकार पूर्ण वचन कह दिया। इससे रुष्ट होकर गुरु ने आज्ञा दी, “तू मेरी सब विचार्यें छोड़ दे।” इस पर याज्ञवल्क्य ने अपने पेट से यजुर्वेद उगल दिया। उसमें खून लगा हुआ था। इससे वैश्यम्पायन के अन्य शिष्यों ने उसे तीतुर बन कर चुन लिया। तब से यह उगला हुआ वेद कृष्ण अथवा तैत्तिरीय कहलाने लगा। फिर सूर्य की आराधना करके याज्ञवल्क्य ने दूसरा यजुर्वेद पाया, जिसमें कुछ ऐसी ऋचायें थीं जो वैशम्पायन भी नहीं जानते थे। यह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। इन दोनों में अन्तर बहुत थोड़ा है।

वेदों के शब्द हजारों वर्षों से हमारे यहाँ जैसे के तैसे चले आते हैं। इनमें एक मात्रा की भी तबदीली नहीं हुई है। इन्हें स्थिर रखने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न किये गये, क्योंकि इन शब्दों तक में प्राचीन काल से बड़ी पवित्रता मानी गई है। सब से पहला युक्ति का नाम पद-पाठ है। इसके द्वारा वेदों की प्रत्येक ऋचा का प्रत्येक शब्द अलग अलग लिखा जाकर रक्षित किया गया। दूसरी युक्ति क्रम-पाठ की है। इसमें शब्द के प्रथम और अन्तिम अक्षर को छोड़ कर प्रत्येक अक्षर दो बार लिखा गया; जैसे यदि “अब दल लिखना हुआ तो अब, बद, दल, इस प्रकार लिखा गया। इससे भी बढ़कर जटा-पाठ हुआ जिसमें अबदल यों लिखा जाता है:—अब, बअ, अब, बद, दब, बद; दल, लद, दल। इस पर भी ऋषियों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने जटा-पाठ से भी बढ़ कर घन-पाठ निकाला, जिसका क्रम यों है:—अब, बअ, अबद, दबअ, अबद; बद, दब, बदल इत्यादि। वेद पाठ के भी कई नियम बनाये गए जिनके नाम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। इस प्रकार वेदों के उचित प्रकारेण पाठ करने और उनके एक एक अक्षर को यथाक्रम स्थिर रखने में हमारे ऋषियों ने पूरा परिश्रम किया। पंडितों का विचार है कि वेद का अन्तिम पाठ छठी शताब्दी बी० सी० से दृढ़ है। धीरे धीरे वेदों की शाखायें बढ़ने लगीं, यहाँ तक कि पुराणों के अनुसार ऋग्वेद की १६ संहिताएँ हो गयीं, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ९। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण परमोपयोगी हैं।

ऋग्वेद सब से पुराना है और इसकी महिमा सभी वैदिक ग्रंथों से बढ़ी चढ़ी है। इसलिये वेदों का सविस्तार वर्णन अब हम ऋग्वेद से ही उठाते हैं। इसमें दस मुख्य विभाग हैं जिन्हें मण्डल कहते हैं। इनमें पहले और दसवें मण्डल सब से बड़े हैं। प्रत्येक मंडल में बहुत से सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में बहुत सी ऋचायें। छोटे सूक्तों में चार ही छः ऋचायें हैं, पर एक मंडल के एक सूक्त में ५२ ऋचायें तक हैं। अधिकतर सूक्तों में प्रायः १२ से १५ तक ऋचायें रहती हैं। प्रथम मंडल में १९१ सूक्त हैं जिनका शाब्दिक अनुवाद बिना टीका-टिप्पणियों के यदि लिखा जावे तो साधारण आकार की प्रायः २०० पृष्ठों की एक पुस्तक तैयार हो जायगी। ये सूक्त छन्दों में लिखे गए हैं, जिनमें प्रथम मंडल में गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वृहती, सतोवृहती, द्विपदी, विराज और अत्यष्टि छन्द प्रधानतया आये हैं और अप्रधानतया कई अन्य छन्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन १९१ सूक्तों के कवि गणना में २५ हैं, परन्तु इनमें से दो केवल एक सूक्त के और पाँच केवल एक अन्य सूक्त के कवि हैं। अतः प्रधानतया प्रथम मंडल के १८ कवि हैं। इन सब कवियों के नाम और सूक्तों का ब्योरा नीचे दिया जाता है:—

नम्बर	कवि का नाम	सूक्त संख्या	किस नम्बर के सूक्त से आरम्भ	किस विषय के कितने सूक्त
१	मधुच्छन्दस विश्वामित्र के पुत्र	१०	१	अग्नि १, वायु आदि १, आश्विन आदि १, इन्द्र ६, इन्द्र आदि १
		१	११	इन्द्र १।
२	जेता मधुच्छन्दस के पुत्र			

नम्बर	कवि का नाम	सूक्तसंख्या	किस नम्बर के सूक्त से आरम्भ	किस विषय के कितने सूक्त
३	मेघातिथि कण्वकेपुत्र	१२	१२	अग्नि २, विश्वे देवस् १, ऋतु आदि १, इन्द्र १, वरुण १, ब्रह्मणस्पति आदि १, अग्निमरुत् १, तीन ऋतु १, इन्द्र अग्नि १, अश्विन आदि १, वायु आदि १ ।
४	शुनःशेपअजी- गर्त्त के पुत्र	७	२४	वरुण अग्नि १, सवितर १, वरुण १, अग्नि २, इन्द्रविश्वे- देवस् १, इन्द्र १ ।
५	द्विरयस्तूप अंगिरस के पुत्र	५	३१	अग्नि १, इन्द्र २, अश्विन १, सवितर आदि १ ।
६	कण्व घोर के पुत्र अंगिरस वंशी	८	३६	अग्नि १, मरुत् ३, ब्रह्मणस्पति १, पूषन् १, वरुणमित्र अर्यमन् आदित्य १, रुद्र आदि १ ।
७	प्रत्कण्व कण्व के पुत्र	७	४४	अग्नि २, अश्विन २, उषस २, सूर्य १ ।
८	सव्यअंगिरस के पुत्र	७	५१	इन्द्र ७ ।
९	नोधस गौतम के पुत्र	७	५८	अग्नि ३, इन्द्र ३, मरुत् १ ।
१०	पराशर शक्तिके पुत्र वशिष्ठ के पौत्र	१	५६	अग्नि १ ।

नम्बर	कवि का नाम	सूक्त संख्या	किस नम्बर के सूक्त से आरम्भ	किस विषय के कितने सूक्त
११	गौतम रहुगण के पुत्र	२०	७४	अग्नि ६, इन्द्र ५, मरुत ४, विश्वेदेवस् २, सोम १, उषस् १, अग्नि, सोम १ ।
१२	कुरस अंगिरस के पुत्र	५	६४	अग्नि ४, अग्नि आदि १ ।
१३	कश्यप मरीचि के पुत्र	१	६६	अग्नि १ ।
१४से १८तक	वर्षागिरि पाँच भाई राजागिरि के पुत्र	१	१००	इन्द्र १ ।
१६	कुरस (दूसरे)	१५	१०१	इन्द्र ४, विश्वेदेवस् ३, इन्द्र अग्नि २, ऋभु २, आश्विन आदि १, उषस् १, रुद्र १, सूर्य १ ।
२०	कवीवान् उशिज के पुत्र पञ्चवंशी	११	११६	आश्विन ५, इन्द्र १, विश्वेदेवस् १, उषस् २, स्वनय (एक राजा) २ ।
२१	परुच्छेप दिवो-दास वंशी	१३	१२७	अग्नि २, इन्द्र ३, वायु १, वायु इन्द्र १, मित्र वरुण २, पूषन् १, विश्वेदेवस् आदि १, इन्द्र इन्दु इन्द्र पर्वत १ ।

नम्बर	कवि का नाम	सूक्त संख्या	किस नम्बर के सूक्त से आरम्भ	किस विषय के कितने सूक्त
२२	दीर्घतमस उच्चथ्य और ममता के पुत्र	२५	१४०	अग्नि १०, आप्री १, मित्र वरुण ३, विष्णु २, विष्णु इन्द्र १, आश्विन २, आकाश पृथ्वी २, ऋभु घोड़ा १, विश्वेदेवस् आदि २ ।
२३	अगस्त्य (मान के पुत्र)	२६	१६५	इन्द्र मरुत् ३, मरुत् ४, इन्द्र ७, आश्विन ५, आकाश पृथ्वी १, विश्वेदेवस् १, सोम १, आप्री १, अग्नि १, वृहस्पति १, सावरमंत्र १ ।
२४ २५	लोपामुद्रा अगस्त्य और एक शिष्य	१	१३०	रति १ ।

लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की स्त्री थीं। पांच वार्षागिरों के नाम ये थे:—रिजिराश्व, अंबरीष, सुराधास, सहदेव और भयमान। इन कवियों में मधुच्छन्दस और जेता विश्वामित्र के पुत्र और पौत्र थे। शुनःशेष अजीर्गन्त के पुत्र थे। राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में ये बलि दिये जाते थे। इस अवसर पर मंत्र पाठ से बचे। यज्ञ में इनका तीन खम्भों में बाँधा जाना इस मण्डल में भी लिखा है। इन उपर्युक्त कवियों में मेधातिथि, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रस्कण्व, सव्य और कुत्स अंगिरसवंशी थे। दीर्घतमस के विषय में महाभारत में लिखा है कि ये अन्धे थे और इनकी स्त्री ने इनके लोक लाज छोड़ कर उसके साथ हर समय रति करने के कारण अप्रसन्न होकर अपने पुत्रों द्वारा बंधवा कर इन्हें एक नदी में बहवा दिया था। इन्हीं दीर्घतमस ने

(महाभारत) यह मर्यादा स्थिर की थी कि यदि स्त्री एक पति से लड़ कर उसे छोड़ दे तो दूसरा न कर सके। इस मंडल में ये स्वयं कहते हैं कि ये अन्धे थे और दासों ने इन्हें बाँध कर नदी में फेंक दिया था। त्रैतन नामक कोई व्यक्ति इनसे लड़ा भी था। महाभारत की पुष्टि इस मंडल से होती है। इनके मन्त्रों में छायावाद विशेष है।

उपर्युक्त व्योरे से विदित होगा कि इस मंडल के १९१ सूक्तों में पृथक् पृथक् देवताओं आदि के विषय में मन्त्र-संख्या निम्नानुसार है:—अग्नि ४५, आप्री (अग्नि के भेदान्तर) २, वायु १, मरुत् १२, आश्विन १५, इन्द्र ४३, विश्वेदेवस् ८, बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति २, ऋभु ४, वरुण १, पूषन् २, रुद्र १, उषस् ६, सूर्य २, सोम (चन्द्र) २, स्वनय राजा २, विष्णु २, घोड़ा २, रति १, इन्द्रवरुण १, अग्नि मरुत् १, इन्द्र अग्नि ३, अग्नि सोम १, वायु इन्द्र १, मित्र वरुण ५, विष्णु इन्द्र १, आकाश पृथ्वी ३, इन्द्र मरुत् ३, इन्द्र विश्वेदेवस् १, इन्द्र इन्द्रु १, इन्द्र पर्वत १, वरुण अग्नि सविता १, और सूर्य्य १।

तीन से अधिक देवताओं के नाम १४ सूक्तों में आये हैं। इन १४ सूक्तों एवं अन्यो में अमुख्यतया निम्न देवताओं आदि का कथन है:—

अर्य्यमन्, सरस्वती, सरस्वान्, त्वस्व, दक्षिणा, इन्द्राणो, वरुणानी, आग्नेयी, आदित्य, ऋतु, अदिति, सिन्धु, वाक्, काल, साध्यगण, गन्धर्व, भग, जल, ऊखल, मुशल, मातरिश्वम् और रृत।

सब देवता सोम पान के लिये निमन्त्रित किये जाते हैं और सोम से बल प्राप्त करते हैं। उनके बुलाने में प्रायः ये उपमाएँ दी जाती हैं कि घोड़े की भाँति जल्दी आओ और बैल की भाँति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सा सोम पान करा। उपमाएँ अधिकतर बैल से ही दी जाती हैं, यहाँ तक कि इन्द्र और विष्णु तक की उपमाएँ बैल से महत्व सूचन में दी गई हैं। कहीं कहीं भैंसे और घोड़े से भी उपमाएँ दी गई हैं। मेघों की उपमाएँ प्रायः भैंसे से हुई हैं। मेघों का बहुत स्थानों पर गाय कह कर बोध कराया गया है।

अग्नि—यह इन्द्र के पीछे सब से प्रसिद्ध देवता है। यह होतार, बसीठी, तथा देवताओं को यज्ञों में लानेवाला है। इसकी उत्पत्ति अन्तरिक्ष, आकाश और जल में हुई। यह दो माताओं का पुत्र

है, अर्थात् दो लकड़ियों के संघर्षण से उत्पन्न होता है। यह तनून-पात् भी है अर्थात् अपने से भी उत्पन्न होता है। भृगु ने इसे मनुष्यों में स्थिर किया और मनु ने पुरोहित बनाया। इसकी सात लौ हैं और इसके विविध रूपों में आप्री भी है। होत्रा, भारती, वहतृ और धिष्णा इसकी स्त्रियाँ हैं। धिष्णा वाग्देवी है। स्वाहा नाम से अग्नि में यज्ञ होता है। यह एक स्वरूप से यज्ञों में सहायता देता है और दूसरे स्वरूप से सौ नेत्रों द्वारा जंगलों को भस्म करके नये स्थानों में भूमि को मनुष्यों के निवासयोग्य बनाता है।

वायु—यह नाम दो मन्त्रों में प्रधानतया लिया गया है और शेष इस विषय के मन्त्रों में मरुत् का नाम है। वायु के कोई प्रधान गुण नहीं कहे गये हैं। शम्बर को अतिथिग्व दिवोदास ने मारा।

मरुत्—भग के साथ उत्पन्न हुये ये रुद्र पुत्र रथ में चितले मृग जोतते हैं। इनके कन्धे पर बरछा और हाथ में तलवार तथा अँगूठी है। प्रथम ये देवता न थे। इन्द्र इनसे अप्रसन्न थे और इनके यज्ञ भाग पाने से क्रोधित होते थे, परन्तु इन्होंने इन्द्र की युद्ध में सहायता की और बड़ी दीनता दिखलाई। तब वे इनसे प्रसन्न हो गये और ये यज्ञ में भाग पाने लगे। ये परम अजित, सबल, मेघ भेजने वाले, धन देने वाले और राक्षसों के संहारक हैं।

आश्विन—दो हैं। इनके विषय में पण्डितों में कुछ सन्देह है। महात्मा यास्क ने लिखा है कि इन्हें पृथक् पृथक् लोग आकाश पृथ्वी, दिन रात, सूर्य चन्द्र और दो राजा कहते हैं। ये उषस् के प्रथम चलते और दिन रात में तीन तीन बार चक्कर लगाते हैं। इनके रथ में तीन पहिये हैं और उसमें दो गधे जुते हैं। सूर्य की पुत्री इनकी स्त्री है। ये परम सुन्दर हैं और दारिद्र्य नाश करते तथा बहुत अच्छे वैद्य हैं। इन्होंने करकन्धु, वय, वशिष्ठ आदि को प्रसन्न किया और सुदास को उसकी स्त्री सुदेवी ला दी। बाँभ गाय से दूध निकाला, अन्धे तथा लँगड़े परावृत्त को अच्छा किया, विस्पला की युद्ध में दूटी हुई टाँग अच्छी कर दी, बद्धमती को हिरण्यहस्त पुत्र, ऋज्ज्वास्व को नेत्र, विश्वक को विश्नायुत्त पुत्र एवं घोशा को पति दिया। इन्होंने अन्य प्रकार से निम्नलिखित लोगों की सहायता की:—रेभा और बन्दन

(बँधे थे सो निकाले गये), कण्व (रक्षित हुये), अन्तक, भज्यु, सुचन्ती, पृथिनगु, अत्रि (जलते गढ़े से बचाये गये), श्रेतर्ष्य, कुत्स, नर्य्य, वसु, दीर्घश्रवस् औसिज, कक्षीवान, रसा, तृशोक, मान्धाता, भरद्वाज, अतिथिग्व दिवोदास, कशोजु, तृषदस्यु (इन अन्तिम चारों के दुर्ग टूट गये थे तब ये बचाये गये), वम्र, उपस्तुत, कलि, व्यस्व, पृथिराजर्षि, सपु, मनु, सूर्यान्, विमद (इनको स्त्री दी गई), अध्रिगु, सूभर, ऋतस्तूप, कृशानु (ये युद्ध में बचाये गये), पुरुकुत्स (इनकी घुड़दौड़ में मदद हुई), आरजुनी पुत्र कुत्स, ध्वशान्ति, पुरुषान्ति, अघ्राश्व, च्यवन (ये बूढ़े से जवान कर दिये गये) जहनुपुत्र, जाहुश और औसर । इतने लोगों की सहायता करने के अतिरिक्ति इन्होंने दस्युओं को भी हराया ।

इन्द्र—वेद के सब से बड़े देवता हैं । ये देवताओं के राजा और विष्णु के मित्र कहे गये हैं । इनको कुशिक के पुत्र कौशिक भी कहा है जिससे महाभारत की उस कथा का समर्थन होता है जिसमें लिखा है कि कुशिक के पुत्र राजा गाधि इन्द्र के अवतार थे । इनकी कुतिया का नाम सरमा है । त्वष्टार ने दधीचि की अस्थि से इनका वज्र बनाया जिससे इन्होंने ९९ वृत्रों को मारा । आपने वृत्र के अतिरिक्त सुश्न, बल, पिप्रु शम्बर, अहि, रौहिन, कुयव, व्यंस, कुयवाच, अर्बुद, नमुचि, करंज, परनय और वंगुद को मारा । वृत्र सुश्न आदि जल रोके थे सो उन्हें मार कर इन्द्र ने जल खोल दिया । वंगुद के सौ दुर्ग नष्ट किये और दासों के भी दुर्ग मर्दित किये । ये दस्युओं के नष्ट करनेवाले तथा आर्यों का बल बढ़ानेवाले हैं । सुश्रवस, तूर्य्यवान, यतस, नर्य, तुर्वश, यदु, तुर्वीत, पुरुकुत्स, पुरु और सुदास की रक्षा की और उन्हें युद्धों में जिताया तथा कक्षीवान ऋषि को वृचया स्त्री दी । ये अजित जेता और असीम बलधारी हैं । इन्होंने पृथ्वी स्थिर की और सूर्य को आकाश में उठाया । ये स्वयं मन्त्रों और सोम से बल प्राप्त करते और देवताओं में सर्वोपरि हैं ।

विश्वेदेवस्—संख्या में १३ हैं । ये खास देवता भी हैं और यह नाम कुल देवताओं को मिलाकर भी कहा जाता है । ये सर्पों की भांति सूरत बदलने वाले तथा रक्षक हैं ।

बृहस्पति उपनाम ब्रह्मणस्पति—मन्त्रों के देवता और मन्त्र पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दुष्टों को दंड देते हैं। इन्होंने मनुष्यों को पृथ्वी आकाश दिखाये।

ऋभु—संख्या में तीन हैं। इनके नाम ऋभु, विभवन और बाज हैं, और ये तीनों मिल कर ऋभवः कहलाते हैं। ये अङ्गिरस वंशी सुधन्वा के पुत्र मनुष्य थे, पर इन्द्र की सहायता करने से सवितर द्वारा अमर बनाये गये और ऋतुओं के देवता हो गये। इन्होंने इन्द्र का अश्व और आश्विन का रथ बनाया, तथा अमृत देने वाली एक गाय भी बनाई। इन्होंने अपने माता पिता (पृथ्वी आकाश) को फिर से जवान कर दिया।

वरुण—वरुण और मित्र का वर्णन प्रायः साथ ही साथ होता है और वरुण के वर्णन अलग भी हैं। वरुण रात के देवता हैं और मित्र दिन के। ये आकाश पृथ्वी के स्थिर रखने वाले, (ऋत) प्रकृति के शुद्धतापूर्वक संचालक, सत्य और ज्योति के स्वामी, तथा धर्म प्रवर्त्तक हैं। इन्होंने सूर्य का मार्ग बनाया और ये संसार भर को मार्ग पर रखने वाले हैं। अवैदिक समय वाले आर्यों में ये सर्वोपरि देवता थे। यही दशा पारसियों में भी है। वैदिक समय में इन्द्र इनसे आगे निकल गये और महत्त्व में इनका दूसरा नम्बर हो गया।

पूषन्—१२ आदिस्थों में एक हैं। ये लोगों को ग्रह के संकटों से बचाते और उन्हें सीधे सुखप्रद मार्ग पर ले जाते हैं। ये अज के पुत्र हैं और रथ में बकरे ही जोतते हैं। ये युद्धों में आर्यों के सहायक हैं।

रुद्र—बली, बड़े बुद्धिमान्, उदार, यज्ञ ओषधियों और मन्त्रों के स्वामी, सूर्यवत् प्रकाशमान, देवताओं में सर्वोत्तम, घोड़ों, मेढ़ों, भेड़ियों, गौओं आदि के रक्षक (पशुपति), कपर्दी (कौड़ी की भांति गिठादार बाल वाले), शूरावीरों के स्वामी और मनुष्यों तथा पशुओं को स्वास्थ्यदायक हैं। ये मारुतों के पिता और परम प्रचंड हैं। इनसे इस प्रकार विनतियाँ की जाती हैं कि क्रोधवश हम लोगों को तथा बूढ़े बच्चों आदि को न मारो और हानि न पहुँचाओ; तुम्हारी घातक साँगी हम लोगों से दूर हो, इत्यादि।

उषस्—आकाश की पुत्री और ज्योति पूर्ण है। यह पृष्ठ करने

वाली सौ रथों पर चलती है। यह सब को काम में लगाती है और सदा अपने प्रेमी सूर्य के आगे ही चलती है। इसका वर्णन प्रायः कविता-पूर्ण है।

सूर्य—ज्योतिकारक, प्रकाशक, तुरगच्छक और मित्र वरुण तथा अग्नि की आँख हैं। इनके रथ में सात घोड़े जुते हैं, और ये प्रेमी की भाँति उषस् के पीछे चलते तथा काँवरि रोग का नाश करते हैं।

सोम (चन्द्रमा)—परम बुद्धिमान्, बलदायक नेता, परम पवित्र वीरों के स्वामी, धन देने वाले, रागशान्तिकारक, पौधां, आषधियों, गाय, जल के उत्पादक, और वृत्र विनाशक हैं। वरुण वाले प्रकृति के नियम इन्हीं के हैं। इन्होंने आकाश फैलाया और अन्धकार हटाया, तथा नृशया वंशियों को हरा कर नदी छोड़ा दी। ये अग्नि से मिल कर पणि के पास से गोयें लाये।

सोम (रस)—सोम फल से पानी मिला, खल्ल में पत्थर से पीस, ऊनी छत्रे में छान कर निकाला जाता था और तब मट्टे में मिलाकर पान करने के योग्य बनाया जाता था। यह परम स्वादिष्ट होता था। देवता इसे बहुत पसन्द करते तथा इससे बल प्राप्त करते थे।

स्वनय—भव के पुत्र, सिन्धु नदी के किनारे रहनेवाले एक राजा थे। बड़े यज्ञकर्त्ता और उदार दानी थे। इन्होंने कक्षीवान् ऋषि को सौ माला, सौ घोड़े, हजार गायें, घोड़ियों से जुते हुए दश रथ, मोतियों के सामान सहित घोड़े, और फिर साठ हजार गायें दीं।

विष्णु—शुस के पुत्र हैं पर यज्ञ में उनसे प्रथम भाग पाते हैं। ये पृथ्वी, आकाश तथा जीवधारियों के पोषक, कृशानु का वाण हटाने वाले, रक्षक, कष्ट न देने वाले, दयालु और उदार हैं। ये इन्द्र के मित्र हैं और उन्हीं के साथ इन्होंने मेघों को छोड़ाया। ये पुनीत हैं पर इन्द्र इनसे अधिक पुनीत हैं [सूक्त नं० १५६]। विष्णु लोक में अमृत का एक कुआँ और बहुत से तेज वैल हैं। वह लोक चमकता है।

विष्णु तीन पगों में संसार फिर आये। इनके पृथ्वी और आकाश वाले डग देख पड़े पर स्वर्ग का नहीं। इस मंडल में तीन पगों का वर्णन कई बार आया है, सो प्रकट है कि इस से विष्णु के

वामन अवतार का बहुत मेल जोल है, किन्तु वामन का नाम नहीं है। वेदों में विष्णु इन्द्र से कम और एक साधारण देवता थे। पौराणिक समय से इनका प्रताप बहुत बढ़ा यहाँ तक कि अब ये सर्व प्रधान हैं और इनके अवतारों तक का कोई देवता सामना नहीं कर सकता। वामन भी इनके अवतार थे। वामन पहले बौने थे और पीछे से इतने बढ़े कि सारा संसार इनके शरीर से छोटा हो गया। विष्णु सम्बन्धी महत्व की ऐसी ही वृद्धि हुई है जैसे वामन के शरीर की।

घोड़ा—एक पवित्र जानवर माना गया है। इसे यम ने दिया, तृता ने इस पर काठी लगाई, और सब से प्रथम इन्द्र सवार हुए। उस समय गन्धर्व ने इनकी लगाम पकड़ी। इसे सूर्य ने वसुओं से बनाया। यह यम है, आदित्य है, तृता है, बड़ा विजयी है, और देवताओं ने इसके बल की नक़ल की है। यज्ञ में पहले पूषन् के भाग बकरे का बलिदान होता है तब घोड़े का। बलि के पीछे एक मनुष्य मांस काटता और घोड़े की चौंतीसों पसलियों को अलग करता है। इस समय दा मनुष्य इसे काटना बताते जाते हैं। इस को खूब पकाना आवश्यक है। बलिदान में घोड़ा मरता नहीं, न उसे कष्ट होता, वरन् वह सुखपूर्वक देवताओं के पास चला जाता है।

रति—लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य से कहा कि बुढ़ापे से हम लोग कुरूप हो गये हैं पर तो भी पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के पास जाना चाहिए। अगस्त्य ने यह बात स्वीकार की। कहते हैं कि इस वर्णन में गूढ़ अर्थ छिपे हैं।

आकाश-पृथ्वी—का विविध प्रकार वर्णन किया गया है। इनकी उत्पत्ति अज्ञात कही गई है और ये कहीं बहिर्न और कहीं पिता-माता माने गये हैं। ये स्थित, सबल, सर्वरक्षक, अमृत बनाने वाले, और सब को आनन्द देने वाले हैं।

पर्वत—का नाम इन्द्र के साथ आता है। ये आर्यों के लिए लड़ने और शत्रुओं को भगाने वाले कहे गये हैं।

सविता—सूर्य से मिलते जुलते हैं पर कहीं पृथक् भी जान पड़ते हैं। इनके हाथ सोने के हैं। ये उत्पादक, जीवप्रदायक, सहायक,

बहुमूल्य पदार्थों के स्वामी और राक्षसों तथा यातुधानों के देखने वाले हैं ।

सरस्वती—नदी, गीतों की ओर चित्त ले जाने वाली, उत्तम विचार उत्पन्न करने वाली, विचारों को चमकाने वाली, और यज्ञों की देवी है । इनके पति का नाम सरस्वान है ।

भग—धन देनेवाला देवता है । पुराणों में यह एक आदित्य माना गया है पर इस मण्डल में आदित्य कहा नहीं गया है ।

त्वष्टार—देवताओं के बढ़ाई हैं । एक बार इन्होंने नेष्टार [मुख्य ऋत्विज] का काम किया ।

मातरिश्वा—भृगु के पास अग्नि को लाये ।

तृत—का वर्णन इन्द्र वायु मरुत् के साथ होता है । इन्होंने इन्द्र के घोड़े को काठी लगाई ।

ऋतु—भी इन्द्र मरुत्, त्वष्टा आदि के साथ सोम पीने को बुलाये जाते हैं ।

जल—की कुछ देवियाँ हैं जो सूर्य के निकट रहती हैं । इनमें अमृत और सब दवायें हैं और ये रोग तथा पापों को दूर करती हैं । ये यज्ञों को जल्दी करानेवाली जीवधारियों की प्यास बुझाती हैं ।

ऊखल और मुशल—के देवता सोम बनाने में सहायक हैं ।

इनके अतिरिक्त इस मण्डल में निम्नलिखित देवी देवताओं के नाम आये हैं :—

अर्यमन् (परम चतुर), गन्धर्व (आकाशी सोम के रक्षक), दक्षिणा (यज्ञ सम्बन्धिनी देवी), इन्द्राणी, वरुणानी, आग्नेयी, आदित्य (यज्ञों के अगुवा), अदिति, रक्षक, सिन्धु (नदी), वाक्, काल और साध्य (प्राचीन समय के आकाशवासी देवता) ।

आर्यों में मन्त्रकार ऋषियों के अतिरिक्त निम्नलिखित महाशयों के नाम इस मण्डल में आये हैं :—

मनु, नहुष, इला, ययाति, पुरूरवस, नवग्वधराना (आर्यों के लिये युद्ध करनेवाले), दिवोदास, कसोजु, रस, तृसोक, मान्धाता, उग्रदेव, यदु, तुर्वश, अनु, पुरु, द्रुष्टु, भृगु, नववास्त्व, वृहद्रथ, तुर्वीति,

अतिथिग्व, सयात, सुश्रव, तुर्वयान, नरय, पुरुवंशी, भरद्वाज, पुरुमीथ, सतवनि, यतस, पुरुकुत्स, रेभा, बन्दन, अथर्वण, दधीच (अस्थि वाले), ऋजिस्वन, अन्तक, भुज्यु, करकन्ध के पुत्र, वर्य्य, सुचन्ति, पृथिनगु, परावृज, वशिष्ठ, वज्र, श्रुतय्य, विस्पला, वसु, कलि, पृथि, सयु, सुदेवी (सुदास की स्त्री), अध्रिगु, सुभर, रितस्तुप, कुत्स (आरजुनि पुत्र), दशति, ध्वसान्ति, पुरुशान्ति, अधास्व, च्यवन, हिरण्यहस्त, सेलाराज्य (इनका युद्ध हुआ), जन्हु, ऋचत्क, सर, कृशु पुत्र विश्वक, विशनायु, घोशा, नृशपुत्रकण्व, स्वाव, स्वनय, कण्व (अन्धे से अच्छे हुये), मसरसार, आयावस, भाव, पुरुमील्ह, दीर्घतमस और तृण स्कन्द। इन मनुष्यों के विषय में इस मंडल में कोई कथायें नहीं हैं वरन् विनतियों में प्रसंगवश इनके नाम आ गये हैं और कहीं कहीं एक आध साधारण घटना इनके विषय में लिखी है जिसका दिग्दर्शन इस नामावली एवं देवताओं के वर्णन में कराया गया है।

निम्नलिखित आर्यों के शत्रुओं के नाम इस मंडल में आये हैं:—

वृत्र, दनु (वृत्र की माता), पिप्रु, सुरना, शम्बर, अर्बुद, वज्र, नमुचि, करंज, परनय, वंगृद (के १०० किले इन्द्र ने तोड़े), बल, पणि, ९९ वृत्र (इन्हें इन्द्र ने दधीच की अस्थि वाले वज्र से मारा), वृषय, व्यंस, अहि, रौहिनि, कुण्व, तुग्र, त्रैतन (यह दीर्घतमस से द्वन्द युद्ध में लड़ा) और कूपवाच।

इस मंडल भर में जितने मंत्र हैं उन सब में केवल विनतियाँ हैं और कोई कथा प्रसंग नहीं कहा गया है। कहीं कहीं प्रसंगवश कुछ बातों में मनुष्यों आदि के कथन आ गये हैं जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है और यथास्थान आगे भी होगा। इन मन्त्रों में से दो चार विनतियों के अतिरिक्त अन्य बातों का भी वर्णन हुआ है पर वह भी कथा प्रसंग का नहीं। बहुत से मन्त्रों के अनुवादों में भी अच्छा काव्यानन्द प्राप्त होता है, विशेषतया उषस् के वर्णनों में। फिर भी यह कह देना चाहिए कि अधिकतर स्थानों में अनुवाद मात्र पढ़ने से विशेष काव्यानन्द नहीं मिलता। इस मंडल में थोड़े ही से विषयों पर बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, सो वही बातें दोहरा कर सैकड़ों स्थानों पर आई हैं पर फिर भी इस छोटे से विषय पर ऋषि लोग इतने प्रकार

के नये नये कथन करने में समर्थ कैसे हुए, इसी बात पर आश्चर्य होता है, क्योंकि प्राचीन कथनों के साथ प्रायः प्रत्येक मन्त्र में कुछ न कुछ नवीनता भी प्रस्तुत है।

वेदों के रचना-काल के विषय में कुछ मत-भेद है। हमारे यहाँ वे अनादि माने जाते हैं, अर्थात् हम हिन्दुओं का विचार है कि वे सदैव से हैं पर पाश्चात्य विद्वान् उनके निर्माण का कुछ काल बताते हैं। वे कहते हैं कि ऋग्वेद मिश्र एवं असिरिया के कुछ ग्रन्थों के अतिरिक्त शेष ग्रन्थों में प्राचीनतम हैं। हमारे विचार से भगवान् वेद का किसी समय में बनना भी इन्हीं के मंत्रों से प्रकट होता है, यथा:—

इस नई विनती से मैं तुझे प्रसन्न करता हूँ (६२वाँ सूक्त)। हे गौतम ! बड़े ध्यानपूर्वक बनाये हुये मन्त्र अग्नि को सुनाओ (७९ व सूक्त)।

मेरे पिता ने प्राचीन समय में तुझे बुलाया।

अंतिम मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का वर्णन है, जिससे प्रकट है कि वे मन्त्र इससे प्रथम बने थे और यह उनके पीछे। सो दोनों मन्त्रों का बनना खास खास समयों में प्रकट है।

हमारे पूर्व उषस को देखने वाले चले गये, अब हम जीवित लोग इसे देखते हैं और हमारे पीछे के लोग आगे देखेंगे।

इन उपर्युक्त कथनों से इन ऋचाओं का किसी समय में बनना स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त हजारों स्थानों में पृथक् पृथक् मनुष्यों एवं घटनाओं का वर्णन है, जिन मनुष्यों और घटनाओं के पीछे उन ऋचाओं का बनना स्पष्ट है। सो यदि वेदों के अनादि होने का अर्थ यह लिया जाय कि वर्तमान समय में जो शब्द ऋचाओं में हैं वे ही अनादि काल से चले आते हैं तो साधारण मनुष्यों को इस मत से विरोध होगा। अब पंडितों का मत इस ओर झुकता देख पड़ता है कि वेदों के यही शब्द अनादि नहीं हैं वरन् उनके कथन सत्यता पर अवलम्बित हैं और सत्य के अनादि होने से वेद भी अनादि हैं। इस मत के प्रतिकूल किसी हिन्दू का विचार नहीं हो सकता। इनके कर्त्ताओं के विषयमें यह प्रकट है कि जैसे कुरानशरीफ के कर्त्ता हज़रत

मोहम्मद नहीं हैं वरन् उन्हें वह अनुभूत हुई थी, इसी प्रकार वेदों का कोई कर्त्ता नहीं है, वरन् जिसके नाम से जो मंत्र प्रसिद्ध है उसके द्वारा वह देखा गया और संसार में फैला। वेदों के पूर्वापर क्रम के विषय में महाभारत में लिखा है कि भगवान् वेदव्यास ने वेदों को एक से चार किया, अर्थात् वर्त्तमान क्रमानुसार उनको विभाजित किया। इस कथन का कुछ समर्थन प्रथम मंडल से होता है क्योंकि यदि वेदों की रचना का क्रम वही हो जो आजकल प्रचलित है, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल को सब से प्राचीन होना चाहिए, पर इस मंडल के पहले ही मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का कथन है, जिससे उन मन्त्रों का इस मन्त्र से प्रथम होना सिद्ध है। फिर इस मंडल के मन्त्रकारों में कई ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठवंशी हैं, पर इन दोनों ऋषियों के मंडल आगे आवेंगे। यह प्रकट है कि विश्वामित्र वाला तीसरा मंडल पहले मण्डल के कई मन्त्रों से प्राचीनतर है। एक स्थान पर इस मंडल में सामवेद के रथन्तर नामक मन्त्र का नाम आया है। वेद मन्त्रों के कई कथनों से उस समय की समाजसम्बन्धी उन्नति का भी कुछ पता लगता है। इस प्रकार के निम्नलिखित कथन इस मंडल में हैं:—

(१) आर्यों की पाँच मुख्य शाखाएँ थीं, जिनके पूर्व पुरुषों के नाम यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह्य और पुरु थे। महाभारत में लिखा है कि ये पाँचों पुरुष राजा ययाति के पुत्र थे।

(२) आर्यों से ऐसे लोगों से युद्ध होते थे, जो वैदिक रीतियों को नहीं मानते थे। ये लोग दास, दस्यु सिंस्यु आदि कहे गये हैं। ये धूम्र वर्ण के थे और इनके मुख्य मुख्य नेताओं के बड़े प्रभाव थे यहाँ तक कि उनमें से एक एक तक के सौ सौ किले थे, पर ये लोग आर्यों से प्रायः सदैव हारते थे। सुश्र, पिप्रु, वृत्र, कुयव, और शम्बर के दुर्ग थे जिन्हें इन्द्र ने नष्ट किये। कुयव के मरने पर इसकी दोनों स्त्रियों के विलाप समय तक ऋषि को दया नहीं आई और उन्होंने ईश्वर से यही मनाया कि ये सीफा नदी में डूब जायँ। ऐसे समय में भी ऋषि के क्रोध से प्रकट है कि कुयव बड़ा ही दुखद और प्रतापशाली था और बड़ी कठिनता से मारा गया होगा।

(३) जो दामाद बुरे होते थे वे धन खूब देते थे तब विवाह होता था (सूक्त नं० १०९) ।

(४) सौ पतवारों तक के जहाज होते थे । इससे समुद्र-यात्रा सिद्ध है ।

(५) अग्नि द्वारा जंगलों को जला कर रहने योग्य स्थान बनाया जाता था । इससे विदित है कि उस समय देश जंगलों से पूर्ण था और आर्यों की बस्ती बढ़ती जाती थी ।

(६) आर्यों में मत स्थिर करने के लिए सभाएँ होती थीं ।

(७) घुड़दौड़ भी होती थी । इसका कई बार वर्णन आया है ।

(८) इन्द्र दुर्गाबिमर्दक कहे गये हैं । रथों पर युद्ध होते थे । एक ऋचा में लिखा है कि जब देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर राजाओं की सहायता करें और यह लोग युद्ध जीतें तब ऋत्विजों को भी लूट का भाग मिलना चाहिये । राजाओं और सेनाओं का वर्णन भी है ।

(९) अश्वमेध प्रायः होता था । इसके विधानों का कुछ कथन षोडश कं वर्णन में मिलेगा ।

(१०) साँप से काटे जाने पर अगस्त्य मुनि ने एक बार सावर-मन्त्र बनाया । कहते हैं कि इसके जपने से सर्प-दंशित मनुष्य अच्छा हो सकता है ।

(११) नदियों का जहाँ कहीं वर्णन हुआ है वहाँ सात संख्या कही गई है, जिससे सतलज, व्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिन्धु और सरस्वती नामक पंजाब की नदियों का बोध हो सकता है । विशेष कर के जहाँ नाम लिये गये हैं, वहाँ सिन्धु और सरस्वती के नाम आये हैं । एक स्थान पर सीफा नदी का भी कथन है । गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि का कहीं भी नाम इस मंडल में नहीं आया है । किसी किसी का कथन है कि सप्त सिन्धवः में गंगा और यमुना भी सम्मिलित हैं । डाक्टर राय चौधरी भी यही कहते हैं ।

(१२) पूरी आयु १०० वर्ष की कही गई है । सूक्त नं० ८९ में लिखा है कि हम पूरी आयु सौ वर्ष जिएँ, इसके बीच न मरें, इतने दिनों में मरें ।

(१३) आर्य्य और दस्यु शब्द आये हैं पर इस मंडल में जाति-भेद का कथन नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदि इस मंडल में नहीं हैं, केवल एक मन्त्र में वृहस्पति ब्रह्मणस्पति कहे गये हैं। असुर शब्द से सदा देवताओं का बोध कराया गया है।

(१४) इस मंडल में असीमबल के देवताओं का वर्णन नहीं है, क्योंकि सोमपान और मन्त्रों से उनके बल की वृद्धि होती है। ब्रह्मा एवं ईश्वर का नाम इस मंडल में नहीं आया है। जल, नदी एवं नैसर्गिक पदार्थों में यत्र तत्र देवभाव माना गया है।

(१५) एक स्थान पर लिखा है कि मैं क्या हूँ सा मैं नहीं जानता। इससे प्रकट है कि लोग उस समय दर्शन-सम्बन्धी विषयों पर भी विचार करने लगे थे। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि पृथ्वी आकाश की उत्पत्ति अज्ञात है।

(१६) इस मंडल में उपमाएँ उत्तमता सूचन में प्रायः बैल से दी जाती हैं। इन्द्र एवं विष्णु तक की उपमाएँ बैल से दी गई हैं। मेघों की उपमा गऊ एवं भैंसे से भी दी गई है, और सोमपान में शीघ्रता-सूचक उपमा घोड़े से है।

उपयुक्त कथनों में एक प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूची दे दी गई है। जितनी नई बातों का कथन इस मंडल में है वह सब विशेषतया यहाँ आ गया है, केवल ऊपर लिखे हुए मनुष्यों के विषय में जो छांटी छांटी दो चार बातें यत्र तत्र लिखी हैं उन सब का कथन यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि न तो वे कुछ रोचक ही हैं और न उनका कथन किसी और प्रकार आवश्यक समझ पड़ा। हम एक दो मन्त्रों के अनुवाद उदाहरणार्थ आगे देंगे।

पाठकों को विदित हुआ होगा कि उपर्युक्त वर्णन में कोई विशेष चमत्कार नहीं है, और वेदां पर विशेष श्रद्धा न रखनेवालों के लिए यह बिलकुल साधारण कथन है, क्योंकि किसी प्रकार के गूढ़ अथवा ऊँचे विचार साधारण पाठकों को इसमें न मिलेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि धर्म-सम्बन्धी विचार छोड़ दिया जावे, तो वेद साधारण मनुष्यों को अरुचिकर होंगे। ये केवल विद्वानों को रुचिकर हैं और धर्म के अतिरिक्त, इनका मुख्य महत्व प्रायः सभी

विषयों में ऐतिहासिक ज्ञान-वर्द्धन का है। वेदों के ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही विदित हो सकता है कि संसार में मानव शक्तियों का पतनोत्थान कैसे हुआ, और समाज, धर्म, विज्ञानादि सम्बन्धी विचारों ने संसार में किस किस प्रकार से धीरे धीरे उन्नति पाई। जो लोग इन विषयों के ऐतिहासिक विस्तरों और आदिम विचारों से भी वेदों के विषयज्ञान का विशेष आदर नहीं करते, उनके लिये वेद भगवान् फीके हैं और यह वर्णन अवर्णनीय है।

उदाहरण

सूक्त नम्बर ४९ उषस् सम्बन्धी—हे उषस्! आकाश के तेजोमय उच्च प्रदेशों के ऊपर से आ। तुझे लाल घोड़े उसके घर को ले आवें जो सोम देता है। हे उषस् सुन्दरी! जिस सहारे से चलने वाले रथ पर तू सवार होती है उससे आज हे आकाश की पुत्री! तू बड़े सुयशी लोगों की सहायता कर। हे चमकीली उषस्! जब तेरे समय आते हैं, तब सब चौपाये और द्विपद चलते फिरते हैं और आकाश की सब दिशाओं से चारों ओर पंखदार पक्षीगण उड़ते हैं। सब जगमगाते प्रदेशों को उदय होते ही तू अपनी ज्योति की किरणों से चमकाती है। ऐसी जो तू है, उसे कण्ववंशियों ने प्रसन्नतापूर्वक धन प्राप्ति के लिये पुनीत गीतों से बुलाया है।

सूक्त नम्बर ७८ अग्नि सम्बन्धी—हे तीव्र और तुरगच्छक जातदेवस्! हम गौतम लोग पवित्र गीतों से तेरे महत्त्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं।

ऐसी जो तू है, उसे धन की इच्छा से गौतम अपने गीत से पूजता है। हम तेरे महत्त्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं। ऐसे जात देवस् को जो सर्वोत्कृष्ट लूट जीतने वाला है, हम अङ्गिरस की भाँति बुलाते हैं, हम तेरे महत्त्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं। तू वृत्र विनाशकों में सर्वश्रेष्ठ है और हमारे दस्यु शत्रुओं को भगाता है। हम तेरे महत्त्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं।

हम रघूगण के पुत्रों ने अग्नि के लिये एक सुखद गीत गाया है। हम तेरे महत्त्व के लिये तेरी महिमा गाते हैं।

इस मण्डल में कुछ और बातें जो विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं, उनके कथन पतों समेत यहाँ किए जाते हैं।

सूक्त १०, ऋचा २, इन्द्र को राम कहा है, ५१...१, में भी।

१०...११, इन्द्र कुशिक के पुत्र हैं। पुराणों में कुशिक पुत्र गाधि-इन्द्र के अवतार कहे गए हैं।

१४, ९, इला देवी थीं।

२२, १७, विष्णु के तीन डगों का कथन।

२४ नोट, शुनः शेष की कथा ऐतरेय ब्राह्मण में है। हरिश्चन्द्र के यज्ञ से उसे विश्वामित्र बचाते हैं।

२४, १२, १३, शुनः शेष तीन खम्भों में बँधे थे, वरुण से छोड़ने की प्रार्थना है।

३१, ४, पुरूरवस का कथन है।

३१, १७, जैसे पहले मनु के पास आये, वैसे ही हे अग्नि ययाति के पास आइये।

३२, १४, वृत्र को मार कर पाप के डर से इन्द्र भागे। इन्द्र का केवल यही अपमान सूचक वर्णन वेद में है।

३६, १८, बृहद्रथ और तुर्वीति के कथन कएव करते हैं। इससे जान पड़ेगा कि ये कएव दुष्यन्त के समयवालों से पोछे के हैं।

४७, ६, ७ सुदास और तुर्वश के कथन।

५१, ५, ६, ऋजिश्वन ने पिशु के दुर्ग नष्ट किए। अतिथिग्व दिवोदास ने शम्बर को जीता। अर्बुद भी जीता गया।

५१, १२, में शर्यात का कथन है।

(५३, ६, १०) १०,००० वृत्र मारे गए। धोखेबाज नमुचि मरा। अतिथिग्व ने करंज और पर्णय को मारा। ऋजिश्वन ने वंगुदेव के १०० दुर्ग नष्ट किए। सुश्रवस ने २० राजों तथा उनके ६००९९ अनुगामियों को हराया। तूर्वयाण ने कुत्स, अतिथिग्व तथा आयु को हराया।

५, ४, ६, इन्द्र ने नर्य, तुर्वश, यदु और (वव्य के पुत्र) तुर्विति की मदद की।

५८, ६, भार्गवों ने अग्नि को मनुष्यों में स्थापित किया।

५९, ६, पुरु के पुत्र अग्नि के अनुगामी हैं ।
 ६३, ७, } पुरुकुत्स ने ७ तुर्ग तोड़े । सुदास विजयी हुए, पुरु का
 १७४, १२, } लाभ हुआ । यहाँ पुरुकुत्स, निश्चय पूर्वक सुदास के
 समकालीन नहीं हैं, केवल दोनों के कथन एक ऋचा में हैं ।

८२, १३, दध्यच की हड्डी से इन्द्र ने ९९ वृत्र मारे ।

८९, ९, हम सौ वर्ष जियें, फिर मरें, इसके बीच न मरें ।

९६, २, आयु मनु का भी नाम है ।

१०८, ८, यदु, तुर्वश, द्रुह्यु, अनु और पुरु के कथन ।

१०९, २, बुरे दामाद और साले धन खूब देते थे ।

११२, ७, १३, १४, पुरुकुत्स. मान्धातृ, ... शम्बर, अतिथिग्न दिवो-
 दास, त्रसदस्यु, उदार विजयी और भरद्वाज के कथन ।

११२, १७, १९, शर्यात मनु के पुत्र, सुदेवी पिजवन पुत्र सुदास
 की स्त्री (नोट में) ।

११६, ५, १०, सौ पतवारों का जहाज, च्यवन बूढ़े से जवान हुए,
 सुर्रियाँ निकल गईं, स्त्रियाँ विवाहीं ।

११९, १९, २३, जह्न तथा कृष्ण पुत्र विश्वक के कथन ।

१४७, ३, अन्धे मामतेय को अग्नि ने विपत्ति से बचाया ।

१५८, दीर्घतमस औचथ्य मामतेय को बाँध कर दासों ने नदी में
 डाल दिया, तथा उनको त्रैतन से लड़ना पड़ा । वे मनुष्यों की दसवीं
 उमर (दहाई) को पहुँचे ।

१६४, कूट या छायावाद ।

१६६, १५, अगस्त्य मानपुत्र मान्दार्य थे । १८०, ८, वे वीरों में
 प्रसिद्ध थे । पुराणों में उन्होंने समुद्री लुटेरों का दमन किया, तथा
 रामचन्द्र को शस्त्रास्त्र दिये ।

ऋग्वेद के समय पर विद्वानों के निम्न विचार हैं :—

नाम विद्वान, ऋग्वेद संहिता बी० सी० में, विवरण
 कब से । कब तक ।

मैकडानलड १५०० ५०० वर्तमान रूप पाँच छै सौ
 बी० सी० में दृढ़ ।

नाम विद्वान्,	ऋग्वेद संहिता बी० सी० में,	विवरण
	कब से । कब तक ।	
मैक्स मुलर	१५०० १२००	मैक्समुलर ने पहले यही काल १२०० से ८०० बी० सी० तक माना था ।
आर० सी० दत्त०	२००० १४००	मैक्समुलर का पहला काल कथन यों था :— छन्दस १२००-१००० बी० सी० मन्त्र १०००-८०० " " ब्राह्मण ८००-६०० " " सूत्र ६००-२०० " " पाणिनि ३०० बी० सी० से पीछे के नहीं हैं ।
हर्बर्ट यच गोवेन वेबर	१४००	छठी शताब्दी बी० सी० में पाठ दृढ़ । सिन्ध नदी के देश में आर्य १६ वीं शताब्दी बी० सी० में आये ।
ह्विटनी बेनफ्रे	१८३० ८६०	२००० बी० सी० से १५०० बी० सी० तक भी माना है ।
यन्साइक्लो पीडिया		
त्रिटैनिका	२००० १५००	
जकोबी	४०००	इसे कई लोग सन्दिग्ध कहते हैं ।
राथ	२०००	
यफ़ मुलर	२००० १५००	
हाग	२५०० १४००	
विल्सन	३५००	
बालगंगाधर तिलक	४००० २५००	
कीथ महाशय का मत:—जे हर्टेल (J. Hertel) के अनुसार जूरास्टर का समय ५५९ से ५२२ बी० सी० है, जो सिद्ध नहीं हुआ है । ६६०-५८३ बी० सी० तक का भी कथन असिद्ध है । हर्टेल इप्सन का कथन		

नहीं मानते हैं कि ईरानी तथा भारतीय आर्यों का साथ प्रायः २००० बी० सी० तक रहा । यह कथन भी असिद्ध है । पीक यही समय १७६० बी० सी० कहते हैं, किन्तु यह भी अनिश्चित समझा गया है । वैदिक ऋषियों में सबसे प्राचीन ध्रुव, पृथु वैन्य, चाक्षुष मनु, वेन, पुरूरवस, ययाति आदि हैं, और सब से नये खांडव दाह से बचे हुए जगितर, द्राणादि चार ऋषि तथा युधिष्ठिर के समकालीन नारायण ऋषि । यदि वेन पृथु के पिता हों, तो वे पुराने निकलेंगे । यदि वेदर्षि ध्रुव उत्तानपादात्मज पुराने ध्रुव हों, तो यही प्राचीनतम वैदिक ऋषि निकलेंगे, किन्तु इनका वही ध्रुव होना अनिश्चित है । चाक्षुष मनु और पृथु वैन्य अवश्य प्राचीनतम प्राप्त वैदिक ऋषि हैं । यदि महाभारत का युद्ध ९५० बी० सी० के निकट पड़े, जैसा कि पार्जितर का विचार है, तो ऋग्वेद का अन्ततम समय उसी काल पर आ जावेगा । रामचन्द्र के समय के बहुत से ऋषि हैं । यदि आर्य्यागमन का प्राचीनतम काल २६०० बी० सी० के लगभग माना जावे, जैसा कि कुछ का विचार है, तो स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत वंश का भोगकाल ६०० वर्षों का मानने से प्रायः २००० बी० सी० तक बैठेगा । चाक्षुष मन्वन्तर का भोगकाल क्या था, सो अज्ञात है, किन्तु चाक्षुष मनु वेदर्षि हैं ही, और वैदिक समयारम्भ २००० बी० सी० के निकट मानने से यही समय चाक्षुष मनु का होगा, क्योंकि वे प्राचीनतम ऋषियों में हैं ।

प्रायः चौदहवीं शताब्दी बी० सी० का जो सन्धिपत्र मेसोपोटैमिया में मिला है, और जिसमें कुछ वैदिक देवताओं को नमस्कार लिखा है, उससे इतने प्राचीन समय में उस दूरस्थ प्रान्त में वैदिक विचारों की स्थापना मिलती है । यह सन्धि हिटीशिया तथा मितानी के बादशाहों में हुई, और भारत से असम्बद्ध थी । फिर भी उसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य को नमस्कार और उनकी वन्दना है । इससे वैदिक सभ्यता की प्राचीनता प्रकट है ।

पंडितों का मत है कि अथर्ववेद चला ऋग्वेद के ही समय से, किन्तु बनता बहुत पीछे तक रहा । यजुर्वेद ऋग्वेद के पीछे प्रारम्भ

होकर उसके बहुत पीछे तक बनता रहा । सामवेद में केवल ७२ मंत्र नये हैं, और शेष प्रायः १५०० ऋग्वेद से आये हैं । यजुर्वेद बुद्ध के पूर्व समाप्त हो चुका था, ऐसा सिद्ध है । गौतम बुद्ध के समय चारों वेद प्रस्तुत थे, तथा प्राचीन उपनिषदों के समय भी । जनमेजय को पुराण सुनाने वाले वैशंपायन के भागिनेय और शिष्य याज्ञवल्क्य के समय ही यजुर्वेद पूर्ण होकर उसकी तैत्तिरीय और शुक्ल शाखाएँ भी स्थापित हुई ।

सातवाँ अध्याय

प्रायः २०००—७०० बी० सी०

ऋग्वेद (शेष मंडल) तथा अन्य वेद ।

ऋग्वेद का पहला मंडल ऊपर कुछ विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है। अब शेष नवों मंडलों का कुछ दिग्दर्शन कराना है। जिस विस्तार के साथ पहले मंडल का हाल कहा गया है वैसा अन्यो के विषय में कहने को इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे पास स्थान नहीं है। धार्मिक एवं अन्य विवरण इनके भी प्रायः वैसे ही हैं जैसे कि पहले के। इसलिए इन मंडलों से जितनी ऐतिहासिक सहायता मिलती है उसी का हाल संक्षेप रीति से हम यहाँ कहेंगे।

ऋग्वेद—दूसरा मंडल

इसमें कुल मिलाकर केवल ४३ सूक्त हैं, जिनके ऋषि गृत्समद, सोमाहुत और कूर्म हैं। कूर्म गृत्समद के पुत्र थे। इनके केवल ३ सूक्त हैं और सोमाहुत के ४। शेष सभी सूक्त गृत्समद के हैं। इस मंडल में अग्नि की प्रधानता है और जगती तथा त्रिष्टुप् छन्द हैं। गृत्समद के नाम पर यह गार्त्समद मंडल कहलाता है। आप हैहय वंशी (नं० ३७) राजा वीति होत्र के दत्तक पुत्र थे। इसमें उपमाँ प्रथम मंडल की अपेक्षा कुछ नयी आयी हैं। इस मंडल की मुख्य मुख्य घटनाएँ ये हैं—इन्द्र ने और्मवाभ, अबुर्द, नार्मल और बल को मारा, शम्बर को पहाड़ से निकाल कर उसका बध किया और रोहिन को आसमान पर चढ़ते देखकर मार डाला। इन्द्र ने दभीक, उरन शुषुमा, वेंस, क्रवी, अशन, अहि, वृकद्वार और सन्धिकों के स्वामी को भी मारा। उर्जयन्ती एक राक्षसी थी। जातूष्ठिर आर्यों का सहायक था। इन्द्र ने दिवोदास के कारण शम्बरासुर के ९९ किलों को नष्ट किया तथा दस्यों के लौह किलों का भी तहस नहस कर दिया। उन्होंने बल

के पहाड़ी किलों को ध्वस्त तथा चुमुरि और धुनि को चूर किया और वर्चित को पुत्रों और सहायकों सहित मारा। शम्बर के १०० किलों का भी ध्वस्त होना लिखा है। पणि का खजाना कन्दराओं में छिपा हुआ था। उसे भी इन्द्र ने लूट लिया। इस मंडल में उपमाएँ बहुत हैं। नयी उपमाओं के उदाहरण में एक यह है कि दो चक्रों की तरह आओ। सरस्वती उत्तम माता, उत्तम देवी और उत्तम नदी कही गयी है। गुत्समद महोत्र घराने के कहे गए हैं। ऊपर के वर्णन से विदित हुआ होगा कि दूसरा मंडल विशेषतया विजयों का वर्णन करता है। शम्बर के सम्बन्ध में (१९-६) दिवोदास का कथन है। गुत्समद (४१-१४, १७) शुनहोत्र वंश में उपजे थे।

ऋग्वेद—तीसरा मंडल

यह मंडल मुख्यतया विश्वामित्र का है। इनके अतिरिक्त ऋषभ (दो सूक्त), उत्कील (दो सूक्त), कठ (दो सूक्त), गाथिन् (चार सूक्त), देवश्रवस् और देवव्रात (१ सूक्त), और प्रजापति (४ सूक्त) भी १५ सूक्तों के ऋषि हैं। ये लोग विश्वामित्र के ही पिता, पुत्र और पौत्रों में थे। कुल मिलाकर ६२ सूक्त इस मंडल में हैं। वर्णन विशेषतया अग्नि और इन्द्र के हैं और जगती, गायत्री, तथा त्रिष्टुप छन्दों की प्रधानता है। इस में प्रथम दो मंडलों की अपेक्षा कुछ कुछ नयी उपमाएँ हैं और संख्या में भी बहुत हैं। इसमें वेदपाठियों का एक देवता कहा गया है। देवताओं की संख्या प्रायः ३३ कही जाती है, किन्तु यहां नवें सूक्त में वह बढ़कर ३३३९ हो गयी है। शायद इसी लिए यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ने नए देवता बनाए। ५४-८ में तो भो आपने एकेश्वरवाद चलाया। ५४-१७ में कहा गया कि हे देवताओं ! तुम सब भारत में निवास करो। सरस्वती और हृषद्वती का वर्णन अधिक आया है। विश्वामित्र ने (२६-१) अपने को कुशिक कहा और अग्नि को इला का पुत्र माना। सिंह की भाँति गरजने की उपमा इस मंडल में आयी है। इस में शतद्रु (सतलज) और विपासा (व्यास) नदियों का वर्णन साथ ही साथ आया है और कहा गया है कि ये दो माताओं की भाँति बहती हैं।

विश्वामित्र का वशिष्ठ से वैमनस्य था। एक बार वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने इन्हें अवाक् कर दिया। ऐसी दशा में जमदग्नि ऋषि ने इन्हें ससरपरी अर्थात् भाषण देवी की शक्ति दी। (५३-१४, १५) इस प्रकार इन्होंने विश्वामित्र को वाक्ययुक्त करके साहस प्रदान किया। इस स्थान पर विश्वामित्र ने जमदग्नि की प्रशंसा और वशिष्ठ की निन्दा की है। (५३-२१) जो हमें घृणा करता है, वह सर के बल नीचे गिरे, तथा जिससे हम घृणा करते हैं उसके प्राण जावें। यह मंडल बड़ा ही मनोरंजक और इतिहास के लिए सहायक है। जगत-प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र विश्वामित्र ने इसी मण्डल में कहा। आप राजा सुदास के साथ थे। इन्होंने भरतों का बहुत वर्णन किया (५३-११, १२) और शर्यात का भी नाम कहा है। जहाँ पर कहा गया है कि विश्वामित्र वाले मन्त्रों के गान से भरतों का वंश प्रसन्न रहेगा, वहीं पर सुदास का भी नाम आया है। भोज लोग सुदास के खानदानी थे। कीकट लोग अवध और दक्षिण बिहार के निवासी अपूजक (५३-१४) थे। प्रमदगंड उनका राजा था। विश्वामित्र ने यह भी कहा है कि तुम्हारा धन जहनु घराने के साथ (५८-३) है। पुराणों से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र जहनु के वंशधर थे। प्रथम मण्डल के (११६-१९) में आया है कि जहनु वंशी आश्विनो के पूजक थे।

इन्द्र के बल-प्रकाश में इस मंडल में विशेषतया कुनार और अहि का बध लिखा है। कहा गया है “हे इन्द्र ! तुम राक्षसों के वंश को निर्मूल कर दो।” कुनार राक्षस के हाथ न थे। वह वृत्रासुर की माता दनु के साथ रहता था। इन्द्र ने जब अहि को मारा तब वह पानी के पास छिपा था। (३३-११, १२) भारत लोग पंजाबी नदियों के पार गये। विश्वामित्र ने नदी रोकी। जब वे सुदास के साथ थे (५३-९) तब कौशिक द्वारा इन्द्र प्रसन्न हुये। (५३-११, १२) सुदास पूर्व, पश्चिम और उत्तर जीतें तथा अच्छी जगहों पर पूजा करें। विश्वामित्र की यह विनती भारत वंश को बचाती है।

पुराणों द्वारा विदित होता है कि परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि विश्वामित्र के भौजे थे। इस मण्डल में जमदग्नि का नाम कई बार आने और उनके द्वारा विश्वामित्र की मदद होने से इस पौराणिक

गाथा को सहायता मिलती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि सुदास के पुत्र कल्माषपाद द्वारा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को मरवा डाला। शक्ति से विश्वामित्र की घोर शत्रुता इस मण्डल में लिखी है।

ऋग्वेद—चौथा मंडल

इस मण्डल में ५८ सूक्त हैं जिनके ऋषि विशेषतया गौतम पुत्र वामदेव हैं। इनके अतिरिक्त त्रसदस्यु (१), पुरमील्ह और अजमील्ह (२) ने केवल तीन सूक्त बनाए। देवताओं में इन्द्र और अग्नि की प्रधानता है। छन्द विशेषतया गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती आए हैं। इस मण्डल में रुद्र मनुष्य घातक कहे गए हैं और लिखा है कि अग्नि ने अन्धे सामतेय (४-११, १३) के दुःख दूर किए। इन्द्र ने मृगय और पिप्रु के ५०, ००० सहायकों, वेंस, तथा सरजू के किनारे अर्ण और चित्ररथ को मारा। ये दोनों आर्य्य राजे थे और सरजू नदी पार रहते थे। इन्द्र ने अहि को मार कर सातों नदियाँ खोल दीं। शम्बर कुलीतर का लड़का था। इस मण्डल में सहदेव, सोमक, कुत्स, परुशानी (रावी नदी) और कवच के वर्णन आए हैं। राजा पुरु और त्रसदस्यु के वर्णन हैं और सीता की पूजा (५७-६) लिखी है। त्रसदस्यु ने पौरवां का कुछ दिया (३८-१)। (४२-१८, ९) दुर्गह का पुत्र पुरकुत्स कैद में था, तब उसका पुत्र त्रसदस्यु उत्पन्न हुआ। त्रसदस्यु अपने को भारी राजा कहता है। वह शत्रुओं का जेता अर्द्ध देव था।

१५, ४, ८, ९, सृजय देववात के पुत्र थे। सहदेव के पुत्र सोमक ने वामदेव को दां घाड़े दिए।

१६, १३, विदथिन के पुत्र ऋजिस्वन ने मृगय और पिप्रु को जीता।

त्रिकथि के नोट, २५...४, में है कि वामदेव भारत थे।

२६, ३, दिवोदास अतिथिगव ने शम्बर के ९९ दुर्ग तोड़े। ३०, १४, १५, शम्बर कुलीतर का पुत्र था। वर्चिन के एक लाख पांच सौ वीर मारे गए।

३०, १७ से २१ तक, तुर्वश और यदु बूड़ा से बचाये गए, तथा आर्य्य अर्ण और चित्ररथ सरयू के किनारे मारे गए। दिवोदास ने

पत्थर के सौ किले तोड़े, तथा ३०००० दासों को मारा। यह कार्य दभीति ऋषि की सहायता से हुआ।

५४, १, मनु के वंशधरों ने सवितार से धन पाया।

ऋग्वेद—पाँचवाँ मंडल

इसमें ८७ सूक्त हैं। इसके ऋषि कई अत्रिवंशी हैं, जिन में से कुछ के नाम निम्नानुसार हैं:— बुध और गविष्ठिर (१), गय (२), सुतंभर, (४), पुरु (२), वत्रि (१), त्र्यरुण, त्रसदस्यु और अश्वमेध या अत्रि (१), सम्बरण (२), अत्रि भौम (८), स्यावास्व (१३), अर्चनानस (२), रातहव्य (२), बाहवृक्त (२), पौर (२), सत्यश्रवस् (२), और यवयामरुत (१)। इस मण्डल में विशेषतया अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवस्, मरुत, मित्रावरुण और आश्विन के वर्णन हैं। अग्नि ने शुनःशेष को बचाया। अग्नि उत्पत्ति के समय वरुण है, जब जलाई जाती है तब मित्र हांती है और आहुति के समय इन्द्र। रोदसी मरुत की माता और रुद्र की स्त्री और कहीं कहीं मरुत की भी स्त्री कही गई है। इस मंडल में पृथ्वी का घूमना (८४-२) लिखा है। पुरुमीढ एक अच्छे ऋषि थे। सुचद्रथ के पुत्र सुनीथ थे। भरतां का वर्णन इस में आया है। इन्द्र ने नमुचि का मारा। अत्रि उसिज के पुत्र कक्षीवान के पुरोहित थे। मनु ने विससिप्र को जीता। परुष्णी (रावी नदी) का नाम इस मण्डल में आया है। परावत लोग परुष्णी नदी के किनारे रहते थे। ये आर्य्य समझ पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ऋषियों को बहुत दान दिया। (देखिये आठवाँ मंडल)। कहा गया है कि यमुना नदी (५२-१७) के किनारे मुझे बहुत सी गाएँ मिलीं। इस बात से आर्यों का उस काल उस नदी तक पहुँचना सिद्ध है। काबुल नदी का उस काल कुभा कहते थे। सरजू (५३-९) नदी का भी नाम आया है। यह अवध में है, किन्तु पंजाब में भी इस नाम की एक नदी थी। इस मण्डल में यह विदित नहीं होता कि कवि पंजाब के विषय में कहता है या अवध के। इसमें छन्द विशेषतया त्रिष्टुप्, गायत्री, अनुष्टुप्, जगती और अतिजगती हैं। (२-३०) १००० गौवों के कारण शुनःशेष बँधे थे जिन्हें अग्नि ने छोड़ाया।

(११-१) भारत पवित्र हैं तथा (१२-६) नाहुष भले । (२७) त्रियरुण त्रिविषन के पुत्र थे । त्रसदस्यु अच्छे राजा थे । (२९-११) विदधिन के पुत्र रिजिश्वन ने पिप्रु को जीता । पुरकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु (३३-८) ने संवरण ऋषि को १० घोड़े दिये । (३३-३९, १०) लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य तथा मारुताश्व ने भी संवरण ऋषि को घोड़े दिये । (४०-५) स्वर्भानु ने सूर्य को अन्धकार से भेद दिया । यही पीछे राहु हुआ । (४५-६) मनु ने विशिशिपु को जीता । (१४-५) च्यवन बूढ़े से जवान हुये ।

ऋग्वेद—छठवाँ मण्डल

इसमें ७५ सूक्त हैं जो मुख्यतया भरद्वाज कृत हैं । कवियों का लेखा निम्नानुसार है :—भरद्वाज (४३), भरद्वाज या वीत हव्य (१६), सुहोत्र (२), शुनहोत्र (२), नर (२), शम्य (४), गर्ग (१), रिजिश्वन (४), और पायु (१) । इसमें छन्द मुख्यतया त्रिष्टुप्, अनुष्टुप्, जगती और गायत्री हैं । इस मंडल में विशेषतया अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवस्, पूषन्, उषस् और मरुत् के वर्णन हैं । एक सूक्त में गौओं का कथन है किन्तु पूजनात्मक नहीं । केवल इतना कहा गया है कि वे वध स्थान को कभी नहीं ले जायी जाती और कवि ने यह भी कहा है कि मुझको वे भग, सोम और इन्द्र समझ पड़ती हैं । इससे प्रकट है कि सब लोग उन्हें पूजते नहीं थे, किन्तु यह कवि पूज्य दृष्टि से देखना चाहता था । अतः इस काल तक गो-पूजन स्थापित नहीं हुआ था, किन्तु अथर्ववेद के समय वह स्थापित था । इस मण्डल में मुख्य घटनाएँ निम्नानुसार हैं :—अश्वन एक राक्षस था । भरत और देवदास के नाम आए हैं । अथर्वण ने अग्नि को बाहर निकाला और उनके पुत्र दधीच ने आग जलायी । चुमुरी, धुनि, शम्बर, पिप्र और शुशु के दुर्ग थे जिन्हें इन्द्र ने नष्ट किए । दिवोदास को तूर्यवान भी कहते हैं । कुत्स, आयु और अतिथिग्व को इन्द्र ने हराया तथा नमि की रक्षा की । वेतसु, दलौनी और तुप्र हराए जाकर देवताओं के पास लाए गए । इन्द्र ने पुरुकुत्स की सहायता की और मनु को दस्यों से जबरदस्त बनाया तथा राजा नहुष को बल दिया । इन्द्र ने दसव

की सहायता की तथा राजा तुज और देवदास को बल प्रदान किया और प्रथीनस को कन्यारत्न दी। देवदास के पुत्र अभ्यावर्तिन् चायमान को इन्द्र ने जिताया तथा वार्षिक को हराया और वृचनों को मारा। अभ्यावर्तिन् चायमान पृथु के वंशज थे। इन्द्र यदु और तुर्वश को दूर से ले आए। इस मण्डल में गंगा तट का वर्णन आया है और राजा त्रक्षी, दक्ष, दुह्यु और पुरु के नाम हैं। शम्बर के किले पहाड़ पर थे। नहुष वंशी पराक्रमी कहे गए हैं। इस मण्डल में भी सरस्वती और पंजाब की अन्य नदियों के नाम आये हैं। इस मण्डल से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनायें मिलती हैं। १५...२, वीतहव्य अग्नि की प्रशंसा करते हैं (१५-३) वीतहव्य और भरद्वाज को धन दे। इससे इन दोनों का समकालीन होना प्रकट है। वीतहव्य हैहयवंशी नरेश, ३७, थे जो पीछे भरद्वाज के साथी ऋषि हो गए। १६,४,५, १९,४,५, भारतेां की अग्नि का कथन है। अग्नि ने दिवोदास को वर दिए। दिवोदास भरद्वाज को दान करते थे। भारतेां की खोज की गई, १७,८,१४, भरद्वाज को वीर आश्रयदाता दो। प्रतर्दन का कथन २२,१०, नाहुषों के अस्त्र प्रबल हों, २६,५ शम्बर को मार कर देवता ने दिवोदास की सहायता की।

२७,५ से ८ तक दैवघात अभ्यावर्तिन् चायमान ने यव्यावती नदी पर वृचीवनों को हराया तथा सृजय को तुर्वश (देश) दिया। चायमान ने २० घोड़े तथा दासियाँ भरद्वाज को दीं। चायमान पृथु वंशी थे।

३१,४, इन्द्र ने दिवोदास को सहायता करते हुए शम्बर के १०० (४३,१) किले तोड़े। दिवोदास ने भरद्वाज को अमीर किया।

४५,१, गंगानदी का कथन।

४८,२१ से २५ तक, पानी के निकट दिवोदास ने वर्चि न और शम्बर नामक दासों को मारा। प्रस्तोक ने दान दिया। दिवोदास अतिथिग्व ने शम्बर के धन से भरद्वाज को दान दिया। अशाथ ने पायु को दिया। सृजय के पुत्रों ने भरद्वाजों का मान किया।

५०,१५, भरद्वाज के पुत्र वेदर्षि थे।

६३,३, वध्रश्व दिवोदास के पिता थे।

इस प्रकार इस मण्डल से दिवोदास सृजय, प्रस्तोक, तथा अभ्यावर्तिन चायमान भरद्वाज के समकालीन सिद्ध होते हैं। ये भरद्वाज भरत के पुत्र विदथिन भरद्वाज से पृथक् थे, क्योंकि भारतों, (भरत-वंशियों) की आप प्रशंसा प्रायः करते हैं, और उन्हें अपना आश्रय-दाता सा मानते हैं। इनके कथनों से भारत लोग इन्हीं के वंशज नहीं सिद्ध होते। भरत और दिवोदास में पीढ़ियों का भी अंतर काफी है। यही भरद्वाज रामायण के अनुसार प्रयाग में राम और भरत से मिलते हैं।

ऋग्वेद—सातवां मण्डल

इसमें १०४ सूक्त हैं। इनमें से २९ के ऋषि मैत्रावरुणि वशिष्ठ कहे गए हैं और शेष के वशिष्ठ। इनमें से एक के ऋषि वशिष्ठ और शक्ति दोनों हैं और एक अन्य के वशिष्ठ तथा उनके पुत्र। देवताओं में यहाँ अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवस्, मित्र, सूर्य, आश्विन, उषस्, सरस्वती और विष्णु की प्रधानता है तथा सुदास की महिमा बहुत गायी गयी है। छन्दों में त्रिष्टुप्, वृहती, जगती तथा गायत्री की मुख्यता है। मुख्य घटनाओं में निम्न बातें आयीं हैं :—जरूथ को अग्नि ने जलाया तथा नहुष वंशियों को हराकर उन्हें सुदास को कर देने पर बाध्य किया। सुदास ने नदियों के पार होकर सिन्धु लोगों का हराया। विजय के लिये परमोत्सुक तुर्वश परोदास, भृगु लोग और दुह्यु लोगों ने सुदास की आज्ञा मानी। पक्थ, भलान, अलिन, शिव और विशात लोगों ने तृसुवों के नेता सुदास का सामना किया किन्तु उन्हें बहुत जल्द भागना पड़ा। सुदास ने २१ जातियों के वैकर्ण लोगों को पराजित किया। सुदास के बैरियों ने नदी से एक नहर निकालकर उसे पार करना चाहा, किन्तु वे नदी में डूब गए। इन डूबने वालों में काम और दुह्यु वंशी भी थे। भृगु, दुह्यु, तुर्वश आदि ने परुष्णी नदी को पारकर उस नदी के दो टुकड़े करके सुदास पर धावा करना चाहा किन्तु वे खुद डूब गए। सुदास की सहायता को बहुत से आर्य आए। उसने बैरियों के ७ किले जीते और अनु के पुत्रों का सामान जीतकर त्रस्यु को दिया। अनु और दुह्यु, वंशियों के ६००० योद्धा तथा ६६ वीर पुरुष मारे गए, किन्तु पुरुवशी नहीं हारे। शत्रुओं का सारा सामान

लूट लिया गया । यमुना के किनारे सुदास ने भेद का सब खजाना लूटा और उसे प्रजा बना लिया । युध्यामधि को सुदास ने अपने हाथ से मारा । दस राजाओं से युद्ध करने में इन्द्र ने सुदास की सहायता की । राजा वर्चिन के एक लाख आदमी युद्ध में मारे गए । विष्णु ने राजा मनु को यह पृथ्वी दी । अज, सिगरु और चक्षु ने सुदास को कर दिया । पराशर, वशिष्ठ और सत्ययात को सुदास ने बहुत सा दान दिया । सुदास के पिता दिवोदास थे ।

इन्द्र ने अर्जुन के वंशज कुत्स की सहायता करके कुयव और सुस्न को जीता । पराशर, वशिष्ठ और सत्ययात सुदास के नौकर कहे गए हैं । आर्य्य राजा पार्स्युम्न सुदास के समकालिक थे । सिमदा एक राज्ञसी का नाम था । दीर्घक्रावसा घुड़दौड़ के घोड़े को कहते थे । शाल्मली रेशमी रुई का पेड़ कहा गया है । इससे सेमल का प्रयोजन है । कहते हैं कि वशिष्ठ छोटों से छोटों देवता को भी कभी नहीं भुला-वेंगे । सूर्य के घोड़ों में से एक का नाम इतस है । उषस् आकाश की पुत्री है । आर्य्यों को पाँच शाखाएँ कही गयी हैं । जो दस राजे सुदास से हारे थे वे पूजन न करते थे । वशिष्ठ समुद्र में नाव पर चलना पसन्द करते थे । इसी दशा में वरुण ने उन्हें ऋषि बनाया । नहुष और सरस्वती नदी के नाम आए हैं । पुरुवंशी सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर रहते थे । जमदग्नि का नाम प्रशंसा से लिया गया है । इससे प्रकट है कि यद्यपि जमदग्नि विश्वामित्र के सहायक थे, तथापि उन्होंने कोई बुरा बर्ताव कभी नहीं किया, जिससे विश्वामित्र के शत्रु वशिष्ठ भी उनसे प्रसन्न रहे । राज्ञस के अर्थ में यातुधान शब्द आया है और दस्यु लोग जादूगर तथा बेईमान कहे गए हैं । वशिष्ठ ने विश्वामित्र का नाम लेकर कभी उनकी बुराई नहीं की, किन्तु अपने द्वेषियों का इस प्रकार वर्णन किया जिससे विश्वामित्र का अभिप्राय समझ पड़ता है ।

इस मण्डल से प्रकट होता है कि वशिष्ठ के समय में आर्य्य लोग सरस्वती नदी के पूर्व भी थे और उनकी संख्या ऐसी बढ़ चुकी थी कि उनमें आपस में भी भारी युद्ध होने लगे थे । राजा पुरुरवस का राजस्थान प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर था, किन्तु सुदास के युद्ध के

समय पुरुवंशी लोग सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर रहते हुए कहे गए हैं। कुछ पाश्चात्य पण्डितों का मत है कि वैदिक आर्यों ने समुद्र नहीं देखा था किन्तु इस मण्डल में वशिष्ठ की समुद्र यात्रा का प्रत्यक्ष वर्णन है।

८, ४, भारत की अग्नि ने पूरु (पुरुवंशी) को युद्ध में जीता। यहाँ स्वयं पुरुवंशी भारत सुदास अन्य पुरुवंशी शाखा के विजयी हैं। महाभारत में पौरव संवर्ण उत्तर पाँचाल नरेश से हारते और फिर उन्हें हराते हैं।

९, ६, वशिष्ठ ने जरूथ को मारा। शायद जिस युद्ध में वह मरा, उसमें वशिष्ठ पुरोहित थे। सूक्त १८...सुदास के शत्रु निम्न थे:—शिम्यु, तुर्वश, पुरादास, भार्गव, द्रुह्यु, पक्थ, भलान, अलिन, शिवि, विशाणि (छवों के वंशधर) और दानों वैकणों के २१ कुल। आनव (का माल लुटा) और द्रुह्यु वंशी तथा ६६ प्रसिद्ध वीर मरे। भेद लुटा और प्रजा बना। अजों, शिगुओं और पलुओं ने कर में घोड़े दिए। मन्थमान का पुत्र देवक मरा, तथा शम्बर भी। पराशर वशिष्ठ और सत्ययानु प्रसन्न हुए। पैजवान (सुदास) से वशिष्ठ को दान मिला। देववात के सन्तान से २०० गायें मिलीं, तथा सुदास से दो रथ। पिजवन सुदास के पिता थे, और दिवोदास भी। शायद इन्होंने सुदास को गोद लिया हो। युध्यामधि मरा।

१९, ३ पुरुकुत्स पुत्र त्रसदस्यु ने इन्द्र की सहायता ही से विजय पाई और सुदास ने भी।

३३, ३५, सुदास तृप्तु पति थे। १९, ८, अतिथिग्व प्रसन्न हुए। तुर्वश और याह्व का अहंकार चूर्ण हुआ।

३३, ११, वशिष्ठ उर्वशी में वरुण मित्र द्वारा हुये। ८३, ११, सुदास के आर्य तथा दास शत्रु मरे।

तृप्तुओं के कपड़े श्वेत थे। ९६, २, ३, बलवान पौरव सरस्वती के दोनों किनारों पर रहते थे। जमदाग्न और वशिष्ठ की भाँति सरस्वती की प्रशंसा हो।

ऋग्वेद—आठवाँ मण्डल

इसमें ९२ सूक्त हैं और बालखिल्यों के ११ उपर्युक्त ९२ के पीछे रक्खे गये हैं। इस प्रकार कुल १०३ होते हैं। इनके ऋषि बहुत से हैं जिनमें से मुख्य मुख्य के नाम ये हैं:—मेधातिथि, आसंग, शश्वती, मनु, प्रियमेध, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, शशकर्ण, प्रगाथ, पर्वत, उषना काव्य, नारद, सोभरि, विश्वमना, मनुवैवस्वत, कश्यप, नीपातिथि, एक सहस्र वसुरोचिष, श्यावाश्व, नाभाक, विरूप, त्रिशोक, त्रित, भर्ग, कलि, पुरुमीलह, हर्यत, कुसीदी, उशना, कृष्ण, विश्वक, नोधा, अपाला, रेभ, इन्द्र, जमदग्नि, प्रस्कण्व, आयु, मातरिश्वा, कृश और सुपर्ण। इन सब में भी नारद, वैवस्वतमनु, उशना और आयु परम प्रधान थे। इस मण्डल में मुख्य छन्द बृहती, गायत्री, अनुष्टुप्, उष्णिक्, महापंक्ति और जगती हैं। देवताओं में यहाँ इन्द्र, आश्विन, अग्नि, वरुण, आदित्य और मरुत् की प्रधानता है। सूक्त नं० ९० में गाय का भी वर्णन है। उसके विषय में कहा गया है कि वह निष्पापिनी है, उसे कोई कष्ट न पहुँचाओ। इस मण्डल में आसंग, विभिन्दु, पाकस्थामा, कुरुङ्ग, कशु, तिरिन्द्रि, त्रसदस्यु, चित्र, पृथुश्रवा और श्रुतर्वण आदि की उदारता के वर्णन हैं।

घटनाओं में कहा गया है कि इन्द्र ने सुश्रन का चलने वाला किला नष्ट कर दिया। राजा परमज्या, निन्दिताश्व, प्रपथी, आसंगपुत्र, स्वनद्रथ और यदुपुत्र बड़े उदार थे। आसंग सयोग के पुत्र थे। सरस्वती उनकी स्त्री थी। यह नपुंसक हो गये थे किन्तु इन्हें फिर पुंसत्व प्राप्त हुआ। यदुपुत्र ने कवि को सुनहले सामान सहित दो घोड़े दिये। राजा विभिन्दु ने यज्ञ किया। यति एक ऋषिकुल था जिसका भृगुवंशी राजाओं से सम्बन्ध था। जान पड़ता है कि जिन भार्गव लोगों का सातवें मण्डल में सुदास से युद्ध कहा गया है वे इसी राजकुल के थे। वेदों में परशुराम का नाम नहीं है, किन्तु पुराणों में उनकी विजयों का अच्छा वर्णन है। इन्द्र ने पुरु के पुत्र तथा रुशम, श्यावक, स्वर्णर और कृप नामक राजाओं की सहायता की तथा मृगय और अर्बुद को हराया। पाकशासन ने कवि

को एक घोड़ा दिया । इन्द्र अनुवंशियों, तुर्वश तथा राजा रुम पर भी कृपा करते थे । तुर्वश और यदु की प्रशंसा योग्य है । पन्न और कण्व से शत्रुता थी । राजा कुरंग का नाम आया है । सुदेव एक बड़े भक्त थे । तुग्रपुत्र भुज्यु को अविशनीकुमारों ने बचाया । चेद पुत्र कसु ने कवि को १०० भैंसे और दस हजार गाएँ दीं । चेदि लोग बड़े उदार थे । नहुषवंशियों के अच्छे अच्छे घोड़े थे । सरयानीवान कुरुक्षेत्र में एक भील थी । पर्श और तिरिन्दिर के पास के नाम आये हैं । कुकुर लोग यादवों के समान थे । उन्होंने भैंसे दान दिये । यश और दशव्रज को त्रसदस्यु ने सहायता दी । अथर्वण एक ऋषि थे । कक्षीवान और दीर्घतमा नामक ऋषियों के नाम आए हैं । वेन पुत्र पृथु का वर्णन है । आयु पुरुरवा के पुत्र थे । प्रदाकु साम यज्ञ करने वाला था । क्रवि पञ्जाब के युद्धकर्ता थे । पांचालों में भी इनका होना कहा गया है । चिनाब नदी के चन्द्रभागा और असिक्नी भी नाम थे । पक्थ, अध्रिव, वभ्रु और चित्र राजा थे । व्यास्व एक ऋषि थे । गोमती नदी का नाम आया है (२५, ३०) । दक्ष के पुत्रों का कथन है । उक्षतयान, हरयान, और सुषामन को एक एक घोड़ा मिला ।

इस मण्डल में ३३ देवताओं के नाम आए हैं । इन्द्र ने अनसन्नि, श्रीविन्दु, पिप्रु और और्णवाभ को मारा । पारावत एक वंश था जिसने ऋषियों को खूब दान दिया । युवनाश्व पुत्र मान्धाता का (३९-८) नाम दस्युवों के मारने में आया है । एक मान्धाता राजा थे और दूसरे ऋषि । ४२ वें सूक्त की तीसरी ऋचा में रूपक द्वारा जहाज का कथन हुआ है । दास बलवूथ एक दानी और आर्य्य पृथुश्रवा के साथी थे । मनु का वर्णन पितामह कर के हुआ है । सूक्त ५६ की पहली ऋचा में राजपुत्रों को क्षत्री कहा है । आश्विनो के विषय में लिखा है कि वे बाज की तरह उड़ गए । श्रुतर्वण ने रावी नदी के किनारे यज्ञ किया । इस मण्डल में जहाज का वर्णन कई बार आया है । एक स्थान पर लिखा है कि जैसे समुद्र की लहरें जहाज को थपेड़ें लगाती हैं, इस प्रकार हम को कोई थपेड़ें न लगावे । कृदम और उनके पुत्र विश्वक ऋचाओं के ऋषि थे । अत्रिवंशी अपाला भी वेद की ऋषि थीं । इन्द्र को कई स्थानों पर राम कहा है । पृथ्वी के

दस देश कहे गए हैं। शिष्ट लोगों का वर्णन आया है। सूक्त नं० २७ से ३२ तक वैवस्वत मनु के रचे हुए हैं। इन में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि जो मनुओं के विषय में पौराणिक कथनों के प्रतिकूल हो। (४-१) इन्द्र मुख्यतया आनवों और तुर्वशों के साथ हैं। (९-१०) कण्व वंशी दीर्घतमस पूर्व कालीन कहे गये हैं। (१०-५) दुह्यु, अनु, यदु और तुर्वश के नाम इन्हीं वंशों के लिये आये हैं। (१९-३६, २७-७; ३६-७) पुरकुत्सात्मज त्रसदस्यु ने सोमरि ऋषि को ५० दासियाँ दीं। त्रसदस्यु के पुत्र वृत्ति थे। त्रसदस्यु विजयी तथा दानी थे।

ऋग्वेद—नवाँ मण्डल

इसमें ११४ सूक्त हैं जिनके ऋषियों में मुख्य निम्नानुसार हैं:—मधुच्छन्दा, मेधातिथि, शुनःशेष, हिरण्यस्तूप, असित, कुत्स, देवल, विन्दु, गौतम, रहुगण, कवि, उचथ्य, अवत्सार, काश्यप, भृगु, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, पवित्र, रेणु, ऋषभ, हरिमन्त, कक्षीवान, वसु, प्रजापति, वेन, उशना, कण्व, प्रसूकण्व, उपमन्यु, व्याघ्रपाद, वशिष्ठ-शक्ति, पराशर, अम्बरीष, ऋजिश्वन, ययाति, नहुष, मनु, नारद, शिखण्डी, अग्नि, चालुषमनु, प्रतर्दन, और शिशु। इन सब में रहुगण, वेन, उपमन्यु, अम्बरीष, ययाति, नहुष और चालुषमनु की कई कारणों से मुख्यता समझनी चाहिये। इस मंडल भर में प्रायः सब ऋचाएँ सोम पवमान ही के विषय में हैं, केवल एक में आप्रिय का वर्णन है और दो में सोम पवमान के साथ कुछ और देवताओं का भी कथन है। ६७ वें सूक्त में विद्यार्थियों की भी प्रशंसा की गयी है। छन्दों में ६७ सूक्त पर्यन्त गायत्री ही चलती है। इसके पीछे जगती, त्रिष्टुप् और उष्णिक् भी आए हैं। नई उपमाएँ ५० वें सूक्त में बहुत हैं। इस मंडल की मुख्य घटनाओं का हाल संक्षेपतया नीचे लिखा जाता है:—ध्वस्त्र और पुरुषान्ति दानी राजा थे। सोम पवमान ने दिवांदास के कारण यदु, तुर्वश और शम्बर को (६१-२) मारा। जैसा कि आठवें मण्डल में यदु, तुर्वश आदि के नाम उन के वंशधरों के लिये आये हैं, वही हाल यहां

भी समझ पड़ता है, क्योंकि ये दोनों दिवोदास से बहुत पहले हुये थे । इस मंडल में जमदग्नि वंशियों का वर्णन बहुत है और व्यास ऋषि का नाम बहुतायत से आया है । उत्तर पश्चिम में आर्जीक नामी एक अनाय्य जाति रहती थी । उसना बड़े बुद्धिमान कहे गये हैं । पेदू के घोड़े ने बहुत से नागों को मारा । इस मंडल में सिंह, धनुष और सप्तर्षि के वर्णन आये हैं । मख एक राक्षस था । दधीचि अथर्वण के पुत्र थे । अथर्वण ने सब से पहले अग्नि पायी और उसे सोमपान कराया । ब्राह्मण पूजा करने वालों को ढूँढ़ता है । चालुष मनु के वेदर्षि होने से प्रकट है कि चालुष मन्वंतर में वैदिक ऋचायें बन चली थीं ।

ऋग्वेद—दसवाँ मण्डल

इसमें १९१ सूक्त हैं जिनके प्रधान ऋषियों का व्योरा निम्नानुसार है:—त्रित, त्रिशिरा, सिन्धुद्वीप, यम, यमी, बृहदुक्थ, हविर्धान, विवस्वान्, शंख, दमन, देवश्रवा, च्यवन, विमद, वसुकृत, वसुक, कवष, अक्ष, लुश, घोषा, कृष्ण, इन्द्र, वैकुण्ठ, गौपायन लोग और उनकी माता, गय, अयास्य, सुमित्र, बृहस्पति, अदिति, गौरिवीति, जरत्कर्ण, विश्वकर्मा, मन्यु, सूर्या, इन्द्र, इन्द्राणी, वृषाकपि, पायु, रेणु, नारायण, अरुण, शार्यात, तान्व, अर्बुद, पुरुरवा, उर्वशी, देवापि, वस्र, बुध, मुद्गल, अप्रतिरथ, अष्टक, दक्षिणा, दिव्य, सरमा, पणि, जुहू, जमदग्नि या राम, भिल्ल, लव, हिरण्यगर्भ, वरुण, सोम, वाक, कुशिक या रात्रि, प्रजापति, परमेष्ठी, यज्ञ, सुकीर्ति, शकपूत, सुदा, मान्धातार, गोधा, कुमार, सप्तमुनि (जूति, वात जूति, विप्रजूति, वृषाणक, एतश, करिकृत, ऋष्य शृंग) सप्तर्षि, अंग, विश्वावसु, अग्नि पावक, अग्नि तापस, जरितर, द्रोण, सारीसृक, स्तंबमित्र, अत्रि, सुपर्ण, ऊर्ध्वकृषन, पृथु वैन्य, शास, इन्द्र की माताएँ, केंतु, चल्लु, शची पौलोमी, पूरण, प्रचेतस, कपोत, ऋषभ, विश्वामित्र-जमदग्नि, अनिल, शबर, बिभ्राट्, इट, संवर्त, ध्रुव, सूनु, पतंग, अरिष्टनेमि, शिवि, प्रतर्दन, बसुमनस, जय, प्रजावान्, त्वष्टा, विष्णु, सत्यधृति, उल, अघमर्षण और सम्बनन । इन वेदर्षियों में राम उनके पुत्र लव, और बहनोई ऋष्यशृंग के नाम आए हैं । सम्भवतः राम से परशुराम

का प्रयोजन हो, क्योंकि वहाँ जमदग्नि या राम लिखा है। वेदर्वि जरितर, द्रोण, सारीस्रक और स्तम्बमित्र शार्ङ्गी शूद्रा से उत्पन्न मन्दपाल ब्राह्मण के वे पुत्र थे जो अर्जुन के खाण्डव दाह से बचे थे। पुरुष सूक्त (नं० ९०) के ऋषि नारायण ने नारद को बासुदेव का ऐश्वर भाव बतलाया। उसे नारद से जान कर व्यास ने युधिष्ठिर से कहा (शान्ति पर्व)। इस प्रकार वेद के ये भाग महाभारत काल के पड़ते हैं। इन ऋषियों में कई प्रसिद्ध राजा अथवा महापुरुष हैं, यथा विवस्वान्, गय, अदिति, पुरुवा, देवापि, राम, लव, कुशिक, सुदास, मान्धाता, पृथु, केतु, ऋषभ, चालुष मनु, ध्रुव, शिवि आदि। ऋषियों में कई देवताओं के भी नाम आये हैं जैसे इन्द्र, अग्नि आदि। अग्नि, प्रजापति विश्वकर्मा आदि देवताओं के नाम अवश्य हैं, किन्तु समझ पड़ता है कि इन्हीं नामों के मनुष्य भी थे। ध्रुव भी एक वेदर्वि जान पड़ता है। यह ध्रुव नाम के प्रसिद्ध राजा हो सकते हैं। कई स्त्रियाँ भी वेदर्वि हैं। प्राचीनतम वेदर्वियों में वेन, ध्रुव और पृथु-वैन्य हैं।

इस मंडल के देवताओं में अग्नि, इन्द्र, यम, पितर, जल, गय, विश्वेदेवस्, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सूर्य्य आदि की प्रधानता है। देवताओं के अतिरिक्त इसमें कई अन्य विषयों पर भी सूक्त हैं, यथा जल, पितृ, मृत्यु, गाय, पांसा, खेती, जीवात्मा, सुबन्धु का पुनर्जीवन, हाथ, सार्वण्य की उदारता, ज्ञान, देवता लोग, नदियाँ, दबाने का पत्थर, सूर्या के विवाह पर आशीर्वाद, पुरुष, उर्वशी-पुरुवा, इन्द्र के घोड़े, वनौषधि, गदा, सरमा, पनिस, उदारता, वेन, वायु, रात्रि, जगदुत्पत्ति, केशी, प्रतिद्वन्दी (होड़ करने वाले) का हराना, सपत्नीबाधन, अरण्य, श्रद्धा, नवजीवन, दुर्भाग्य निराकरण, पौलोमी, क्षीरोग निराकरण, गर्भपात से बचाव, दुःस्वप्नों से बचाव, गोगण, उषा, राजा, माया भेद, तार्क्ष्य, यज्ञकर्त्ता और उसकी स्त्री के गर्भ को आशीर्वाद, अदिति और मेल। इतने विषयों का वर्णन होने से प्रकट होता है कि यह मंडल बहुत ही गम्भीर और सांसारिक सभ्यता की ऐतिहासिक उन्नति जानने में परमोपयोगी है। इस एक मंडल के पढ़ने से विविध विषयों पर वैदिक विचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

इस में व्यवहृत मुख्य छन्द निम्नानुसार हैं:—त्रिदुष्प, गायत्री, जगती, अनुष्टुप्, आस्तार पंक्ति, प्रस्तार पंक्ति, उष्णिक्, महापंक्ति, बृहती और द्विपदीविराट् ।

यम यमी माई बहन थीं । कुछ योरोपीय पण्डितों का विचार है कि स्त्री पुरुष का यह पहला जोड़ा था, किन्तु इनकी बातचीत ही से प्रकट होता है कि संसार में अन्य पुरुष भी थे । यमी ने यम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया । इस पर यम ने उत्तर दिया कि वह बहिन के साथ विवाह करना उचित नहीं समझता और इसलिये यमी को उचित है कि वह किसी और को अपना हृदय प्रदान करे और प्रीति भाजन बनावे । जान पड़ता है कि यह उस काल का वर्णन है कि जब तक भाई बहनों में विवाह का निषेध तो नहीं हुआ था किन्तु निषेधात्मक विचार उठने लगे थे । यम ने यमी के विचारों को लोक-लाजहीन न कहकर उनसे केवल अपनी असम्मति प्रकट की और कहा कि लोग इसे पातक समझते हैं । किसी सूर्या का विवाह इस मंडल में लिखा है । यमी भी सूर्य की कन्या होने से सूर्या कही जा सकती थी ।

इस मंडल में घटनाओं का वर्णन बहुतायत से आया है । चिता एवं मृत्यु के कथन आये हैं और कहा गया है कि मरने के पीछे मनुष्य यम के यहाँ जाता है । कहा गया है कि हमारे चारों ओर दस्यु लोग रहते हैं जो यज्ञादिक नहीं करते और पृथक् धर्मों पर चलते हैं । इस मंडल में सिंह का वर्णन कई बार आया है । दुहश्शासु एक शत्रु राजा था जिसने त्रसदस्यु के पौत्र कुरुश्रवन को हराया । दिवोदास के मुकाबले में गांगव लोग मारे गये । साण्य ने दिवोदास की सहायता की । श्रुतवर्ण ने मृगय और सास्व को हराया । ३३३९ देवताओं ने अग्नि की पूजा की । उशीनर लोग मध्यदेश में रहते थे । इक्ष्वाकु एक राजा और मनु बड़े दानी थे । यदु और तुर्वश ने दो दास दान किये । ययाति नहुष के पुत्र थे । गङ्गा, जमुना का वर्णन आया है और पञ्जाब की नदियों का भी । बैल मघा में मारे जाते थे और अर्जुनी में बरुचा पैदा करते थे । ९० वें सूक्त में ईश्वर के मुख, बाहु, जंघा और पैर से ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति कही गयी है ।

चन्द्रमा ईश्वर के मन से निकला। समझ पड़ता है कि ऋग्वेद के समय में जाति भेद कर्म से था, किन्तु यजुर्वेद के समय वह जन्म से माना जाने लगा। पुरुषसूक्त नारायण ऋषि का है। यह अच्छे कवि समझ पड़ते हैं। दुःसीम, प्रार्थिवान्, वेन, राम और तान्वापार्थ्य यज्ञकर्त्ता कहे गये हैं। सम्भव है कि यह राम वही दशरथ पुत्र प्रसिद्ध राम हों। पुरुरवा की स्त्री उर्वशी थी। राजा उसको अधिक प्यार करते थे किन्तु उसे परवाह न थी। यह मनुष्य थे और वह अप्सरा। उर्वशी ने कहा कि स्त्री पूरा प्रेम नहीं कर सकती और अपने विषय में कहा, 'मैं हवा के समान उड़ती हूँ सो मेरा पकड़ना कठिन है।' उर्वशी की ये बातें स्त्री जाति के विषय में वैदिक सम्मति प्रकट नहीं करती। उर्वशी स्वयं प्रेमहीना थी और इसीलिये सभी स्त्रियों को ऐसी समझती थी। पुरुरवा इला के पुत्र थे। इस मंडल में स्वर्ग का वर्णन आया है। शान्तनु को देवापि ने यज्ञ कराया। भारत वाले शान्तनु के देवापि भाई थे और इन दोनों के पिता प्रतीप थे, किन्तु वैदिक देवापि के पिता ऋषत्सेन लिखे हैं। जान पड़ता है कि थोड़े ही काल राज्य करने अथवा पिता के आगे मरने से इनका नाम महाभारत से छूट गया। यह भी सम्भव है कि देवापि के ब्राह्मण होने में ऋषत्सेन उनके दत्तक पिता बने हों।

इस मंडल में जल के विषय में एक अच्छा सूक्त है। उसमें जल को शक्तिप्रदायक, पुत्रोत्पादक, बलप्रदायक, स्वास्थ्यकर और पातक-निराकरण करने वाला कहा गया है और यह भी लिखा है कि पानी में सभी दवाएँ रहती हैं। पितरों के वर्णन में लिखा है कि वे यमलोक में रहते हैं। वहाँ यम ने उनके लिए ऐसा स्थान नियत किया है जो जल और ज्योति से शोभित है और पितृ लोग यम के साथ प्रसन्न रहते हैं। ५८ वें सूक्त में जीवात्मा का कथन किया गया है और मृत अथवा मूर्छित मनुष्य से कहा गया है कि जो तेरा जीवात्मा बहुत दूर विवस्वान् के पुत्र यम के यहाँ चला गया था, उसे हम फिर तेरे पास लाते हैं कि तू जीवित रह कर यहीं रह। इस प्रकार शेष ११ मन्त्रों में पृथ्वी और स्वर्ग, चार कोने की पृथ्वी, संसार के चारों स्थानों, तरंगित समुद्र, चमकने और बहने वाली ज्योति,

जलों, पौधों, सूर्य और उषा, ऊँचे पहाड़ों, सब जीवधारी और चलने वाले पदार्थों, हमारे दृष्टिक्षेत्र से बाहर दूर देशों और अन्त में सब वर्तमान और भूत जीवधारियों में जीवात्मा का जाना लिखा है।

उशीनरानी, ५९, १०, और ६०, ४, इत्वाकु के कथन । ६०, ६ अगस्त्य के कई भागिनेय थे । ६०, ७, में सुबन्ध का कथन है । ६१ वाँ सूक्त नाभानेदिष्ठ का है । ६२ में सावर्ण्य मनु के यज्ञों की प्रशंसा तथा चिरायु होने का आशीर्वाद है । ६३, गय का सूक्त है । ६३, १, ६, ७, १७, विवस्वान के वंशधर मनुष्यों को बहुत प्रिय हैं, तथा दूर तक राज्य फैलाते हैं । ययाति नहुष के पुत्र थे । नाहुषों तथा वैवस्वतों की साथ ही प्रशंसा है । मनु ने सात पुरोहितों द्वारा सब से पहले यज्ञ किया । गय प्रति के पुत्र थे । यही बात, ६४, १७ में भी है । ६४, ९, सरयू नदी तथा ६५, १४ मनु के देवतों के कथन हैं । ५९, १ तथा VI ६१, १, बध्यूश्व सरस्वती और अग्नि के पूजक थे । सूक्त, ६९ का ऋषि सुमित्र अपने को बराबर उनका सगोत्री कहता और उनसे प्रसन्नता प्रकट करता है । वे प्राचीन समय में थे । ७२, २, ३, देवताओं के प्राचीन समय में असत्ता से सत्ता हुई । ७५, ३, ५, ९, सिन्ध, गङ्गा, यमुना, शतद्रू, परुष्णी, सरस्वती, असिक्की, वितस्ता, कुभा और गोमती नदियों के नाम आये हैं । ८१, में जगदुत्पति और एक ईश्वर के कथन हैं । ८२, ईश्वर पिता है, उसी ने सब कुछ बनाया है । एक ही विश्व-कर्मन कर्ता है । वह देवताओं तथा असुरों से पहले का तथा अज है । ९० में पुरुष सूक्त है । यह सूक्त यजुर्वेद में भी है । ९३, १४, दुःसाम पृथवान, वेन और राम सब यज्ञ कर्ता थे । ९५, पुरुरवस उर्वशी का है । ९८, ऋष्टषेण का पुत्र देवापी अपने भाई शान्तुन के लिए पानी बरसाने की प्रार्थना इन्द्र से करता है ।

१०२, मुद्गल का सूक्त है । इन्द्र सेना मुद्गलानी ने रथ हाँक कर पति को विजय दिलाई । पहले वह उनको छोड़े हुए सा था, किन्तु पीछे प्रसन्न हो गया । १२१, हिरण्यगर्भ सारे संसार के स्वामी थे । वे सब से पहले हुए । १२३, में वेन अपनी भारी प्रशंसा करते हैं, शायद ये ही पृथु के पिता हों । १२९, १३०, में जगदुत्पति उत्कृष्ट हैं । १७१, ३, में वैश्य का कथन है ।

इसी स्थान पर ऋग्वेद का संचिप्त ऐतिहासिक विवरण समाप्त होता है। जो ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें कही गयीं हैं उन सब का पूर्वापर क्रम केवल वेदों के सहारे से स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा करने का प्रयत्न न करके हमने यहाँ पर ऋग्वेद के संहिताविभाग से जितना कुछ मुख्य ऐतिहासिक मसाला प्राप्त हो सकता है उसका संचिप्त विवरण ऊपर लिख दिया है। यों तो भगवान वेद से हजारों प्रकार के ऐतिहासिक एवं अन्य बहुमूल्य भाव प्राप्त होते हैं, किन्तु हमने उन पर ध्यान न देकर केवल राजनैतिक इतिहास का जो मुख्य मूल ऋग्वेद संहिता से प्राप्य है उसे यहाँ पर कहा है। इन ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्वापर क्रम जो ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों आदि के सहारे कहा जा सकता है, उसे दिखलाने का प्रयत्न आगे किया जायगा। यहाँ पर केवल संहिता का सहारा लेकर जो ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसका विवरण किया गया है। इसी प्रकार शेष तीनों वेदों के संहिता विभाग का सहारा लेकर हम अपना ऐतिहासिक वर्णन लिखेंगे। इसके पीछे अन्य ग्रन्थों के सहारे इतिहास का क्रम बाँधा जायगा।

सामवेद

यह वेद गणना में तीसरा किन्तु महिमा में नम्बर २ समझा जाता है। सामवेद में कुल १५४९ मन्त्र हैं। इनमें से केवल ७२ इसके और शेष सब ऋग्वेद के हैं। इसके दो भाग हैं, जिनमें से पहले में ६ काण्ड हैं और दूसरे में ९। एक एक काण्ड की भी कई कई कण्डिकायें हैं जिन्हें सूक्त कह सकते हैं। सामवेद में कुल मिलाकर ४५९ सूक्त हैं। ये प्रायः सब ऋग्वेद से लिए गये हैं, किन्तु कुछ नये भी हैं। कुल मिलाकर सामवेद का प्रायः २० वाँ भाग नया होगा, शेष सब ऋग्वेद से लिया हुआ है। इसके जो पाठ हैं उसमें ऋग्वेद से कहीं कहीं थोड़ा बहुत अन्तर है। कई स्थानों पर अन्तर अर्थ समझाने के लिये किया गया है, किन्तु अधिकतर दशाओं में यह बात घटित नहीं होती। कुछ पाश्चात्य पंडितों का मत है कि सामवेद में लिखित मन्त्र बहुत स्थानों पर वर्तमान ऋग्वेद के प्राचीन पाठों पर अवलम्बित हैं, अर्थात् जिस

काल वे ऋचाएँ सामवेद में रक्खी गयीं तब ऋग्वेद में भी उनका वही पाठ चलन में था, किन्तु पीछे से बदल गया। जान पड़ता है कि ऋग्वेद की ऋचाएँ सदा से इतनी ही नहीं थीं, वरन् संख्या में वर्तमान ऋचाओं से कुछ अधिक थीं। उन्हीं में से वर्तमान ऋचाएँ सामवेद में रक्खी गयीं। पीछे से ऋग्वेद के सम्पादक व्यास भगवान ने ऋग्वेद बाली वर्तमान ऋचाओं को चुन लिया और शेष को छोड़ दिया। उन्हीं छोड़ी हुई ऋचाओं में से, जो सामवेद में आगयी थीं वे तो रक्षित नहीं और शेष नष्ट हो गयीं।

सामवेद को किसने संकलित किया इसका पता नहीं है, केवल इतना ज्ञात है कि चारों वेदों के सम्पादक व्यास भगवान थे। सामवेद के आदि में लिखा है कि “ओं सामवेद की जय, गणेश की जय।” यह असली सामवेद का भाग नहीं है वरन् हाल के लेखकों ने लगा दिया होगा। सामवेद में विशेषतया सोम पवमान का वर्णन है। इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, उषा, आश्विन आदि पर भी कुछ कथन आए हैं। जल, वात और वेन के भी कुछ वर्णन हैं। इसमें कुछ ऋचाएँ मनु वैवस्वत की भी हैं। जिन दधीचि की हड्डी से बज्र बना था वे अथर्वण के पुत्र एक ऋषि थे। पुराणों में राजा दधीचि के विषय में यही बात कही गयी है। इन्द्र को राम कहा है। वय्य के पुत्र सत्यश्रव ऋषि का नाम आया है। नकुल की एक ऋचा है जो ऋग्वेद में नहीं है। कुछ ऋचाएँ नहुष, ययाति, मनु, अम्बरीष तथा ऋजिस्वा की भी हैं तथा कुछ आप्सव मनु की। रसा नामक एक नदी है जो पृथ्वी के चारों ओर बहती है। सोम पवमान ने दिवोदास के लिए शम्बर, यदु और तुर्वश को हराया। यही विजय वर्णन कई देवताओं के विषय में किये गए हैं, जैसे शम्बर का मारना इन्द्र, अग्नि और सोम पवमान के विषय में कहा गया है। श्यावक, ऋजिस्वा और अम्बरीष इन्द्र के कृपापात्रों में से थे। ऋषि एक असुर था। ईश्वर का वर्णन विश्वकर्मा, स्कम्भ, प्रजापति और पुरुष के नाम से आया है। कहीं कहीं अग्नि, इन्द्र और सूर्य से भी ईश्वर का भाव प्रकट किया गया, है। पवीरु रुसमों के राजा थे। सुनीथ सुचद्रथ के पुत्र थे। मनुष्य जीवन अधिकतर १०० वर्षों का

कहा गया है किन्तु कहीं कहीं ११६ और १२० वर्षों का भी वर्णन है।

यजुर्वेद

यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का है। इसमें जाति भेद की उन्नति देख पड़ती है, मिलित जातियों का भी वर्णन है तथा दस्तकारी, विज्ञान, व्यापार आदि का कुछ बढ़ा-चढ़ा कथन है। इन बातों से त्रिफिथ महाशय का विचार है कि यह वेद अथर्ववेद से भी नया है। इसके शुक्ल और कृष्ण नामक दो विभाग हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कुल मिलाकर इसमें ४० अध्याय और प्रायः २००० छन्द हैं और बहुत कुछ भाग गद्य में भी है। इसका बहुत सा भाग ऋग्वेद से लिया गया है और कुछ अथर्व से मिलता है। यज्ञ आर्यों में सदैव से हांते रहे थे, सो उनके विधानों का वर्णन भी बहुत पुराना होना निश्चित है। इसीसे यजुर्वेद का प्रारम्भकाल पुराना समझ पड़ता है। बलि के यज्ञ में वामन भगवान् ने प्रचलित यज्ञ रीतियों में कुछ विशेषता दिखलायी। इससे रीतियाँ पर विचार उस काल से ही चले थे ऐसा निश्चित है।

पहले और दूसरे अध्यायों में नवेन्दु और पूर्णेन्दु सम्बन्धी यज्ञों के वर्णन हैं और तीसरे में अग्निहोत्र का कथन आया है। अध्याय नम्बर ४ से ८ तक सोमयज्ञ का विधान है और नवम एवं दशम में वाजिपेय और राजसूय यज्ञों का कथन हुआ है। ११वें से १८वें अध्याय पर्यन्त वेदी आदि बनाने के विधान कहे गये हैं। १६वें में शतरुद्रीय का विधान है। १९वें से २१वें तक सौत्रामणि यज्ञ का कथन है और २२वें से २५वें तक अश्वमेध का। २६वें से २९वें अध्याय पर्यन्त चान्द्रयज्ञों का विधान है और ३०वें तथा ३१वें में नरमेध का। शतपथ ब्राह्मण के देखने से प्रकट होता है कि नरमेध में मनुष्य का बलिदान नहीं दिया जाता था, वरन् एक पुतले का। ३२वें से ३४वें अध्याय पर्यन्त सर्वमेध का वर्णन है और ३५वें में पितृ यज्ञ का। ३६वें अध्याय में दीर्घजीवी आदि होने की विनितियाँ हैं और ३७वें से ३९वें अध्याय तक प्रवर्ग का विधान है। ४०वाँ अध्याय एक उपनिषत् है, जिसमें ईश्वर का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय

१६ और ३० में व्यवसायों के ये नाम दिये हुए हैं:—(१) चोर, (२) सवार, (३) पदाती, (४) नर्तक, (५) काननि, (६) रथवाहक, (७) रथबनानेवाले, (८) बढई, (९) कुम्हार, (१०) सुनार, (११) कृषक, (१२) बाल बनानेवाला, (१३) धनुष बनाने वाले, (१४) बौने, (१५) कुबड़े, (१६) अंधे, (१७) गूँगे, (१८) वैद्य, (१९) ज्योतिर्विद, (२०) हाथीवान, (२१) लकड़ी काटनेवाले, (२२) घोड़ा और जानवर रखने वाले, (२३) नौकर, (२४) बाबर्ची, (२५) फाटक बरदार, (२६) चित्रकार, (२७) नक्काश, (२८) धोबी, (२९) रंगरेज, (३०) नाऊ, (३१) विद्वान, (३२) विविध प्रकार की स्त्रियाँ, (३३) चमड़ा कमाने वाले, (३४) मछुआ, (३५) शिकारी, (३६) चिड़ीमार, (३७) जेवर बनाने वाले, (३८) ताजिर, (३९) चक्रवाले, (४०) कवि, (४१) अंगूठी बनाने वाले, (४२) वाद्य शास्त्री, (४३) कार्मा, (४४) और भाषण करनेवाले । इससे तत्कालीन समाज विकसित समझ पड़ता है ।

यजुर्वेद की कुछ ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गयीं हैं और कुछ अथर्ववेद से मिलती हैं । ऋग्वेद वाली ऋचाओं के ऋषियों के नाम तो ज्ञात हैं, किन्तु शेष यजुर्वेद के ऋषि ज्ञात नहीं । केवल अन्तिम ५ अध्याय दधीचि कृत हैं । शेष ३५ अध्यायों के रचयिता प्रजापति, परमेष्ठी, नारायण, पुरुष, स्वयम्भू ब्रह्म, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, आश्विनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, मधुच्छन्दा, मेधातिथि, सूर्य, याज्ञवल्क्य आदि कहे गए हैं । अधिकांश ऋचाएँ देवताओं की कही गयी हैं, जिससे प्रकट है कि यजुर्वेद की महिमा शेष वेदों से बढ़ी चढ़ी समझाये जाने का प्रयोजन था और इसलिए केवल मानव ऋषि यथेष्ट नहीं समझे गये । इस वेद में एक दो स्थानों पर मंत्रों का प्रभाव ऋग्वेद की अपेक्षा कुछ बढ़ा हुआ दिखलाया गया है । यजमान को कुल पापों से रहित करने की विनती मात्र नहीं है, वरन् यह कथित है कि उन से बह रहित हो गया । इसी प्रकार यह कहा गया है कि प्रेत, सब दुष्ट जीव, सब राक्षस, सब कष्टप्रद जीवधारी, मंत्रों से जला दिये गये । एक स्थान पर मुर्गे से उपमा दी गयी है । उत्तर पश्चिम के पहाड़ निवासी मूजवन लोग दुष्ट कहे गये हैं । इस वेद में

ऋक् और सामवेदों के नाम आये तथा आयु और पुरुरवा के वर्णन हुये हैं। इस में ऋग्वेद की अपेक्षा विष्णु का वर्णन बहुत आया है। रुद्र की यहां महिमा बहुत कुछ बढ़ी है और वे शिव, शङ्कर, महादेव आदि नामों से पुकारे जाकर ईश्वर हो गये हैं। सन्द और मर्क शुक्राचार्य के लड़के थे। यह मर्क राक्षसों के पुरोहित कहे गये हैं। एक स्थान पर तो यह भी कहा है कि सन्द हराये और मर्क भगाये गये। राजा शर्याति का नाम आया है। यह कहा गया है कि आज मुझे ऐसा ब्राह्मण मिले जो पुनीत बाप दादों से उत्पन्न हुआ हो। अच्छा पुरोहित वह है जो स्वयं ऋषि हो और ऋषियों की सन्तान भी। इन बातों से बपौती की विचार-वृद्धि का पता चलता है। सिन्धु नदी का वर्णन इस वेद में हुआ है और क्षत्रियों को बल मिलने की प्रार्थना की गयी है। भारतीय क्षत्रियों का भी कथन और जहाज चलने के वर्णन हैं। पुरु एक राक्षस था जिसे भरत ने हराया। उनके लिए १०० वर्षों का जीवन माँगा गया। विश्वकर्मा का कथन प्रायः आया और सिंह का भी वर्णन है। कहते हैं कि पुरोहितों की जाति पैदा हुई तथा शूद्र और आर्य एवं तार्य और अरिष्टनेमि उत्पन्न हुए। इस वेद में प्रासंगिक छोड़ अप्रासंगिक बातें कम आई हैं। कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र इन चारों को ज्योति प्रदान हो। बिना हाथों का कुनार नामक एक दैत्य दानवों के साथ रहता था। भेड़िया और चीते के कथन कई जगह पर आये हैं। एक अध्याय में महादेव की बहुत दूर तक प्रशंसा है। सुभद्रा कम्पिला के एक राजा की स्त्री थी। अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका के नाम हैं, किन्तु महाभारत वाले नहीं। अग्नि को तनूनपात् असुर कहा गया है। मागध नाम है जिससे प्रकट है कि मगध देश उस काल तक बस चुका था। लिखा है कि ईश्वर का जाननेवाला ब्राह्मण अपने देवता को स्ववश में रखेगा। ईश्वर का वर्णन बहुत साफ है। व्यन्स को इन्द्र ने मारा। कहते हैं कि आर्य और दास दोनों ईश्वर ही के हैं। पवीरु एक अच्छा राजा था। सातों नदियों तथा दधिक्रवन और सप्त ऋषियों के कथन हैं। शतानीक और सुरभि के नाम आए हैं।

अथर्ववेद

अथर्व ऋग्वेद के साथ ही अथवा कुछ पूर्व प्रारम्भ हुआ और पीछे तक बनता रहा। इसको अथर्वार्जिरस और भृग्वार्जिरस भी कहते हैं। अथर्वण पहले ऋषि थे जिन्होंने लकड़ियों को रगड़ कर आग पैदा की। अर्जिरस और भृगु भी प्राचीन ऋषि थे। इन तीनों ऋषियों और इनके वंशधरों का वर्णन ऋग्वेद में कई बार आया है। कहा जाता है कि इन्हीं तीनों ऋषियों के वंशधरों को यह वेद भाषित हुआ। ऋग्वेद अन्य वेदों की सहायता लेकर नहीं चलता, वरन् स्वावलम्बी और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा लाभकारी है। यही दोनों गुण अथर्ववेद में भी पाये जाते हैं। ऋक् और अथर्ववेदों में प्रधान अन्तर यह है कि पहले में ब्राह्मणत्व की महिमा स्थापित नहीं हुई थी, किन्तु दूसरे के समय में ऐसा भली भाँति हो चुका था। ऋग्वेद में प्राकृतिक वर्णनों की प्रधानता है। उस काल हमारे ऋषिगण प्रकृति देवी ही पर मुग्ध थे। अथर्ववेद में वे टोना टनमनों आदि पर भी बहुतायत से विश्वास करते थे और भूत प्रेतों आदि का भी भय मानते थे। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का भी पहला प्रादुर्भाव अथर्व ही में हुआ। ऐसे अन्तरों को छोड़ देने से ये दोनों वेद प्रायः सम हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि अथर्ववेद के बहुत से अंश हैं तो ऋग्वेद के समकालिक, किन्तु ऋक् की अपेक्षा वे कुछ नीचे दर्जेवालों में प्रचलित थे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि अर्जिरसवंशी मायावी थे। इस वंश से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण भी अथर्ववेद में यन्त्र मन्त्रों का बाहुल्य हुआ होगा, ऐसा सम्भव है। मोटे प्रकार से ऋग्वेद में आदिम हिन्दूमत का चित्र खिंचा हुआ है, किन्तु अथर्व में समय के साथ धर्म का कुछ विकसित रूप देख पड़ता है। अतः प्राचीन हिन्दू मत में नवीन सिद्धान्तों का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ, सो इन दोनों अमूल्य वेदों को मिलाकर पढ़ने से प्रकट हो सकता है। कुछ पाश्चात्य पण्डितों का मत है कि आधुनिक विकासों का मूल दिखलाने एवं अन्य कारणों से विद्वानों के लिए अथर्व ऋग्वेद से भी अधिक रोचक है। यह बात हर प्रकार से निर्विवाद है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण विद्वानों के लिए सर्वप्रधान हैं।

अथर्ववेद में २० काण्ड, प्रायः ७६० सूक्त और ६०१५ छन्द हैं। इनमें से १२०० ऋचायें ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद के ऋषियों के नाम पृथक् पृथक् नहीं दिये गये हैं। इसके प्रत्येक मण्डल में कई अनुवाक हैं और प्रत्येक अनुवाक में कई सूक्त तथा प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद आदिम हिन्दूसमाज का वर्णन करता है किन्तु अथर्ववेद में वर्द्धमान समाज देख पड़ता है। स्त्रियों का वर्णन इसमें कम है तथा भाड़ने फूँकने के मन्त्र बहुत से हैं। उस काल हम लोगों में घूतक्रीड़ा का बहुत प्रचार था। अथर्व में जुए में जीतने के लिए सूक्त कहे गए हैं। जगत के रचयिता के विषय में विश्वकर्मा का नाम आया है। काण्ड ३ सूक्त २२ में गाय और बैल के मांस खाने का कथन हुआ है। लड़का पैदा होना अच्छा माना जाता था और लड़की की उत्पत्ति कम माँगी जाती थी। कुटुम्ब में सुमति रहने और सब के कुशलपूर्वक निर्वाह होने के विषय में सूक्त हैं। भेड़िया, बाघ आदि दुष्ट जीवों के हटाने के विषय में ऋचाएँ हैं। ब्राह्मण जब पैदा हुआ तब उसके दस हाथ और दस पैर थे। इस कथन से प्रकट है कि उस काल से ही पोपलीला का आरम्भ हो चला था। ऐसे वर्णन ऋग्वेद में नहीं आए हैं। स्वर्ग का वर्णन सब वेदों में है, किन्तु इस वेद में उसकी बहुत प्रचुरता है, यहाँ तक कि एक पूरे सूक्त में विशेषतया स्वर्ग का ही कथन है। लिखा गया है कि तेरहवाँ महीना अर्थात् लौद इन्द्र का पैदा किया हुआ है। वभ्रु एक राजा थे। अरात का वर्णन एक सूक्त में आया है। सूमों की निन्दा और उदार लोगों की प्रशंसा है। ब्रह्मचारी और सप्रर्षि के वर्णन हैं। लिखा है कि शूद्र अपनी गुरुता से आर्य्य का अपमान न करे। यदि १० अब्राह्मण किसी स्त्री को चाहते हों और एक ब्राह्मण उसे चाहे तो वह उसी की होगी। जो कोई ब्राह्मण का निरादर करता अथवा उसे लूटता या दुःख पहुँचाता है उसकी दुर्गति होती है।

मूजवन, महावृष और बाल्हीक जातियाँ उत्तर-पश्चिम में रहती थीं। कहा गया है कि हे ज्वर, तू मूजवन, बाल्हीक, महावृष, आंगों (वर्तमान भागलपुर) और मागधों की ओर जा। इससे प्रकट है कि उस काल अङ्ग और मगध में भी अनार्य्यों का निवास था। यह

भी लिखा है कि हे उवर तुम लम्पट शूद्र बालिका के पास जाओ । चीता और सर्प के वर्णन हैं । गाय और बछड़े को आशीर्वाद दिया गया है । गाय और ब्राह्मण को बड़ी प्रशंसा है । प्रजापति, स्कंभ, पुरुष और विश्वकर्मा के नामों से ईश्वर का वर्णन है । चीते को शक्ति का प्रतिरूप समझते थे । मरणप्राय मनुष्यों के बचाने के लिए एक सूक्त है । विराज के वर्णन में भी ईश्वरांश का कथन है । अंगिरस वंशी जादूगर कहे गए हैं । किमिदिन, अलिन्स और वत्सप राक्षस थे । कहते हैं कि किलिम्प बच्चे को बचावे और गर्भ में उसे लड़की न होने दे । नेवला दवा जानने वाला बताया गया है । स्वराज विराज से पहले माना गया है । विराज भक्ति का पिता कहा गया है । एक स्थान पर विराज का वर्णन खिलिङ्ग में भी है । असुरों को राक्षस कहा है । राक्षसों की माया का वर्णन है । लिखा है कि प्रह्लाद के पुत्र विरोचन थे । असुर माया पर ही भरोसा करते थे । द्विमूर्धा और आर्त्तव राक्षस थे । चित्ररथ और वसुरुचि गन्धर्व थे । वेन के पुत्र पृथु ने पृथ्वी को दुहा । वैश्रवण और कुवेर के नाम आए हैं । धृतराष्ट्र नामक एक नाग सरदार था । जो ब्राह्मण यज्ञ में बैल की बलि देता है, उसकी सब देवता सहायता करते हैं । गाय की पूजा विशेष रूप से होने लगी थी । उसके खुर और पूँछ के बाल भी पूजे जाते थे । गाय यज्ञ से निकली है । क्षत्री की माता गाय है तथा विष्णु, पृथ्वी और ब्रह्मा गाय हैं । जो ब्राह्मण गाय देता है उसको बड़ा पुण्य होता है । कृत्या से जादूगरों के मारने की प्रार्थना की गई है । सप्तर्षि दुनिया के मालिक कहे गये हैं और उनसे आग निकालने की प्रार्थना है । ऋषिसन्तानों की बड़ी प्रशंसा है ।

अर्धक को रुद्र ने मारा । शायद यह नाम अन्धक का हो । ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है कि काला मृगचर्म ओढ़े । तैत्तिरीय उपनिषत् में लिखा है कि भरद्वाज ने तीन जन्म तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया । तीसरे जन्म के अन्त में उनसे इन्द्र ने पूछा कि तुम्हें यदि चौथा जन्म मिले तो क्या करो ? उत्तर मिला कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूँ । कहते हैं कि मातलि अमृत को जानते हैं । जो क्षत्री जान-बूझकर गाय छीन लेता है उसे बड़ा पातक लगता

है। लिखा है कि हे गाय ! तू ब्राह्मणों को दुख देनेवालों का सिर फोड़ दे। अग्नि को क्रव्याद कहा है। सविता ने अपनी पुत्री सूर्या को उसके पति को दान में दिया। स्त्री से कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ और सबसे अच्छी तरह बातचीत करो, अपने लड़कों से प्रसन्न रहो और सब के ऊपर आज्ञा चलाओ, अपने पति से अलग न हो और हँस खेल कर रहो, पति के साथ पूरा प्रेम करो, अपने पति के बाप, भाई और माता को वश में रखो। सब वस्तुओं की मालकिन बनो। हे स्त्री तुम्हें मैंने अपने घर का मालिक बनाया है, सबके ऊपर दया करो और सबसे मृदुता का व्यवहार रखे। पति के बाप से स्नेह रखो और सास ससुर से मृदुता का बर्ताव करो, गाय बैलों से खुश रहो, घर की सब चीजों को ढङ्ग से रखो, घर के सब जीवधारियों को प्रसन्न रखो, प्रातःकाल पति के साथ एक ही पलंग पर हँसी खुशी से जागो; वीर पुत्र उत्पन्न करो। इन आज्ञाओं से प्रकट है कि उस काल स्त्रियों का पद बहुत ऊँचा था। उनके अधिकार और भार भी बहुत गम्भीर थे।

ब्राह्मण लोग अनार्य्य थे। वे ब्राह्मण स्तोम के द्वारा हिन्दू बनाए गए। १०० पतवारों के जहाजों का वर्णन है। एक स्थान पर ह्वाय वर्ष जीने की इच्छा प्रकट की गई है (काण्ड १७ सूक्त १)। यम यमी की बातचीत इस वेद में भी है। प्रार्थना की गयी है कि हे दर्भ ! तू मुझको ब्राह्मण, आजन्म शूद्र, और आर्य्य सब का प्यारा बना। मत्स्यदेशियों का कथन आया है। मत्स्य देश पूर्वीय राजपूताना को कहते हैं। इक्ष्वाकु और व्यास नामक दो राजा थे। समय को सात लगाम वाला घोड़ा कहा है। कदाचित् इसी से सूर्य के रथ में ७ घोड़े माने गये। सफेद किरण ७ रङ्गों से बनती हैं। इसी से ७ लगामों और ७ घोड़ों के विचार उठे हुए जान पड़ते हैं। समझ पड़ता है कि उस काल के आर्य्य तत्वसम्बन्धी यह ज्ञान रखते थे। कहा गया है कि हम १०० वर्ष जीएँ, वरन् इससे कुछ अधिक हमारा जीवन हो (काण्ड १९ सूक्त ६७)। करञ्ज और परञ्ज के नाम आये हैं। इन्द्र ने २० राजाओं को हराया। रोहिण राक्षस मारा गया। इन्द्र ने सुश्रव और तूष्र्वयान को बचाया, तथा दधीच की हड्डी से

हथियार बना कर सरयानीवान भील के निकट ९९ एवं ७ दनुओं को मारा। उशाना इन्द्र के मित्र थे। रुम, रुशम और श्यावक के नाम आये हैं। रुशमों के राजा कौरम और ऋणञ्जय थे। इन दोनों की प्रशंसा हुई है जिससे जान पड़ता है कि ये दोनों आर्य थे। राजा परीक्षित का नाम आया है और लिखा है कि कौरव्य लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। रज नामक एक राज्ञस था। उच्चैश्रवा इन्द्र का घोड़ा था। प्रतोप प्रातसुष्यन का नाम आया है। लिखा है कि दधि-क्रवन घोड़ा विजयकर्ता है। कृष्ण दस हजार साथियों के साथ अंशु-मती के किनारे रहता था। वहीं बृहस्पति, इन्द्र और मरुत् ने उसे मारा। कृष्ण, नमुचि और शम्बर भारी राज्ञस थे। इनका सामना कोई नहीं कर सकता था। तब इन्द्र ने इन्हें मारा। राजा पृथु के साथ उनके पिता वेन का नाम प्रायः आता है यहाँ तक कि वे वैश्य पृथु लिखे जाते हैं। आदि पुरुष का वर्णन आया है। सूर्य, इन्द्र, अग्नि आदि में भी ईश्वर का भाव कहा गया है। कुत्स अर्जुन के पौत्र थे। दैन्य, दानव आदि शब्द कई बार आये हैं तथा अगस्त्य का नाम भी कई बार है। वीतह्व्य लोगों का कथन है। सोभरि ऋषि का नाम आया है। इनका वर्णन विष्णु पुराण में बहुत है। अथर्ववेद में रोग शान्ति, मृत्यु से बचना, सर्पविष निवारण आदि के विषय में बहुत से मन्त्र हैं। यह वेद कहता है कि मगध और अंग आर्य सभ्यता के किनारों पर थे (Rapson)। अंग वर्तमान मुँगेर और भागलपुर जिलों पर था।

आठवाँ अध्याय

चारों वेद (प्रायः २००० से ७०० बी० सी० तक) ।

छठवें अध्याय में हम वेदों का कुछ विस्तृत वर्णन कर आये हैं और सातवें में उनका सूक्ष्म ऐतिहासिक ज्ञान कहा जा चुका है। अब चारों वेदों को मिलाकर जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं उनका कथन होगा। योग्य समझ पड़ता है कि अपने विचार लिखने के पूर्व कुछ योरोपीय पंडितों के भी सिद्धान्तों का थोड़ा-सा विवरण कर दिया जावे। रैप्सन कृत कैम्ब्रिज इतिहास (सन् १९२२ वाले संस्करण) के प्रथम अध्याय में यह विषय कथित है। उसके अनुसार ब्राह्मी भाषा द्वारा द्राविड़ बलूचिस्तान से सम्बद्ध हैं। ब्राह्मण पुस्तकों के मनन करने वालों का विचार है कि यजुर्वेद में जाति बहुत कर के वर्तमान थी। यह कथन कुरु पांचाल से सम्बद्ध है। बौद्ध पुस्तकों के पंडित कहते हैं कि बुद्ध के समय तक पीछे वाले दृढ़ जाति भेद का पता नहीं है। यह कथन कोशल और विदेह से सम्बद्ध है। ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का मुख्य अन्तर सामाजिक और धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में है। उत्तरी भारत में पाषाण और लौह युगों के बीच में ताम्र युग था, किन्तु दक्षिणी भारत में ऐसा न था।

पन्द्रहवीं शताब्दी बी० सी० में आर्य जातियों वाले लोगों का प्रभाव उत्तरी लघु एशिया से उत्तर पश्चिमी बैबिलोनिया तथा मीडिया तक भारी देश में था। डाक्टर पी० कीथ के अनुसार ऋग्वेद दूसरे से सातवें मण्डलों तक से प्रारम्भ हुआ, अनन्तर प्रथम मण्डल का द्वितीय भाग बना, फिर उसका प्रथम भाग और आठवाँ मण्डल बना। तब प्रथम आठों मण्डलों से सोम पवमान सम्बन्धी ऋचायें निकाल कर नवाँ मण्डल बनाया गया और तब दसवें मण्डल का गान हुआ। बालखिल्य मुख्य संहिता का अंश नहीं है। दान-स्तुति भी पीछे जुड़ी। आर्यों ने समय पर अफ़ग़ानिस्तान पर अधिकार जमाया। वे कुभा

(काबुल नदी), सुवस्तु (स्वात), क्रन्मु (कुरेण), गोमती (गुमल) और परुष्णी (रावी) के किनारे बसे । ऋग्वेद में विन्ध्य, नर्मदा, चीता और चावल के कथन नहीं हैं यद्यपि सिंह तथा मृगहस्तिन (हाथी) के हैं । पीछे के समय साम का प्रचार कम हो गया । सुदास तृत्सु भारत थे । उनके युद्ध में कम ज्ञात पाँच वंश थे: अलिन (उत्तर पूर्वी काफिरिस्तान), पक्थ (अफगान क़राथून से मिलता है), भलान (शायद बोलन घाटी से सम्बद्ध हो), शिव और विशाति (इन सब के कथन महाभारतीय युद्ध में हैं) । इनसे इतर पाँच वंशों में निम्न हैं :—अनु (परुष्णी पर), द्रुह्यु, तुर्वशा, यदु और पुरु । युद्ध में जीत कर पूरब की ओर पलट कर सुदास भेद का सामना करता है । भेद के साथ अज, शिगु और पक्थ लोग भी थे । ये सब यमुना के निकट विकराल क्षत्रिय के साथ पराजित हुये । दिवोदास अतिथिग्व के भी युद्ध तौर्वशा, यादव और पौरव लोगों से हुये थे । वे शम्बर से भी लड़ते रहे थे अथच पणि, पारावत और वुसयों से भी । भरद्वाज इनके पुरोहित थे । कुरु और कृत्रि मिले हुये लोग थे तथा भारत और सृजय मिले थे ।

ऋग्वेद में लिङ्ग पूजा की दो बार निन्दा है । दास अनास कहे गये हैं । शूद्र शब्द का पहला कथन पुरुष सूक्त में है । दासों के पास ढोरों के समूह और पुर (किले) थे । बलबूथ की उदारता की प्रशंसा है । सुदास के युद्ध में आर्य्यों को कुछ दासां ने भी सहायता दी अथच दासों को कुछ आर्य्यों ने । पनि का नाम है । ईरान (फ़ारस) से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं है । कुटुम्ब पैत्रिक था मात्रिक नहीं । स्त्री चरित्र ऊँचा था । उसके बहु विवाह अज्ञात थे । भाई, बहन तथा पिता पुत्री के विवाह अनुचित थे । पिता के पीछे पुत्री भाई की संरक्षकता में जाती थी । तलाक़ न थी । कभी कभी विधवा भावज से देवर विवाह करता था । पिता सदैव कृपालु लिखा है । उसके अधिकार अनिश्चित किन्तु भारी थे । ऋचिराश्व को पिता ने नेत्रहीन कर दिया । पिता सम्पत्ति का स्वामी था । ढार डंगर, घोड़े, सोना, अलंकार, अस्त्र, दास आदि उसी की सम्पत्ति थे । कभी कभी तीन पुत्रों तक एक में रहती थीं । जुदा हुये भाई भी निकट रहते थे । इसीसे ग्राम

की उत्पत्ति है। इससे बढ़कर विश है तथा उससे भी बढ़कर जन। ग्रामणि ग्राम का अकसर था। सब समूह आर्य्य थे और एक दूसरे से सौहार्द्र रखते थे। वेद में पुरुष सूक्त से इतर जाति भेद नहीं है। यद्यपि ऋग्वेद में जाति-भेद बनता हुआ ही देख पड़ता है, तथापि उसका पूर्व रूप प्रस्तुत है।

समूहों का अधिपति राजा था। राजपद साधारणतया वंश परम्परागत था, किन्तु कभी कभी निर्वाचन भी होता था। प्रजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। ग्रामणि, ब्रजपति और पुरोहित एक दूसरे से बड़े थे। समय पर पुरोहित से ही ब्राह्मण राजनीतिज्ञ का पद निकला। इस काल तक भूमिदान अज्ञात था, यद्यपि उसका होना सम्भव है। राजा के यहाँ समिति और सभा थीं। समिति शायद असेम्बली को कहते हों। सभा उसके एवं सामाजिक समूहों के जुड़ने के स्थान को कहते थे। समिति में राजा भी जाता था। चोरी, सेंध का लगना और मार्ग की लूटों के कथन हैं। ऋग्वेद में चोर को प्राण-दण्ड नहीं लिखा है। चोर से चोरी की हुई वस्तु मँगा ली जाती थी। कुछ व्यभिचार के होते हुए भी आचार ऊँचा था। वृद्धों या कन्याओं का वध नहीं होता था।

व्यापार में अदला-बदली थी और गाय का व्यवहार सिक्के की भाँति भी होता था। कोई और सिक्का न था। निश्क शायद अलंकार हों। पीछे सोने का सिक्का चला। दायज तथा शुल्क के कथन हैं। ठहराव केवल धन ऋण के रूप में था। जुवे का प्रचार था। मध्यमशी सरपंच या राजा था। रथी सारथी के बायें रहता था। पदाती भी थे। धनुष, बरछे, भाले और तलवार के कथन हैं। कवच और शिरस्त्राण भी हैं। घोड़ा अधिक्रवण था। निश्चित बाण कभी कभी चलते थे। आर्य्यों में नागरिक जीवन का अभाव था। ग्राम में कई घर होते थे। पुर मिट्टी का धुस था। गृहाम्नि प्रज्वलित रहती थी। चुड़दौड़ होती थी। भेड़ी, बकरे, गधे, कुत्ते और बिल्ली तब तक पाली न गई थीं। खेती और सिंचाई का प्रचार था। यव बोये जाते थे। धनुष बाण, फन्दों आदि से शिकार खेलते थे। कारीगरी में बढ़ई, लोहार आदि के काम अलग हो रहे थे। लोहार आयस से बतन

बनाता था। नार्वे पतवार से भी चलाई जाती थीं। लंगड़, डाँड़, बादवान और मस्तूल के नाम नहीं हैं।

पोशाक में दो या तीन कपड़े पहनते थे। भेड़ के ऊन और खालों का भी चलन था। घी का बहुत व्यवहार था। गो-मांस खाते थे। गाय अर्धन्य कहलाती थी। सोम का चलन था। नशे की आधिक्य के कारण सुरा कम पीते थे। रथदौड़, नाच, बाजा, नगाड़ा, सारंगी और बाँसुरी के चलन थे।

कीथ का मत—सामवेद ऋक पर बहुत कुछ आश्रित एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सारहीन है। यजुर्वेद का गद्य प्राचीनतम वैदिक गद्य है। शायद पंचविंश ब्राह्मण का गद्य इससे भी प्राचीन हो। यह सामवेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण पीछे के हैं। गोपथ ब्राह्मण कौशिक और वैतान सूत्रों से पीछे का है। अब आगे से इतर विचारानुसार कथन होते हैं।

वेद हम लोगों के सबसे पवित्र ग्रन्थ हैं। इनकी प्राचीनता और अर्थार्थभाषिता के कारण इनमें कथित ऐतिहासिक घटनाएँ प्रामाणिक मानी गई हैं। इसीलिए भारत के साधारण इतिहास में भी इनका इतना भारी वर्णन करना उचित समझा गया। इनके धार्मिक ग्रन्थ होने पर भी ऐतिहासिक मूल्य बहुत है। वेदों में बहुत से देवताओं का वर्णन होते हुए भी इनमें ईश्वर का विचार मुख्य रक्खा गया है। सूर्य, मेघों का राजा इन्द्र और अग्नि की प्रधानता होते हुए भी यह प्रकट है कि आर्यों ने इनकी पूजा नहीं की, वरन् इन सबके अन्तर्गत जो एक शक्ति है उसीको प्रधान माना। बहुतों का विचार है कि वेदों ने अग्नि, सूर्य, इन्द्रादि को एक ईश्वर के अधीन उपदेवता माना है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है और वेद भगवान् उन सबको एक ईश्वर की शक्तिमात्र मानते हैं। पुरुषसूक्त में इस विचार का पुष्टीकरण मिलता है और यत्र तत्र भी इसको पुष्ट करनेवाली ऋचाएँ बहुतायत से प्रस्तुत हैं। वैदिक ऋषि लोग बहुतायत से उस देश में रहते थे जो सप्त सिन्धु कहलाता था। उन्होंने सुमुद्र पर जलयान चलाये। वे छोटे छोटे गाँवों में रहते थे जिनमें एक मुखिया भी होता था। उनकी सभ्यता बहुत चढ़ी बढ़ी थी। सड़कों के किनारे इन्होंने विश्रामगृह बनवाये,

जिनमें भोज्य पदार्थ प्रस्तुत रखे जाते थे। सोने का भी सिक्का चलता था जिसे निष्क कहते थे। इनमें सुरापान और जुए की भी कुछ कुछ लत थी। विनष्ट उवारी की स्त्री अन्य पुरुषों का लक्ष्य हो जाती थी। पीछे से सुरा के विषय में लिखा है कि उसे न पीना चाहिए, न लेना चाहिए और न देना चाहिए।

संसार भर का साहित्य जोड़ने से भी आर्य जाति का सबसे पुराना गद्य यजुर्वेद ही में मिलता है। उसके पीछे का गद्य ब्राह्मण ग्रन्थों में पाया जायगा। सबसे पहला पद्य ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद की सब से पुरानी प्रति शाकल शाखा की मिलती है जिसमें कुल मिलाकर १०२८ सूक्त हैं। मैकडानल महाशय का मत है कि ऋग्वेद के दसों मण्डलों में से दूसरे से सातवें तक पहले बने और शेष चारों मण्डल धीरे धीरे बढ़े। कहते हैं कि जब आठ मण्डल पूरे बन चुके थे तब नवाँ मण्डल बना। फिर भी अब तक वैज्ञानिक खोज ने इन मण्डलों का पूर्वापर क्रम दृढ़ नहीं कर पाया है। पाश्चात्य पण्डितों का मत है कि जब पहले नौ मण्डल पूरे हो चुके थे, तब दसवें मण्डल के सूक्त बने। इस मण्डल में प्रथम नौ मण्डलों के उषा आदि देवता छूट गये हैं और इन्द्र, अग्नि आदि बड़े बड़े देवता मात्र रह गये हैं। उधर विश्वेदेवस् का प्रभाव बढ़ा हुआ है, जिनमें संसार के सारे देवताओं का विचार आ जाता है। क्रोध, भक्ति आदि विचारों का देवताओं के स्वरूप में इसी मण्डल में व्यक्तीकरण भी हुआ है। संसार, विवाह, अन्त्येष्टि, यन्त्र, मन्त्र, दार्शनिक विचारों आदि के विषय में सूक्त होने से भी यह मण्डल नया समझा गया है।

दूसरे से सातवें मण्डल पर्यन्त ऋषियों में एक एक घरानों का प्राधान्य अवश्य है, और इनमें से प्रत्येक मण्डल का थोड़े ही थोड़े समय में बनना निश्चित है, किन्तु पूरे दसवें मण्डल का इनके पीछे बनना समझ में नहीं आता। दसवें मण्डल में बहुत से बड़े पुराने पुराने ऋषि हैं जैसे चालुषमनु, वैवस्वत मनु आदि। तीसरे और सातवें मण्डल में राजा सुदास का वर्णन आया है जो पुरु के वंशधरों में ४० वीं पीढ़ी पर थे। चालुषमनु वैवस्वत मनु से भी पहले के हैं। सुदास का तीसरे और सातवें मण्डलों के अनुसार ययाति के

वंशधरों से युद्ध हुआ था। इधर दसवें मण्डल में स्वयं ययाति की रचनाएँ प्रस्तुत हैं। अतः पौराणिक साक्षी पर न विचार करने से भी वेदों ही के आधार पर सिद्ध होता है कि दसवें मण्डल की कम से कम कुछ ऋचाएँ तीसरे और सातवें मण्डलों से भी पुरानी हैं। पहले आठवें नवें और दसवें मण्डलों की वर्तमान स्थिति भगवान् वेद-व्यास के सम्पादकत्व से हुई। अतः इनमें बहुतेरी नयी और पुरानी ऋचाएँ सभी कहीं मिली हुई हैं। अतः केवल थोड़ी ऋचाओं के सहारे इन पूरे चारों मण्डलों का समय निर्धारित करना भूल है। सम्भव है कि भगवान् वेदव्यास ने व्यक्तीकरण, दर्शनशास्त्र, रस्म-रिवाजों आदि से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं को एक ही मण्डल में रखना उचित समझा हो, जैसा कि सम्पादकों के लिए ठीक भी है। इसलिए पाश्चात्य पण्डितों के उपर्युक्त विचार हमें ग्राह्य नहीं समझ पड़ते। इन चार मण्डलों का पूर्वापर क्रम स्थिर करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें सम्पादक का भी हाथ बहुतायत से लगा हुआ है। इनकी ऋचाएँ नयी और पुरानी सब प्रकार की हैं। राजा सुदास के समय में आर्यों का समाज भारत में बहुत बढ़ चुका था। इस काल में आर्यों का केवल अनार्यों से युद्ध नहीं होता था, वरन् आर्यों के आपस में भी घोर संग्राम होने लगे थे।

इन छह मंडलों के ऋषियों में से बहुतों ने संख्या में बहुत से सूक्त बनाए, किन्तु शेष चारों मंडलों के ऋषियों की रचनाएँ थोड़ी ही थोड़ी हैं। उन ऋषियों में कई बहुत पुराने और कुछ नये भी हैं। इन बातों से जान पड़ता है कि जब वे मंडल बने, तब हमारे ऋषि-गण सूक्त-रचना में बहुत सिद्धहस्त नहीं हुए थे। पीछे से दूसरे से सातवें मंडल तक के रचनाकाल में एक एक ऋषि ने बहुत से सूक्त बना डाले, जिससे विशेष रचना-पटुता पायी जाती है। इन कारणों से ऐसा समझ पड़ता है कि २१वीं तथा २०वीं शताब्दी बा० सी० से ही सूत्रपात्र होकर स्फुट सूक्तों का निर्माण होता रहा। समय पर सम्पादक ने इन नए और पुराने सूक्तों को पहले, आठवें, नवें और दसवें मंडलों में विभाजित कर दिया। शेष मण्डल मुख्य मुख्य वेदार्थि घरानों के हैं।

रामचन्द्र काल के इधर उधर सूक्त मात्रा में बहुत बने । दसवें मण्डल का बृहदंश नवीन है ।

अब यह प्रश्न उठता है कि संहिता को उसका वर्तमान रूप कब मिला, अर्थात् चारों वेदों का सम्पादन कब हुआ ? वेदों के व्याकरण और उनके विषय में उच्चारण सम्बन्धी नियमों पर विचार करके पाश्चात्य पण्डितों ने स्थिर किया है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माणोपरान्त संहिता को वर्तमान रूप मिला । यही बात हमारे शास्त्रों के अनुसार भी समझ पड़ती है । वेदों के सम्पादक भगवान् वेदव्यास युधिष्ठिर के पितामह थे । वेदों का पहला सम्पादन अथर्वण ऋषि ने किया । अन्तिम सम्पादन व्यास ने जनमेजय के समय किया । विष्णु पुराण में २८ व्यास लिखे हैं जिनमें स्वयं पराशर और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के भी नाम हैं । सम्पादन चला व्यास का ही । पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ के द्वारा जैसे हमारे ऋषियों ने वेदों का शुद्ध रूप स्थिर रक्खा, उसका वर्णन पिछले एक अध्याय में हो चुका है ।

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि संहिता का शुद्ध अर्थ किस प्रकार लगाया गया है । हमारे यहाँ सुधारकों ने अपने नव-विचारों को नये न कहकर प्राचीन ग्रन्थों के नवीन अर्थों से पुष्ट करने का बहुधा प्रयत्न किया । इसी लिए संहिता का शुद्ध अर्थ लगाना बहुत स्थानों पर कठिन कार्य हो गया है । यास्क एक बहुत बड़े प्राचीन वेदार्थकार हैं । इन्होंने निरुक्त शास्त्र की रचना करके संसार में विशुद्धार्थ-प्रचार का प्रयत्न किया । आपका समय मैकडानल महाशय के अनुसार चौथी शताब्दी बी० सी० है । यास्क ने अपने पूर्व के १७ वैदिक टीकाकारों के नाम लिखे हैं । उस काल भी वैदिक टीकाकारों में इतना गड़बड़ था कि कौत्स ने, जो इन १७ टीकाकारों में से एक थे, लिखा कि वैदिक अर्थ सम्बन्धी विज्ञान वृथा है क्योंकि वैदिक सूक्त एवं ऋचाएँ अर्थहीन, गूढ़ और एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पाश्चात्य विद्वान् भी तैत्तिरीय को परम प्राचीन उपनिषदों में मानते हैं । उसमें प्रत्येक वैदिक ऋचा के पाँच पाँच प्रकार के अर्थों का होना कहा गया है । यास्क ने कहीं कहीं ऋचाओं के एकाधिक अर्थ लिखे हैं । यद्यपि राबण, उब्बट, महीधर आदि अनेक वैदिक टीकाकार हैं, तथापि

पाश्चात्य पंडितों ने यास्क और सायण की ही प्रधानता रक्खी है। सायण चौदहवीं शताब्दी में हुए। यह महाराजा विजयनगर के दीवान थे। इन्होंने ऋग्वेद का बड़ा ही उत्कृष्ट अर्थ किया जिसमें किसी शब्द का अर्थ नहीं छूटा। कहा जाता है कि असंख्य गुणगण रखते हुए सायण में इतना दोष भी है कि उन्होंने प्रत्येक ऋचा के अर्थ लगाने में औरों पर ध्यान नहीं रक्खा। अतः उनकी पूरी टीका पढ़ने में कहीं कहीं प्रतिकूलता देख पड़ती है। पाश्चात्य पंडित राथ महाशय ने टीकाकारों का आँख बन्द करके प्रमाण नहीं माना। आपका विचार है कि वेदों को अपनी ज्योति से चमकना चाहिए, अर्थात् हमें टीकाकारों के पीछे न चल कर स्वयं वैदिक ऋषियों का शुद्ध भाव खोज निकालना उचित है। इसलिए उन्होंने वह टीका विधान चलाया जिसे ऐतिहासिक कहते हैं। तुलनात्मक शब्दार्थ शास्त्र एवं अवस्ता से आपने सहायता ली। अवस्ता पार्सियों का धर्मग्रन्थ है। इनके पूर्व पुरुष आर्यों के प्राचीन स्थान में हमारे पूर्व पुरुषों के साथ रहते थे। इसलिये अवस्ता के शब्द और अर्थ ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलते हैं। सब भारतीय पंडितगण पाश्चात्य टीकाओं का प्रमाण नहीं मानते। फिर भी इनका सायणाचार्य से बहुत थोड़ा मतभेद है। इसलिये हमारे ऐतिहासिक प्रयोजनार्थ वेदार्थ जानने में विशेष गड़बड़ नहीं समझ पड़ता।

वेदों का साहित्य भद्दा अथवा साधारण नहीं है, वरन् हमारे ऋषियों ने सूक्तनिर्माण में बहुत बड़ा चातुर्य दिखलाया है। उनके विचार बहुत स्थानों में सुन्दर और महत्तापूर्ण हैं, ऐसा पाश्चात्य पंडितों ने भी माना है।

वैदिक देवता बहुत करके प्राकृत शक्तियों के व्यक्तीकरण हैं। हमारे यम और मित्र वाले भाव पार्सियों के इम और मिथ्र सम्बन्धी विचारों से मिलते हैं। वेदों में एक ईश्वर का कथन हुआ है। इन्द्रादिक उसी की शक्ति प्रकट करते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। वैदिक देवताओं में इन्द्र, अग्नि, सूर्य और वरुण की प्रधानता है। विष्णु और शिव साधारण वैदिक देवता हैं जिन्होंने पीछे भारी ख्याति पाई। ऋग्वेद में बहुत करके ३३ देवताओं का कथन है, किन्तु महर्षि

विश्वामित्र ने यह संख्या बढ़ा कर ३३३९ कही। पौराणिक समय में यही संख्या बढ़ कर कहीं कहीं तैंतीस करोड़ हो गयी है। प्रतिमाओं का वर्णन वेदों में नहीं पाया जाता और विशेषतया सूत्र काल से चलता है। प्राचीन काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से बढ़ी हुई थी, किन्तु वैदिक समय में कुछ काल सम रह कर वह पीछे से बहुत गिर गयी। देवियों की महिमा वेदों में बहुत कम है। सरस्वती नदियों में सबसे पुनीत मानी गयी है। समय पर ब्राह्मण काल में सरस्वती वाग्देवी हा गयीं। पीछे से पौराणिक समय में वह बुद्धि विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी हुई और ब्रह्मा की स्त्री मानी गयीं। सोम पहले एक प्रकार का रस मात्र था जो एक पहाड़ी पौधे से निकाला जाता था। चन्द्रमा के सुधाकर होने से धीरे-धीरे सोम सम्बन्धी विचार चन्द्रमा से मिल गए, यहां तक कि समय पर सोम चन्द्रमा का ही नाम हो गया। पासियों की अवस्था में लिखित सोम-सम्बन्धी भाव वैदिक विचारों से बहुत अधिक मिलते हैं। पौराणिक समय में सप्तर्षि का कथन बहुत अधिकता से आता है, यहाँ तक कि नक्षत्रों में भी सप्तर्षि हैं। ऋग्वेद में भी सप्तर्षि सम्बन्धी थोड़ा सा कथन है। नागों का वर्णन वेदों में थोड़ा सा हुआ है और सूत्रों में उनकी महिमा कुछ बढ़ा है। पुराणों में इनका वर्णन अधिकता से है। इनके विषय में अपने विचार हम ऊपर लिख आए हैं। ऋग्वेद में सिंह, वृक, व्याघ्र, भल्लुक, हस्ती, अश्व, गौ, भेड़, अजा, श्वान, गर्दभ, महिषी, हंस, शुक, मयूर, काक, सर्प आदि के उल्लेख हैं।

आजकल पौराणिक आधार पर हिन्दुओं में यह विश्वास है कि युद्ध में मर कर वीरगण स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यह विचार वेदों में भी पाया जाता है। गङ्गा यमुना के नाम ऋग्वेद में कुछ बार आये हैं। इनमें यह भी लिखा है कि यमुना के किनारे वैदिक आर्य रहते थे। ऋग्वेद में मछलियों का वर्णन एक ही बार, किन्तु यजुर्वेद में अधिकता से है। कहते हैं कि पंजाब की नदियों में मछलियाँ कम हैं, इसी से ऐसा है। पाश्चात्य पंडितों का मत है कि ऋग्वेदकार समुद्र नहीं जानते थे किन्तु यजुर्वेद के रचयिता उससे अभिज्ञ थे। हाकिन्स महाशय का मत है कि वरुण, उषा आदि से सम्बन्ध रखनेवाले

प्राचीन सूक्त मात्र उस काल बने थे जब ऋषि लोग सिन्धु और सतलज नदियों के बीच बसते थे । इनके अनुसार शेष सूक्त उस काल के हैं जब आर्य लोग वर्तमान अम्बाला के दक्षिण सरस्वती के किनारे बस चुके थे । ऋग्वेद में अश्वत्थ वृक्ष की महिमा है, जिसे अब पीपल कहते हैं । बरगद का वर्णन अथर्ववेद में केवल दो बार आया है और ऋग्वेद में कहीं भी नहीं । ऋग्वेद में सिंह का वर्णन कई बार है, विशेषतया उसकी गरज का । ऋग्वेद में चीते का बिलकुल वर्णन नहीं किन्तु अन्य वेदों में कई बार है । चीता विशेषतया पूर्वी जानवर है और सिंह पश्चिमी, इसलिए सोचा जाता है कि आर्य लोग ऋग्वेद के काल से अथर्ववेद के समय पर्यन्त धीरे-धीरे पूर्व को और बढ़ते आए । हाथी का वर्णन ऋग्वेद में दो बार आया है । इनमें से एक वर्णन से यह भी जान पड़ता है कि आर्य लोग हाथी पकड़ते थे । जंगली हाथी हिमालय की तराई में पाये जाते हैं । इनकी बहुतायत बंगाल में है, किन्तु गोंडा और हरदोई के उत्तरी भागों तक इनका निवास है । कुछ हाथी जिला पीलीभीत तक के जंगलों में हैं । गऊ आर्यों की मुख्य सम्पत्ति थी । उसकी कुछ महिमा अवस्ता में भी पायी जाती है । ऊपर के अध्याय में हम दिखला आये हैं कि ऋग्वेद के समय से अथर्ववेद पर्यन्त आर्यों में गऊ की महिमा धीरे-धीरे किस प्रकार बढ़ती गयी । ऋग्वेद में वह कृपापात्र थी, किन्तु विवाहादि के समयों में उसका वध भी हो सकता था और बैलों का बहुतायत से होता था । यजुर्वेद के समय गोहंसक को प्राण-दण्ड देने का विधान हो गया, किन्तु फिर भी कुछ यज्ञों में वह बलि दी जाती थी । अथर्ववेद में उसकी पूजा होने लगी । कबिबर भवभूति के ग्रन्थ में भी गोभक्षण लिखा है । अब किसी हिन्दू के लिए गोभक्तक कहे जाने से बढ़ कर कोई गाली नहीं है । आर्यों का अनार्यों से मुख्य भेद वर्ण का था और जाति भेद का पहला रूप वर्णभेद ही हुआ । आर्यों की कई शाखाएँ वेदों में लिखी हैं । राजा ययाति के पाँचों पुत्र यदु, तुर्वश, अनु, दुह्यु और पुरु के नामों पर आर्यों की पाँच शाखाएँ वेदों में बीसों बार लिखी हैं । इनके अतिरिक्त गांधार, मूजवन्त, मत्स्य, तृत्सु, भरत, भृगु, उशीनर, चेदि, क्रिवि उप-

नाम पांचाल, कुरु, सृजय, कट, पारावत आदि शाखाएँ भी प्रधान हैं। तृत्सु रावी नदी के पूर्व रहते थे। भरत स्वायम्भुव मनु के वंशधर थे और पुरुवंश में भी दुष्यन्त पुत्र विख्यात भरत हो गए हैं। इन्हीं के वंशधर भारत कहे गये। द्वितीय भरत के वंशधर कौरव भी थे। उशीनर, सृजय, मत्स्य और चेदि नाम पुराणों के समय में भी जैसे के तैसे बने रहे। यही चेदिवंश समय पर कलचुरि भी कहलाया। इसके कुछ और नाम भी हुए जिनका वर्णन वर्तमान इतिहास में होगा। पौराणिक समय में चेदिवंशियों का राज्य मध्य भारत में था। मत्स्य लोग पूर्वी राजपूताना में राज्य करते थे और इसी देश को मत्स्य देश कहा भी गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के समय उशीनर लोग उत्तरीय भारत में रहते थे। सृजय तृत्सु लोगों के मित्र थे। इससे जान पड़ता है कि वे भी रावी नदी के इधर उधर रहते थे, परन्तु यह बात निश्चित नहीं है। कट लोग सिकन्दर के समय में पञ्जाब में रहते थे और पीछे से कश्मीर भी गए। अब वे कश्मीर ही में हैं। पारावत लोग पञ्जाब में रहते थे। गान्धार और मूजवन्त उत्तर पश्चिम के निवासी थे। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पाञ्चालों का पुराना नाम क्रिवि था। मैकडानल महाशय ने अथर्ववेद के आधार पर लिखा है कि आज्ञ और मागध लोग आर्य थे। पुराणों के अनुसार पाञ्चाल राजा पुरुवंशी थे। पुराणों के अनुसार कौरव, कौशिक, पौरव आदि सब पुरुवंशी थे। वेदों में पौरवों और यादवों का ययातिवंशी होना बहुत बार लिखा है किन्तु कौरवों और कौशिकों की यादवों आदि से एकता नहीं प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार ययाति के पाँचों वंशधरों में पौरवों की प्रधानता थी। यही बात ऋग्वेद से भी सिद्ध होती है, क्योंकि अन्वियों का विजेता सुदास स्वयं पौरव था। यादवों का वंश बहुत बड़ा था। इसकी दो प्रधान शाखाएँ थीं जिनमें से एक में हैहय वंश है और दूसरे में भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। ऋग्वेद में मनुवंशी प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु का नाम लिखा है किन्तु वेदों में इनका वंश नहीं कहा गया है।

वैदिक समय में घर बहुधा लकड़ी के बनते थे। राजा का पद प्रायः पैतृक होता था किन्तु कभी कभी प्रजाओं द्वारा राजा निर्वाचित हुआ

है। वेदों से यह नहीं प्रकट होता कि प्रजा किन घरानों से राजा का निर्वाचन करती थी। राजा को कर अवश्य नहीं देना पड़ता था, वरन् प्रजा स्वेच्छा से सामर्थ्यानुसार कर देती थी। राजा की इच्छा पर सब कुछ न था, क्योंकि समितियों द्वारा निश्चित किये हुए प्रजाओं के मन्तव्य उस पर बाध्य थे। प्रत्येक जनसमुदाय में वेदज्ञ लोग भी होते थे। जो वेदज्ञ किसी राजा के लिए यज्ञादि करने पर नियुक्त होते वही पुरोहित थे। इन लोगों को दान में प्रचुर धन मिलता था। पहले प्रत्येक मनुष्य युद्धकर्त्ता था और शान्ति के साधारण काम भी चलाता था। समय के साथ धार्मिक क्रियाओं, जनसंख्या, युद्धविद्या, व्यापार आदि सभी की वृद्धि होती गई। इसी हेतु प्रत्येक कार्य के लिए पृथक् पृथक् समुदाय नियत हो गये। यही जातिभेद की पहली जड़ थी। आर्य अपने को आर्य तथा काले आदिम निवासियों को दस्यु कहते थे। ऋग्वेद में जातिभेद का कथन केवल पुरुष-सूक्त में है, किन्तु वहाँ यह नहीं कहा गया है कि यह भेद जन्मज था या कर्मज। यजुर्वेद में ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस काल इसके जन्मज होने की ओर झुकाव था। वहाँ ऐसे ऋषि की श्रेष्ठता कही गई है जिसके पूर्व पुरुष भी ऋषि हों। यजुर्वेद में जन्मज जातिभेद बढ़ते बढ़ते दृढ़ हो चुका था। अथर्ववेद में ब्राह्मणों की महिमा बहुत बढ़ गई। ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य नामक आर्यों की तीन जातियाँ हुईं और अनार्य लोग तथा कुछ आर्य्य शूद्र कहलाए जिनका काम सेवा करना था।

प्रत्येक कुटुम्ब का नेता पिता था। उसी की आज्ञा लेकर भावी जामाता उसकी पुत्री से विवाह करता था। पुत्री का विवाह पिता के घर पर होता था। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी कन्याओं का भी कथन है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और जो पिता के घर में बूढ़ी हो गईं। स्त्रियों की महिमा ऋग्वेद के समय में बहुत थी। अथर्ववेद के वर्णन में हम ऊपर दिखला चुके हैं कि स्त्रियों का कैसा मान था। जार-कर्म बहुत कम था। ऐसा करने वाले घोर दंड के भागी होते थे और जारज के सन्तान छिपाए जाते थे। चोरी प्रायः गउओं की होती थी। खेती सींचने के लिए नहरों का भी वर्णन है। यजुर्वेद के

समय में हाथीवानों का कथन आया है। इससे जान पड़ता है कि हाथियों का उस काल में अच्छा चलन हो चुका था। रथा की दौड़ होती थी। नृत्य और गान की स्त्री और पुरुष दोनों में प्रधानता थी। परदा इत्यादि की चाल स्त्रियों में उन दिनों न थी और पति के चुनने में उन्हें बहुत कुछ स्वच्छन्दता रहती थी।

वैदिक आर्यों का विवरण देखने से सब से बड़ा गुण जो उनमें दृष्टिगत होता है वह स्वच्छन्दता है। प्रत्येक ऋषि अपना ही निश्चय लिखता है और उसी निश्चय के अनुसार कार्य करता है। उसके लेखों से यह कहीं नहीं भासित होता है कि वह प्राचीन प्रथा, कुलाचार, देशाचार आदि के कारण स्वनिश्चय पर गमन न कर रहा हो। प्रत्येक ऋषि अपने ही विचारानुसार कार्य करने में स्वच्छन्द सा देख पड़ता है। ऋषिगण जङ्गलों में बैठ कर शिष्यों को विद्यादान मात्र नहीं करते थे, वरन् युद्धकर्त्ताओं के साथ रणस्थल में भी भाग लेते थे। जातिभेद के अभाव से प्रत्येक मनुष्य अपनी ही इच्छा के अनुसार ऋषि, युद्धकर्त्ता अथवा व्यापारी हो सकता था। ऋषियों की कन्याएँ युद्धकर्त्ताओं और व्यापारियों को भी व्याही जाती थीं। सम्पूर्ण आर्यसमाज में विवाह, भोजन, व्यापार आदि के विषय में पूर्ण स्वच्छन्दता थी। माँस-भक्षण यज्ञों के ही सम्बन्ध में होता था, सदैव नहीं। आचार-शास्त्र के लिए नियमों का बाहुल्य न था और प्रत्येक भद्र पुरुष उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकता था।

उस समय युद्ध नियम इस प्रकार थे कि पराजित देश को तत्काल अभय प्रदान किया जाता था, देश के धार्मिक-नियमों का मान होता था तथा विश्वास होने पर पूर्व राजवंश का पुरुष ही राजा बना दिया जाता था। धनुषबाण, तलवार, ढाल, शरीर त्राण, शिला प्रक्षेपक, अग्न्यस्त्र आदि से युद्ध होता था।

कचहरी का कर स्वीकृत ऋण के लिए ५ प्रतिशत एवं अस्वीकृत तथा अन्य ऋण पर १० प्रतिशत लिया जाता था। व्यभिचार महापाप माना जाता था। घूस लेने वाले मंत्री की सब सम्पत्ति जब्त की जाती थी। आत्मघात करनेवाले के लिए दाह कर्म आदि वर्ज्य थे। भ्रातृहीन कन्या का प्रायः पुरुषों के समान नाम रक्खा जाता था।

घोड़ी से भी हल जोता जाता था। सती बहुत कम होती थीं। महाराज पृथु की रानी अरुचि सती हुई। ऋग्वेद के १० वें मंत्र में संकुशुक ऋषि एक स्त्री को सती होने से रोकते हैं। मृत पुरुष की भस्म, अथवा हड्डी या समस्त शरीर गाड़ दिया जाता था। बहुत लोग राजाओं से अधिक धनवान थे।

वेद भगवान् सैकड़ों विषयों के लिए प्राचीनतम इतिहास के भाण्डार हैं। हमें केवल सामाजिक तथा राजनैतिक इतिहास पर विशेषतया ध्यान देना है। इस लिए उपर्युक्त वैदिक विवरण में इन्हीं दो विषयों की प्रधानता रक्खी गई है। अब वेदों में लिखित राजनैतिक इतिहास को यथासाध्य संक्षिप्त प्रकारेण क्रमबद्ध कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। ऊपर कहा जा चुका है कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाएँ अप्रासंगिक रीति से आई हैं। अतएव उनमें से अधिकांश का वेदों ही के सहारे पर क्रमबद्ध करना कठिन है। इसलिए हम यहाँ पर मुख्य-मुख्य घटनाओं को मोटे प्रकार से सक्रम कहेंगे। आर्यों और अनार्यों के सैकड़ों नाम वेद में आये हैं। अनार्यों में वृत्र, दनु, पिप्र, सुश्न, शम्बर, बंगृद, बलि, नमुचि, मृगय, अबुर्द प्रधान समझ पड़ते हैं। दनु के वंशधर दानव थे जिनका कई स्थानों पर वर्णन है। यह दनु वृत्रासुर की माता थी। वृत्र के ९९ किले इन्द्र ने तोड़े। ९९ और १०० वृत्रों का कई स्थानों पर वर्णन आया है। शम्बर और बंगृद के सौ-सौ किले ध्वस्त किये गए। शम्बर के किले पहाड़ी थे और दिवोदास के कारण इन्द्र ने उसे मारा। दिवोदास सुदास के पिता थे। सुश्न का चलनेवाला किला ध्वस्त हुआ। चलने वाले किले से जहाज का प्रयोजन समझ पड़ता है। पिप्र के ५०००० सहायक मारे गये। बलि के ९९ पहाड़ी किले थे। ये सब जीते गये। सिवा शम्बर के और सब का पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं है। आर्यों में ऋषियों के अतिरिक्त मनु, नहुष, ययाति, इला, पुरूरवा, दिवोदास, मान्धाता, दधीचि, सुदास, त्रसदस्यु, ययाति के यदु आदि पाँचों पुत्र और पृथु की प्रधानता है। ययाति के यदु आदि पाँचों पुत्रों के वर्णन कई स्थानों पर आये हैं। दिवोदास और सुदास के सब से अच्छे क्रमबद्ध वर्णन हैं। इस विषय में वशिष्ठ का सातवां मंडल

बहुत उपयोगी है। इस के पीछे विश्वामित्र का तीसरा मंडल भी अच्छी घटनाओं से पूर्ण है। दिवोदास तृसु लोगों के स्वामी थे। वैदिक समय में कुछ पौरवों की संज्ञा तृसु थी, ऐसा समझ पड़ता है।

राजा दिवोदास बहुत बड़े विजयी थे। इन्होंने कुछ तुर्वश वंशियों, द्रुह्य वंशियों और शम्बर को मारा तथा गंगु लोगों को भी पराजित किया। कुछ नहुषवंशी इनको कर देने लगे थे। इनके पुत्र सुदास ने इनके विजयों को और भी बढ़ाया। सुदास का युद्ध वैदिक युद्धों में सबसे बड़ा है। नहुषवंशी यदु, तुर्वश, अनु और द्रुह्य के सन्तानों ने भारतों से मिलकर तथा बहुत से अनार्य राजाओं की सहायता लेकर सुदास को हराना चाहा। नहुष वंशियों की सहायतार्थ भार्गव लोग, परोदास, पक्थ, भलान, अलिन, शिव, विशात, कवम, युध्यामधि, अज, सिगरु, और चलु आये तथा २१ जाति के वैकर्ण लोग भी पहुँचे। दस्यु राजा बर्चिन एक बहुत बड़ी सेना लेकर इनका नेता हुआ। कितने ही भिष्यु लोग भी नाहुषों की सहायतार्थ आए। पुरु-वंशी इस युद्ध में सम्मिलित न हुए। नाहुषों ने रावी नदी के दो टुकड़े करके एक नहर निकाल कर नदी को पार करना चाहा, किन्तु सुदास ने तत्काल धावा बोल दिया जिससे गड़बड़ में नाहुषों की बहुत सी सेना नदी में डूब मरी। कवष और बहुत से द्रुह्य वंशी डूब गये। महा विकराल युद्ध हुआ, जिसमें सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को पूर्ण पराजय दी। अनु और द्रुह्य वंशियों के ६६ वीर पुरुष और ६००० सैनिक मारे गये तथा आनवों का सारा सामान लूट लिया गया, जो सुदास ने तृसुओं का दे दिया। सात किले भी सुदास के हाथ लगे और उन्होंने युध्यामधि को अपने हाथ से मारा। राजा बर्चिन के एक लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गये। अज, सिगरु और चलु ने सुदास को कर दिया। इस प्रकार रावी नदी पर यह विकराल युद्ध समाप्त हुआ। इसके पीछे सुदास ने यमुना नदी के किनारे भेद को पराजित कर के उसका देश छीन लिया था। इस प्रकार भेद सुदास का प्रजा हो गया। आर्यों का नागों से वेद में कोई युद्ध नहीं लिखा गया है, केवल एक बार इतना लिखा हुआ है कि पेदु नामक एक वीर पुरुष के घोड़े ने बहुत से नागों को मारा। इससे जान पड़ता है कि आर्यों का नागों

से कोई छोटा युद्ध हुआ होगा। विश्वामित्र ने अपने मण्डल में भारतों का बहुत सा वर्णन किया है। इन लोगों की नाहुषों से एकता सी समझ पड़ती है। वेदों के आधार पर यह संक्षिप्त राजनैतिक इतिहास इसी स्थान पर समाप्त होता है। आगे के अध्यायों में पुराणों का भी सहारा ले कर वैदिक समय का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जायगा।

कोलों में विवाह का प्रचार न था। द्रविड़ों में स्त्रियों के सहारे कुटुम्ब की स्थिति थी। आर्यों में दो प्रकार की प्रथा देख पड़ती है। कुछ लोग मुख्य-मुख्य स्थानों पर बस गये। उन्हें विश और फिर वैश्य कहने लगे। कुछ अन्य लोग घूमा करते थे। वे एक एक ग्राम की टुकड़ियों में थे। एक ग्राम के स्त्री पुरुष आपस में पुत्रोत्पादन न करके मित्र ग्राम वालों से ऐसा करते थे। जब उत्सवों के समय मित्र ग्राम मिल कर नाचने आदि में प्रवृत्त होते थे तब ऐसा होता था। समय पर जब ये ग्राम एक एक स्थान पर बस गये, तब वे स्थान ही ग्राम कहलाने लगे। विश लोगों में विवाहादि की चाल थी ही, समय पर ग्रामों में भी वही प्रथा चली। आर्य कुटुम्ब पिता के सहारे पर चलता था।

नवां अध्याय

समय निरूपण

२६०० से ६०० बी० सी० तक

इस स्थान पर पौराणिक राजवंशों का समय निरूपण करके आगे बढ़ना होगा। योरोपियन विद्वानों का विचार है कि आर्य लोग भारत में दो धाराओं में आये। पहली धारा स्वायम्भुव मन्वन्तर से चालुष मन्वन्तर तक मानी जा सकती है और दूसरी का प्रारम्भ वैवस्वत मन्वन्तर से समझा जा सकता है। स्वायम्भुव मनु का पहला वंश २७ पीढ़ियों तक चला। स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रैवत मनु विष्णु पुराण के अनुसार स्वायम्भुव के पहले पुत्र प्रियव्रत के वंशज थे, तथा चालुष मनु स्वायम्भुव के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के वंशधर हमारे राजवंशों ही में लिखे हैं। अतएव पहले छवों मनु एक ही वंश के थे। पहले वंश में पीछे के चारों मनु मिला कर ३५ पीढ़ियाँ आती हैं और दूसरे में दस। इस प्रकार मन्वन्तरों का समय प्रायः ४५ पीढ़ियों का बैठता है (देखिए चौथा अध्याय)। पहले वंश में २७ पीढ़ियाँ तो हैं ही और यह भी लिखा है कि स्वायम्भुव और चालुष के बीच वाले चारों मनु भी प्रियव्रत वंशी थे। इन चारों मन्वन्तरों में कम से कम आठ राजाओं का होना सम्भव पड़ता है। यह वंश वृत्त बहुत पुराना होने से इसकी दो चार पीढ़ियों में जो उत्तराधिकार पुत्रों का लिखा है, वह भाइयों आदि का भी हो सकता है। प्रायः योरोपियन पंडित एक शताब्दी में ऐसे छ राजाओं का भोग काल मानते हैं। इस पर्व से प्रथम छवों मन्वन्तरों का समय प्रायः साढ़े सात सौ वर्षों का बैठेगा। वेद में कुछ ऋचायें स्वायम्भुव वंशी पृथुवैन्य कृत हैं और कुछ किसी वेन और ध्रुव कृत। सम्भव है कि वेन और ध्रुव नामक और कोई व्यक्ति हों, किन्तु पृथुवैन्य बहुधा स्वायम्भुव वंशी प्रसिद्ध

महाराज ही थे। चालुष मनु भी वेदर्षि थे। चालुष मन्वन्तर में घटनायें बहुत सी लिखी हैं, जिससे इस वंश के कई राजाओं का होना इस मन्वन्तर में समझा जाता है। वैवस्वत मनु भी वेदर्षि थे। इन बातों से प्रकट है कि यद्यपि ऋग्वेद निर्माण काल २००० से १८०० या १७०० बी० सी० से चला, किन्तु कुछ वैदिक ऋचायें चालुष मन्वन्तर से ही बनने लगी थीं। प्रधान पार्जितर तथा रायचौधरी ने पौराणिक समय पर विशाल श्रम कर के अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु इन छवों मन्वन्तरों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, यद्यपि पुराणों में इनका बराबर कथन आता है और कुछ योरोपीय विद्वानों के अनुसार भी भारत में आर्यों का आगमन प्रायः २५०० बी० सी० से आरम्भ हुआ अथच वैदिक समय बहुत पीछे चला। प्रधान तथा राय चौधरी के विषय वैवस्वत मनु से भी बहुत पीछे से चलते हैं, सो उनका वैवस्वत मनु से पहलेवाले मन्वन्तरों का कथन न करना योग्य ही है। पार्जितर महोदय ने शायद यह समय बहुत अनिश्चित माना हो, किन्तु प्रायः सभी पुराणों में इसका कथन बराबर मिलता है। वैदिक साहित्य में भी इसके कथन हैं। हम इन छवों मन्वन्तरों का निःकारण छोड़ देना उचित नहीं समझते। यही हमारा पहला युग है। पहले पाँचों मन्वन्तरों में ४५ पीढ़ी होने से उनका भोगकाल ७५० वर्षों के निकट आता है। पार्जितर और प्रधान दोनों पंडितों ने राजवंशों पर अच्छा श्रम किया है। प्रधान का विषय रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त है। उन्होंने इस काल के राजवंशों को बहुत पक्का कर दिया है। महाभारत के ही पीछे परीक्षित का समय आरम्भ होता है। उसका इतिहास रायचौधरी महाशय ने बहुत दृढ़ किया है। अतएव रामचन्द्र से पहले का ही इतिहास संदिग्ध रह जाता है। महाभारत के पीछे भी प्रधान ने तीन मुख्य घरानों के राजवंश दृढ़ कर दिए हैं। मनु वैवस्वत से रामचन्द्र तक का वंशवृक्ष पुराणों, पार्जितर तथा प्रधान के कथनों को मिला कर हमने ऊपर दे दिया है। इतना मानना ही चाहिए कि जो दृढ़ता प्रधान के राम से कृष्ण तक के समय के राजवंशों में है, वह अभी राम के पूर्व वालों में नहीं आई है। फिर भी यथासाध्य दृढ़ वंश दिए गए हैं।

इस काल के मुख्य घराने सूर्य और चन्द्रवंश हैं। दोनों चलते मनु वैवस्वत से ही हैं, पहला उनके पुत्र इक्ष्वाकु से और दूसरा कन्या इला से।

मनु-राम के समय इन वंशों में निम्न शाखायें थीं :—

मनु-राम (त्रेतायुग) का चक्र

नाम वंश	नाम शाखा	नाम राम के सम-कालीन का	मनु से कितनी पीढ़ी नीचे	विवरण
सूर्य	अयोध्या,	रामचन्द्र,	३६	सब पीढ़ियाँ मिलती हैं।
"	मिथिला,	भानुमन्त जनक,	३६	१२ पीढ़ियों के नाम अज्ञात। ये जनक राम के साले थे। इनके पिता सीर-ध्वज और चचा कुशध्वज थे।
चन्द्र	(इस्तिनापुर)	कुरु या सार्वभौम,	३६	सब पीढ़ियाँ मिलती हैं।
पौरव	मुख्य पौरव,	सुदास,	३६	" "
"	उत्तर पांचाल,	रुचिराश्व,	३६	" "
"	दक्षिण पांचाल,	सुहोत्र,	४०	" "
"	मागध,	अलक,	४०	" "
"	काशी,	विश्वामित्र के पौत्र का पौत्र,	३६	इस काल विश्वामित्र भी वर्तमान थे।
"	कान्यकुब्ज,	सत्सन्त,	४२	सब पीढ़ियाँ प्राप्त।
चन्द्र यादव	माथुर,			" "

नाम वंश	नाम शाखा	नाम राम के सम-कालीन का	मनु से कितनी पीढ़ी नीचे	विवरण
यादव	हैहय,	वीतहय का पौत्र,	३६	१५ पीढ़ियों के नाम अज्ञात।
चन्द्र आनव	अंग,	चतुरंग,	४१	१४ पीढ़ियों के नाम अज्ञात। चतुरंग दशरथ के मित्र लोमपाद के पुत्र थे।
"	उत्तर पच्छिम,	केकय के दौहित्र भरत,	३६	२० पीढ़ियों के नाम अज्ञात, कैकेयी राम की सौतेली तथा भरत की सगी माँ थी।

उपरोक्त शाखाओं में राम के वंशवृत्त से २६ नाम उन तीन घरानों के निकाल डाले गए हैं, जो थे तो सूर्यवंशी किन्तु राम के सीधे पूर्वपुरुष नहीं प्रकट होते, वरन् इसी वंश के होने से इस शाखा के पूर्व पुरुषों में गुप्तकालीन सम्पादकों के ज्ञानाभाव से आ गए। ये शाखायें दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र और सगर की हैं। यदि सम्पादकों के इन कथनों को अक्षरशः सत्य मानें तो उन्हीं की कही हुई अन्य समकालीनतायें ठीक नहीं बैठतीं। इन २६ नामों के जुड़े रहने से उतने ही काल में दस ऐल राजघरानों में प्रायः ३९, ४० पीढ़ियाँ आती हैं, तथा अयोध्या में ६६। फल यह निकलता है कि चाहे एक वंश को अशुद्ध मानें, चाहे दस वंशों को। फिर जहाँ अयोध्या की शाखा में २६ नाम बढ़ा दिए गए, वहीं मैथिल से १२ छूट रहे हैं। यही दशा हैहयों, आंगों और उत्तरी पच्छिमी आनवों की है। माथुर यादवों में कुछ पीढ़ियाँ बढ़ी हुई समझ पड़ीं। उनके नं० ३५ दशरथ के आगे कोष्ठक

में रथवर और एकादशरथ जो इन्हीं के नाम माने गए हैं, वे कहीं-कहीं इनके वंशधरों के लिखे हैं। नाम एक से होने से एक ही के माने गए हैं। यही दशा नं० ३८ देवराट की है। उनके आगे देवक्षेत्र और देवन के भी नाम कहीं कहीं वंशधरों के लिखे हैं। यदि इन चार नामों को भी पीढ़ियों में जोड़ लें, तो अर्जुन, पौरव नं० ५३, के पिता पांडु का समकालीन कंस ५४ वीं से ५८ वीं पीढ़ी पर पहुँचेगा और यह मानना पड़ेगा कि यदु के बड़े पुत्र होने तथा इस वंश में छोटे भाइयों के राजा प्रायः न होने से उतने ही काल में इसकी पुश्तें छ बढ़ गई। ऐसी कल्पना कुछ अयुक्त भी न होगी। फिर भी कोष्ठकों वाले चार नाम हमें स्वतन्त्र नहीं समझ पड़े। दोनों दशाओं में अधिक मतभेद का प्रश्न नहीं है।

उपरोक्त १२ वंशों में से चार की पुश्तें पूरी नहीं मिलतीं, किन्तु शेष आठ दृढ़ बैठते हैं। उनमें सारी पुश्तें मिलती हैं, तथा उनके अनुसार पौराणिक कथनों की समकालीनतायें भी ठीक बैठ जाती हैं। जिनमें पुश्तें बढ़ाई गई हैं, उनमें बिना ऐसा किए पौराणिक अन्य कथनों के तारतम्य नहीं बैठते। प्रधान ने भी दक्षिण कोशलों को अलग माना है। सगर और हरिश्चन्द्र के वंश वंशावली में दिए हुए कारणों से अलग हो गए हैं। पार्जितर महाशय ने ये २६ नाम अलग नहीं किए, जिससे उनको रामवाले को छाड़ कर सारे पौराणिक वंशों से प्रायः २४, २५ पुश्तों के छूट रहने की कल्पना करनी पड़ी है, जो प्रकट ही अनुचित है, क्योंकि वह सारे पौराणिक वंश वृत्तों को केवल एक के कारण अधूरा बतलाती है।

उपर्युक्त वंशावलियों को दृढ़ मानने से सारे पौराणिक कथनों का सामंजस्य बैठता है, जैसा कि इसी अध्याय में आगे दिखलाया जावेगा। वहाँ समकालीनताओं का विवरण कुछ विस्तार से होगा। यहाँ काल निरूपण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वैवस्वत मनु से रामचन्द्र तक यह दूसरा समय प्रायः ३९ पीढ़ियों का मिलता है। यदि मन्वन्तर काल को सत्ययुग कहें, तो इसे त्रेता कह सकते हैं। ये सत्ययुग और त्रेता नाम पौराणिक विचारों से असम्बद्ध हैं, अर्थात् जो जो घटनायें पुराणों में जिन जिन युगों में लिखी हैं, उनके

अनुसार ये हमारे युग नहीं चलते । हैं चार युगों के समान चार समय हमारे भी, जो उन्हीं नामों से पुकारे जा सकते हैं, किन्तु हमारे राज-काल उनके अनुसार चलते नहीं, सो पाठकों या समालोचकों के चित्त में भ्रम पड़ सकता है । अतएव युगों ही के नाम न लेकर हम पहले को सतयुग या मन्वन्तर काल, दूसरे को त्रेतायुग अर्थात् मनु-राम काल, तीसरे को द्वापर युग और चौथे को आदिम कलिकाल कहेंगे । दूसरा समय ३९ पीढ़ियों का होने से प्रायः ६५० वर्षों का माना जा सकता है, क्योंकि इसमें राजकाल है । अब हम तीसरा काल उठाते हैं, जिसका रूप भी एक चक्र द्वारा दिखलाया जावेगा ।

द्रापर का चक्र

शाखाओं के नाम	किस से प्रारम्भ	किस तक	कितनी पीढ़ियाँ	विवरण
	नाम	नं०	नाम	नं०
ग्रीवस्ती का लव (सूर्य) वंश	लव	४०	वृहद्बल	१३
अयोध्या का कुश	कुश	४०	अतायुस	१४
विदेह	शत्रुघ्न	४०	बहुलाश्व	१५
"	शत्रुघ्न	४०	उपगुप्त	१६
" दूसरी शाखा	जयसेन	४०	अर्जुन	१७
शुचिष्ठिर पौरव	धृतिमन्त	४०	नृपञ्जय	१८
हिमीद विदर्भ	सोमक	३६	धृष्टकेतु	१९
उत्तर पांचाल	पृथुर्वेष	४०	जनमेजय का पौत्र	२०
दक्षिण पांचाल				

समय प्रमाण

ये दोनों राम के पुत्र हैं। वंश पूर्ण मिलते हैं।

सब पुरतें मिलती हैं।

उपगुप्त पर राज्य समाप्त। पूर्ण वंश प्राप्त है।

पूर्ण प्राप्त। वंश शुचिष्ठिर का न चल कर अर्जुन का बला। पूर्ण प्राप्त। नृपञ्जय के पुत्र बहुल पर समाप्त।

७ पुरतें अज्ञात, शेष ज्ञात।

महाभारत युद्ध से दो पुरत पूर्व जनमेजय पर समाप्त।

शास्त्रार्थों के नाम	किस से प्रारम्भ		किस तक		कितनी पीढ़ियाँ	विवरण
	नाम	नं०	नाम	नं०		
भारगव पौरव	व्यवत	४१	सोमधि	४४	१४	पूर्ण प्राप्त ।
वेदि "	सुहोत्र	४०	शिथुपाल	४२	१३	६ पुरुषों अज्ञात हैं । इन्हीं पर वंश समाप्त है, पूर्ण प्राप्त ।
काशी "	सब्रति	४१	भद्रसेन	४२	१२	नं० १४ कंस के भागिवेय थे ।
माधुर बादव	भीम	४३	श्रीकृष्ण	४२	१३	पूर्णवंश प्राप्त ।
बांग भानव	पृथुलारव	४२	कर्ण	४२	११	पूर्ण वंश प्राप्त, शायद दो तीन पुरुषों छूट रही हों ।
१३ वंश	१३	१३	१३	१३	१८५	१३ वंशों में से २ अंधरे मिलते हैं और शेष पूर्ण ।

इन तेरह वंशों में से इस काल कुल १८५ पीढ़ियाँ हुई, अर्थात् प्रति वंश प्रायः १४ पुश्तों का पता बैठता है। ये सब पुत्रों के अनुसार हैं। जहाँ कहीं भाई उत्तराधिकारी हुए हैं, वहाँ पीढ़ी जोड़ से निकाल दी गई है। हाँती तो हैं शताब्दी में ५ से कम पुश्तें, किन्तु ५ ही जोड़ने से इस युग का भाग काल २८० वर्ष आता है। कई वंश त्रेता वाले चक्र में हैं, किन्तु द्वापर वाले में नहीं। उनका राज्य बीच ही में समाप्त होकर उनके वंश वृत्त बन्द हो गए। अब आदिम कलिकाल पर विचार होता है।

आदिम कलिकाल का समय

इस विषय पर श्रीयुत पार्जिटर, डाक्टर प्रधान और डा० रायचौधरी ने विचार किये हैं, सो अपने को कुछ अधिक कहने की आवश्यकता न पड़ेगी।

श्रीयुत पार्जिटर का तर्क

चन्द्रगुप्त मौर्य ३२२ बी० सी० में गद्दी पर बैठे। उनसे पूर्व महापद्मनन्द और उसके पुत्रों ने ८० वर्ष राज्य किया। अतएव महापद्म ४०२ बी० सी० में गद्दी पर बैठा। उसने तत्कालीन सारे क्षत्रियों के राज्य नष्ट कर दिए; अपने समय का परशुराम ही कहा जाता है। यह कार्य यदि २० वर्षों में समाप्त मानें, तो इसका समय ३८२ बी० सी० में आता है। प्राचीन भूपालों में पुराणों के अनुसार पौरव (नं०, ५९) अधिसीम कृष्ण, ऐक्ष्वाकु (नं० ५८) दिवाकर, और बार्हद्रथ (नं० ६०) सेनजित समकालीन थे। अतएव महाभारतीय युद्ध के पीछे अधिसीम कृष्ण के समय तक ४ ऐक्ष्वाकु, ५ पौरव और ६ मागध नरेश पड़ते हैं। इस काल को १०० वर्षों का मान सकते हैं। इससे महापद्म द्वारा भूपाल विनाश पर्यन्त निम्न संख्या में राजे लिखे हैं:— २४ ऐक्ष्वाकु, २७ पांचाल, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ कलिंग, २५ अशमक, २६ कौरव-पौरव, २८ मैथिल, २३ सूरसेन, और २० वीतिहोत्र। इस प्रकार दस राज्यों में कुल २५७ राजे आते हैं, अर्थात् प्रति राज पते से २६ भूपाल। प्रति राजा का समय १८ वर्ष मानने से हमें ३८२ बी० सी० से ४६८ वर्ष मिलते हैं, अर्थात्

महाभारत युद्ध का समय आता है $३८२ + ४६८ + १०० = ९५०$ बी० सी० । इसी काल मगध में १६ बार्हद्रथ राजे हुए, ५ प्रद्योत और १० शिशुनाग, जोड़ ३१ ।

इस तर्क में विचार योग्य भी कुछ बातें हैं । पुराणों में केवल मागध, पौरव, तथा ऐन्दवाकु वंश तो दिए हैं, किन्तु शेष सातों की पुस्त संख्या मात्र दी हुई है । इन तीनों के विषय में भी जो पीढ़ियों के विवरण पार्जितर महोदय ने दिए हैं, वे प्रधान से कुछ भिन्न हैं, किन्तु यह अन्तर थोड़ा ही सा है । मुख्य मतभेद प्रति पीढ़ी के मान्य समय का है ।

डाक्टर राय चौधरी का कथन

आपने इस काल का निर्णय नहीं किया है, वरन् इस विषय पर एक प्रमाण मात्र उद्धृत कर दिया है । पुराणों का कथन है कि परीक्षित का जन्म महापद्म नंद से १०५० वर्ष पूर्व हुआ । उधर कौशांतिक, सांख्यायन आरण्यक, अध्याय १५ वे में लिखा है कि सांख्यायन उद्दालक आरुणि से दो पीढ़ी नीचे थे, तथा शतपथ ब्राह्मण, XIII, ४, १ में इन्द्रोत देवापि या दैवापि शौनक जनमेजय के समकालीन थे । इनके शिष्य थे धृति ऐन्द्रोत जिनके शिष्य पुलश प्राचीन योग्य बने, जिनके चेले पौलुशि सत्ययज्ञ हुए । छान्दोग्य इन्हें बुद्धिल आश्वतरशिव तथा उपर्युक्त उद्दालक आरुणि का समकालीन मानता है । अतएव (उद्दालक आरुणि के समकालीन) पौलुशि के (जनमेजय के समकालीन) शौनक प्रपितामह गुरु मात्र थे । सांख्यायन आरुणि से केवल दो पीढ़ी नीचे होने से छ पीढ़ियां मिलीं । कौशांतिक सांख्यायन आरण्यक में गौतम बुद्ध के समकालीन पौशकर सादि तथा लौहित्य के नाम हैं, जो सांख्यायन से दो ही तीन पीढ़ी नीचे थे । अतएव गौतम बुद्ध से जनमेजय तक आठ ही नौ पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमें गुरु शिष्य की भी कई पुस्त शामिल हैं ।

(अपना विचार) इन गुरु शिष्यों वाली पीढ़ियों के समय बहुत बड़े भी हो सकते हैं, सो इस तर्कावली से कोई निश्चित फल नहीं निकलता । ब्राह्मणों की पीढ़ियां लिखने में व्यास लोग कूद भी बहुत

जाते थे, अर्थात् पुश्ते छोड़ जाते थे। राम के समय वाले गौतम पुत्र शरद्वन्त और अहल्या के पुत्र शतानन्द के आत्मज सत्य धृति हरिवंश में लिखे हैं। उन्हीं के पुत्र शन्तनु के समकालीन कृपाचार्य आ जाते हैं, यद्यपि अहल्या से कृप तक १०,१२ पीढ़ियाँ होंगी।

डाक्टर सीतानाथ प्रधान आदि के विचार

प्रधानजी ने अपने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित और सत्कारित ग्रंथ में चन्द्रगुप्त मौर्य से बिम्बिसार तक का समय ३२५ बी० सी० से ५२७ बी० सी० तक माना है। इन दस राजाओं में प्रत्येक का समय उन्होंने दिया है, जो इस ग्रंथ में यथास्थान आवेगा। आपने मागध (नं० १४) सोमाधि से रिपुंजय, (नं० ७५ तक) २१ पीढ़ियों का भोगकाल प्रति पीढ़ी २८ वर्ष के हिसाब से ५८८ वर्ष माना है। रिपुंजय ५६३ बी० सी० में गद्दी पर बैठे और ५१३ में मारे गए। अतएव सोमाधि का समय $५८८ + ५६३ = ११५१$ बी० सी० आता है, जो महाभारत युद्ध का समय है। इसी प्रकार पौरव परीक्षित, (नं० ५५) से उदयन नं० ७७ तक २२ पीढ़ियों का समय $२२ \times २८ = ६१६$ वर्ष हैं। उदयन ५०० बी० सी० में राजा हुए, तथा परीक्षित से ३६ वर्ष पूर्व महाभारतीय युद्ध हुआ, जिसका समय $५०० + ६१६ + ३६ = ११५२$ बी० सी० आता है। इसी प्रकार ऐहवाकु उरुक्षय, (नं० ५५) से प्रसेनजित, (नं० ७६ तक) २२ पीढ़ियों का भोगकाल ६१६ वर्ष है, तथा ५३३ बी० सी० में प्रसेनजित गद्दी पर थे, सो उपर्युक्त महाभारतीय युद्ध का समय $५३३ + ६१६ = ११४९$ बी० सी० आता है। प्रति पीढ़ी २८ साल जोड़ने के कारण आपने एक अध्याय भर में दिए हैं, जो गड़बड़ नहीं है, अतएव महाभारत काल आप बी० सी० १२ वीं शताब्दी में मानते हैं और यह भी कहते हैं कि तिलक महाशय की ज्योतिषाय गणना भी इस निष्कर्ष से टक्कर खा जाती है। श्रीयुत काशी प्रसादजी जायसवाल पुरातत्व विभाग के भारी पंडित थे। आपने पुराणों के कथनानुसार महाभारतीय युद्ध का समय १४२४ बी० सी० माना है। यही समय लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहासज्ञ डाक्टर राधा कुमुद मुकुर्जी मानते हैं।

अपने को इस विषय में मत प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। प्राचीन भारतीय इतिहास के समय विभाग पर पाश्चात्य पंडितों का इतरों से बहुत मतभेद है, परन्तु यह गहन प्रश्न न तो अपने निर्णय के योग्य है, न अधीन। अतएव निर्णय करना भी निरर्थक है। अतः बिना मत प्रकाशन के ही हम यहाँ दिखलाये देते हैं कि यदि महा-भारतीय युद्ध १० वीं शताब्दी बी० सी० का हो, तो वहीं द्वापर का अन्त होगा। त्रेताकालारम्भ प्रायः २८० वर्ष पुराना होने से तेरहवीं शताब्दी बी० सी० में पड़ेगा, तथा त्रेताकालान्त उससे प्रायः ३९ पीढ़ी ऊपर होने से इससे साढ़े छः सौ वर्ष पुराना अर्थात् १९वीं या २०वीं शताब्दी बी० सी० का है और सत्ययुग या मन्वन्तर कालारम्भ प्रायः साढ़े सात सौ वर्ष और पुराना होने से २७ वीं शताब्दी बी० सी० तक पड़ेगा। यदि यह भारतीय युद्ध काल १२ वीं या १५वीं शताब्दी बी० सी० का मानें, तो वे तीनों समय भी आगे बढ़ जावेंगे। इन कथनों से न हटते हुये भी हम एक समय देने के विचार से अपने अध्यायों आदि में महाभारतीय युद्ध दसवीं शताब्दी बी० सी० का मान कर चलेंगे, जिससे समय बढ़ाने की ओर अनुचित रुचि न मानी जाय।

अब सम सामयिक महानुभावों और घटनाओं पर विचार किया जाता है, जिससे अपनी वंशावलियों की दृढ़ता पर प्रकाश पड़े।

१—मनु वैवस्वत की पुत्री इला चन्द्रपुत्र बुध का ब्याही थी। इन्हीं इला और मनु से दोनों वंश चले हैं (महाभारत)।

२—ययाति नं० ६ के भाई यति सूर्यवंशी, (नं० ४) ककुत्स्थ की पुत्री गो से ब्याहे थे।

ह० वं० ३०, १६०१, वायु० पु० ९३, १४

३—पौरव, (नं० २०,) मतिनार की पुत्री गौरी ऐच्चाकु, (नं० २१) मान्धातृ की कुछ पुराणों के अनुसार माता (हरिवंश के अनुसार आजी) थीं। ब्रह्माण्ड पु० ६३, ६६, ८, वायु पु० ८८, ६४, ७, ब्रह्म ७, ९०, २, ह० वं० १२, ७०९, ११ शि० पु० ६०, ७४।

४—यादव, (नं० २०) शशिविन्दु की पुत्री विन्दुमती चित्ररथी उपर्युक्त मान्धातृ को ब्याही थी। वायु ८८, ७७, ब्रह्माण्ड ६३, ७०,

इनका दुह्यु वंशी अंगार (नं० २१) से युद्ध हुआ। ह० वं० ३२, १८३७, म० भा० १२६, १०४६५।

५—कान्यकुब्ज (नं० ३०) जह ने मान्धातु की पौत्री से विवाह किया। अतः जहू त्रसदस्यु सूर्य वंश (नं० २३) के समकालीन अर्थात् बहनोई थे। त्रसदस्यु मान्धातु के पौत्र थे। सम्भवतः जहू अपनी वंशावली में चार पाँच नम्बर ऊँचे थे।

६—ऋचीक ऋषि ने गाधि पुत्री सत्यवती से विवाह किया, जिससे परशुराम के पिता जमदग्नि पुत्र हुए। गाधि पुत्र प्रसिद्ध विश्वामित्र जमदग्नि के समवयस्क और प्रगाढ़ मित्र थे। जमदग्नि का विवाह किसी सूर्यवंशी प्रसेनजित की कन्या रेणुका कामलो से हुआ। इसी की बहिन का विवाह हैहयार्जुन (नं० ३४) से हुआ था, हरिवंश, (म० भा०)। प्रसेनजित राजा ऐदवाकु नं० १९ थे। वे इस सम्बन्ध के लिए बहुत प्राचीन थे। अतएव कोई अन्य प्रसेनजित सूर्य-वंशी की ये कन्यायें होंगी, अथवा इन्हीं का स्थान वंशावली में नीचा होगा। विश्वामित्र कान्यकुब्ज (नं० ३५) हैहयाअर्जुन, सुदास [उत्तर पांचाल (३९)], तृशंकु (सूर्यवंश ३६), हरिश्चन्द्र (सूर्यवंश ३७) मित्रसह कल्माषपाद (दक्षिण कौशल, ३९) और राम (सूर्यवंश ३९) समकालीन थे। वशिष्ठ भी इन्हीं सभी के समय में थे। जान पड़ता है कि ये दोनों ऋषि दीर्घजीवी थे। इन नामों के कई ऋषि मानने से काम नहीं चलता, क्योंकि हरिश्चन्द्र के यज्ञ में विश्वामित्र, जमदग्नि शुनःशेष और वशिष्ठ ये चारों ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मौजूद थे। उधर वैदिक ऋचाओं में शुनःशेष की उपर्युक्त घटनाओं के अनेक विवरण हैं। वही शुनःशेष वै दक विश्वामित्र के दत्तक पुत्र थे। इन्हीं वशिष्ठ और विश्वामित्र ने ऋग्वेद मण्डल सात और तीन में सुदास को अपना समकालीन होना कहा है। रामायण में भी ये दोनों हैं। वशिष्ठ के ग्लेच्छ दल से हार कर ही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के पिता तृशंकु के मित्र और पुरोहित बने (म० भा०)। अतएव इन ऋषियों का दीर्घजीवी होना ही मानना पड़ेगा। प्रायः सवा सौ वर्षों के होंगे। आजकल भी एक व्यक्ति ज़ारो आशा १६० वर्ष के थे, सो इन ऋषियों

की ऐसी अवस्थायें असम्भव नहीं हैं। इनके विशेष आधार कान्यकुब्ज के वंश-विवरण में मिलेंगे।

७—भद्रशेखर हैहय, (नं० ३०) ने काशीपति दिवोदास प्रथम (नं० ३४) को हराया। तालजंघ हैहय (नं० ३६) ने बाहु, सूर्यवंशी (नं० ३८) को हराया। काशी के प्रतर्दन (नं० ३८) ने वीतिहोत्र हैहय (नं० ३७) को हराया तथा बाहु पुत्र सगर ने वीतिहोत्र के वंशजों को नष्ट किया। सगर ने विदर्भ के किसी वैदर्भ राजा की कन्या केशिनी से विवाह किया। पहले धावे में हैहयों ने काशी का राज्य गिराया था। अनन्तर परशुराम द्वारा अर्जुन मारे गए। तब अर्जुन के पौत्र तालजंघ ने म्लेच्छों की सहायता से पौरव (नं० ३४ से ३७ तक किसी) का सूर्यवंशी बाहु का तथा विश्वामित्र (३६, ३७) कान्यकुब्ज राज्य नष्ट किए। समझ पड़ता है कि जैसे वशिष्ठ ने म्लेच्छों की सहायता से कान्यकुब्ज राज्य को हराया था, वैसे ही तालजंघ ने काम निकाला। अनन्तर प्रतर्दन और सगर द्वारा हैहय और म्लेच्छ दोनों नष्ट हुए, तथा पौरव राज्य भी स्थापित हो गया, किन्तु कान्यकुब्ज उस काल फिर न पनपा। महाभारत शान्ति पर्व में लिखा है कि सगर भी तालजंघ से हारे। अनन्तर बहुत काल बीतने पर सगर ने अश्वमेध किया। इससे जान पड़ता है कि वे दीर्घजीवी थे। उपर्युक्त कथनों के अधिक प्रमाण काशी, हैहयों और सगर के विवरणों में मिलेंगे।

८—उत्तरी बिहार के तुर्वशवंशी (नं० २२) मरुत्त ने राज्यच्युत पौरव वंश के राजकुमार दुष्यन्त, पौरव (नं० २३) को गाँद लिया (महाभारत)। मरुत्त भारी सम्राट् थे, सो दुष्यन्त, पौरव राज्य भी प्राप्त करके, दोनों के शासक हुए। इसी लिए वे वंशकर कहलाये। अंगिरस के तीन पुत्र थे, अर्थात् उचथ्य (महाभारत के उतथ्य) बृहस्पति और संवर्त। मरुत्त ने संवर्त को ऋत्विज करके यज्ञ किया और उन्हें अपनी पुत्री भी ब्याह दी। उचथ्य के ममता से अन्धे दीर्घतमस हुए। उसी ममता में बृहस्पति द्वारा विदथिन भरद्वाज हुए। दीर्घतमस ने आनव बलि (नं० २४) की रानी में नियोग द्वारा अंग, बंग, कलिंग, सुम्ह और प नामक पाँच पुत्र पैदा किए (म० भा०)।

अनन्तर नेत्रवान होकर वे गोतम या गौतम कहलाये । वायु ९९, ९२, मत्स्य ४८, ८३, बृहद्देवता, IV १५ । पीछे दीर्घतमस ने दुष्यंत पुत्र भरत (नं० २४) का ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐन्द्र महा-भिषेक किया । इन्हीं के कहने से भरत ने विदथिन भरद्वाज को गोद लिया होगा । ये विदथिन भरद्वाज वैदिक ऋषि भरद्वाज से भिन्न थे, क्योंकि वे विदथिन के वंशधरों का वर्णन अपनी कुछ ऋचाओं में करते हैं ।

९—रामायण के अनुसार राम के पिता दशरथ (नं० ३८) मैथिल सीरध्वज (नं० ३८) आंग लोमपाद (नं० ४०) वैशाली के ऋष्य शृंग प्रमति (जो दशरथ के दामाद थे) उत्तर पच्छिमी आनव केकय (नं० ३७) उत्तर पांचल दिवोदास (नं० ३८) तथा वैदिक तिमिध्वज शम्बर के समकालीन थे । रामचन्द्र के समकालीन ऊपर चक्र में दिये हुए हैं । राम और दशरथ अयोध्या नरेश थे । इस राज्य को कालिदास ने उत्तर कोशल कहा है; यथा,

नमे हिया शंसति किंचि दीप्सितं स्पृहावतो वस्तुषु केषु मागधी ।
इतिस्मृ पृच्छत्यनुवेलमाद्रतः प्रियाः सखीरुत्तर कोशलेश्वरः ॥ रघुवंशे ॥

उधर महाभारत बनपर्व में दक्षिण कोशल में ऋतुपर्ण (नं० ३६) राजा नल (नं० ३५ उत्तर पांचाल भृम्यश्व के समधी तथा नं० ३४ यादव भीमरथ के दामाद) के मित्र थे । इनके प्रपौत्र मित्रसह-कल्माषपाद राम के समकालीन पड़ते हैं ।

१०—दक्षिण पांचाल नरेश (नं० ४८) अणूह के पुत्र पितृवर्तिन, पौरव (नं० ४८) प्रतीप के मित्र थे । (म० भा०)

११—ह० वं० २०, १०८३, ११११, २, द्विमीढ़ वंशी वैदर्भ उग्रायुध (नं० ५२) ने उत्तर पांचाल नरेश (नं० ४९) प्रषत को राज्यच्युत किया, तथा दक्षिण पांचाल राजा (नं० ५३) जनमेजय को मारकर वह वंश समाप्त कर दिया । उग्रायुध को पौरव (नं० ५१) भीष्म ने युद्ध में मारा ।

१२—काशीपति अलर्क (नं० ४०) को अगस्त्य ऋषि की क्ली लोपामुद्रा ने आशीर्वाद दिया (वायु पु० ९२, ६७) तथा स्वयं अगस्त्य ने राम से भेंट की (रामायण) ।

१३—यादव भजमान (नं० ४५) ने उत्तर पांचाल सृजय (नं० ३७) की दो कन्याओं से विवाह किया आधार यादव वंशावली में कथित है। भजमान के पितामह सत्वंत राम के समय में थे, तथा सृजय के पौत्र सुदास भी राम ही के समकालीन थे। अतएव यहां दो पुश्तों का बीच पड़ता है। सम्भवतः सृजय की पुत्रियाँ वृद्धावस्था की हों और भजमान भीमसात्वत की प्रथमा युवावस्था के पुत्र हों।

१४—उत्तर पांचाल नरेश सुदास (नं० ३९) ने पौरव (नं० ३७) संवर्ण को राज्यच्युत किया। अनन्तर संवर्ण ने सुदास का हरा कर अपना राज्य फिर प्राप्त किया (आधार इन राज्यों के विवरण में हैं)।

१५—कैम्बे की खाड़ी के निकट इक्ष्वाकु के भाई शर्याति का आनर्त राज्य था। उनकी पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन का विवाह हुआ (महाभारत)। अनन्तर आनर्तों के पतन पर च्यवन या उनके वंशधर भार्गव ऋषि हैहयों के गुरु हुए। वेद में आया है कि च्यवन इन्द्र से हारे, किन्तु महाभारत में उनका इन्द्र से जीतना लिखा हुआ है।

१६—भार्गवां का हैहय ने मान किया। पीछे भगड़ा हो गया। भार्गव और के पुत्र ऋचीक शस्त्री हुए। उन्हीं के पुत्र जमदग्नि और पौत्र परशुराम हुए।

विश्वामित्र और जमदग्नि ने हरिश्चन्द्र के यज्ञ से शुनःशेप को बचाया और वह देवराट होकर विश्वामित्र के भागिनेय पद से उठ कर पुत्रत्व में आया। अनन्तर परशुराम द्वारा हैहयार्जुन मरा। उसने वशिष्ठ की भी तपोभूमि जलाई थी। फिर पांचाल सुदास, पौरव संवर्ण, दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद और तब दशरथ एवं राम के यहाँ वशिष्ठ जमे (आधार इन राज्यों के विवरणों में हैं)। पहले वशिष्ठ सुदास के पुरोहित हुए और पीछे उन्हें हटा कर विश्वामित्र उनके पुरोहित बने। तृतीय और सप्तम मंडल इन्हीं दोनों के हैं। वशिष्ठ, तत्पुत्र शक्ति और शक्ति पुत्र पराशर भी वेदर्षि हैं। इन तीनों ने मिल कर एक ही ऋचा भी बनाई। उधर महाभारत में लिखा है कि पराशर गर्भ ही में थे जब शक्ति का निधन हुआ। सुदास के यज्ञ में वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने एक बार विश्वामित्र को वाणी रहित कर दिया था और जमदग्नि की सहायता से ही इन्हें भाषणशक्ति आई। अनुक्रमणी

और ऋग्वेद पर वेदार्थ में लिखा है कि इस पर जब शक्ति जंगल में गए, तब विश्वामित्र के कहने से राजसेवकों ने इन्हें आग में जला डाला। पाँचवीं शताब्दी बी० सी० का शौनक कृत ग्रन्थ बृहद्देवता कहता है कि वशिष्ठ वारुणि के सौ पुत्रों को शाप के कारण राजस होने से सुदास या सौदासों ने मारा। उधर महाभारत में आया है कि सूर्यवंशी कल्माषपाद ने ऐसा किया। वहाँ यह कथन है कि इन्हें दो शाप राजस हो जाने के मिले, तथा विश्वामित्र ने क्रिकर नामक एक राजस इनके हृदय में बसा दिया, अर्थात् अन्तरंग मित्र बना दिया। यह कल्माषपाद दक्षिण कौशल नरेश (नं० ३९) था, जो सुदास और रामही के समय में पड़ता है। वहाँ के राजा सुदास का पुत्र होने से यह भी सौदास था। इसी लिए सौदास शब्द के कारण वशिष्ठात्मजों के निधनकर्ता में भ्रम पड़ गया है। शक्ति के वैदिक मंत्रों में मुख्य घटनायें नहीं हैं। महाभारत में आया है कि शक्ति एक उद्धत पुरुष थे और मुख्यतया यही उनके बध का कारण हुआ।

जान पड़ता है कि किसी कारण से पाँचाल सुदास शक्ति से अप्रसन्न होकर विश्वामित्र पर कृपालु हुए। अनन्तर विश्वामित्र के समझाने से राजसेवकों ने शक्ति का बध कर डाला और वशिष्ठ दक्षिण कौशलेश कल्माषपाद के यहाँ चले गए। वहाँ राजसों के संग से वह राजा नरमांस भक्षी हो गया था। अतएव वाशिष्ठों से उसका बिगाड़ हो गया। विश्वामित्र उसके यहाँ रहे तो नहीं, किन्तु उन्होंने क्रिकर राजस को उसका मित्र बना दिया, तथा वाशिष्ठों के प्रतिकूल उस उत्तेजना दी, जिसमें उसने सारे वशिष्ठात्मजों का नरमांस के लिए मरवा डाला। अनन्तर वशिष्ठ का उससे मेल हो गया। इसके पीछे वशिष्ठ कहाँ रहे, सो पता नहीं है। एक वशिष्ठ दशरथ के यहाँ थे और राम के भी पुरोहित रहे। जब विश्वामित्र राम को माँगने दशरथ की सभा में गए, तब वशिष्ठ का उनसे कोई विरोध न था, वरन् पूरा मेल था (रामायण)। इससे प्रकट है कि या तो यह कोई दूसरे वशिष्ठ थे, या दक्षिण कौशल से कभी कभी उत्तर कौशल भी आते थे, और उस काल तक वहीं रहने लगे थे, तथा विश्वामित्र का उनसे मेल हो चुका था। राम और कल्माषपाद के समकालीन होने से दूसरा

ही विचार ठीक समझ पड़ता है और दो वशिष्ठों की कल्पना अनावश्यक प्रतीत होती है। सगर के पुरोहित भी वशिष्ठ ही हुए। (सगर का विवरण देखिये)। ऊपर के वर्णनों से प्रकट है कि हरिश्चन्द्र सगर और कल्माषपाद राम के थोड़े ही इधर उधर हुये। पार्जितर महाशय ने पौराणिक वंशावलियों का समकालीनेताओं से मिलान कम किया और कई सामञ्जस्यपूर्ण कथाओं को ब्राह्मणों की कल्पना बतला कर इन लोगों में शताब्दियों का अन्तर माना, अथच सभी चन्द्रवंशी वंशावलियों को अधूरा कहा। इसी लिए उन्हें कई वशिष्ठों की निराधार कल्पना करनी पड़ी। पुराणों में केवल दो वशिष्ठ हैं, अर्थात् एक मैथिल निमि द्वारा मरने वाले और दूसरे उपर्युक्त व्यक्ति। हरिश्चन्द्र के देवराज और सवर्ण के सुवर्चस वशिष्ठ चाहे दो हों, किन्तु समझ एक ही पड़ते हैं। पराशर अवश्य एकाधिक हैं। एक पराशर राम के समय वाले शक्ति पुत्र हैं, और दूसरे परीक्षित (पौरव नं० ५५) को भागवत सुनाने वाले शुक्रदेव के पितामह तथा कृष्ण द्वयपायन व्यास के पिता। दक्षिण पांचाल (नं० ४८) अणूह (मत्स्य ४९, ५६) के श्वसुर कोई दूसरे शुक्रदेव थे, क्योंकि उनका समय परीक्षित से बहुत पूर्व है और इस काल भी शुक्रदेवजी लड़के ही थे।

१७—अब भार्गवों का वंश उठाया जाता है। भृगु ब्रह्मा के दस मानस पुत्रों में से एक और बड़े मान्य प्राचीन ऋषि थे। आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का अपमान परीक्षा लेने को किया, किन्तु इनको इससे क्षति न पहुँची। कथा दाष्टान्तिक मात्र है। प्रयोजन इनकी प्राचीन महत्ता से है। इनके पुत्र च्यवन ऊपर आ चुके हैं। एक शुक्राचार्य (हरिवंश) हिरण्यकशिपु तथा बलि के पुरोहित थे, जिनके पुत्र सन्द और मर्क प्रह्लाद के शिष्य थे। इन दोनों का कथन ऋग्वेद में भी है। दूसरे शुक्राचार्य भृगु के दूसरे पुत्र थे जो ययाति, (पौरव नं० ६) के समकालीन (म० भा०) वृषपर्वा के पुरोहित थे। इन दोनों की कन्यायें देवजानी तथा शर्मिष्ठा ययाति को ब्याही थीं। पहली के यदु और तुर्वश नामक शुक्र के दौहित्र हुए और दूसरी के अनु, दुह्यु और पुरु नामक वृषपर्वा के दौहित्र। इन पाँचों वंशों के

कथन वेद में बहुत अधिकता से हैं। शुक्राचार्य ययाति (नं० ६) के श्वसुर थे, तथा इनके बड़े भाई च्यवन (नं० २) आनव नरेश शर्याति के दामाद जान पड़ते हैं। शायद भृगु दीर्घजीवी और शुक्र वृद्धवय के पुत्र थे। सुकन्या ने च्यवन की सेवा तो अच्छी की, किन्तु बिना राजसी ठाटबाट के स्त्री की भाँति रहने से इनकार किया, अथवा अनिच्छा प्रकट की। अनन्तर किन्हीं दो वैद्यों (म० भा० में आश्विनो) ने इस नियम पर वृद्ध च्यवन को युवा करने का वचन दिया कि उनके युवा होने पर सुकन्या उन तीनों में से जिसे पसन्द करे वही उसका पति हो। च्यवन युवा हो गये और सुकन्या के पसन्द करने पर राजसी ठाट से उसके साथ रहने लगे। च्यवन की भी महत्ता कम न थी। आपने इन्द्र तक का सामना किया, जिसमें वेदानुसार पराजय तथा महा-भारतानुसार विजय पाई। वेद में आपका वृद्ध से युवा होना कई बार लिखा है। पार्जितर महाशय ने साधार कथन किया है कि आनर्त राज्य के पतन पर च्यवन हैहयों के यहाँ रहने लगे। हैहय का नं० २५ है, तथा शर्याति स्वयं वैवस्वत मनु के पुत्र लिखे हैं। हरिवंश में आया है कि सूर्यवंशी युवनाश्व के भाई हर्यश्व को उनके श्वसुर मधु दैत्य ने आनर्त का राज्य दिया, जहाँ उनके पीछे उनका दत्तक पुत्र यदु राजा हुआ। हर्यश्व की बहिन अग्निवर्ण नामक नागराज को ब्याही थी, जिसकी पाँच पुत्रियों के साथ यदु का विवाह हुआ। इन्हीं यदु के वंशधरों ने गिरि गोमन्त (गोवा) की ओर करवीरपुर तथा क्रौंचपुर बसाये थे, जिनके तत्कालीन स्वामियों के समय श्रीकृष्णचन्द्र उधर गये। यह सूर्यवंश शर्याति ही का समझ पड़ता है, अथवा सम्भव है कि उनके पीछे का हो। शायद कथित मधु दैत्य वास्तव में यदुवंशी (नं० ३९) मधु नरेश थे। यही बात ठीक समझ पड़ती है, क्योंकि लवणासुर को मार कर जब रामानुज शत्रुघ्न ने मथुरा में अपना राज्य जमाया और फिर स्वपुत्र को वहाँ का शासक बनाया, तब हरिवंश के अनुसार मथुरा का अपनी समझ कर यदुवंशी नरेश (नं० ४३) भीमसात्वत ने उस पर अधिकार कर लिया। यदि वह मधु दैत्य की होती, तो उसे वे अपनी कैसे समझते ? यह प्रकट है कि शर्यातों के पीछे पुण्यजन

राक्षसों ने आनर्त पर अधिकार किया, तथा भार्गव हैहयों के पुरोहित हुए, एवं शार्यात क्षत्रिय हैहयों में मिल गए। भार्गवों का खास मान हुआ और उन्हें धन भी अच्छा प्राप्त हुआ। कुछ दिनों में धनाभाव से हैहयों ने भार्गवों से द्रव्य माँगा। उन्होंने भी अपने पास धनाभाव बतलाया, किन्तु खादने से उनके यहाँ प्रचुर द्रव्य निकला (म० भा०)। इस पर क्रुद्ध होकर हैहयों ने गर्भ तक फाड़ फाड़ कर उनके वंश का नाश किया, केवल और्व नामक एक भार्गव बच रहे। उन्हीं के पुत्र ऋचीक ऋषि प्रकट कारणों से शस्त्री हुए। महाभारत शान्ति पर्व दान धर्म में ऋचीक का और्वात्मज होना लिखा है। उनका विवाह विश्वामित्र की बहिन सत्यवती से हुआ। सत्यवती पुत्र जमदग्नि और विश्वामित्र के जन्म प्रायः साथ ही हुए। जमदग्नि के पाँचवें पुत्र परशुराम ने पुराना और पिता का नया बैर निकाल कर हैहयवंशी (नं० ३४) अर्जुन का युद्ध में बध किया। अर्जुन और उनके पिता कृतवीर्य दोनों बड़े प्रतापी और विजयी थे। समझ पड़ता है कि वृद्धावस्था में अर्जुन मारे गए। यदि यादव (३९) मधु के दौहित्र यदु के एक ही पुत्र पीछे आनर्त राज्य राक्षसों ने जीता हो, तो भी यह समय दशरथ के समकालीन सत्त्वन्त का पड़ता है। उधर भार्गवों की कम से कम चौथी पीढ़ी वाले परशुधर अर्जुन (३४) के समकालीन थे, सो भार्गववंश का यदु से कुछ पहले ही साहंज या महिषमन्त के समय हैहयों का पुरोहित होना समझ पड़ता है। इस सम्बन्ध में निकट ऊपर का नोट १५, भी देखिए।

१८--द्रुपद के पिता पृषत् (उत्तर पाँचाल नं० ४९) गंगा द्वारवासी, द्रोण के पिता, आंगिरस भरद्वाज के मित्र थे। भरद्वाज ही ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र सिखलाया और उन्होंने द्रोण को (म० भा०)।

१९--दत्तात्रेय ने हैहयार्जुन ३४, पर कृपा की जिससे उसका प्रताप बढ़ा। उनके पुत्र निमि ने पहला श्राद्ध किया। जमदग्नि ने भी यही किया।

२०--नरनारायण और बादरायण विश्वामित्र के पुत्र कहे गए

हैं। नरनारायण युधिष्ठिर के समकालीन तथा बादरायण बुद्ध के पीछे वाले होने से विश्वामित्र के वंशधर मात्र हो सकते हैं।

२१—वैशाली के (नं० २२) मरुत का पुत्र दम हुआ। उसका आठवाँ वंशधर त्रिण्विन्दु त्रेता में राजा था। उसकी पुत्री इलविला के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के पुत्र वैश्रवण हुए। (वायु ७०, २९, ५६, ब्रह्माण्ड, III ८, ३४, ६२, म० भा०, लिंग ६३, ५५, ६६, कूर्म I ९, ७, १५, पद्म २६९, १५, १९, भागवत IX २, ३२ रामायण, VII २, ५, ९, III २२,) इनकी कुलीनास्त्री के पुत्र कुबेर नर्मदा पर हुए (शतपथ ब्राह्मण XIII ४, ३, १०) और पौत्र नलकूबर। कुबेर ने सुमाली राजस से लंका जीती। माल्यवन्त और माली उसके भाई तथा पुष्योत्कटा, मालिनी और राका नाम्नी तीन कन्यायें थीं। यही तीनों वैश्रवण को मिलीं। इनमें पहली के पुत्र रावण तथा कुम्भकरण हुए, दूसरी के विभीषण और तीसरी के खर तथा शूर्पणखा (कन्या)। इसके पति को रावण ने बे जाने हुए थोड़ी ही अवस्था में मार डाला। इसी से शूर्पणखा का वह बहुत मान करता था (म० भा०)। रावण ने दक्षिण पाँचाल नरेश (नं० ४१) अनरण्य को युद्ध में मारा (रामायण)। पौलस्त्यों की तीन शाखायें प्रसिद्ध हैं, अर्थात् आगस्त्य, कौशिक या वैश्वामित्र तथा अन्य पौलस्त्य। पौलह और ऋतु भी आगस्त्य थे। पुलस्त्य ने पुत्रवान हांकर भी अगस्त्य वंशी एक बेटे को गोद लिया था, जिससे उनकी आगस्त्य शाखा चली। अगस्त्य का वंश बहुत बड़ा था।

२२—युधिष्ठिरी राजसूय के सम्बन्ध में भीम ने उत्तर कौशलेश श्रावस्ती नरेश वृहद्रथ तथा अयोध्या नरेश पुण्यात्मा दीर्घयज्ञ को हराया (म० भा० सभा पर्व)।

२३—विदेह वंशी धृति (नं० ५२) और बहुलाश्व, नं० ५३, यादव श्रीकृष्ण, (नं० ५५) के समकालीन थे (भागवत)।

२४—निषद, विदर्भ, दक्षिण कोशल, चेदि और दशार्ण मिली हुई रियासतें थीं (प्रधान)। निषदराज वीरसेन के पुत्र नल वैदर्भ भीमरथ (३४) के दामाद थे। भीम रथ और चेदि राज सुबाहु दोनों दशार्ण नाथ सुबुध्न के दामाद थे (म० भा० वन पर्व)। दमयन्ती-

भैमी नल की रानी थीं। उत्तर पांचाल नरेश भृग्यश्व (नं० ३५) के पुत्र वेदधि तथा राजा मुद्गल को नलायनी इन्द्रसेना ब्याही गई (ऋग्वेद तथा म० भा० ।)

२५—अर्जुन पौरव नं० ५३ के भाई सहदेव ने विदर्भनरेश भीष्मक तथा दक्षिण कौशलेश को हराया (सभाष्व म० भा० ।)

महाभारत आदि में और भी बहुतेरी समकालीनतायें मिलेंगी। इन सब की टक्कर उपर्युक्त वंशावलियों से बैठ जाने से उनकी दृढ़ता प्रमाणित होती है। आगे के वर्णनों में और भी सम सामयिक विवरण आवेंगे। यहाँ मुख्य कह दिए गए हैं।

— — —

दसवाँ अध्याय

मनु-रामचन्द्र काल (त्रेतायुग)

प्रायः १९००—१२५० बी० सी० सूर्यवंश

त्रेतायुग के विषय में दसवें से १३ वें अध्यायों तक जितने कथन हैं, उनके आधार बहुधा वहीं हैं, तथा शेष १२ वें अध्याय के अन्त में और छठवें से आठवें अध्यायों में हैं। पूर्ववाले तीनों वैदिक अध्यायों से प्रकट है कि वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का कथन प्रचुरता से है, किन्तु सामूहिक क्रमबद्ध वर्णन का अभाव है। इससे केवल वेदों के सहारे सक्रम इतिहास का लिखना कठिन है। ऐसा करने में बहुत करके अनुमानों का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर भी वेदों में घटनाओं के जो कथन हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं। पुराणों और इतिहासों में कथित घटनाओं को पाश्चात्य लोग कभी-कभी अनिश्चित कथा कहानी मात्र मानते थे। कुछ पौराणिक गाथाएँ अनिश्चित हैं भी किन्तु उनके मुख्य कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनमें से साहित्य तथा माहात्म्य सम्बन्धी अत्युक्तियाँ निकाल डालने से निश्चित इतिहास ज्ञात हो सकता है। पुराणों के सब से अधिक निश्चित भाग वंश वृत्त हैं। प्रत्येक राजकुटुम्ब अपनी वंशावली को बड़ी युक्ति के साथ रक्षित रखता था। राजपुरोहितादि भी राजकुल के वंशवृत्त का बड़ी सावधानी से रक्षण करते थे। पुराणों में वंश-वलियों के विवरण बहुत स्वल्प अन्तर के साथ एक दूसरे से मिलान भी खा जाते हैं। इन कारणों से वंशावलियाँ दृढ़ समझ पड़ती हैं। केवल इन्हीं को दृढ़ मान लेने से हम वैदिक घटनाओं के आधार पर क्रमबद्ध इतिहास लिख सकते हैं। पुराणों के अनिश्चित भागों का सहारा न लेने से भी यह इतिहास अच्छा बन सकता है। इसलिए वैदिक समय का इतिहास लिखने में हम पुराणों में लिखित वंशवृत्तों

का सहारा लेकर अन्य घटनाओं में वेदों ही को प्रधानता देंगे और, पुराणों की दृढ़ तथा लोकमान्य बातों को ही मिला कर ऐतिहासिक शुद्धता का पूरा ध्यान रखेंगे। चौथे अध्याय में पौराणिक राजवंशों का कथन हा चुका है और ५ वें में पहले वंश का भी सहारा लेकर इतिहास कहा जा चुका है। अब वंश नं० २ व ३ के सहारे पर यहाँ वैदिक समय का इतिहास लिखा जावेगा। नं० २ सूर्यवंश है और नं० ३ चन्द्रवंश।

ऊपर कहा जा चुका है कि चालुष मन्वन्तर की मुख्य घटनाएँ समुद्रमन्थन और बलिवन्धन हैं, जिनका वर्णन ५वें अध्याय में हो चुका है। बलिवन्धन के पीछे मगध पर्यन्त देशों में आर्यों की राजधानियाँ स्थिर होने लगीं। चालुष मनु के पीछे पहला राजघराना जो महत्ता को प्राप्त हुआ वह सूर्यवंश ही था। स्वायम्भुव और वैवस्वत मन्वन्तरों के बीच में कुछ राजघरानों के नाम अवश्य मिल सकते हैं, किन्तु उनके विजयों, वंशवृत्तों आदि का पूरा पता नहीं चलता। आर्यों के शत्रुओं में दैत्य दानवों आदि का हाल कुछ विस्तार से लिखा है। आर्य नेताओं में पाँचों मनु, नृसिंह और वामन के नाम मिलते हैं। स्वायम्भुव मनु के वंशधरों के पीछे हमको सब से बड़ा राजकुल सूर्यवंश का मिलता है, जिसके पहले स्वामी वैवस्वत मनु स्वयं किसी सूर्य नामक व्यक्ति के पुत्र कहे गये हैं।

आर्यों की दूसरी भारतीय धारा—मनुवंश—उत्तर कोशल महा-जनपद। फारस के उत्तर पूर्व से अफ़ग़ानिस्तान और पामीर तक किसी स्थानमें आर्य सम्राट्, इन्द्र का राज्य था। उनके युद्ध दैत्य दानवों आदि से हुआ करते थे। बृहस्पति उनके पुरोहित थे तथा चन्द्र औषधियों और वनस्पतियों के स्वामी। एक बार चन्द्र गुरु पत्नी तारा को भगा ले गए। वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे। बृहस्पति के प्रयत्नों से इन्द्र ने चन्द्र से तारा फेर देने को बहुत कहा सुनी की और उनके न मानने पर सेन-सन्धान भी कर दिया। चन्द्र ने दैत्य-दानवों की सहायता से उन्हें हरा दिया। अनन्तर सन्धि होकर तारा गुरु को मिल गई, तथा बृहस्पति के यहाँ कुछ ही पीछे उत्पन्न तारा पुत्र बुध, चन्द्र की वास्तविक पितृत्व

के कारण उन्हें मिला। वैवस्वत मनु नामक एक दूसरे प्रधान आर्य थे, जिनकी पुत्री इला का समय पर बुध से विवाह हुआ। जो इन्द्र चन्द्र की मन मैली हुई थी, वही शायद मनु और बुध के भारत आने की कारण हुई, अथवा यह भी सम्भव है कि उनका इधर आना अन्य कारणों पर अवलंबित हो (हरिवंश और महाभारत)। हमारे पाँचवें अध्याय में इसका कुछ कथन हो चुका है। दलाल के कथनों तथा मन्वन्तरों में आया है कि आर्य लोग किन दशाओं में भारत में आये। यहाँ दूसरी विजयिनी आर्य धारा का विवरण हो रहा है। पार्जितर महाशय का मत है कि यह धारा तिब्बत की ओर से आई। जो हो, हम वैवस्वत मनु के अयोध्या तथा बुध को प्रतिष्ठानपुर (भूँसी प्रयाग के इस पार) में स्थापित होते देखते हैं। सम्भवतः इनके इलात्रत से आने से चन्द्रशाखा ऐल कहलाई। बुध की स्त्री इला थी, जिस के वंशधर भी सारे ऐल थे।

इला के कारण भी ऐल नाम हो सकता था, अथवा इस नामकरण की इला और इलात्रत दोनों कारण हैं। मनु के एक पुत्र सुद्युम्न भी किम्पुरुष कहे गए हैं। वे इलात्रत चले गए। उनके तीन पुत्र उत्कल, विनताश्व और गय थे। उत्कल का उत्कल देश (गया के दक्षिण पच्छिमी बंगाल) मिला, विनताश्व उपनाम हरिताश्व का कोई पच्छिमी देश तथा गय का गया और पूर्वी प्रान्त (मत्स्य १२, १८ पदम V ८, १२३)। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि हरिताश्व ने उत्तरी कुरु तथा पूर्वी देश पाये (म० भा० ७५, ३१, ४२, ३)। सुद्युम्न के ५० और पुत्र थे जो आपसी युद्ध में कट मरे। अयोध्या का बसाना बाल्मीकि ने मनु द्वारा लिखा, तथा कहीं कहीं उनके पुत्र इक्ष्वाकु द्वारा इस पुरी का बसाया जाना भी कथित है। जान पड़ता है कि यह कार्य मनु ने प्रारम्भ किया और इक्ष्वाकु ने पूरा। मनु के मुख्य उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा हुए। उनके अन्य पुत्रों में नाभाग या नृग, धृष्ट, नरिष्यन्त, प्रांशु, नाभानेदिष्ठ, करुष, शर्याति, प्रषधू आदि थे। नाभाग नृग को कहा है। इधर इसी वंश के राजा नं० २८ का नाम भी नाभाग था। नृग का महादानी होना प्रसिद्ध है। इसी गड़बड़ में उन्हें एक बार शाप भी मिला। शर्याति ने कैम्बे की खाड़ी के पास

राज्य स्थापित किया, जो कई पीढ़ी चला । इसका कथन आगे होगा । धृष्टि के विषय में कुछ विशेष कथन नहीं है । शिवपुराण का कथन है कि धाष्टी के बाल्हीक देश मिला । कारुषों का आधिपत्य रीवां तथा पूर्वी सोन पर हुआ । कारुष क्षत्रियों की वीरता प्रसिद्ध है । श्रीकृष्ण बलराम से युद्ध करने वाले मुष्टिक, चाणूर कारुष थे । नरिश्यन्त अनिश्चित हैं । प्रषध्र शाप वश शूद्र होगए । नाभाग और तत्पुत्र अम्ब-रीष का अधिकार उत्तरी यमुना पर भी लिखा है । इसका विवरण यथा समय होगा । नाभानेदिष्ठ से वैशाली राज्य और वंश चले । इसका भी विशेष कथन यथास्थान आवेगा ।

इक्ष्वाकु और तद्वंश

इनके सौ पुत्र कहे गए हैं, जिनमें शकुनि, वशाति, निमि और विकुक्षि की मुख्यता है । विकुक्षि अयोध्या के राजा हुए । कहते हैं कि निमि ने मिथिला प्राप्त करके जयन्त में राजधानी बनाई । पहले जयन्त राजधानी बनी और बहुत काल पीछे मिथिला (वायु पु० ८९, १, २, ६ ब्रह्माण्ड iii ६, ४, १, ६) । यह ठीक है किन्तु निमि इन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र थे, सो अनिश्चित है । कारण यथास्थान आवेगा । शकुनि के नेतृत्व में ४५ ऐक्ष्वाकु उत्तरायथ पंजाब में राज्य करने लगे तथा वशाति के नेतृत्व में ४८ भाई दक्षिणापथ में स्थापित हुए । इनमें दंडक भी एक थे । इन्हीं के नाम पर महाकान्तार दंडक वन कहलाया । समझ पड़ता है कि उधर जाने पर यातो वशाति के स्थान पर या उनके मरने पर दंडक की प्रधानता हुई होगी । इनके पुरोहित शुक्राचार्य थे । इनकी अनुपस्थिति में राजा ने इनकी कन्या से व्यभिचार कर डाला । पलटने पर जब शुक्र ने हाल सुना तो शाप दिया कि प्रजा समेत राजा नष्ट हो जावे । अनन्तर वे तो अन्य ऋषियों सहित जनस्थान चले गए और इधर यह उपनिवेश नष्ट होकर जैसा का तैसा जंगल होगया । सम्भवतः शुक्र के प्रयत्नों से ऐसा हुआ होगा ।

मुख्य ऐक्ष्वाकु विकुक्षि ने यज्ञार्थ शिकार खेलने जाकर मारे हुए पशुओं में से मार्ग में खाना बना कर एक शशक का भक्षण कर लिया, जिससे वे शायद शशाद कहलाये । इस उपाधि से उस काल यज्ञ का

गौरव समझ पड़ता है। ये राजर्षि भी कहलाये थे। इनके पुत्र पुरंजय ने इन्द्र की सहायता करके ककुत्स्थ की उपाधि पाई, जिससे इनका वंश ऐक्ष्वाकु के साथ काकुत्स्थ भी कहलाया। विश्व-गश्व का हयदल किसी युद्ध से पराजित होकर न पलटा। इन राजाओं के समय उधर चन्द्रवंशी भारी उन्नति कर गये। इनमें नहुष, ययाति, यदु, पुरु, आदि सम्राट हुए, जिनके कथन आगे आवेंगे। सूर्यवंशी (नं० १०) श्रावस्त ने श्रावस्ती पुरी बसाई। कुवल्याश्व ने पराक्रमी धुन्ध राक्षस को मार कर धुन्धमार की उपाधि पाई। इस युद्ध में राजा के कई पुत्र काम आये। इस काल अश्व नाम पर कई राजे हुए। इनमें हयदल की मुख्यता समझ पड़ती है। दृढाश्ववीर, लोकप्रिय और शान्तिरक्षक हुआ। निकुम्भाश्व ने युद्धों तथा यज्ञों के बाहुल्य से अपना कोष बिगाड़ा। इनके पुत्र दूसरे युवनाश्व, धार्मिक, वीर और यज्ञकर्ता थे। वे घर में शशकवत सीधे किन्तु युद्ध में सिंहवत् प्रचण्ड थे। प्रसिद्ध मान्धातु इन्हीं के पुत्र थे।

मान्धातु और वंशज

इस काल तक यादवों का प्रभाव बढ़ चुका था और यादव नरेश शशिविन्दु ने पौरवों को राज्यच्युत किया; तथा द्रुह्यु वंशियों को भी दबाया। अनन्तर उनके वंशज छोटे-छोटे राजा होकर बलहीन हो गए। मान्धाता का विवाह शशिविन्दु की पुत्री बिन्दुमती से हुआ। आप केवल १६ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। यह गौरवर्ण, अच्छे डील-डौल युक्त और बलवान थे। बिन्दुमती और गौरी के मान्धाता से सम्बन्ध के आधार नवें अध्याय में आ चुके हैं। मान्धाता की कथा महाभारत III १२६, १०४, ६२ VII ६२, २२८१, २ में है। अन्य आधार आगे के एक अध्याय में हैं। कहते हैं कि मान्धाता की सेना दस लाख थी, जिससे आपने सारा भारत, लंका तथा महासागर के टापुओं को जीत कर सम्राट की उपाधि पाई। इनका सम्राट होना सिद्ध है किन्तु इतनी सेना तथा विजयों के कथन असिद्ध। आपके द्वारा आनव जनमेजय (नं० १९), द्रुह्यु वंशी (नं० २१) अंगार, तुर्वश वंशी (नं० २२) मरुत्त, सुधन्वा, गय, आंग (नं० ४६)

बृहद्रथ, पुरु, राम आदि का जीता जाना लिखा है। जनमेजय अंगार और मरुत्त इनके समय में पड़ते भी हैं। एक सुधन्वन (नं० ३९) मागध थे, जिनका समय इनके पीछे पड़ता है। गय स्वयं मनु-वैवस्वत के पौत्र (नं० २ सुद्युम्न पुत्र) तथा पुरु (नं० ७) दोनों मान्धाता से बहुत पहले के हैं। ऊपर दिखलाया गया है कि ऋग्वेद में हारे हुए वंशजों के स्थान पर स्वयं यदु, अनु, द्रुह्यु आदि का हारना (मारा जाना तक) लिखा है। वैसे ही यहाँ गय वंशियों तथा पुरुवंशियों के हराने के स्थान पर स्वयं गय और पुरु के नाम लिखे हैं। प्रयोजन इनके वंशधरों के हारने का है। आंग बृहद्रथ मान्धातृ से प्रायः २५ पीढ़ी नीचे हुए हैं। इनका यहाँ नाम लिखा जाना पौराणिक सम्पादकों की भूल है। राम इस काल कोई प्रसिद्ध राजा न थे। सम्भव है कि वैदिक यज्ञकर्ता राम से प्रयोजन हो। सुधन्वन, अमित और बृहद्रथ कोई अज्ञात साधारण राजे हो सकते हैं, जो मान्धाता से हारे हों। किसी पच्छिमी नरेश अरुद्ध को जीत कर आपने गान्धार प्राप्त किया, यह भी कथन है। अनन्तर मान्धाता द्वारा पराजित द्रुह्युवंशी अंगार के पुत्र गन्धार गान्धार में स्थापित हो गए। अयोध्या नरेश को इस दूरस्थ प्रान्त को स्ववश रखने में मान्धाता के पीछे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मान्धाता न्यायी और सबल शासक थे, जिन्होंने चोरों की लूट मार बन्द कर दी। उत्तर पच्छिमी भारत में घोर अकाल का भी आपने अच्छा प्रबन्ध किया, तथा कुरुक्षेत्र में अनेक यज्ञ किए। प्रसिद्ध सौभरि ऋषि आपके दामाद थे। सौभरि पुत्र गौर ने पूर्व में एक राज्य स्थापित करके अपने नाम पर बसाये हुए गौर नगर को उसकी राजधानी बनाया। शायद इसी नाम पर उत्तरी बंगाल गौड़ देश कहलाता हो। मथुरा में इस काल एक प्रतापी राज्ञस राज्य करता था। एक बार वृद्धावस्था में थोड़े ही से साथियों सहित मान्धाता उस ओर होकर निकले। राज्ञस राज प्राचीन पराजय से इनसे रुष्ट था, सो उसने बड़े भारी दल की सहायता से युद्ध में इनका बध कर डाला।

तदनन्तर अयोध्या में इनका पुत्र कुत्स राजा हुआ। गान्धारों का एक बार तो आप दमन कर सके, किन्तु दूसरे बार पराजित होकर

बन्दी होगए। इसी से आपका नाम पुरुकुत्स (बहुत बदनानाम) पड़ा। तब आपके भाई मुचकुन्द ने ससेन जाकर गन्धर्वों (अफ़ग़ानों) को पराजित करके इनका मोचन किया। पलटने पर बन्दी होने के कारण प्रजा ने इन्हें न माना और इनका पुत्र दुधमुहां बच्चा त्रसदस्यु राजा हुआ, तथा उसके चचा अम्बरीष और मुचकुन्द बली हुए। तरुण होने पर त्रसदस्यु ने गन्धर्वों पर कई आक्रमण किए और उनका बल चूर्ण कर दिया। उसके प्रायः ७० वर्षों के राजत्व काल में उत्तर कौशल की दशा बहुत अच्छी रही। पुरुकुत्स और तत्पुत्र त्रसदस्यु वैदिक नरेश भी हैं। वहाँ भी पुरुकुत्स के बन्दी होने की दशा में त्रसदस्यु का जन्म लिखा है, तथा उनकी बड़ी प्रशंसा है। फिर भी कुछ पंडित लोग वैदिक त्रसदस्यु को इस कारण पौरव मानते हैं कि उनके द्वारा पौरवों को कुछ मिलना लिखा है। इनका पौरव होना असिद्ध है। पौराणिक पौरव वंश में कोई पुरुकुत्स और त्रसदस्यु नहीं हैं। शतपथ ब्राह्मण उन्हें ऐच्वाकु कहता है (XIII ५,४५)। अतएव इस नाम के एक नरेश सूर्यवंशी अवश्य हैं। पुरुकुत्स राज्यच्युत होने पर नर्मदा नदी की ओर चले गए। मुचकुन्द ने माहिष्मती (वर्तमान मांधाता) पुरी बसाई। इन्होंने मान्धाता ही नाम रक्खा होगा, किन्तु पीछे हैहय माहिष्मन्त ने इसे माहिष्मती कहा होगा।

त्रसदस्यु के पीछे नं० २४ सम्भूत (वेद में तृत्त) से नं० २७ श्रुत पर्यंत कोई मुख्यता न हुई; केवल रुरुक शान्तिप्रिय कहे गए हैं और वृक भयानक। तालजंघ हैहय ने अपनी ग्लेच्छ सेना के बल से जब उत्तरी भारत के नरेशों पर आक्रमण किया, तब उत्तर कोशल राज्य रक्षित रहा। वृक का समय तालजंघ से पहले का था। जान पड़ता है कि उन्होंने कभी हैहय दल को हराया होगा जिससे ताल जंघ ने इधर कोशल के प्रतिकूल प्रयत्न न किया।

अनन्तर (नं० २८) नाभाग एक बड़े राजा हुए। नाभाग ने एक वैश्या स्त्री से विवाह किया, जिससे पहले तो इनके पिता अप्रसन्न हुए, किन्तु पीछे उन्होंने क्षमा करके इन्हें युवराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। इससे जान पड़ता है कि ऐसा जाति सम्बन्धी प्रश्न इस काल गौरवपूर्ण न था। नाभाग और अम्बरीष के राज्य यमुना तट पर भी

लिखे हैं। अश्वमेध विकराल युद्धकर्ता थे। जीवन में उनका एक मात्र कार्य युद्ध था। ये विष्णु भक्त भी थे। इन्हीं के एकादशी व्रत में बाधा डालने से ऋषि दुर्वासा पर वैष्णव चक्र छूटा था। (नं० ३०) सिन्धु द्वीप से दिलीप खट्वांग (नं० ३४) तक कोई मुख्यता न थी। कालिदास ने इन्हीं के पुत्र को रघु माना है, किन्तु पार्जितर ने कई पुराणों को मिला कर इनका पुत्र दीर्घबाहु एवं पौत्र रघु कहा है। रघु की सहायता से दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ किया। रघु एक प्रतापी राजा थे, जिनसे पीछे वाले नरेश रघुवंशी कहलाये। दिलीप के अश्वमेध में रघु ने कालिदास के अनुसार सुम्ह, वंग, कलिग, उड़ीसा पति महेन्द्रनाथ, दक्षिणात्य पाण्ड्य, केरल, मलावार, पच्छिमी घाट, कोंकण, पार्श्वीय भारत, फारस के यवनों, उत्तर के हूणों, काम्बोजों, सात पार्वतीय राजाओं, प्राग्ज्योतिष तथा कामरूप को हराया। अनन्तर दिलीप ने अयोध्या ही में रह कर वानप्रस्थ आश्रम का पालन किया।

रघु पुत्र अज का विवाह वैदर्भी इन्दुमती से हुआ। उस स्वयंवर में कालिदास ने निम्न नरेशों की उपस्थिति लिखी है; मगधेश्वर परन्तप, अंगनाथ, अवन्तिनाथ, कार्तवीर्य प्रतीप, नीपवंशज, उत्तर पांचाल, सूर सेनाधिपति सुषेण, कलिगनाथ, हेमांगनाथ, हेमांगद, पाण्ड्य देशान्तर्गत उरग पुर पति, तथा अयोध्या के युवराज अज। मार्ग में प्रियंवद गन्धर्व से अज ने सम्मोहनास्त्र प्राप्त किया। कालिदास ने इस काल सूर सेनों को मथुरा का राजा कहा है। उपरोक्त सब राजे युद्ध में अज से पराजित हुए। इन्दुमती से अज का परम प्रगाढ़ प्रेम था। इन्हीं दम्पति के पुत्र रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ हुए। इन्दुमती के योवनावस्था ही में मर जाने से अज सात वर्ष तक शोकित रहे और एक दिन इनका शव सरयू नदी में बहता हुआ मिला। किसी ने डूबने का हाल न जाना। आत्म-हत्या का सन्देह रहा। महाराज दशरथ ने नीति-पूर्वक राज्य किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आपकी मुख्य रानियाँ थीं। राजमहिषी कौशल्या दक्षिण कोशल नरेश भानुमान की पुत्री थीं। यह नाम अपनी वंशावली में नहीं है। सम्भवः यह सुदास का दूसरा नाम हो। सुमित्रा मगधपति की कन्या थीं और बाबाता कैकेयी उत्तरी पच्छिमी आनव नरेश केकय की पुत्री। दशरथ

ने सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, मत्स्य, काशी, दक्षिण कोशल, मगध, अंग, बंग, और द्रविड़ नरेशों को जीता तथा अश्वमेध किया। गिरिव्रज के प्रसिद्ध युद्ध में आपने उत्तर पांचाली दिवोदास की सहायता की। कुलीतर के वंशधर तिमिध्वज शम्बर की पराजय में आपका भी विशेष भाग था। शम्बर की स्त्री मायावती रावण की महिषी मन्दोदरी की बहिन थी। उससे व्यभिचार करने के प्रयत्न के कारण शम्बर ने रावण को बन्दी कर लिया था और श्वसुर मय के कहने पर ही छोड़ा था (शिवपुराण)। इसकी राजधानी वैजयन्त थी। गिरिव्रज के युद्ध में एक बार कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाये, जिसके कारण उनके दो वरदान इनके पास थाती की भांति रहे। अंग नरेश लोमपाद इनके मित्र भी थे। उन्होंने कौशल्या से उत्पन्न इनकी पुत्री शान्ता को गोद लेकर उसका विवाह ऋषि शृंग से किया। इन्हीं ऋषि ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, जिससे इनके चार बेटे हुए, अर्थात् कौशल्या से ज्येष्ठ राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से यमज लक्ष्मण, शत्रुघ्न। दशरथ ने कैकेयी के वर मांगने पर राम को छोड़ कर सत्य का पालन किया, और धियोग में शरीर छोड़ कर पुत्र प्रेम निबाहा। अतएव दशरथ केवल राम के पिता होने से प्रसिद्ध नहीं हैं, वरन् स्वयं भी परम पूज्य थे। रामचन्द्र का वर्णन एक पृथक् अध्याय में आगे होगा।

दक्षिण

दक्षिण वाले सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। अब दक्षिण का भी कुछ हाल कह कर तब आगे चलना होगा। हम ऊपर कह आये हैं कि दक्षिण में सब से पहले जाने वाले महापुरुष अगस्त्य ऋषि थे। इनके अतिरिक्त पुलस्त्य ऋषि के वंशधरों ने भी कुछ आतङ्क जमाया था। पुलस्त्य के पुत्र वैश्रवण हुए जिनके पुत्र कुबेर थे। ये यक्षा के राजा हुए और इनका धनाधीश की उपाधि मिली। आप पिता और पितामह के साथ गन्धमादन पर्वत पर रहते थे। यह हिमालय पर्वत के उस भाग का नाम है जो बदरीनाथ से आरम्भ होता है। कुबेर ने दक्षिण जाकर लङ्का नामक टापू जीता और वहाँ अपना

राज्य जमाया। कहते हैं कि लङ्का में उस काल भी राक्षस लोग रहते थे। इन्हीं को जीत कर कुबेर ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया। इसमें माल्यवान् और सुमाली नामक दो भाई प्रधान थे। सुमाली की पुष्योत्कढा, मालिनी तथा राका नाम्नी तीन परम सुन्दरी कन्यायें थीं। कुबेर ने अपने पिता से उतना व्यवहार नहीं रक्खा जितना पिता-मह से। इस बात से वैश्रवण उनसे अप्रसन्न हुए। इनको प्रसन्न करने के विचार से कुबेर ने सुमाली की तीनों कन्यायें इन्हें ला दीं। इनमें वैश्रवण ने पुत्र उत्पन्न किये। पुष्योत्कढा के पुत्र रावण और कुम्भकर्ण हुए, मालिनी के विभीषण और राका के खर पुत्र तथा शूर्पणखा कन्या। जब ये बालक समर्थ हुए, तब इन्होंने नाना से मिल कर भाई कुबेर से लङ्का छीन ली तथा पुष्पक नामक व्योमचारी विमान भी ले लिया। इस प्रकार राक्षसों का राज्य लङ्का में फिर स्थापित हो गया।

रावण को होनहार समझ कर मय दानव ने अपनी कन्या मन्दोदरी उसको ब्याह दी। रावण ने अपने तीनों भाइयों तथा बहिन के भी उचित रीति से विवाह किये। रावण के मेघनाद नामक बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त अक्षयकुमार, नरान्तक सुबाहु आदि कई अन्य प्रतापी रावणात्मज हुए। सुबाहु गन्धर्व-कन्या चित्राङ्गदा से हुआ था। कुम्भकर्ण के पुत्रों का नाम कुम्भ और निकुम्भ था। विभीषण का पुत्र तरणीसेन था और खर का मकराक्ष। रावण के पुत्रों और भतीजों में मेघनाद और मकराक्ष प्रतापी और प्रसिद्ध थे। मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके इन्द्रजीत की पदवी पाई। रावण के आधिपत्य में राक्षसों का प्रताप बहुत बढ़ा। इन लोगों का वंश-विस्तार भी खूब हुआ। रावण ने दिग्विजय के विचार से सारे भारतवर्ष को पराजित करके समग्र देश में अपना आतङ्क जमाया। दक्षिण में किष्किन्धा नामक स्थान में बानरराज बालि राज्य करता था। उससे द्वन्द्व युद्ध में स्वयं रावण पराजित हो गया। इस बात से वह बालि के शौर्य पर इतना मोहित हुआ कि सेना लेकर उसे जीतने का प्रयत्न छोड़ आजीवन उसका मित्र बन गया। बालि ने भी यह मित्रता का सम्बन्ध सदैव पुष्ट रक्खा। बालि के भाई सुग्रीव से

उसका विरोध हो गया था। इसलिये सुग्रीव हनुमान् आदि पाँच मन्त्रियों सहित ऋष्यमूक पर्वत पर रहता था। रावण ने एक युद्ध में बिना जाने अपनी बहिन शूर्पणखा के पति को मार डाला। इस बात का उसे आजीवन पश्चात्ताप रहा और वह शूर्पणखा का सदैव मान करता रहा। दक्षिण में उस काल दण्डकारण्य नामक बड़ा भारी जङ्गल था। उसी को महाकान्तार भी कहते हैं। रावण ने खर को एक छोटी सी सेना समेत दण्डकारण्य में स्थापित किया और अपने नाना के भाई माल्यवान को वहाँ का प्रबन्ध सौंपा। ताड़का नाम्नी एक यक्षिणी भी इन्हीं राक्षसों में मिल गई। उसके पुत्र मारीच और सुबाहु थे। इन दोनों को ताड़का समेत रावण ने विश्वामित्राश्रम (बक्सर, जिला शाहाबाद, बिहार) के समीप स्थापित किया। इस प्रकार लङ्का के बाहर की भारत में रावण की दो सेनायें रहा करती थीं अर्थात् दण्डकारण्य और विश्वामित्राश्रम में। ये लोग ब्राह्मण धर्म के पूर्ण विद्वेषी थे और यज्ञादिक का सदैव विरोध किया करते थे। रावण का भी वास्तविक नाम राम ही जान पड़ता है। राम को आज भी मद्रास की ओर “रामन” कहते हैं और इसी को संस्कृतज्ञों ने “रावण” कर लिया होगा।

सूर्यवंश, रावण और अगस्त्य के कथन रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में बहुतायत से मिलते हैं। बारहवें अध्याय के अन्त में भी आधारों का कुछ कथन किया जायगा।

सूर्यवंशी, शर्यातशाखा, आनर्त राज्य।

शर्याति मनु के एक पुत्र थे। इन्होंने कैम्बे खाड़ी के पास उस देश में अपना राज्य स्थापित किया जो पीछे से आनर्त कहलाया। भृगुपुत्र ज्यवन इनके दामाद थे और पुरोहित भी। इनके वर्णन ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में बहुतायत से मिलते हैं। शर्याति के भारी सम्राट् होने से इनका या किसी वंशधर का ऐन्द्र महाभिषेक हुआ। ज्यवन, इनके भाई उशना कवि उपनाम शुक्राचार्य और शर्यातिवंशी कोई शर्याति सब वेदार्थी थे। इस वंश के विवरण मत्स्य ६९, ९ पट्टम V २३, १० विष्णु VI १, ३४, म० भा० II १३, ३१३, ४० III XII

XIV और XV में हैं। शर्याति के पुत्र आनर्त एवं कन्या सुकन्या हुई। सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याही गई। आनर्त के नाम पर वंश आनर्त कहलाया। आनर्त के पुत्र रोचमान, पौत्र रेव और प्रपौत्र रैवत हुए, जिनके पुत्र ककुमिन थे। इनका वंश आनर्त पर २४ या २५ पुश्तों तक प्रतिष्ठित रहा और तब पुण्यजन राज्ञसों से पराजित होकर हैहयों में मिल गया। हैहय का पुश्त नं० २५ है। वायु पुराण ८८, १, ४ ब्रह्मांड III ६३, १, ४७, ३७, ४१ ह० वं० ११, ६५३, ७ में यह कथा वर्णित है। हैहयों के साथ भार्गव लोग भी जाकर उनके द्वारा सम्मानित हुए तथा उनको धन भी खूब मिला। हैहयों की पाँच मुख्य शाखायें हुईं, जिनमें एक शर्यात भी थे। समय पर बाहरी प्रान्तों पर विजय के कारण हैहयों को धन की आवश्यकता विशेष हुई, किन्तु माँगने पर भी भार्गवों ने अपने पास द्रव्याभाव बतलाकर कुछ न दिया। इससे भार्गवों का हैहयों से बिगाड़ हो गया और समय पर हैहयों के साथ शर्यात वंश भी पुनर्बार हतप्रभ होकर पहाड़ियों में मिल गया। हैहय पतन का कथन यथास्थान होगा। यह रामचन्द्र से कुछ आगे पीछे का घटनाचक्र है। हैहय वंश प्रतर्दन, अलर्क और सगर के प्रयत्नों से गिरा। इसमें भार्गव वंशी परशुराम और अग्नि और तथा दूसरे वंश के भरद्वाज के भी प्रयत्न हैहयों के प्रतिकूल सम्मिलित थे।

पुण्यजन आनर्त देश पर कितने दिन प्रतिष्ठित रहे सो पता नहीं, किन्तु रामचन्द्र से कुछ ही पूर्ववाले मधु यादव (नं० ३९) को हम वहाँ का शासक पाते हैं। हरिवंश में यह कुन्त राज्य कहा गया है। किसी सूर्यवंशी राजा युवनाश्व का भाई हर्यश्व मधु का दामाद था। इन दोनों भाइयों में बिगाड़ होने से अपनी पत्नी की सलाह से हर्यश्व उसके पिता मधु के यहाँ चले गए। सूर्यवंशी नरेशों में नं० ९ व २०, के नाम युवनाश्व थे, किन्तु वे मधु से बहुत पहले के थे। ये युवनाश्व कोई साधारण सूर्यवंशी नरेश समझ पड़ते हैं। मधु ने जामाता हर्यश्व को आनर्त का राज्य दे दिया तथा पुत्र लवण को मधुपुरी (मथुरा) का राज्य दिया। इन्होंने अपने राज्य में आनर्तपुर बसाया। इस प्रान्त को अब कच्छ कहते हैं। मधु द्वारा स्थापित यह सूर्यवंश शायद शर्यात ही हो और उन्होंने अपने दामाद का पुराना वंशाधिकार समझ कर

ही उसे यह राज्य दिया हो। यह सूर्यवंशी शर्याति से पृथक् भी हो सकता है। हर्यश्व ने किसी यदु को अपना दत्तकपुत्र बनाया। हरिवंश में ये यदु ययाति के पुत्र ही कहे गए हैं, यद्यपि समय का भारी अंतर होने से ये कोई दूसरे सूर्यवंशी यदु होंगे। जान पड़ता है कि मधुपुरी इसी मधु की बसाई हुई होगी। यदु के सन्तानों का बहुत शीघ्र वह प्रान्त छोड़ना नहीं समझ पड़ता। उधर मधु के पीछे भार्गवों का भी हैहयों में मिलना नहीं ठीक बैठता; क्योंकि इस घटना की कई पीढ़ियों के पीछे परशुराम का जन्म हुआ। अतएव हर्यश्व चाहे शार्याति हों या न हों, शार्यातों का हैहयों में मिलना यदु और मधु से पूर्व की घटना बैठेगी।

सूर्यवंशी, हरिश्चन्द्र वंश, उत्तर कोशल राज्य।

मुख्य सूर्यवंशी नं० ३० सिन्धु द्वीप के समय अथवा पीछे अनरण्य या उनके वंशियों का एक और सूर्यवंशी राज्य स्थापित हुआ। अनरण्य नं० ३० थे। हम नं० ३५ त्रैयारुण को राजा पाते हैं। इनके सूर्यवंशी होने से राजस्थान पुराणों में अयोध्या ही कहा गया है, यद्यपि उस काल वहां दीर्घबाहु, रघु आदि का राज्य था। समझ पड़ता है कि त्रैयारुण का राज्य कान्यकुब्ज के निकट कहीं पर था।

सत्यव्रत, विश्वामित्र, देवराज और वशिष्ठ की कथा निम्न पुराणों में है:

वायु ८८, ७८, ११६, हरिवंश १२, ७१७, से १३, ३५३ तक—विष्णु ३, १३, १४। त्रैयारुण राजा बड़ा वेदज्ञ और प्रतापी हुआ। सत्यायन ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्यवंशी राजा त्रैयारुण एक बार अपने पुरोहित वृष के साथ रथारोही होकर कहीं जा रहा था कि एक नवयुवक ब्राह्मण उसके नीचे दब गया। राज-वंश के वृद्धों ने निश्चित किया कि इसका अपराधी पुरोहित ही था, सो वृष ने उस ब्राह्मण की चिकित्सा करके उसे आराम कर दिया पर अपने पद से भी त्याग-पत्र दे दिया। इस पर राजा क्षमा मांगकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, तब पुरोहित ने उसका अपराध क्षमा किया।

त्रैयारुण का पुत्र सत्यव्रत उपनाम त्रिशंकु युवराज था। इन्होंने

एक ब्राह्मण की नवविवाहिता स्त्री का अपहरण किया, चांडालों का साथ किया तथा कुल गुरु देवराज वशिष्ठ की धेनु का बध कर डाला। इन्हीं तीनों पापों के कारण ये त्रिशंकु कहलाए और वशिष्ठ की सलाह से पिता द्वारा अधिकारच्युत किए गए। पिता के मरने पर भी त्रिशंकु को अधिकार न मिला और वशिष्ठ ही राज्य चलाते रहे। अनन्तर द्वादश वार्षिक अकाल पड़ा और प्रजा की श्रद्धा इन पर शायद कम हुई, जिस पर इन्होंने स्लेच्छ दल रखकर प्रवन्ध किया। किन्हीं राजनीतिक कारणों से कान्यकुब्ज नरेश विश्वामित्र का वशिष्ठ से बिगाड़ हुआ और म० भा० के अनुमार वशिष्ठ के सतगुने शबर और स्लेच्छ-दल ने विश्वामित्र की सेना को हराया। इस पर पुत्र को राज्य देकर विश्वामित्र तप करने लगे। वशिष्ठ ने इनका आतिथ्य तो अच्छा किया था, किन्तु शायद मामले में नहीं कर दी। जंगल में त्रिशंकु ने मृगया द्वारा विश्वामित्र के कुटुम्ब का पालन किया, जिस उपकार के उपलक्ष में महर्षि ने भविष्य में नेक चलन रहने का वचन लेकर इन्हें पिछले पापों से मुक्त कर दिया और सिंहासन पर बिठलाया। अब त्रिशंकु ने यज्ञ करना चाहा, किन्तु वशिष्ठ ने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया जिस पर इन्होंने विश्वामित्र द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया। कहते हैं कि त्रिशंकु-कृत पापों के कारण देवताओं ने मख भाग न ग्रहण किया जिस पर विश्वामित्र ने नए देवता बना देने की धमकी दी और तब देवताओं ने चिवश होकर भाग स्वीकार किया। यह वर्णन दार्ष्टान्तिक है। वशिष्ठ १०,००० विद्यार्थियों को पढ़ानेवाले कुलपति भी थे और उनके प्रभाव से त्रिशंकु के यज्ञ में शायद ब्राह्मण लोग नहीं आते थे, जिससे उसमें त्रुटि रही जाती थी, पर विश्वामित्र ने आत्म-प्रभाव से उसे पूर्ण किया। अब इस राज्य से वशिष्ठ की पुरोहिताई उठ गई और विश्वामित्र अपनी प्राचीन इच्छानुसार पुरोहित हुये।

त्रिशंकु के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्र हुए जो बड़े ही रूपवान और युद्ध-प्रिय थे। इन्होंने सारे भारतवर्ष का विजय करके अश्वमेध किया। आप बड़े ही प्रसिद्ध दानी थे। कहते हैं कि कोई याचक आपके दरबार से विमुख नहीं लौटा। वास्तव में वैवस्वत मनु और मान्धाता के पीछे इस कुल में ऐसा प्रतापी और सुयशी राजा और

कोई नहीं हुआ था। सत्यप्रियता और दानशीलता को अतः पर सीमा तक पहुँचाने के लिए हरिश्चन्द्र का नाम संसार में सदा अटल रहेगा। इन्होंने सौमपुर उपनाम हरिश्चन्द्र पुर बसाया। हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र की पुरोहिताई में राजसूय करनी चाही, किन्तु वशिष्ठ ने उन्हें राजर्षि ही माना। यह आपत्ति शायद हरिश्चन्द्र ने भी मान ली। इस पर विश्वामित्र तप करने पुष्कर चले गये और वशिष्ठ फिर पुरोहित हुए। हरिश्चन्द्र के बहुत काल पर्यन्त कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अतः आपने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे वंश हांगा तो प्रथम पुत्र को मैं वरुण पर बलिदान चढ़ा दूँगा। कुछ काल में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहिताश्व पड़ा। राजा सत्यप्रियता के कारण बलिदान वाले संकल्प से विमुख न हो सकता था एवं पुत्र-प्रेम वश उसे पूरा भी न कर सकता था। कुछ सयाना होने पर राजकुमार उक्त प्रतिज्ञा के विमोचनाथ देवराज वशिष्ठ की सलाह से जंगल को चला गया और थोड़े दिनों में लौट आकर उन्हीं के समझाने पर फिर वहीं वापस गया। इसी प्रकार सात बार राजकुमार जंगल से घर आया और हर बार देवराज वशिष्ठ के हठ द्वारा वहीं वापस किया गया। बाईस वर्ष पीछे हरिश्चन्द्र मांस-वृद्धि (जलोदर) रोग से पीड़ित हुआ और कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि यह संकल्प छेदन का ही परिणाम था। अन्त में रोहित की युक्ति से यह स्थिर हुआ कि राजकुमार के स्थान में कोई ब्राह्मण बालक बलिदान दिया जाय, पर बहुत खोजने पर भी कोई ब्राह्मण अपना पुत्र बेचने को प्रस्तुत न हुआ। हाते करते अजीगर्त भार्गव नामक एक वेदर्षि ने अपना मँझला लड़का शुनः शेष १००० गौवों के बदले रोहित के हाथ बेच डाला। इसी गर्हित कर्म के कारण उनकी अजीगर्त (सर्वभक्षी) उपाधि हुई और उनके असली नाम का अब कहीं पता भी नहीं लगता।

यह बालक विश्वामित्र का भागिनेय था और उसे मार्ग में वे मिल गए। शुनःशेष उनके पैरों पड़ा जिस पर उन्होंने उसे चिरजीवी होने का आशीर्वाद दिया। अभागा बालक बोला कि मैं तो बलिदान दिए जाने के लिए बेचा गया हूँ जिस पर विश्वामित्र ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपने पचास पुत्रों को आज्ञा दी कि उनमें से एक

उसके बदले बलिदान हो जावे, पर कोई भी इस पर राजी न हुआ, जिससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्हें देश निकाला का दण्ड देकर आर्यसभ्यता ग्रहीत देश की सीमा पर बसने को विवश किया। तब ये बेचारे दण्डकारण्य में जा बसे। वहाँ इनकी शबर, पुलिन्द आदि जातियाँ स्थिर हुई, अर्थात् ये लोग आर्यों से पृथक् हो गये।

जब पुत्रों ने शुनःशेप को बचाने से इनकार किया तब विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के यज्ञ में पधारे। अयास्य अगिरस की प्रधानता में यह यज्ञ हो रहा था। शायद वदनामा से बचने को वशिष्ठ प्रधान न बने हों। वहाँ इस ब्राह्मण कुमार का यज्ञ स्तूप में बाँधने पर कोई राजी न हुआ जिससे सौ गौवें और लेकर अजीगर्त ही ने उसे बाँधा। अनन्तर कोई उसकी बलि करने पर भी तैयार न हुआ। अन्त में अजीगर्त ने १०० गौवें और लेकर पुत्र के मारने का भी काम अगीकार किया, किन्तु विश्वामित्र के प्रभाव से सभी ने बिना बलि के ही यज्ञ की पूर्णता मान ली और शुनःशेप बच गया। अब इसने अजीगर्त को पिता मानने से इनकार किया होगा और तभी से यह विश्वामित्र का पुत्र माना जाने लगा। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण तथा कई पुराणों में वर्णित है। नर बलि का कोई उदाहरण प्राचीन भारत में नहीं मिलता, केवल यही एक उदाहरण उसके प्रयत्न का लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में आया है कि नरबलि कभी नहीं होती थी, केवल मनुष्य का पुतला बलिदान में चढ़ाया जाता था। शुनःशेप के बलि दिये जाने में लोगों की भारी अश्रद्धा से इस कथन को पुष्टि मिलती है। कहते हैं कि इस यज्ञ के पीछे हरिश्चन्द्र रोग मुक्त हुए और रोहिताश्व राजधानी में विराजे।

वचन पालन का इतना उत्कट उदाहरण दिखलाने के पीछे महाराज हरिश्चन्द्र को अपने सत्यपालन पर अहंकार हो गया। उदारता और सत्यप्रियता इनके पुनीत जीवन में योंही परम प्रचुरता से मिली हुई थीं, अतः राजा का अभिमान और भी दिनों दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि आपके साधारण व्यवहार में धृष्टता और दर्प की मात्रायें विशेष हो गईं अथच आप ब्राह्मणों, ऋषियों एवं भविष्य-भाषियों का भी अपमान करने लगे। नरबलि करने की

तत्परता से इनकी लोक में कुछ पहले ही से अपकीर्ति फैल चुकी होगी, सो उपर्युक्त कारणों से लोगों को इनके प्रति और भी अश्रद्धा और कुछ रुष्टता पैदा होने लगी। महर्षि विश्वामित्र शूनःशेष के कारण इनसे रुष्ट थे ही, सो इनकी दर्पोक्ति से तग आकर उन्होंने राजा की सत्यप्रियता की कड़ी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र परीक्षा लेने को आ ही रहे थे कि राजा ने दैववश ऐसा स्वप्न देखा कि अपना राज्य उन्हें दान दे दिया है। स्वप्न में दिये हुए राज्य को भी फिर ग्रहण करने की इच्छा न करके इन्होंने प्रतिग्रह ग्रहीता के नाम पर राज्य का स्वत्व स्थिर किया। इसी बीच में विश्वामित्र ने आकर राजा की इच्छा से राज्य-भार अपने हाथ में लिया और साङ्गता में हरिश्चन्द्र से प्रचुर धन मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के साथ राज्यकोष भी उनका हो चुका था, सो राजा को यह धन बाहर से देना चाहिये। इस पर राजा हरिश्चन्द्र ने काशी जी में जाकर वहाँ स्त्री, पुत्र और स्वयं अपने को बेच कर यह ऋण चुकाया। इनको शव-दहन की चुङ्गी वसूल करने का काम मिला।

थोड़े दिनों में इनका पुत्र रोहिताश्व सर्पदश से मूर्छित हो गया और मृत समझ कर इनकी रानी उसे शवागार ले गई। वहाँ पर कर में कुछ न मिलता देख इन्होंने अपने पुत्र का कफन कर स्वरूप लेना चाहा। यह दशा विश्वामित्र से भी न देखी गई। वे हरिश्चन्द्र का राज्य वास्तव में नहीं चाहते थे वरन् राजा को सत्यभ्रष्ट करना मात्र उनको अभीष्ट था। जब इस कड़ी जाँच में भी राजा का सत्य न ढिगा तब विश्वामित्र ने हार मान कर अयोध्या का राज्य हरिश्चन्द्र को लौटा दिया। दैववश उसी समय रोहिताश्व की मूर्छा भंग हो गई और जब हरिश्चन्द्र ने दान किया हुआ राज्य स्वयं लेना न चाहा, तब विवश होकर विश्वामित्र ने रोहिताश्व को राजा बनाया। इस कड़ी जाँच में पूरे उतरने के कारण राजा का यश फिर से जाज्वल्यमान हो गया और लोक श्रद्धा इनमें बढ़ी। इस प्रकार उदारता और सत्य का परमोज्वल उदाहरण दिखाकर महाराज हरिश्चन्द्र ने अपना नाम अमर कर लिया। इनके पवित्र चरित्रों के नाटक अब तक खेले जाते हैं। यद्यपि पराक्रम तथा विजयों में हरिश्चन्द्र मान्धाता के सम न थे

तथापि चरित्र गौरव के कारण आपका महत्व उनसे बहुत बढ़ गया। संस्कृत के 'चंडकौशिक' नाटक में इस कथा का सविस्तार वर्णन है। यह चण्डकौशिक वाली कथा देवी भागवत, कन्द पुराण आदि में आई तथा अनिश्चित है। यह निश्चित रूप से किसी मान्य पुराण में नहीं है।

रोहिताश्व ने रोहतास गढ़ बसाया। इनके पुत्र हरित उपनाम चम्प ने चम्पापुरी (वर्तमान भागलपुर) बसायी, ऐसा कहीं-कहीं कथित है, किन्तु आनव चम्प द्वारा उसके बसाये जाने का पौराणिक विवरण अधिक मान्य है क्योंकि वहाँ उसी वंश का राज्य था। चम्प पुत्र चंचु उपनाम सुदेव एक अच्छा शासक था। चंचु पुत्र विजयनन्दिन वीर पुरुष था। जैन पंडित हेमचन्द्र ने इन्हें प्राचीन भारत के ६३ महापुरुषों में से एक माना है। इसके पीछे इस वंश का विवरण अप्राप्त है। पुराणों में विजयनन्दिन मुख्य शाखा में रख दिये गये हैं, किन्तु इस वंश के अलग माने जाने से इसका पीछे का हाल अप्राप्त हो गया है। शायद सगर इन्हीं के वंशधर हों।

सूर्यवंशी सगर वंश, मध्य भारत में कोई स्थान।

मुख्य सूर्यवंशी शाखा वाले (नं० ३८) दशरथ के समय में या उससे कुछ इधर उधर प्रायः मध्य प्रदेश में या उससे कुछ उत्तर (नं० ३८) बाहु नामक एक सूर्यवंशी राजा हुए। सम्भवतः ये हरिश्चन्द्र के वंशधर हों। पुराणों में ऐसा लिखा भी है। इस काल नं० ३६ हैहय नरेश तालजंघ ने म्लेच्छ सेना बना कर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसमें अयोध्या नरेश पर तो आक्रमण न हुआ, किन्तु काशी, पौरव, तथा कान्यकुब्ज राज्य गिरे। इन्हीं के साथ बाहु का भी राज्य गिर गया और वे अग्नि और ऋषि के आश्रम में रहने लगे। वहाँ पर यादवी रानी से सगर नामक उनका प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। बाहु का शरीर पात उसी आश्रम में हुआ। अग्नि और ऋषि का सगर से सम्बन्ध मत्स्य १२,४०, तथा पद्म V ८, १४४ में कथित है। सगर द्वारा हैहयों का जीता जाना निम्न आधारों पर आलंबित है। ब्रह्माण्ड III ४८, ९, १०, म० भा० III १०६, ८ ८३१। महाभारत में बाहु और सगर के अन्य विवरण भी हैं।

अग्नि और्व-ऋषि शरणागतवत्सल होने के अतिरिक्त हैहयों के वंश-परम्परागत शत्रु भी थे। अतएव उन्होंने सगर का पालन-पोषण किया और उसको अच्छी शिक्षा दी। अनन्तर सगर के युवक होने पर और्व ने यज्ञ करके उसे एक भारी सेना का स्वामी बनाया। सगर स्वयं भी अच्छा प्रबन्धकर्त्ता एवं शूर था। हैहय वीतिहोत्र को काशी-नरेश प्रतर्दन पराजित कर ही चुके थे। उनके वंशधर अनन्त, दुर्जय और सुप्रतीक थे। इस वंश की एक और शाखा तालजंघ के पीछे स्थापित हुई थी। सगर ने इन दोनों हैहय शाखाओं को युद्ध में नष्ट करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। यह समय राम से कुछ ही पीछे का है। इस प्रकार सगर ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित करके यश फैलाया। इनका विवाह वैदर्भी कंशिनी से हुआ। इनके चुने हुये ६०००० योद्धा बड़े ही स्वामिभक्त और प्रचंड युद्धकर्त्ता थे। सगर इनको अपना पुत्र कहते थे। इनकी सहायता से उन्होंने सारे भारतवर्ष पर विजय पाई और कई यज्ञ किये। एक बार अश्वमेध करने में सगर के इन वीर पुत्रों ने ऋषिधर्षण का पातक कर डाला, अर्थात् कपिल ऋषि के आश्रम में यज्ञाश्व देखकर उन्हीं को घोड़े का चोर माना और भारी उपद्रव मचाया। यह देख ऋषि ने उन्हें अपने क्रोधानल में भस्म कर दिया। यह सेन-वध किस प्रकार हुआ सो पुराणों में अमत्त प्रकार से कथित नहीं है। ऋषिधर्षण के कारण इन सैनिकों की मरने पर भी भारी अपकीर्ति हुई। सगरात्मज असमंजस एक उपद्रवी बालक था। खेलते खेलते एक बार उसने प्रजा के कुछ बालकों को नदी में डूबो दिया। इस पर न्यायप्रिय सगर ने उसे पदच्युत करके देश निकाले का दंड दिया था। अब उसी के पुत्र अंशुमान् ने कपिलाश्रम में जाकर ऋषि को अपने पितामह की ओर से सन्तुष्ट किया तथा सैनिकों के सुगति की भी प्रार्थना की। सर्व सम्मति से यह स्थिर हुआ कि प्रायश्चित्तार्थ सगरवंशी पृथ्वी पर गंगाजी के लाने का प्रबन्ध करें। इस वर्णन से समझ पड़ता है कि गंगाजी से कोई भारी नहर खोदवाकर कहीं लाने का प्रबन्ध हुआ होगा। अंशुमान्, तत्पुत्र दिलीप और पौत्र भगीरथ तक ने बराबर तीन पुश्यों तक इस प्रयत्न को जारी रक्खा और तब जाकर राजा

भगीरथ इस शुभ कार्य में सफल-मनोरथ हुये। अंशुमान् राजर्षि कहे गये हैं। दिलीप का राजत्वकाल छोटा ही था। गंगावतरण से महत्कार्य के साधन करने से भगीरथ का बहुत बड़ा यश हुआ।

महाराजा भगीरथ ने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किये। इससे जान पड़ता है कि आपने भी भारतीय राजमंडल को इन यज्ञों के साधन में पराजित किया होगा। भगीरथ के पीछे इस वंश का पता नहीं है। इसका वर्णन बाल्मीकीय रामायण में भी है। महाभारत शान्ति पर्व में आया है कि सगर पहले तालजंघ से हारे और फिर शत्रुओं को जीत कर अश्वमेध कर्त्ता सम्राट् हुये।

सूर्यवंशी, दक्षिण कोशल वंश।

खट्वांग दिलीप के पुत्र महाराजा दीर्घवाहु वाले समय के आस पास हम दक्षिण कोशल में सूर्यवंशी अयुतायुस को शासक पाते हैं। प्रधान ने कई पुराणों में खोज करके इन्हीं का नाम भगस्वर लिखा है। उनके पुत्र ऋतुपर्ण प्रसिद्ध निषधनाथ नल के मित्र थे। नल से अश्व ज्ञान लेकर आपने उन्हें संख्या शास्त्र बतलाया। वही समय विदर्भनाथ (नं० ३४) भीमरथ यादव का था। नल उत्तर पांचाल नरेश (नं० ३६) मुद्गल के श्वसुर एवं उनके पिता भृम्यश्व (नं० ३५) के समधी थे। भीमरथ नल के श्वसुर थे। इन्हीं सम्बन्धों से नल के आधार पर ऋतुपर्ण का समय दढ़ होता है (आधारों का कथन ऋग्वेद X १०२, २, इन्द्र सेना मुद्गलानी ने अपने पति मुद्गल का रथ युद्ध में हाँका। म० भा० III ५७, ४६, नल की कन्या इन्द्र सेना मुद्गल की पत्नी थी। म० भा० बनपर्व में नल की कथा है, तथा उनसे ऋतुपर्ण, भीमरथ आदि से सम्बन्ध कथित है)। ऋतुपर्ण के पात्र सुदास तथा प्रपौत्र कल्माषपाद थे। महाभारत में लिखा है कि राज्ञसों के साथ ये नर-भक्षी हो गए थे। वशिष्ठ इनके पुरोहित थे। विश्वामित्र के भड़काने से इन्होंने वशिष्ठ पुत्र शक्ति को खा डाला, तथा उनके ९९ भाई भी मार कर खाये। इधर ऋग्वेद पर वेदार्थ अनुक्रमणी तथा बृहद्देवता में इन पुत्रों का विश्वामित्र के कहने से पांचाल सुदास या सौदासों द्वारा मारा जाना लिखा है। जान पड़ता है कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ के

प्रयत्नों से हरिश्चन्द्र की पुरोहिताई से अलग हुए और पीछे किन्हीं कारणों से वशिष्ठ उत्तर पांचाल नरेश सुदास के पुरोहित हुये, तब अपना बदला चुकाने को इन्होंने (विश्वामित्र) ने सुदास के पुरोहित होकर वशिष्ठ के कुछ पुत्रों का वध करवाया । सम्भवतः वशिष्ठ का सुदास से भी बिगाड़ हा गया हो । अतएव सुदास को छोड़ वे दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद के यहां पुरोहित हो गए । यहां विश्वामित्र राज्य में अधिकारी तो न हुए, किन्तु किकर नामक राजस का उन्होंने राजा का अन्तरंग मित्र बना दिया, जिससे वशिष्ठ के शेष पुत्र राजा द्वारा मारे गए । ऐसा समझ पड़ता है कि इनके कुछ पुत्र पांचाल में मारे गए और कुछ दक्षिण कोशल में (म० भा० आदि पर्व) । अनन्तर वशिष्ठ ने नियोग से कल्माषपाद की रानी में पुत्र उत्पन्न किया । इसके पीछे वे शायद राम के यहां उत्तर कोशल में चले आये । इसके पूर्व भी दशरथ के यहां शायद आते जाते थे । अयोध्या में वशिष्ठ का विश्वामित्र से शत्रुता शेष न थी । कल्माषपाद के पीछे दक्षिण कोशल में दो शाखायें हो गई, अर्थात्

(३९) कल्माषपाद }अश्मक...उरकाम...मूलक (४२)
 ...सर्व कर्मन...अनरण्य...निध्न...अनमित्र(४३)

दक्षिण कोशल राज्य का विस्तार चौथे अध्याय में दिया जा चुका है । प्रधान महाशय ने लिखा है कि निषध, विदर्भ, दक्षिण कोशल, चेदि और दशार्ण रियासतों की हदें एक दूसरे से मिली हुई थीं । राजा युधिष्ठिर के यज्ञार्थ सहदेव ने विदर्भ भीष्मक तथा दक्षिण कोशलेश को हराया । अश्मक ने पौण्डन्य बसाया । बौद्ध काल में अश्मकों की राजधानी यही पोतन थी । मूलक ने अपने नाम पर मूलक नगर बसाया । पोतन के पीछे यही अश्मकों की राजधानी हुई । इन अंतिम कथनों के आधार आदिम कलिकाल वाले अध्याय में हैं ।

हरिश्चन्द्र, सगर तथा दक्षिण कोशल वंशों पर विचार ।

पुराणों के अनुसार चल कर पार्जितर महाशय ने हरिश्चन्द्र को वैवस्वत मनु का ३३वां वंशधर माना है, सगर को ४०वां, सगरवंशी

भगीरथ को चौवालीसवां, कल्माषपाद को ५२वाँ, मूलक को ५५वाँ, तथा राम को ६३ वां । इस प्रकार थे राम के सीधे पूर्व पुरुष हो जाते हैं और इनके समयों में राम से भारी अन्तर पड़ता है । इधर उनके अनुसार उत्तर पांचाल नरेश सुदास मनु से केवल ४३वीं पीढ़ी पर पड़ते हैं । पुराणों के ही कथन मिलाने से इन्हीं सुदास के सगे पितामह सृजय की दो पुत्रियां राम के समकालीन सात्वन्त यादव के पौत्र भजमान को व्याही थीं (यादव वंशावली देखिए) । राम के मित्र अलर्क के पितामह प्रतर्दन ने वीतिहोत्र हैयय को जीता तथा सगर ने वीतिहोत्र के पौत्र और प्रपौत्र को (काशी और सगर के वर्णन में देखिए) । वही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के पिता तृशंकु को यज्ञ कराते, स्वयं हरिश्चन्द्र के यज्ञ से शुनःशेष को बचाते और ऋग्वेद में सुबास का यश गाते तथा राम को अस्त्र विद्या सिखलाते हैं । ऊपर अनेक प्रसंगों में इस विषय पर अनेकानेक अन्य कारण भी दिए गये हैं । अतएव इन तीन सूर्यवंशी कुटुम्बों का उत्तर कोशल की वंशावली में मिलाना पौराणिक कथनों का तारतम्य बिलकुल बिगाड़ता है । समझ पड़ता है कि गुप्तकालीन पौराणिक सम्पादकों के ज्ञानाभाव से सूर्य की वंशावली बढ़ गई है ।

सूर्यवंशी मैथिल शाखा

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि रावी नदी के किनारे से चल कर माथव नामक राजर्षि अपने पुरोहित रहुगण की सलाह से राप्ती नदी के पूर्व मिथिला प्रान्त में स्थापित हुए । उस काल राजधानी जयंत हुई (वायु ८९, १, २, ६, ब्रह्माण्ड III ६, ४, १, ६) । इधर पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने ऐसा किया । इन्हीं निमि के पुत्र मिथि थे । इनका नाम माथव से मिलता है । सम्भव है कि मिथिला प्रान्त माथव के नाम पर बना हो, अथवा मिथि के । यह भी हो सकता है कि माथव नाम प्राकृत में मिथि के कारण निकला हो । इधर विदेह के सूर्यवंश से १२ नाम छूट भी रहे हैं । इनको जोड़े बिना राजा दशरथ और सीरध्वज जनक की समकालीनता नहीं मिलती । समझ पड़ता है कि सम्भवतः मिथिला में पहले माथव का वंश शासक

रहा हो और दस बारह पुश्यों के पीछे निमि और मिथि ने वहाँ सूर्यवंशी राज्य जमाया हो। राजा निमि यज्ञ करने लगे। इसमें पुरोहिताई के सम्बन्ध में किसी वशिष्ठ से लड़ाई हो गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को शरीर त्याग का शाप दिया। प्रयोजन यह निकला कि दोनों ने द्वन्द्व युद्ध में एक दूसरे का बध कर डाला। मिथि ने मिथिलापुरी बसाई। इसके पीछे सीरध्वज के समय तक इस वंश में कोई मुख्यता नहीं कथित है। सीरध्वज ने सांकाश्य राज्य को जीत कर अपने भाई कुशध्वज को वहाँ का राजा बनाया। सांकाश्य और मैथिलवंशों के कथन रामायण बालकाण्ड में हैं (५० वां अध्याय)। कुशध्वज का राज्य सांकाश्य में चार पीढ़ी चला। इस वंश में खाण्डिक्य ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा पुराणों में आया है। मितध्वज के पुत्र खाण्डिक्य से कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज का युद्ध हुआ और फिर ज्ञान चर्चा हुई (भागवत IX १३, २१)। भागवत के अनुसार सीरध्वज का मुख्यवंश युधिष्ठिर काल तक चलता गया। जो जनक बृहदारण्यकोपनिषत् में सम्राट और याज्ञवल्क्य के शिष्य तथा ब्रह्मज्ञानी कहे गए हैं, वे युधिष्ठिर के बहुत पीछे के हैं। उनका कथन यथा स्थान होगा। सीरध्वज का कुछ विवरण १३वें अध्याय में भी आवेगा। आप राम के श्वसुर थे।

सूर्यवंश, वैशाली शाखा।

मनु वैवस्वत के पुत्र नाभानेदिष्ठ ने एक वैश्या स्त्री से विवाह किया, जिससे इस वंश की संज्ञा क्षत्रिय वैश्य की है, जैसे पौरव भरत के ब्राह्मण दत्तक पुत्र विदथिन भरद्वाज के कारण उस वंश की बहुत दिनों तक ब्रह्मक्षत्रिय संज्ञा रही। इसी प्रकार पल्लव और वाकाटक नरेश ब्राह्मण से क्षत्रिय होगए, सो उनकी संज्ञा बहुत काल तक ब्रह्मक्षत्रिय थी, तथा गुप्त नरेश जाट क्षत्रिय थे। ये सब थे क्षत्रिय और रहे अन्त में क्षत्रिय ही, किन्तु कुछ दिनों तक दूसरी जाति का भी विचार उनमें लगा रहा। नाभानेदिष्ठ काशी के उत्तर पूरब बिहार प्रान्त में स्थापित हुए। नामों के साम्य से अयोध्या शाखा वाले (नं० २८) नाभाग सम्बन्धी कथन नाभानेदिष्ठ वालों से मिल से जाते हैं।

इन दोनों के विषय में वैश्या से विवाह के कथन हैं, जो सम्भवतः एक ही के विषय में लागू हों। नाभानेदिष्ठ (नं० २) से खनीनेत्र (नं० ११) तक कोई विशिष्ट घटना नहीं है। इनके पुत्र करन्धम पर कई राजाओं ने असफल चढ़ाई की। इन्होंने विदिशापति को हराया, तथा इनके पुत्र अवीक्षित का उन्हीं विदिशा वालों से युद्ध हुआ। अवीक्षित के पुत्र मरुत बड़े प्रतापी सम्राट् हुए। आपका नं० १४ था। मरुत ने हिमालय में सोने की खान पाकर भारी यज्ञ किया। जो धन बच रहा, उसे आपने वहीं गाड़ दिया। उसी को पाकर द्वापर में पौरव युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। मरुत ने बृहस्पति के भाई सम्बत के द्वारा यज्ञ कराया था। यह कथा अश्वमेध पव महाभारत में लिखी है और द्राण पर्व में आया है कि युधिष्ठिर के पूर्ववर्ती १६ मुख्य भारतीयों में मरुत भी थे। तुवंश वंशी (नं० २२) मरुत के विषय में भी संवत द्वारा यज्ञ होना पुराणों में लिखा है। दानों सम्राट भी लिखे हैं। सम्भवतः एक ही नाम के कारण दानों के चरित्र एक ही में कह दिए गये हों। तौवंश मरुत का समय भी संवत ऋषि से मिलता है, तथा वैशाल मरुत का नहीं मिलता। इससे यज्ञ और साम्राज्य के वर्णन वैशाल मरुत के विषय में ठीक नहीं समझ पड़ते। इस वंश के २६ वें नरेश विशाल ने विशालपुरी बसाई, जो इस रियासत की राजधानी हुई। काशी नरेश (नं० ३५) हर्यश्व के समय में हैहय तालजंघ ने काशी जीती। उस काल के निकट प्रमति अन्तिम वैशाल नरेश थे। शायद इनका राज्य हैहयों ने छीना हो। विशाल और वैशाली के कथन निम्न आधारों में प्राप्त हैं। वायु ८६, १५, १७, विष्णु IV १, १८, रामायण I ४७, १२ भागवत IX २, ३३, ब्रह्माण्ड III ६, १, १२।

सम्मिलित विवरण ।

मनु वैवस्वत के समय कई सूर्यवंशी रियासतें स्थापित हुईं। उत्तर कोशल, शर्याति, हरिश्चन्द्र, सगर, दक्षिण कोशल, विशाल तथा मिथिलावाली इन सात रियासतों का ऊपर कुछ विशेष विवरण हो चुका है, तथा दक्षिण में रावण का भी वर्णन आ गया है। यह इति-

हास बाल्मीकीय रामायण, महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण, श्री भागवत् आदि के आधार पर लिखा गया है। जहाँ वैदिक साहित्य का सहारा लिया गया है, वहाँ मुख्य रूप से ऐसा कह दिया गया है। उपर्युक्त कथाएँ प्रायः सभी पुराणों में आई हैं और उनके हवाले हम देते भी आये हैं। पौराणिक कथन बहुतों को ज्ञात हैं तथा आगे एक स्थान पर भी उनके हवाले १२ वें अध्याय में दे दिए जावेंगे। अब इन सूर्यवंशों के विषय में वैदिक तथा अन्य ग्रन्थों में क्या विशेष कथन हैं, सो भी यहाँ कहा जाता है। इस निम्न कथन में हमें रायचौधरी से विशेष सहायता मिली है।

ऋग्वेद, ४, ३०, १८, सरयू नदी के निकट आर्य बस्ती बतलाता है। कोशल प्रायः अवध प्रान्त है। विदेह में पहले दलदल था। माथव ने उसे देश बनाया। कोशल के उत्तर हिमालय है, पूर्व सदानीर, दक्षिण स्यन्दिका (सई नदी) और पच्छिम पांचाल देश। शाक्य कोशल में थे (सुत्तनिपात)। अयोध्या साकेत और श्रावस्ती शहर थे। बौद्ध काल में अयोध्या तथा साकेत दोनों थे। श्रावस्ती राप्ती के निकट सहेत माहेत है। शतपथ ब्राह्मण में कोशल राज्य कुरु पांचाल के पीछे किन्तु विदेह के पूर्व महत्ता युक्त है। इक्ष्वाकु वंश के राजे विशाला या वैशाली (रामा० I ४७, ११, १२) मिथिला (वायु पु० ८९, ३) तथा कुसिनारा (जातक नं ५३१) में राज्य करते थे।

ऋग्वेद के ऋषियों में मनु वैवस्वत, शर्याति, त्रसदस्यु, अम्बरीष और मान्धातृ थे। ऋग्वेद X ६०, ४ में इक्ष्वाकु हैं। अथर्ववेद XIV ३९, ९, में वे या कोई इक्ष्वाकु हैं। मान्धातृ यावनाश्व गोपथ ब्राह्मण I २, १०, में हैं। पुरुकुत्स के कथन ऋग्वेद में बहुत हैं, जैसा कि वैदिक अध्याओं में आ चुका है।

ऋग्वेद I ८३, ७, VI २०, १० शतपथ ब्रा० XIII ५, ५५ में वे ऐक्ष्वाकु हैं। त्रसदस्यु (ऋग्वेद IV ३८, १, VII १९, ३) पुरुकुत्स के पुत्र थे। इनका भी वर्णन ऋग्वेद में बहुत है, जैसा कि ऊपर वैदिक अध्याओं में आया है। त्रैयारुण, ऋग्वेद V २७ पंचविश ब्रा० XIII ३, १२, ऐक्ष्वाकु थे। त्रिशंकु, तैत्तिरीय उ० I १०, १, हरिश्चन्द्र, ऐतरेय ब्राह्मण VII १३, १६ और रोहित, ऐतरेय ब्राह्मण VII १४, ऐक्ष्वाकु थे। भगीरथ (जैमिनीय

उपब्राह्मण IV २, १२) ऐदवाकु थे। ऋग्वेद X ६०२ में वे भाजेरथ थे। अम्बरीष ऋग्वेद i १००, १७, ऋतुपर्ण, बोधायन श्रौतसूत्र XX १२, दशरथ (ऋग्वेद, I १२६, ४) और राम (ऋग्वेद X ९३, १४) में सशक्त पुरुष हैं। दोनों अयोध्या से असम्बद्ध हैं। दशरथ जातक में दशरथ और राम वाराणसी नरेश हैं, तथा राम के कथन हैं, किन्तु यह नहीं आया है कि वे कोशलेश या रावणारि थे। राम यज्ञकर्ता हैं और इन्द्र भी कई बार राम कहे गए हैं। त्रसदस्यु ऋग्वेद IV ३८, १, Vii १९, ३, ऋतुपर्ण शर्कान नरेश, शुद्धोदन कपिलवस्तु के तथा प्रसेनजित श्रावस्ती के विविध देशों के राजा थे। पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, हरिश्चन्द्र, रोहित ऋतुपर्ण आदि रामायण की अयोध्यावाली वशावली में नहीं हैं, तथा वैदिक साहित्य कहता है कि इनमें से कई उत्तर कोशल से बाहर अन्य देशों के शासक थे (राय चौधरी)।

कोशल और मिथिला के बीच सदानौर (राप्ती) नदी थी। मिथिला के कथन जातकों तथा पुराणों में हैं। वर्तमान जनकपुर नैपाल में है। वैदिक तालिका, न० i ४३६, में नमीसाण्य मैथिल राजा हैं। शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज्य विदेघ माथव द्वारा स्थापित है। प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ मंजुश्री मूल कल्प में दशरथ और दाशरथी राम के नाम प्राचीन महीषों में हैं।

उपरोक्त वर्णन से प्रकट है कि सूर्यवंश में ७ मुख्य राज्य स्थापित हुए, तथा एक धार्ष्ट एवं तीन सौशुम्न राज्य बने। मुख्य कथन मध्य-देश वाले राज्यों के हुए। इतर कथाओं के सम्बन्ध में दक्षिण कौशल का भी विवरण आ गया है। सूर्यवंशी नरेशों में इस काल मुख्यता निम्नों की है:—मनु, इदवाकु, पुरंजय, मान्धातृ, त्रसदस्यु (इनकी ऋग्वेद में भी भारी प्रशंसा है), वृक, नाभाग, अम्बरीष, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, (मुख्य शाखा के), हरिश्चन्द्र, रोहित, सगर, भगीरथ, ऋतुपर्ण, कल्माषपाद, अश्मक, मूलक, अनरण्य, निमि, मिथि, सीरध्वज, नाभानेदिष्ठ, करन्धम, अवीक्षित, मरुत्त, विशाल, शर्याति, और यदु। इनमें बहुत प्रसिद्ध मनु, इदवाकु, मान्धातृ, त्रसदस्यु, दशरथ, राम, हरिश्चन्द्र, सगर, भगीरथ और सीरध्वज थे। इन लोगों ने उत्तरी भारतवर्ष में खासा प्रभाव फैलाया, तथा दक्षिण कोशल

राज्य स्थापित किया, और लङ्का को भी जीत कर रावण द्वारा आर्य सभ्यता पर जो प्रचंड आघात हो रहे थे, उन्हें शान्त किया। रामचन्द्र इन सब में उत्तम थे। इनके बराबर इस काल तक कोई भारतीय न हुआ था। दशरथ ने तिमिध्वज शम्बर के जीतने में दिवोदास की सहायता की, तथा सुदास ने वर्चिन को जीता। शम्बर, वर्चिन और रावण के पराभव से अनार्यो का तत्कालीन बल चूर्ण हो गया। सुदास ने अनार्य भेद को भी हराया। दिवोदास और सुदास पौरव नरेश थे, जिनके कथन आगे आवेंगे। रावण की इन्द्रिय लोलुपता के कारण उनका अपने साढ़ू तिमिध्वज शम्बर से बिगाड़ हो गया, जिससे जब शम्बर दिवोदास और दशरथ द्वारा मारा जा रहा था, तब रावण ने उसकी सहायता न की। फल यह हुआ कि पीछे वह भी जैचन्द्र के समान मारा गया। नवें अध्याय में (नं० २१) रावण का वंश विवरण आ गया है। वहाँ वंश के हिसाब से उनका (नं० ३५) बैठता है। रावण के द्वारा दक्षिण कोशल नरेश अनरण्य (नं० ४१) का मारा जाना रामायण में है; तथा, राम (नं० ३९) द्वारा रावण का निधन है। इससे समझ पड़ता है कि वैशाली का वंश (नं० ३५) मुख्य सूर्यवंश के (नं० ३९) के निकट पड़ता है। इस प्रकार रावण की वंशावली से भी उत्तर और दक्षिण कोशल की वंशावलियों का समर्थन होता है। रावण का वंश नम्बर कुछ ऊँचा होने का यह भी कारण है कि उस शाखा में सभी पूर्व पुरुषों के नाम हैं, राज्यों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भाइयों आदि के नहीं।

ग्यारहवां अध्याय

मनु-रामचन्द्रकाल (त्रेतायुग) ।

१६०० से १२५० बी० सी०

पौरव वंश (पौरवों की कथा मुख्यतया महाभारत में है)
मुख्य शाखा हस्तिनापुर की ।

गत अध्याय में कहा जा चुका है कि मनु के साथ बुध भी भारत में आकर प्रतिष्ठानपुर प्रयाग के निकट स्थापित हुए । आप चन्द्रात्मज थे । इन्हीं से प्रसिद्ध चन्द्रवंश चला । मनु पुत्री इला बुध को व्याही थी । इन्हीं दोनों का पुत्र परम रूपवान प्रसिद्ध राजा पुरुरवस हुआ । कहते हैं कि पुरुरवस ने १३ या १४ द्वीपों पर अधिकार जमाया । उस काल किसी दूर देशस्थ राज्य को भी द्वीप कह देते थे ।

राजा पुरुरवस ने ब्राह्मणों से बैर कर के (म० भा० के अनुसार) उनका धन छीन लिया । इस के पीछे समय पर चन्द्रवंशियों का मुख्य राज्य इनके पौत्र नहुष को मिला । नहुष ने प्रायः समस्त भारत को जीत कर सम्राट् की उपाधि पाई । आपने एक भारी यज्ञ किया, किन्तु राज्य सम्बन्धी बातों में इतनी कड़ाई रखी कि ऋषियों तक से कर लिया । मध्य एशिया से नाटक खेलने का प्रचार आपने भारत में भी बढ़ाया या स्थापित किया । इस काल शायद मध्य एशिया के सम्राट् इन्द्र के यहाँ राज्य क्रान्ति का समय आया । वृत्र नामक कोई ब्राह्मण कुमार इन्द्र का घोर विरोधी हो पड़ा । इन्द्र ने छल से उसका बध किया । इस ब्राह्मण हिंसा से उनकी इतनी अपकीर्ति हुई कि उन्हें राज्य छोड़ कर निकल जाना पड़ा । वेद में वृत्र बध का कथन दाष्टान्तिक है । वहाँ बिजली द्वारा बादलों से पानी निकलने का प्रयोजन आ जाता है । यह भी लिखा है कि वृत्र को मार कर इन्द्र भयातुर हो कर भागे । यह देख इन्द्र के सरदारों ने एक मत से महाराजा नहुष को

इन्द्रासन पर बिठलाया । इन्द्र का बड़ा पद पाकर सम्राट् नहुष मदोन्मत्त हो गये । इन्होंने इन्द्राणी शची से विवाह करने की ठानी । पहले तो वे इनकार करती रहीं किन्तु पीछे से कहने लगीं कि उनके पति की दुर्दशा करनेवाले ब्राह्मणों का यदि नहुष मान मर्दित करें तो वे (शची) उनके साथ विवाह करना स्वीकार करेंगी । नहुष भारत में भी ऋषियों तक से कर वसूल करते थे सो इस बात को इन्होंने सहर्ष मान लिया और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ऋषियों को अपनी सवारी की पालकी में जोत कर आप शची के महल की ओर प्रस्थित हुए । नहुष की इस कार्यवाही से इन्द्र के सारे सरदार उनसे अपसन्न हो गए । ब्राह्मणों ने नहुष का तत्काल वध किया और राज्यच्युत इन्द्र फिर से बुलाये जाकर गद्दी पर बिठलाये गये ।

नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति ब्राह्मण हो गये (म० भा०, ह० वं० ३०, १६०१; वायु पु० ९३, १४) और दूसरे पुत्र प्रसिद्ध महाराजा ययाति सम्राट् हुये । ये नहुष के पुत्र और बड़े भारी धर्मात्मा थे । वेदों में पुरुरवा, नहुष, ययाति और इनके पाँचों पुत्रों के नाम बहुत बार आये हैं । महाराजा ययाति ने कई यज्ञ किये और उचित पात्रों को बहुत दान दिया । ययाति सबल और लोकप्रिय थे । आपने भारी सेना एकत्र करके समस्त भारतवर्ष को जीता और सम्राट् पद को स्थिर रक्खा । पुत्रों के प्रति आपकी ये तीन प्रधान आज्ञाएँ थीं कि किसी से बदला न लो, नीच युक्तियों से शत्रु का दमन मत करो और किसी से कुछ मत मांगों । असंख्य गुणगुण रखते हुए ययाति में अभिमान का अवगुण भी था । इन्होंने दो विवाह किये । बड़ी रानी शुक्राचार्य की कन्या देवयानी थी और दूसरी दैत्यराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा । देवयानी से यदु और तुर्वश नामक दो पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से अनु, दुह्यु और पुरु उत्पन्न हुए । पुराणों में ययाति का दौहित्रों द्वारा स्वर्गच्युत होने से बचाये जाने का हाल कहा गया है, किन्तु इसका अभिप्राय राज्यच्युत होने से बचाव का समझ पड़ता है । इनका राज्य अभिमानाधिक्य के कारण ही छूटता था । शायद यह दुर्गुण इन्होंने अपने पिता से पाया था । पुरुरवा, नहुष और ययाति वेदर्षि भी थे । सब बातों पर ध्यान देने से प्रकट है कि ययाति एक बहुत बड़े शासक थे । मानसिक दृढ़ता

भी इनमें बहुत थी। चार बड़े पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा भंग होते देख इन्होंने उन सबको राज्यच्युत कर दिया और छोटे बेटे पुरु को सम्राट् बनाया। बड़े पुत्रों में से इन्होंने तुर्वश को प्रजा (पुत्र) नाश का शाप दिया। पुराणों में लिखा है कि तुर्वश वंशी यवन हो गये। द्रुह्यु को यह शाप हुआ कि तुम्हें प्रियकामना न होगी। अनु को यह शाप दिया गया कि तुम्हारे पुत्र जवान हो-हो कर मर जायँगे। पुराणों से विदित होता है कि अनु को ग्लेच्छ देश का राज्य मिला। द्रुह्यु के वंशधर भोज कहे गये हैं। पुराणों में ययाति के वंशधरों का सुदास से पराजित होना नहीं लिखा है परन्तु इन शापों से इस दुर्घटना की भूलक मिलती है। ऋग्वेद से विदित होता है कि दिवोदास ने ययाति पुत्र अनु और द्रुह्यु के कुछ सन्तानों को मारा और तत्पुत्र सुदास ने आनवों तथा शेष नाहुषों का घोर संहार किया। इस युद्ध में केवल पौरव सम्मिलित न थे। महाराजा ययाति के पीछे उनके मुख्य घराने के शासक पुरु हुये।

राज्य का बटवारा ययाति ने इस प्रकार किया:—(वायु ९३, ८८, ९० ब्रह्माण्ड III ६८, ९०, २, कूर्म I २२, ९, ११, लिंग I ६७, ११, २) पुरु प्रतिष्ठान में रखे जाकर गंगा यमुना वाले दक्षिणी द्वाबे के स्वामी बनाये गए; यदु के राज्य में चम्बल, बेतवै और केन के देश मिले; द्रुह्यु को चम्बल के उत्तर यमुना के पश्चिम वाला देश मिला; अनु को गंगा, यमुना के द्वाब का उत्तरी भाग, तथा तुर्वश को रीवा। तुर्वश द्वारा सम्भवतः करुष और नाभाग वंशी पराजित किए गए। विष्णु पुराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, एवं यदु, तुर्वश, अनु और द्रुह्यु को क्रमशः दक्षिण, दक्षिण पूरब, उत्तर तथा पच्छिम। मुख्य उत्तराधिकारी पुरु के पुत्र जनमेजय लिखे हैं। इन नं० ८, से मतिनार नं० २० तक कोई विशेषता नहीं वर्णित है। इससे भी आगे नं० २३ दुष्यन्त पर्यन्त जो कुछ कथित भी है, वह इतरों से हारने के सम्बन्ध में। यादव नं० २० शशिविन्दु ने बढ़ कर पौरव राज्य पर भी अधिकार जमाया। उनके वंश की निर्बलता से जब पौरवों ने लाभ उठाना चाहा, तो उनके दामाद सूर्यवंशी मान्धातु ने उन्हें हराकर राज्य-च्युत कर दिया। उधर तुर्वश वंशी मरुत्त, नं० २२, प्रसिद्ध सम्राट् हुआ।

उस अपुत्र राजाधिराज ने राज्यच्युत किन्तु हानहार पौरव राजकुमार दुष्यन्त को अपना दत्तक पुत्र बनाया ।

महाराजा दुष्यन्त और भरत (म० भा० VII ६८,

I ७४, XII २९) ।

महाराजा-दुष्यन्त ने दत्तक पिता मरुत्त की सेना से अपना खोया हुआ पौरव राज्य भी प्राप्त करके दोनों राज्यों का भोग किया । उस काल सूर्यवंशी नरेश त्रसदस्यु बाप का बदला लेने को गान्धार नरेश दुह्यो पर धावा करने वाले थे । अतएव उत्तर कोशल के निकटवर्ती प्रतापी मरुत्त के उत्तराधिकारी दुष्यन्त से भी बिगाड़ ठीक न समझ कर उन्होंने जीता हुआ राज्य दुष्यन्तको प्रेमपूर्वक वापस दिया होगा, ऐसा अनुमान है । त्रसदस्यु द्वारा पौरवों को कुछ दिया जाना ऊपर ऋग्वेद के अध्याय में भी आया है । जो हो, दुष्यन्त को खोया हुआ पौरव राज्य मिल गया । वेदों में यह दान करके लिखा हुआ है । म० भा०, दुष्यन्त और भरत को हस्तिनापुर में बतलाता तथा उनका राज्य सरस्वती से गंगा तक मानता है । यद्यपि दुष्यन्त तुर्वश वंशी हो गए थे, तथापि कहलाये पुरुवंशी ही, तथा राज्य फिर पाने से वंश कर । एक दिन मृगायार्थ जाने में कण्व ऋषि के आश्रम में किसी विश्वामित्र और मेनका की पुत्री रूपराशि शकुन्तला इस सम्राट् को प्राप्त हुई, जिससे भरत नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ । कालिदास ने शकुन्तला नाटक में इस रुचिर कथा का वर्णन किया है । भारतीय उच्च सभ्यता का पहला प्रमाण योरोप को इसी नाटक द्वारा मिला । इसके अनुवाद अनेक भारतीय और योरोपियन भाषाओं में हुए । भरत ने गंगा और यमुना के निकट अनेक यज्ञ किए । दीर्घतमस ऋषि ने आपका ऐन्द्र महाभिषेक किया (ऐतरेय ब्राह्मण) । इनके छोटे चचा संवर्त ने दुष्यन्त के दत्तक पिता मरुत्त को यज्ञ कराया था । इनकी माता ममता ने इनके चचा बृहस्पति से विदथिन भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न किया था । भरत अपुत्र थे, सो इन्होंने शायद दीर्घतमस के कहने से विदथिन भरद्वाज को गोद लिया । इन बातों से प्रकट है कि यद्यपि दुष्यन्त अपने पौरव राज्य पर आगए थे तथापि उनका व्यवहार दत्तक

पिता मरुत्त के लोगों से जैसे का तैसा बना रहा। दुष्यन्त और भरत के समय में पौरव राज्य सरस्वती से गंगा तक फैल गया था। भरत दौष्यन्त का वर्णन (ऋग्वेद VI १६,४) में, तथा शतपथ XIII ५, ४, ११, एवं ऐतरेय ब्राह्मण VII, २३ अथच कुम्बकोनम महाभारत III ८८, ८, में आया है कि इन्होंने जमुना के किनारे युद्ध जीते तथा ७४ यज्ञ किए।

सुहोत्र, हस्तिन और उनके वंशधर।

भरत पुत्र विदथिन भरद्वाज राजा न हुए वरन् वितथ पुत्र (मत्स्य ४९, २७, ३४, वायु ९९, १५२, ८,) उत्पन्न करके मृत हुए या जङ्गल चले गए। सम्भवतः वह भरत के सामने मर गए और वितथ राजा हुए। इनके प्रपौत्र, (नं० २९) सुहोत्र ऐसे पराक्रमी थे कि दोगोर्ष्व में १६ मुख्य भारतीयों में इनका भी नाम है। इनके पुत्र हस्तिन पौरव राज्य पर स्थापित रहे। काशिक ने काशी का राज्य स्थापित किया, तथा बृहत् ने कान्यकुब्ज का। हस्तिन के समय में इस राज्य वंश का और भी विस्तार हुआ। इनके पुत्र अजमीढ़ और द्विमीढ़ मुख्य थे। अजमीढ़ मुख्य पौरव राज्य पर रहे, तथा नं० ३१, द्विमीढ़ ने विदर्भ में नवीन पौरव राज्य बनाया, जो नं० ५६, बहुरथ पर्यन्त स्थापित रहा। अजमीढ़ात्मज ऋषभ पौरव राज्य पर रहे तथा सुशांति और बृहद्वस ने उत्तर तथा दक्षिण पांचाल राज्य स्थापित किए। हस्ती ने हस्तिनापुर बसा कर या उन्नत करके उसे अपनी राजधानी बनाया।

हस्तिनापुर वर्तमान मेरठ से २२ मील उत्तर पच्छिम गंगा के किनारे अब खंडहर मात्र है। हस्तिन के चचेरे भाई रंतिदेव सांक्रुत ने चम्बल पर दशपुर राज्य प्राप्त किया।

उपर्युक्त नवीन राज्यों के साधार विवरण आगे आवेंगे।

ऋत्त नं० ३२, से नं० ३७, संवर्ण पर्यंत कोई विशेषता कथित नहीं है। उत्तर पांचाल नरेश नं० (३९) सुदास ने इन्हें हरा कर बाहर खेद दिया। संवर्ण के पुरोहित सुवर्चस (म० भा० I ९६, ३७३३) वशिष्ठ थे। इन वशिष्ठ का नाम देवराज था और सुवर्चस तथा

अथर्वनिधि इनकी उपाधियां मात्र समझ पड़ती हैं । जान पड़ता है कि सुदास का आश्रय छोड़ने पर वशिष्ठ संवर्ण के यहां गए होंगे और इसी पर इन दोनों में युद्ध हुआ होगा । संवर्ण की पराजय पर गुरु वशिष्ठ दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद के यहाँ पहुँचे होंगे । अनन्तर संवर्ण ने सुदास को पराजित किया और उत्तर पांचाल का बल गिर गया । संवर्ण तथा तत्पुत्र कुरु ने हस्तिनापुर फिर से उन्नत किया तथा कुरु ने दक्षिण पांचाल पर भी अधिकार जमाया । कुरुक्षेत्र और कुरु जांगल इनके नाम पर थे । इस हार के गड़बड़ में प्रतिष्ठान-पुर भी इस वंश से निकल गया था और उस पर काशी नरेश (नं० ३९) वत्स का अधिकार जमा था । वह प्राचीन प्रान्त फिर कुरु को प्राप्त हुआ ।

कुरु पुत्र सार्वभौम तो हस्तिनापुर में रहे, किन्तु सुधन्वन (नं० ३९) ने बढ़ कर चेदि प्रान्त में राज्य जमाया । इनके वंशधर (नं० ४२) कृतज्ञ के पुत्र चेदि और उपरिचरवसु थे । चेदि पुत्र वसुचैद्य राजा हुए । उनके चचा वसु चैद्योपरिचर ने उनकी सहायता से मगध प्रान्त छीन कर प्रसिद्ध मागध बार्हद्रथ राज्य की नींव डाली । इस वंश का राजत्व काल आगे भी चलता है, किन्तु राम काल इसी स्थान पर समाप्त होता है । आगे का विवरण द्वापर युग में दिया जावेगा । ऊपर के वर्णन से प्रकट है कि ययाति के पीछे वाली प्रायः १४ पुस्तों तक तो कोई महत्ता न हुई, किन्तु जब से तुर्वश वंश का भी बल इसी में मिल गया, तब से पौरव कुल ने खासी उन्नति की । अब शेष पौरव राज्य कुलों के कथन होते हैं । अन्तिम पौरव नरेश कुरु बड़े प्रतापी थे । इन्हीं के नाम पर यह वंश पौरव से कौरव कहलाने लगा । इनके वंशधरों ने कई अन्य राज्य भी जमाये । संवर्ण से सुदास वाले युद्ध के आधार उत्तर पांचाल के विवरण में मिलेंगे ।

विदर्भ का द्विमीढ़वंश ।

पौरव कुल के उपर्युक्त हस्तिन के पुत्र द्विमीढ़ ने विदर्भ में एक नवीन पौरव राज्य स्थापित किया । ये मनु से ३१ पीढ़ी नीचे थे । इस वंश ने यादवों से लड़ कर अपना राज्य स्थापित किया होगा । इनके

वंशधर (नं० ४०) धृतिमंत रामचन्द्र के समय में हुये होंगे। द्विमीढ़ से धृतिमंत तक सात राजाओं के नाम अज्ञात हैं। उस काल तक राज्य स्थापन के अतिरिक्त कोई विशेष घटना द्विमीढ़ों की नहीं लिखी है। आगे का हाल द्वापर के विवरण में आवेगा।

उत्तर पांचाल का वैदिक सुदासवंश।

उपर्युक्त द्विमीढ़ के भाई, अजमीढ़ मुख्य पौरव शाखा के भूपाल थे। इन्हीं के पुत्र सुशान्ति ने उत्तर पांचाल राज्य स्थापित किया। सुदास के समय ऋग्वेद में इस वंश का राज्य रावी नदी के दोनों किनारों पर लिखा है तथा यह श्वेतवस्त्रों से भूषित तृत्सु वंश कहा गया है। महाभारत के समय उत्तर पांचाल की राजधानी, अहिछत्र में बरेली के निकट थी और दक्षिण की काम्पिल्य में। सुशान्ति के पौत्र ऋक्ष उपनाम तृत्त के पुत्र भरत और भृम्यश्व हुए। भरत पौत्र सृंजय के पुत्र प्रस्तोक, च्यवन, पिजवन और सहदेव हुए। पिजवन प्रचण्ड युद्धकर्ता थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध वैदिक नरेश राज्य वर्द्धक सुदास हुए। सहदेवात्मज सोमक के वंश में यह राज्य अन्त में चला। भ्रम्य-श्वात्मज मुद्गल और कांपिल्य हुए। मुद्गल प्रसिद्ध निषध नरेश नल के दामाद थे और स्वयं भूपाल एव वेदषि भी थे। इसके आधार ऊपर आ चुके हैं। प्रसिद्ध वैदिक विजयी दिवोदास मुद्गलात्मज वध्यूश्व के पुत्र थे। इन्हीं की बहिन वे अहल्या थीं जो गौतमात्मज शरद्वन्त को व्याही गई और जिन्हें राम ने पवित्र किया। शरद्वन्त के पुत्र सत्यधृति के वंश में महाभारत काल के कृपाचार्य थे। प्रसिद्ध वैदिक ऋषि भरद्वाज ने अपनी ऋचाओं में दिवोदास, प्रस्तोक, पिजवन तथा अभ्यावर्तिन चायमान से अपना दान पाना लिखा है। वायु और शुनहोत्र भरद्वाज के पुत्र थे। शुनहोत्रात्मज गृत्समद प्रसिद्ध वैदिक ऋषि थे। हरिवंश में आया है कि मुद्गल, सृंजय, बृहदिषु, क्रिमिलाश्व और जयीनर का बसाया हुआ देश पांचाल था। समझ पड़ता है कि मुद्गल, कांपिल्य, प्रस्तोक, पिजवन और सहदेव में पांचाल राज्य बँट कर बलहीन हो गया। अनन्तर राम के पिता दशरथ की सहायता से प्रसिद्ध वैदिक विजयी दिवोदास ने गिरिव्रज के युद्ध में वैजयन्त के

तिमिध्वज शम्बर को मार कर अपने कुल का यश बढ़ाया। इनका पित्रवन् पुत्र सुदास से इतना भारी मेल था कि ऋग्वेद में ये दूर के चचा के स्थान पर सुदास के पिता कहे गए हैं। ऋग्वेद में दिवादास द्वारा शम्बर का मारा जाना लिखा है, तथा रामायण में आया है कि दशरथ ने शम्बर के मारे जाने में किसी भारी नरेश की सहायता की। उत्तर पांचाल के अन्य विवरण हरिवंश और विष्णु पुराण में हैं। अनन्तर सुदास ने दस राजाओं का पराजित करके भारी यश कमाया। इन दोनों के युद्धों के विस्तृत विवरण ऋग्वेद में हैं, और हमारे ऊपर के वैदिक अध्यायों में आ चुके हैं। कोई वैदिक राजा त्रसदस्यु भी सुदास से हारे थे, ऐसा ऋग्वेद (VII १९—३) में आना, कोई-कोई मानते हैं, किन्तु यह बात मन्त्र से समर्थित नहीं है। वहाँ इन्द्र द्वारा सुदास तथा त्रसदस्यु दोनों के विविध समयों में सहायता मिली है। सुदास ने वशिष्ठ तत्पुत्र पराशर और सत्ययात का प्रचुर दान दिया। ये ऋषि लोग वेद में सुदास के नौकर कहे गए हैं। सुदास द्वारा ययाति वंशियों का पराजित होना ऐतरेय ब्राह्मण में भी आया है। पहले इन्होंने संवर्ण को जीता, फिर माथुर यादव, आनवशिखि, गान्धार द्रुह्यु, शूरसेन के मत्स्य, रीवां के तुवशराज्य, अनाय्य वचिन, वैकर्ण, भेद आदि कई नरेश मिल कर पुरुष्णी नदी पर सुदास से लड़ कर हारे। यही प्रसिद्ध दस राजाओं का वैदिक युद्ध है। इसका विशेष विवरण वैदिक अध्यायों में ऊपर आ गया है। अनन्तर संवर्ण ने युद्ध में सुदास को पराजित कर दिया और कुरु संवर्णात्मज ने पौरव राज्य को बड़ेमान किया। दिवादास के तीनों वंशधर साधारण थे। सुदास के वंश का वर्णन नहीं है। सामक के पुत्र अर्कदन्त साधारण थे। इनके पीछे इस वंश में सात पीढ़ियों के नाम पुराणों में अंकित हैं, जिससे उनका साधारण या राज्यहीन होना प्रकट है। इस वंश के वर्णन वेदादि में बहुत हैं। इसलिए उनका कुछ यहाँ भी कथन योग्य है। ऋग्वेद X १०२ में आया है, कि इन्द्रसेना मुद्गलानी ने युद्ध में रथ संचालन करके अपने पति को विजयी बनाया तथा उसका खोया हुआ प्रेम प्राप्त किया। म० भा० III ५७, ४६, में कथित है कि निषधनाथ नल की पुत्री इन्द्रसेना मुद्गल को व्याही थी।

उपर्युक्तानुसार ये मुद्गल राजा और वेदर्षि दोनों थे। म० भा० वनपर्व में नल का भारी विवरण है, जिसमें उनका भीमरथ यादव का दामाद होना लिखा है। नल दक्षिण कोशल नरेश ऋतुपर्ण के मित्र थे। सुदास के पितामह सृञ्जय की दो कन्यायें यादव भीमसात्वन्त के पुत्र भजमान को व्याही थीं। भीमसात्वन्त राम के समकालीन थे। इन कथनों के आधार यादवों के वर्णनों में हैं। दिवोदास के सहायक दशरथ थे ही। दिवोदास की बहिन अहल्या को राम ने पवित्र किया (रामायण)। अहल्या के पुत्र शतानन्द सीरध्वज जनक के पुरोहित थे (रामायण)। वेदर्षि भरद्वाज कहते हैं कि दिवोदास, सुदास, अभ्यावर्तिन चायमान आदि ने उनको दान दिए। इन्हीं भरद्वाज ने काशीपति प्रतर्दन की सहायता की (आधार काशी के कथन में आवेगा) तथा राम और उनके भाई भरत की पहुनाई की (रामायण)। प्रतर्दन से पराजित होकर हैहय नरेश वीतिहव्य इन्हीं के साथ रह कर ऋषि हो गए। यह ध्वनि ऋग्वेद के छठवें मण्डल की भरद्वाज वाली कुछ ऋचाओं से निकलती है। ऋग्वेद VI २६, ८, में प्रतर्दन के पुत्र क्षत्रश्री भी भरद्वाज के समकालीन लिखे हैं। रामायण में काशीपति प्रतर्दन राम के अभिषेक में आते हैं। प्रतर्दन के पौत्र अलर्क को अगस्त्य की स्त्री लोपामुद्रा आशीर्वाद देती हैं (वायु पुराण ९२, ६७), तथा लंका में अगस्त्य राम की शस्त्रास्त्र से सहायता करते हैं (रामायण)। भरद्वाज, काशी राज (दूसरे) दिवोदास, नं० ३७, के भी पुरोहित थे (म० भा० XIII ३०, १९६३)। अहल्या का गौतमात्मज शरद्वन्त से विवाह हुआ, म० भा० I १३०, ५०७२, V १६५, ५७६८, वायु ९९, २०१, ५ मत्स्य, ५०, ८, १२, ह० बं० ३२, १७८४, ८, विष्णु IV ११६, ७८। वशिष्ठ ने सुदास को गद्दी पर बिठलाया (ऐतरेय ब्राह्मण, VIII ४, २१) ! वशिष्ठ सुदास को छोड़ कर संवर्ण के यहाँ चले गए। (पार्जितर १९२२, पृष्ठ २३७)। त्रसदस्यु का सुदास का समकालीन होना सिद्ध नहीं है वरन केवल इतना है कि इन्द्र ने सुदास तथा त्रसदस्यु की सहायता की (ऋग्वेद VII १९—३), सो भी एक ही समय में होना अकथित है। दिवोदास ने रावी नदी पर पुरुवों तथा इतरों को हराया। ऋग्वेद १३, ३३, १९, वैदिक अनुक्रमणिका १८६,

४९९, म० भा० ९४, ३७२५, ३९ के अनुसार किसी पांचाल नरेश ने संवर्ण को हस्तिनापुर से निकाल दिया। यह पांचाल नरेश सुदास ही होंगे। अनन्तर संवर्ण ने अपना राज्य फिर से पाकर सब क्षत्रिय नरेशों को पराजित किया। इससे पांचाल सुदास के भी हारने का प्रयोजन निकलता है। मनु ४१ में आया है कि सुदास अवगुण के कारण नष्ट हुए। इससे ध्वनि निकलती है कि दस राजाओं को हराने से सुदास को गर्व विशेष हो गया और संवर्ण द्वारा उनका वध हुआ। संभवतः इस विजय में सुवर्चस वशिष्ठ का भी हाथ हो। उपर्युक्त प्रमाणों से सुदास तथा दिवोदास के विवरण प्राप्त हैं तथा इनका दशरथ और राम का समकालीन होना सिद्ध है।

दक्षिण पांचाल का नीप वंश।

उत्तर पांचाल में कथित अजमीढ़ के पुत्र बृहद्रसु ने दक्षिण पांचाल राज्य स्थापित किया। इनका वंशावली वाला नं० ३२ है। इस काल से नं० ४० पृथुषेण पर्यन्त राजे त्रेतायुग में माने जा सकते हैं। इस काल तक इस वंश के कोई विशेष कथन नहीं मिलते, जिससे इसमें महत्ता का अभाव समझ पड़ता है। वंशावली ऊपर आ चुकी है।

काशी का पौरव वंश।

पौरव कुल के सम्राट्, नं० २४, भरत के पौत्र वितथ का पुत्र सुहोत्र एक प्रसिद्ध बलवान था। उसी ने अथवा उसके पुत्र काशिक ने काशी का पौरव राज्य स्थापित किया। इनके प्रपौत्र धन्वन्तरि (नं० ३१) प्रसिद्ध वैद्य थे। पीछे (नं० ३४) दिवोदास, प्रथम के समय में इस राज्य पर हैहय भद्रशेण्य (नं० ३०) का आक्रमण हुआ। दिवोदास ने पराक्रमी भद्रशेण्य को करारी पराजय देकर युद्ध में उसके कई पुत्र भी मारे, तथा बालक जान कर केवल दुर्दम को छोड़ दिया। सयाने होकर दुर्दम ने हैहयों का आक्रमण फिर से जीवित किया। पूर्वीय राज्यों को जीतते हुये हैहयों ने काशी पर यह दूसरा आक्रमण किया। अब भीमरथ के पुत्र दिवोदास प्रथम काशी छोड़ गोमती के निकट

कुछ पच्छिम हट कर जा बसे। हैहयों ने काशी प्राप्त की किन्तु किसी कारण से वहां क्षेमक राक्षस का राज्य हो गया, परन्तु दुर्दम ने फिर वहां प्रभुत्व प्राप्त किया (वायु ९२, २३, ८, ह० वं० २९, १५४, १, ८)। कुछ काल में काशी नरेश का वहां फिर से अधिकार हो गया और हैहयों ने फिर आक्रमण करके (नं० ३५) हर्यश्व को मारा, (नं० ३६) सुदेव को हराया और काशी लूटी। अनन्तर सौदेव दिवोदास दूसरे राजा हुए। इनका हैहयों से १०० दिनों तक युद्ध हुआ और ये (सौदेव) हार कर भरद्वाज आश्रम चले गए। इन्हीं के पुत्र प्रतर्दन हुए, जिनका शिक्षण एवं सत्कार भरद्वाज ने किया। समय पाकर प्रसिद्ध पराक्रमी प्रतर्दन ने तालजंघात्मज वीतिहोत्र उपनाम वीतिहव्य को हैहय राजधानी में घुस कर हराया। वीतिहव्य शौनक भार्गव ऋषि हो गए। ऋग्वेद के छठवें मंडल में इनका भरद्वाज के साथ रहना पाया जाता है। म० भा० XIII ३०, ५८, ९ के अनुसार प्रसिद्ध वेदर्वि गृत्समद वीतिहव्य के दत्तक पुत्र थे। उनके पिता आंगिरस शुनहोत्र थे (सर्वानुक्रमणी)। गृत्समद अतिथिग्व-दिवोदास का कथन शम्बर बध में करते हैं। रामचन्द्र के राज्यारोहण में प्रतर्दन अतिथि हो कर अयोध्या गए थे (रामायण)। एक प्रतर्दन वेदर्वि भी थे। उनकी ऋचाओं से यह नहीं प्रकट है कि वे ये ही प्रतर्दन थे या कोई और ?

प्रतर्दन के पुत्र वत्स ने प्रतिष्ठानपुर के कौशाम्बी प्रान्त को भी अपने राज्य में मिला लिया। इनके पुत्र अलर्क ने क्षेमक राक्षस को मार कर काशी फिर से प्राप्त की। इस काल से बहुत पूर्व भी काशी में क्षेमक का अधिकार कहा गया है। समझ पड़ता है कि इस वंश के राजाओं की क्षेमक उपाधि होगी। अलर्क को अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने आशीर्वाद दिया (वायु ९२, ६७, ह०, वं०, २९, १५९०, ३२, १७४८)। प्रतर्दन, वत्स और वत्स देश के कथन निम्न आधारों में भी हैं:— (विष्णु IV ८, ५, ७ भागवत IX १७, ६ वायु ९२, ६५, ७३ ब्रह्माण्ड ११, ५० ६०, १३, ६८, ७८, ह० वं० २९, १५८७, १५९७, ३२, १७४१, १७५३, म० भा० XIII ३०, १९४६)। पार्जितर का कथन है कि अलर्क का राज्य काल लम्बा था। उपर्युक्त घटनाओं से प्रकट है कि काशी का पौरवराज्य महत्तायुक्त था। इसमें धन्वन्तरि श्रेष्ठ वैद्य हुए, तथा

दिबोदास, वत्स, प्रतर्दन और अलर्क प्रसिद्ध भूपाल थे, जिन्होंने बढ़ते हुए हैहय बल को ध्वस्त किया। इस वंश के आगे का हाल द्वापर के विवरण में आवेगा (आधार वायु ९२, ६७, ह० वं० २९, १५९०, ३२, १७४८)।

कान्यकुब्ज की पौरव शाखा।

काशी के विवरण में कथित नं० २७, सुहोत्र के अन्य पुत्र वृहत् ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) में पौरव राज्य स्थापित किया। इनके पौत्र जह्नु (नं० ३०) बड़े प्रतापी राजा कहे गये हैं। आपको सूर्यवंशी मान्धाता, (नं०, २१) की पौत्री विवाही थी (वायु ९१, ५८, ९, ह० वं० २७, १४२१, ३)। सम्भवतः इनका स्थान अपनी वंशावली में ६, ७ पीढ़ी ऊँचा हो। जह्नु के प्रपौत्र कुशिक, (नं० ३३) बड़े प्रसिद्ध राजा और वेदर्षि थे। इन्हीं के नाम पर विश्वामित्र कौशिक भी कहलाते थे। उनका विवाह पुरुकुत्स के वंश में उत्पन्न पुरुकुत्सी से हुआ था (वायु ९१, ६३, ६, ह० वं० २७, १४२६, ३०)। पुरुकुत्सी में कुशिक से उत्पन्न पुत्र गाधि (वैदिक गाथिन) पुराणों में इन्द्र के अवतार कहे गए हैं। वेद में भी इन्द्र कौशिक थे। गाधि भी राजा और वेदर्षि दोनों थे। गाधि की ऋचायें विश्वामित्र के तीसरे मण्डल में तथा कुशिक की दसवें में हैं। गाधि की पुत्री सत्यवती से भार्गव-वंशी और्वात्मज शस्त्री ऋचीक का विवाह हुआ।

गाधि के पुत्र विश्वामित्र और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि समवयस्क और एक दूसरे के प्रगाढ़ मित्र, एवं वेदर्षि भी थे। जमदग्नि के पाँचवें पुत्र विख्यात शूर परशुधर राम थे। ऋषि विश्वामित्र का आदिम राज्य पद निरुक्त तथा ऐतरेय और पंचविश ब्राह्मणों से प्रमाणित है। विश्वामित्र किसी राज काज का निर्णय करने त्रयारुण राज्य के प्रबन्धक वशिष्ठ ऋषि से मिलने गए। आतिथ्य तो इनका अच्छा हुआ, किन्तु मामले पर संतोषप्रद बात न हुई और युद्ध में देवराज वशिष्ठ के श्लेच्छ सैनिकों ने कान्य-कुब्ज की आर्य सेना को पूर्ण पराजय दी। संख्या में श्लेच्छ आर्य सेना से सतगुने थे। (म० भा०) में केवल एक

गाय के कारण युद्ध लिखा है, किन्तु वास्तव में किसी राजकीय प्रश्न पर समझ पड़ता है। अब विश्वामित्र राजकीय बल को तुच्छ मान कर बेटे को राज्य दे, स्वयं तपस्या करने चले गए। यह समय द्वादश वार्षिक अकाल का था। जिस राज्य के प्रबन्धक बन कर देवराज वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हराया था, उसका वास्तविक स्वामी सत्यव्रत त्रिशंकु इनके द्वारा अपने अधिकारों से च्युत एवं निर्वासित होकर जंगलों में मृगया से समय काटता था। उसने तपस्या के समय शिकार द्वारा विश्वामित्र के वंश का जंगल में पालन किया। ये दोनों पहले से भी वशिष्ठ के शत्रु थे। अतएव विश्वामित्र ने स्वप्रभाव से उसे राज्य पर प्रतिष्ठित करके स्वयं पुरोहित का उच्च पद लिया और देवराज वशिष्ठ अधिकारच्युत हो गए (वायु ८८, ७८, ११६, ह० वं० १२, ७१७ से ३, १३, ७५३ तक, विष्णु IV ३, १३, ४, भागवत IX ७, ५, ६ म० भा० XIII १३७, ६२५७)। उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मानने से इन्कार किया, किन्तु फिर भी इनके द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ सफल हुआ। अनन्तर उसके पुत्र हरिश्चन्द्र के समय में वशिष्ठ ने फिर इनके प्रतिकूल ब्रह्मर्षिपन का बखेड़ा उठाया और इस बार पराजित होकर उन्हें पुष्कर पर तप करने जाना पड़ा। जान पड़ता है कि हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र के प्रतिकूल निर्णय किया होगा, जिससे वे पराजित हुये होंगे। इधर देवराज वशिष्ठ हरिश्चन्द्र के पुरोहित हो गए। अनन्तर शूनःशेष वाली नरबलि के सम्बन्ध में विश्वामित्र का प्रताप फिर बढ़ा और वशिष्ठ वहाँ से हट कर उत्तर पांचाल नरेश सुदास के पुरोहित हुए। उनका हरिश्चन्द्र के यहाँ से हटना क्यों हुआ, सो कथित नहीं है। या तो वह राज्य ही निर्बल हो गया होगा, या नरबलि की तत्परता के कारण वशिष्ठ का अपयश हुआ होगा, जिससे उन्हें वहाँ से फिर हटना पड़ा। अनन्तर सुदास के यहाँ भी पहुँच कर विश्वामित्र ने वशिष्ठ को वहाँ से हटाया। वशिष्ठ की शत्रुता सुदास से क्यों हुई सो अज्ञात है, किन्तु हुई अवश्य। इनका तपस्वी पुत्र शक्ति वहाँ मारा गया, विश्वामित्र पुरोहित बने और सुवर्चस वशिष्ठ पौरव नरेश संवर्ण के पुरोहित हुए। सम्भव है कि हरिश्चन्द्र के पुरोहित देवराज वशिष्ठ संवर्ण के

पुरोहित सुवर्चस वशिष्ठ से पृथक् हों। वास्तव में समझ पड़ता है कि सुवर्चस देवराज ही की उपाधि मात्र थी। यही विचार पार्जितर का भी है।

किन्हीं कारणों से सुदास ने संवर्ण का राज्य छीन लिया और वशिष्ठ दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद के पुरोहित बने। वहाँ राक्षसों का प्रवेश समझ कर विश्वामित्र ने राजा द्वारा वशिष्ठ के शेष पुत्र भी मरवा डाले, केवल पौत्र पराशर बच गया। अब वशिष्ठ राजा दशरथ के यहाँ जमे। उधर संवर्ण ने सुदास को पराजित कर दिया। अनन्तर विश्वामित्र दशरथ के यहाँ यज्ञ रक्षणार्थ राम को माँगने आये। इस बार पुरानी शत्रुता भुला कर वशिष्ठ ने इनका समर्थन किया। या तो इन दोनों की शत्रुता पहले ही कभी मिट चुकी थी, या वशिष्ठ ने भलाई करके इस प्राचीन शत्रु को सीधा करना चाहा। जो हो इस काल से इन दोनों की प्राचीन शत्रुता मिट कर मित्रभाव स्थापित हुआ। ये दोनों ऋषि प्रायः सवा-सवा सौ वर्ष तक जिये होंगे। राम के पीछे यही अथवा दूसरे वशिष्ठ सगर के भी पुरोहित हुए। अवस्था के विचार से यही वशिष्ठ सगर के यहाँ भी हो सकते थे। मेल हो जाने से वहाँ उनसे विश्वामित्र ने कोई विरोध नहीं किया। ऐतरेय ब्राह्मण में नरवलि के प्रयत्न सम्बन्धी यज्ञ में विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ का होना लिखा है। ऋग्वेद में शुनः शेष की ऋचाओं में उनका यज्ञ में बाँधा जाना आया है। वैदिक साहित्य में शुनः शेष ही के मामा तथा दत्तक पिता विश्वामित्र हैं। त्रिशंकु और हरिश्चन्द्र के यहाँ पौराणिक साक्षी से कान्यकुब्ज नरेश ऋषि विश्वामित्र थे। यह साक्षी ऊपर आ चुकी है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऋग्वेद दोनों में विश्वामित्र जमदग्नि के मित्र तथा वशिष्ठ के शत्रु हैं। अतएव त्रिशंकु और सुदास के यहाँ वही विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। यही सुदास का समय कल्माषपाद, संवर्ण, रामचन्द्र और सगर का बहुत थोड़े अन्तर के साथ था। अतएव इन सब के यहाँ वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र वही व्यक्ति माने जा सकते हैं। केवल शकुन्तला के पिता समय के विचार से अन्य व्यक्ति थे।

विश्वामित्र के ब्राह्मण वंशधरों का विवरण ऊपर वंशवृत्त में आ-

चुका है। इनके भागिनेय के पुत्र परशुधर ने शायद कान्यकुब्ज और सौर राज्यों की सहायता से हैह्यार्जुन का युद्ध में बध किया था। इसी अथवा अन्य कारणों से हैह्य तालजंघ ने अपने उत्तर के आक्रमण में विश्वामित्र के क्षत्रिय पुत्र लौहि को राज्यच्युत कर दिया। इसके पीछे इनका क्षत्रियवंश बेपता हो गया। इसी स्थान पर पौरवों के राज्यवंशों का पौराणिक विवरण समाप्त होता है।

इस वंश के विषय में पुराणोत्तर ग्रन्थों में क्या कथित है, इसका भी कुछ दिग्दर्शन कराना उचित है।

मंजु श्री मूल कल्प आठवीं शताब्दी का एक साधारण बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें नहुष और पार्थिव नामक प्राचीन राजाओं के नाम लिखे हैं।

वैदिक साहित्य में निम्न पौरव नाम हैं :—

परुच्छेप (दिवादास वंशी), विश्वामित्र (तृतीय मण्डल इनका है), गाथिन, देवश्रवस, शुनःशेप, देवव्रत, ऋषभ, उत्कील, कठ, प्रजापति, मधुच्छन्दस (विश्वामित्र के मण्डल वाले गाथिन उनके पिता हैं, कुशिक पितामह तथा शेष लोग उनके वंशधर) पुरु, सम्बर्ण, नीपातिथि, आयु, ययाति, नहुष, प्रतर्दन, बृहद्रथ, पुरुवस, उर्वशी, कुशिक (वेदर्षि तथा विश्वामित्र के पितामह), जमदग्नि, परशुराम, सुकीर्ति, सुदास और खाण्डवदाह से उबारे हुए चार ऋषि (जरितर, द्राण, सारीस्रक, स्तम्ब मित्र)। चन्द्रवंशी इतर वेदर्षियों के नाम आगे के अध्याय में आवेंगे।

पुरुवस ऐल, ऋग्वेद X ९५, शतपथ ब्रा० XI ५, १, १।

आयु, ऋग्वेद I ५३, १०, II १४, ७,

ययाति नाहुष्य, ऋग्वेद I ३१, X ६३, १, ।

पुरु ऋग्वेद VII ८, ४, १८, १३।

भरत दौष्यन्ति सौद्यम्नि, शतपथ ब्रा० XIII ५, ४, ११, १२।

अजमीढ़, ऋग्वेद IV ४४, ६,

ऋक्ष, ऋग्वेद VII ६८, १५।

कुरु ऋग्वेद X ३३, ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत, ।

उरुजैः श्रवस, जैमिनीय उपनिषद् ब्रा० III २९, १, १३।

पुरुवरस ऐल के पिता बुध राजा थे, जो वाह्लीक या बैकट्टिया से आये थे, रामायण VII १०३, २१, २२। पपञ्चसूदनी के अनुसार ऐल लोग उत्तर बुरु से आये हैं। पांचाल देश वर्तमान बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद जिलों तथा अन्य स्थानों पर विस्तृत था। प्राचीन राज कम्पिल्य या कम्पिल बदायूँ फर्रुखाबाद के बीच गङ्गा तट पर थी। शतपथ ब्राह्मण XIII ५, ४, ७, में परिचक्र या परिचक्रा महाभारत का एक चक्रा है। पांचाल के पांच वंश कृवि, तुर्वश, केशिन, सृजय, और सोमक थे। कृवियों का कथन ऋग्वेद में है। शतपथ ब्राह्मण में ये पांचाल कहे गए हैं।

मोटे प्रकार से पांचाल रुहेलखण्ड तथा मध्य द्वाबा का भाग था,। उत्तरी और दक्षिणी पांचाल गङ्गा के आरपार थे। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या छत्रवती (राम नगर जिला बरेली) थी। दक्षिण पांचाल गङ्गा से चम्बल तक था, म० भा० १३८, ७३, ७४। महाभारत और जातकों से प्रकट है कि उत्तर पांचाल कभी कुरुवों का रहा, और कभी दक्षिण पांचालों का।

Ancient Indian historical tradition

में आया है कि मरुत्त के पीछे तुर्वश की शाखा पौरवों में मिल गई। यही बात मरुत्त द्वारा दुष्यन्त के गोद लिए जाने से पुराणों से भी प्रकट है। महाभारत में उत्तमौजस तथा सृजय दोनों पांचाल थे। धृष्टशुम्भ सोमकों में मुख्य थे (म० भा० आदि पर्व १४, ३३)। दिवोदास, सुदास और द्रुपद पांचाल थे। उत्तर पांचाल द्रोण को मिला।

चेदि बुहेलखण्ड तथा निकट का देश था। कभी नर्मदा तक भी फैलता था। राजधानी सुक्तिमती थी। कशु चैद्य ऋग्वेद VIII ५, ३७, ३९ का कथन दान स्तुति में है। चेतिय जातक यों राजवंश देता है:—१ महा सम्मत—रोज—वररोज—कल्याण ५—वरकल्याण—उपोस्थ—मान्धाता—वरमान्धाता—चर—१०, उपचर या अपचर। शायद महाभारतके पौरव चेदिराज उपरिचरवसु यही हों। जातक तथा महाभारत इन दोनों के पांच-पांच पुत्र बतलाते हैं। जातक ४८ कहता है कि काशी से चेदि के मार्ग में डाकू लगते थे।

ऊपर हम पौरव वंश में हस्तिनापुर वालों से इतर विदर्भ के द्विमीदों, उत्तर पांचालों, दक्षिण पांचालों, काशी वालों और कान्य-कुब्जों के इतिहास लिख आये हैं। इन वंशों में ययाति, दुष्यंत, भरत, सुहोत्र, हस्तिन, अजमीद, सवर्ण, कुरु, द्विमीद, मुद्गल, दिवादास, सुदास, बृहद्वसु, धन्वन्तरि, प्रतर्दन, वत्स, जह्नु और विश्वामित्र प्रधान पुरुष थे। ययाति मनु से छठी पीढ़ी में थे। इनसे २३ वीं पीढ़ी वाले दुष्यन्त के बीच में पौरव कुल में कोई मुख्यता न थी। इसी भांति सूर्य्य वंश में भी न० ४ पुरंजय के पीछे तथा मान्धातृ न० २१ के पहले जो १६ राजे थे, इनमें विशेष मुख्यता न थी। अतएव प्रकट है कि पुरंजय और ययाति इन दोनों के पीछे सूर्य और पौरव दोनों वंशों में प्रायः तीन सौ वर्षों तक विशेषता न थी। इसके पीछे दोनों वंशों में मुख्यता का फिर प्रारम्भ हुआ। दोनों वंशों में वेदर्वि राजे थे, किन्तु वेदों का गायन विशेषतया पौरव राज्य में हुआ। इसी कुल में वेदर्वि भी अधिक थे। इन्हीं कारणों से वेद में सूर्य वंशियों के सामने चन्द्रवंशियों का बहुत अधिक कथन है। अनार्यों का आर्यों से अन्तिम महायुद्ध राजा वर्चिन की अभ्युत्थता में उत्तर पांचाल नरेश सुदास से हुआ। उस काल यह राज्य रावी नदी तक फैला था। उस युद्ध में कई आर्य राजाओं ने भी वर्चिन का साथ दिया, किन्तु अनार्यदल ने करारी पराजय खाई और वर्चिन के एक लाख से ऊपर सैनिक मारे गये। इसके पीछे अनार्यों का आर्यों से प्राचीन काल में कोई भारी युद्ध न हुआ और अनार्य दब गए। उस काल रावण (लंका वाला), तिमिध्वज शम्बर, वर्चिन और भेद प्रधान अनार्य नरेश थे। तिमिध्वज की राजधानी वैजयन्त थी। उसकी स्त्री रावण की स्त्री मन्दोदरी की बहिन थी। अतिथि रूप में वैजयन्त जाकर रावण ने एक बार इन्द्रिय लोलुपता के कारण शंबर की रानी मायावती से व्यभिचार करना चाहा। यह जान कर शम्बर ने उसे वहीं कैद कर दिया और मन्दोदरी तथा मायावती के पिता मयदानव के कहने से कठिनता से छोड़ा (शिवपुराण)। इससे इन दोनों में मन मैली होगई और जब पांचालपति दिवादास तथा अयोध्या नरेश दशरथ ने शम्बर से युद्ध किया, तब उसके नष्ट हो जाने तक भी रावण ने उसकी सहायता न की। फल यह हुआ कि

समय पर दशरथात्मज राम ने रावण का भी सत्यानाश कर डाला । यदि दोनों रावण और शम्बर मिल कर लड़ते, तो शायद दोनों के दोनों बचे रहते । इधर दिवोदास के उत्तराधिकारी सुदास ने वर्चिन को नष्ट किया तथा भेद उनका प्रजा होगया । इस प्रकार राज्ञसों और दानवों का बल उस काल चूर्ण हुआ ।

बारहवां अध्याय

मनु-रामचन्द्र काल, त्रेतायुग प्रायः १६०० से

१२५० बी० सी० तक ।

चन्द्रवंश की इतर शाखायें तथा सम्मिलित विवरण ।

यदुवंश—वैदर्भ, और माथुर शाखायें ।

पौरवों के पूर्व पुरुष ययाति के बड़े पुत्र शुक्राचार्य के दौहित्र यदु ही थे, किन्तु आज्ञालंघन के कारण चारों जेष्ठ बन्धु अधिकारच्युत हुए तथा पंचम पुरु सम्राट बने । तो भी ययाति द्वारा जीता हुआ चम्बल बेतवै और केन वाला देश यदु को मिला । इनके दो पुत्र थे अर्थात् क्रोष्टु और सहस्रजित । पहले से मुख्य यादव वंश चला, और दूसरे से हैहयवंश । यदु वाले देश के उत्तरी भाग में सहस्रजित स्थापित हुये और दक्षिणी में क्रोष्टु या क्रोष्टा । ऋग्वेद में यदु के विषय में भले और बुरे दोनों प्रकार के कथन हैं । हरिवंश में जो इनका आनर्त देश में गोद जाना लिखा है वह किसी अन्य यदु से सम्बद्ध है, क्योंकि वह गोद लेने वाला हर्यश्व यदुवंशी ३९ वें नरेश मधु का दामाद था । ऋग्वेद में एक स्थान पर यदुवंशियों के यज्ञादि न करने के कथन हैं तथा अन्यत्र इनके दान की प्रशंसा है । पुराणों में भी इस कुल की प्रशंसा होते हुए यह भी लिखा है कि ये नरेश दुराचारी थे तथा इनके कारण अन्य क्षत्रियों में भी दुराचार फैला । सूर्य और पौरव वंशों की भौति यदु पुत्रों के पीछे इस शाखा में भी (नं० २०) शशिविन्दु के पूर्व कोई विशेष महत्ता न आई और वंशावली में नरेशों के नाम ही नाम हैं । शशिविन्दु प्रसिद्ध यज्ञकर्ता और सम्राट् थे । इन्होंने पौरवों को राज्यच्युत किया, किन्तु इनके पीछे यदु वंश कुछ पीढ़ियों तक फिर निर्बल हो गया । शशिविन्दु का वर्णन वायु ९५, ९९, मत्स्य ४४, १८, विष्णु IV १२, १, अग्नि २७४, १३, भागवत IX २३, ३२ में आया है ।

इनके पौत्र (नं० २२) परावृत के दो पुत्र विदिशा में स्थापित हुए। इनके मुख्य पुत्र ज्यामघ दक्षिण जांकर मृत्तिकावती, ऋक्षपर्वत आदि में राज्य करने लगे। समझ पड़ता है कि कारणवश ज्यामघ का पैत्रिक राज्य शायद हैहयों के फैलने से छूट गया। इनके पुत्र विदर्भ ने इसी नाम का प्रान्त जीत कर वहाँ मुख्य स्थान बनाया। इस राज्य की विदर्भ और कुंडिन राजधानियाँ थीं, (म० भा० ३१, २७७२. V १५७, ५३६, ३, ह, वं, ११७, ६५८८, ६६०६, १०४, ५८०४, १०६, ५८५५, ११८, ६६६२, ६६९३)। नं० २४ विदर्भ से नं० ३३ विकृति तक कोई विशेष घटना नहीं मिलती है। (नं० ३५) भीमरथ निषधनाथ नल के श्वसुर एवं दमयन्ती के पिता थे (म० भा० वन पर्व)। नल दमयन्ती पर अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखे गए हैं, जो कई यारोपियन भाषाओं तक में अनुवादित हो चुके हैं। भीम वैदर्भ का कथन ऐतरेय ब्राह्मण VII ३४, में है। इनके पीछे (३९) मधु को हम आनर्त और मथुरा का स्वामी पाते हैं। ये आनर्त राज्य अपने जामाता हर्यश्य को देते हैं और मथुरा बेटे लवण को; ऐसा हरिवंश में लिखा है। इनके प्रपौत्र सत्वन्त का पुत्र नं० ४३, भीम सात्वत था। इसके या सत्वन्त के समय में राम के भाई शत्रुघ्न ने मथुरा छीन कर वहाँ राज्य जमाया किन्तु राम और शत्रुघ्न के पीछे भीम सात्वत ने मथुरा (मधुपुरी) फिर से प्राप्त की। सम्भवतः यह पुरी उपर्युक्त मधु की बसाई हुई थी। जान पड़ता है कि मथुरा खोने के पीछे यदुवंश उसी के निकट कहीं कालक्षेप करता रहा होगा। समझ पड़ता है कि विदर्भ में इस वंश की एक शाखा स्थापित रही होगी जिसके प्रतिनिधि श्रीकृष्ण के समय में भीष्मक और रुक्मी थे, तथा उस वंश की एक शाखा मथुग और आनर्त की अधिकारिणी हो गई होगी। यही शाखा मध्यदेश में आ जाने से वंशावलियों में मुख्य समझी गई तथा विदर्भ की मुख्य शाखा अमुख्य हो गई। यह भी सम्भव है कि (नं० ३१) द्विमीढ़ ने जब विदर्भ में पौरव राज्य भी स्थापित किया, तब विदर्भ के तत्कालीन वंशधरों का प्रभाव कुछ कम हो गया हो।

विदर्भ नं० २४ के क्रथभीम और क्रथ कैशिल नामक दो पुत्र थे।

ऋथभीम के वंश का ऊपर वर्णन हो चुका है। उधर ऋथ कैशिक के वंशधरों में चिदि, वीरवाहु और सुवाहु के नाम लिखे हैं। ये सुवाहु राजा नल की रानी के मौसिया थे (म० भा०)। नल का नं० ३५ बैठता है, सो सुवाहु का ३४ होना चाहिए। फिर भी वंशावली में वह नं० २८ है। इससे जान पड़ता है कि इस वंश के केवल मुख्य नाम लिखे हैं। सम्भवतः ऋथभीम की शाखा मथुरा चली आई हो और ऋथ कैशिक की विदर्भ में रह गई हो तथा उसी वंश में उपर्युक्त भीष्मक (श्रीकृष्ण के ससुर) हों। माथुर तथा अन्य हैहयतर यादवों का वर्णन द्वापर युग में होगा। ऊपर के विवरण से प्रकट है कि यदु वंश की यह शाखा पहले अपने पैत्रिक देश में रही। फिर ड्यामघ के काल मृत्तिकावती में आकर विदर्भ के आधिपत्य से विदर्भ में स्थापित हुई और इन्हीं के पीछे देश का नाम पड़ा। अनन्तर कुछ काल में एक शाखा वहीं रह गई तथा वहां द्विमीद का पौरव राज्य भी जमा (पार्जितर) और दूसरी यादव शाखा मथुरा चली आई। इस शाखा का आनर्त प्रान्त वाला अधिकार प्रसन्नतापूर्वक सूर्य वंशियों में चला गया। जिस काल हैहयों का अधिकार सगर के प्रभाव से गिरा और उनका वैदर्भों से वैवाहिक संबंध हुआ, तब से इन्हीं वैदर्भों ने उत्तर की ओर बढ़कर कुछ हैहय राज्य पर भी अधिकार कर लिया। यह भूभाग शायद इन लोगों के पूर्व पुरुषों का वह देश होगा जो हैहयों ने इन से छीना होगा। पार्जितर का विचार है कि वैदर्भ चिदि ने यमुना तट का चेदि राज्य चलाया। वास्तव में वह चेदि राज्य पौरव वंशी सुधम्वन या सुहोत्र का कमाया था तथा सुहोत्र के प्रपौत्र पौरव चिदि के कारण चेदि कहाया। यादव चिदि का उस राज्य से सम्बन्ध नहीं समझ पड़ता। पार्जितर का यह भी कथन है कि विदर्भ के तीसरे पुत्र लोमपाद ने भी एक अज्ञात राज्य जमाया। वह कहते हैं कि कुछ कैशिक ऋथों के साथ विदर्भ में भी रहे। वास्तव में ऋथ कैशिक राज्य विदर्भ ही में समझ पड़ता है और चेदि में पौरव राज्य था। श्रीकृष्ण एक ऋथ कैशिक के विदर्भ ही में अतिथि हुये थे (उनका विवरण आगे आवेगा)।

यादवों की हैहय शाखा !

उपर्युक्त यदु नं० ७ की चौथी पीढ़ी पर हैहय का नाम लिखा है, किन्तु इस वंश की प्रायः १६ पुश्तें पौराणिक वंशावलियों से छूट गई हैं। ऐसा निष्कर्ष पौराणिक विवरणों की समकालीनतायें मिलाने से निकलता है। इस प्रकार हैहय का नम्बर २५ वां पड़ता है। उनके समय इस वंश की इतनी उन्नति हुई कि यादव छोड़ कर ये लोग हैहय कहलाने लगे। समझ पड़ता है कि हैहय से ही हार कर ज्यामघ यादव नं० २३, ने अपना पैत्रिक प्रान्त छोड़ कर मृत्तिकावती में, विदर्भ के निकट, शरण ली और तब उन के पुत्र विदर्भ ने अपने नाम पर प्रान्त स्थापित किया, जिसे अब बरार (विदर्भ) कहते हैं। उधर यादवों का पैत्रिक देश हैहय को मिल गया जिससे इनका प्रभाव और भी बढ़ा। इनके प्रपौत्र साहंज (नं० २८) ने साहंजनी पुरी बसाई तथा इनके पुत्र महिष्मान ने माहिष्मती। सूर्यवंशी मुचकुन्द ने भी एक माहिष्मती बसाई थी। सम्भवतः दोनों एक ही थीं। हैहय के पीछे किसी समय सूर्यवंशी शार्यात् क्षत्रिय भी आनर्त खोकर हैहयों में आ मिले, जिससे दोनों का प्रभाव बढ़ा। महिष्मानात्मज नं० ३०, भद्रशेण्य ने पूर्वी राज्यों को जीतते हुए काशी पर भी आक्रमण किया। काशी नरेश नं० ३५ दिवोदास (प्रथम) ने भद्रशेण्य के कई पुत्रों को मारा। सम्भवतः भद्रशेण्य भी इसी युद्ध में काम आये। काशी राज्य ने इनके एक मात्र पुत्र दुर्दम को बालक समझ कर छोड़ दिया। अनन्तर कुछ दिनों में बल बढ़ा कर दुर्दम ने फिर काशी पर आक्रमण किया, और काशी नरेश, पहले दिवोदास (नं० ३४) को हराया। वे काशी छोड़ कर पच्छिम की ओर भागे। यहाँ उन्होंने गोमती के तट पर राजधानी बनाई। उधर काशी को लूट कर दुर्दम तो चल दिए और वहाँ क्षेमक राजस का अधिकार होगया। कुछ दिनों में उसे भी हरा कर दुर्दम ने काशी हैहय राज्य में मिला ली। इन कथनों के आधार ऊपर काशी के राज्य-कथनों में आगये हैं जहाँ यह कथा भी कथित है। शायद भद्रशेण्य के समय आक्रमणों के कारण हैहयों को धन की बहुत आवश्यकता हुई। किसी हैहय नरेश ने अपने अथच पूर्व पुरुषों द्वारा सम्मानित उस भार्गव

वंश से धन माँगा, जो शार्यातों का पुराना पुगोहित था और नर्मदा के दक्षिण रहता था, अथच शार्यातों के सम्बन्ध से हैहयों द्वारा भी पूजित था। उन्होंने धनाभाव बतलाया किन्तु खोदाई होने से उनके पास प्रचुर द्रव्य निकला। तब क्रोध करके हैहयों ने गर्भ तक फाड़-फाड़ कर उस वंश का नाश किया, केवल और्व नामक एक बच्चा किसी प्रकार बच गया। अनन्तर सयाने होने पर और्व नर्मदा को छोड़कर मध्यभारत में रहने लगे। इनके पुत्र ऋचीक प्रकट कारणों से शास्त्री हुए। ऋचीक का विवाह कान्यकुब्ज नरेश गाधि (वैदिक गाथिन) की पुत्री सत्यवती से हुआ, जिससे जमदग्नि का जन्म हुआ। उधर प्रायः उसी समय गाधि पुत्र विश्वामित्र उत्पन्न हुए। जमदग्नि के रेणुका में पाँच पुत्र हुए, जिनमें सब से छोटे परशुराम थे। रेणुका सूर्यवंशी किसी प्रसेनजित की पुत्री थी। अतएव कान्यकुब्ज तथा सूर्यवंशों की जमदग्नि से सहानुभूति थी। उधर हैहय नरेश दुर्दम का पौत्र कृतवीर्य प्रतापी राजा हुआ (महाभारत)। हैहयों का वर्णन निम्न अन्य पुराणों में भी है—ब्रह्माण्ड, वायु, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य, पद्म, लिंग, कूर्म, विष्णु, अग्नि, गरुड़, और भागवत्। वीतिहोत्र, अवन्ति, भोज, शार्यात और तुण्डकेर नामक इनकी पाँच शाखाएँ आगे चलकर हुईं।

शान्ति पर्व में यह लिखा है कि भार्गवों द्वारा जब हैहयों का पराभव हुआ, तब वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों तक पर अत्याचार करने लगे जिस पर इन्हों (भार्गवों) ने फिर हैहयों को राजा बना कर उनका दमन कराया। इससे जान पड़ता है कि पहले भार्गवों ने इनसे मिल कर हैहयों को पछाड़ा, और जब अपने पुरुषार्थ से मदान्मत्त होकर ये अनीति करने लगे, तब हैहयों के द्वारा भार्गवों ने उनका दमन कराया। पंडित लोग यह भी कहते हैं कि हैहयों के विरोध में कान्यकुब्जों तथा सूर्यवंशियों ने भी भार्गवों की सहायता की होगी।

हैहयार्जुन को जमदग्नि की स्त्री रेणुका की बहिन व्याही थी। कई साधारण कारणों से इन सादुओं में मन मैली होगई, और अर्जुन ने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। इस पर पिता की आज्ञा मान कर राम ने विद्रोही प्रजा के नेता बन कर युद्ध में अपने मौसिया एवं प्रसिद्ध सम्राट् अर्जुन का अपने हाथ से बध किया। अनन्तर

अर्जुनात्मजों ने राम की अनुपस्थिति में निरख जमदग्नि को मार डाला। कहते हैं कि इस पर क्रोध करके राम ने २१ बार भारत में सभी युद्धोत्साही क्षत्रियों का बध किया। यह कथन पुराणों में कथित है किन्तु तत्कालीन राजमंडल की स्थिति के देखने से अनैतिहासिक समझ पड़ता है। स्वयं राम की माता तथा पितामही क्षत्रियात्मजा थीं। एक क्षत्रिय वंश के कारण वे सारे क्षत्रिय वंशों पर क्रोध कर भी नहीं सकते थे। जान पड़ता है कि उन्होंने अर्जुन के दोषी पुत्रों का बध किया होगा। परशुमर राजा होना तो चाहते न थे, सो विजय प्राप्त करके पहले तो आप कुछ दिन कोंकण में बसे और फिर पूर्वी घाट के महेन्द्र पर्वत पर रहने लगे। विचार किया जाता है कि उनके प्रतोत्साहन से दक्षिण में ब्राह्मणों की बस्ती बहुत स्थापित हुई। पीछे रामचन्द्र के समकालीन अगस्त्य ने भी उधर बहु-संख्या में ब्राह्मण जनता बढ़ाई। मध्यदेश में परशुमर के भाई चारे में पीछे अग्नि और महत्ता युक्त हुए। इन्हीं की सहायता से सगर का प्रताप बढ़ा। हैहयों के विषय में कुछ और आचार्यों का कथन करके हम कथा के डार को आगे चलावेंगे। इनके तथा भार्गव ब्राह्मणों के कथन पुराणों में बहुतायत से हैं। सहस्रा-र्जुन का कर्कोटक नागों से माहिष्मती लेना (म० भा० VIII ४४,- २०६६, III ६६, २६११ VIII ३४, १४८३, ह० व० १६८, ९५०२, पद्म VI २४२, २) में लिखित है। कर्कोटक नागराज था। अर्जुन का नर्मदा से हिमालय तक जीतना (म० भा० III ११६, ११०८९, ११७,- १०२०९) तथा हैहयों का शकां, यवनों, काम्बजों, पारदों और पल्लवों की सहायता से मध्य देश जीतना (वायु ८८, १२२, ४३ ब्रह्माण्ड III ६३, १२०, ४१ VIII २९, ५१, ह० व० १३, ७६०, विष्णु IV ३, १५, ७२) में कथित हैं।

इसी स्थान पर वीतिहव्यादि हैहय तथा भार्गवों के सम्बन्ध में भी आधार लिख दिए जाते हैं जिसमें आगे के कथनों में स्थान-स्थान पर विवरण छोड़ कर वे न लिखने पड़े।

काशी की शाखा वाले प्रतर्दन ने हैहय राजधानी जीतकर वीतिहव्य (तालजघ हैहय के पुत्र) को हराया। वीतिहव्य शौनक भार्गव ऋषि होगए। इन्होंने आंगिरस शुनहोत्र के पुत्र गृत्समद वेदर्षि को गोद

लिया। यही गृत्समद शंबर वध में अतिथिग्व दिवोदास का कथन करते हैं। वीतिहव्य भरद्वाज ऋषि के साथ भी रहे। गृत्समद का दूसरा ऋग्वेद वाला मंडल है, और भरद्वाज का छठवां। इस छठे मण्डल में वीतिहव्य का कथन ऋषि की भांति है। वीतिहव्य वीतिहोत्र भी कहलाते थे (म० भा० XIII ३०, ५८, ९, ३०, १९८३, ९६, सर्वातु-क्रमणी) वीतिहव्य को महाभारत के अनुसार एक भार्गव ऋषि ने बचाया। इसी से ये भार्गव ऋषि बने। स्लेच्छों की सहायता से वीतिहव्य के पिता तालजंघ हैहय ने राजा बाहु को पराजित किया था। अनन्तर बाहु के पुत्र सगर ने हैहयों का बल नष्ट किया। (आधार वायु ८८, १२१, ४३, ह० वं०, ६३, ७६० से १४, ७८४ तक, विष्णु IV ३, १५, २१ महाभारत में कई जगह।)

भार्गवों के विषय में आधार।

ऊपर कहे हुए हैहयों के पौराणिक विवरणों में भार्गवों का भी हाल मिलेगा। सगर की पालना अग्नि औरव ने की (वायु ८८, १३७, मत्स्य १२, ४०, ३)।

पुराणों में कहीं-कहीं कृतवीर्य का भार्गवों को अमीर करना लिखा है और फिर उनके पीछे हैहयों द्वारा भार्गव संहार कथित है। इसी संहार से औरव का बचना तथा उनके प्रपोत्र परशुराम का कार्तवीर्य अर्जुन को मारना लिखा है। इससे जान पड़ता है कि भार्गव संहार कातवीर्य के पहले हुआ होगा। सम्भव है कि कार्तवीर्य ने भार्गवों का मान किया हो, किन्तु यह संहार के पीछे की बात थी।

ऋचीक औरव धनुर्धर एवं शास्त्री थे (म० भा० XIII ५६, २९१०. XII २३५. ८६०७, रामायण i ५५, २२, २)।

जमदग्नि की भी शास्त्रों तथा धनुष विद्या में शिक्षा हुई, किन्तु इन्होंने शान्त स्वभाव के कारण युद्ध छोड़ दिया। यह गङ्गाजी के किनारे रहते थे, (म० भा० II ११५, ११०६९-७०, XIII ५६, २९१०, १२, III ११६, ११०७१, XII ४९, १७४४, रामायण I ७५, २२, ३, पद्म VI २६८, २१)। अग्नि औरव ने सगर की सहायता की (मत्स्य १२, ४०, पद्म V ८, १४४), जामदग्नि राम ने हैहयार्जुन को मारा,

उसके पुत्रों का भी ध्वंस किया तथा २१ बार पृथ्वी निछत्र की। अब हैहयों का इतिहास फिर से उठाया जाता है।

अर्जुन के पीछे तत्पुत्र जयध्वज राजा हुये। शूर और शूरसेन इनके भाई थे। जयध्वज का कोई प्रभाव न बढ़ा, किन्तु इनके पराक्रमी पुत्र तालजंघ (राजा नं० ३६) ने फिर हैहय बल को बढ़ाया। शार्यात इनमें मिल ही चुके थे, अब आवन्ति, तुण्डिकेर और भोज भी मिल गये। हैहयों की एक शाखा तालजंघात्मज के नाम पर वीतिहात्र भी कहलाती थी। तालजंघ ने विश्वामित्र को स्लेच्छों द्वारा हरानेवाली वशिष्ठ की युक्ति को ठीक समझ स्वदेशाभिमान छोड़ कर स्लेच्छों से भी सहायता ली। इधर प्रजा का विद्रोह भार्गवों से मेल हो जाने से दूट ही चुका था, सो पराक्रमी भूपाल तालजंघ ने हैहय राज्य के बढ़ाने में मन लगाया। ये पुराणों में वृद्धवाहु (बड़ी भुजावाला) कहे गए हैं। इनका राज्य आनर्त (कैम्बे की खाड़ी के निकट) से बनारस तक फैला। इनके आक्रमणों से पराजित हो कर सूर्यवंशी राजा वाहु उपर्युक्त अग्नि और ऋषि के आश्रम में गए, तथा काशी नरेश दूसरे दिवोदास (नं० ३७) भरद्वाजाश्रम में जा छिपे। विश्वामित्र के पुत्र लौहि का कान्यकुब्ज राज्य नष्ट हुआ और केवल अयोध्या का सूर्यवंशी राज्य इस आर बच रहा। पौरवों, पांचालों आदि से हैहयों का बिगाड़ न हुआ। जान पड़ता है कि पशुधर के नाना प्रसेनजित सगर के पूर्वपुरुषों में कोई थे और इस वंश ने तथा कान्यकुब्जों ने भार्गवों की अवश्य सहायता की होगी, जिससे हैहयों ने अपने पुराने शत्रु काशी नरेश के अतिरिक्त इन्हीं दो मुख्य राज्यों से बैर निकाला। तालजंघ ने काशी के पूर्व वाले राजाओं को भी जीता होगा, किन्तु पुराणों में उनके नाम नहीं हैं, केवल वैशाल नरेशों में नं० ३५ प्रगति अन्तिम नरेश लिखे हैं। उनका राज्य तालजंघ ही ने छोना होगा, ऐसा समझ पड़ता है। इनके युद्धों में क्षत्रियों का संहार बहुत हुआ तथा इनके द्वारा स्लेच्छ सेना के भी प्रयोग से अथच हैहयों के भार्गवों से अनुचित विरोध करने से, इन क्षत्रियों का भारी विजेता होने पर भी भारतीय ग्रन्थों में अधिक समादर नहीं है।

तालजंघ के समय तो कोई हैहयों से आँख मिला न सका, किन्तु

इनके पीछे इस वंश पर विपत्ति आई। इनके पुत्र वीतिहोत्र (नं० ३७) तथा उनके एक भाई में यह राज्य बंट गया। वीतिहोत्र के प्रपौत्र, (नं० ४०) सुप्रतीक इस शाखा के अन्तिम नरेश थे। इसी काल दूसरी शाखा के अन्तिम राजा वीतिहोत्र के पौत्र वृष्ण थे। दिवोदास के पुत्र राजा (नं० ३८) प्रतर्दन ने वीतिहोत्र को वह करारी पराजय दी कि वे राज्य छोड़ कर भार्गव वंशी वेदर्षि हो गए। इन्हीं वीतिहोत्र ने उत्तर पांचाल नरेश दिवोदास द्वारा पूजित वेदर्षि भरद्वाज के साथ वैदिक ऋचाओं का गान किया। इनके पुत्र और पौत्र दुर्जय फिर भी किसी न किसी रूप में हैहयराज्य चलाते रहे। काठक संहिता में आया है कि भरद्वाज ने प्रतर्दन को राज्य दिया। ये वही भरद्वाज थे, जिनका वीतिहोत्र से भी सम्बन्ध हुआ, सो यही निष्कर्ष निकलेगा कि प्रतर्दन ने वीतिहोत्र का पकड़ कर अपने गुरु भरद्वाज के हवाले किया तथा उसका पुत्र हैहयराजा हो गया। अनन्तर औब के आश्रित बाहु के पुत्र प्रसिद्ध नरेश सगर ने हैह्यों की दोनों शाखाओं को नष्ट करके इस वंश को पूर्णतया राज्यच्युत कर दिया। हैह्यों ने अपना राज्य बढ़ाने में दूसरों के अधिकारों का उचित मान नहीं किया, जिससे भार्गवों पर विपत्ति आई, वैशाल और कान्यकुब्ज राज्य नष्ट हो गए, तथा काशी और बाहु के राज्य डगमगाये, किन्तु अन्त में भार्गवों तथा इन्हीं दोनों द्वारा हैहयराज्य अशेष हुआ। कालिदास ने राम की पितामही इन्दुमती के स्वयंवर में हैहयवंशी प्रतीप की उपस्थिति लिख कर उन्हें वृद्ध सेवी बतलाया है। सम्भवतः प्रतीप उपर्युक्त वृष्ण के पिता या पितामह हों। उज्जयिनी हैह्यों के ही राज्य में थी। त्रेतायुग में अयोध्या वंश के अरिर्हित हैह्यों के वंशी हो सर्वोत्कृष्ट थे, किन्तु रामचन्द्र के समय में अथवा उनके कुछ ही पीछे निर्मूल हो गये।

तुर्वंश वंश, उत्तरी बिहार।

यदु के सगे भाई तुर्वंश को ययाति द्वारा किये हुये बटवारे में प्रायः रीवां प्रान्त मिला। उस प्रान्त से यह वंश उत्तरी बिहार में कब आया, सो पता नहीं, किन्तु मरुत्त (नं० २२) को हम वहाँ पाते हैं। वैशाल

मरुत्त को तौर्षश मरुत्त का बहुत कुछ यश पुराणों में मिला है, यहाँ तक कि इनके पिता करन्धम का नाम भी वैशाल मरुत्त के पितामह का है। करन्धम भी प्रतापी लिखे हुए हैं। मरुत्त चक्रवर्ती सम्राट् हुए। (अश्वमेध पर्व महाभारत) आपने दीर्घतमस के चचा संवर्त से यज्ञ कराई। इन्हें भारी खजाना भी हिमालय में मिला। संवर्त के भाई वृहस्पति का वही नाम था, जो देव पुरोहित का। शायद इसी से संवर्त का सम्बन्ध महाभारत के अश्वमेध पर्व में देव पुरोहित वृहस्पति से जुड़ा है और इन्द्र की मरुत्त पर ईर्ष्या कही गई है। देव पुरोहित वृहस्पति इस काल से बहुत पूर्व के थे। उनका संवर्त और उच्चथ्य के भाई वृहस्पति से सम्बन्ध नहीं समझ पड़ता है। दैत्य दानवों के शत्रु इन्द्र का ऐतिहासिक वर्णन मनु और चन्द्र के समय में होकर (सूर्यवंशी नं० ४) पुरंजय के समय तक चलता है, जहाँ वह नाम किसी सम्राट् वंश की पदवी है। वृत्र को मार कर जब इन्द्र भागते हैं, तब (चन्द्रवंशी नं० ५) नहुष इन्द्र बनते हैं। अनन्तर उनके पतन पर शायद पुरंजय की सहायता से, पुगने इन्द्र फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसके पीछे (योग वाशिष्ठ के अनुमार) किसी दैत्य सरदार प्रह्लाद को विष्णु इन्द्र बनाते हैं। यह प्रह्लाद बलि के पितामह से इतर कोई अन्य दैत्य सरदार भी हो सकते हैं, किन्तु समझ बलि के ही पितामह पड़ते हैं। योग वाशिष्ठ में विष्णु कहते हैं कि आज से दैत्यों का रुधिर पात युद्ध में न होगा। पुराणों में लिखा है कि प्रह्लाद भविष्य में इन्द्र होंगे। इन कथनों से फारस में अन्त में दैत्य साम्राज्य के स्थापित होने की ध्वनि मिलती है। इसके पीछे सब से पहले जब इन्द्र का ऐतिहासिक विवरण आता है तब वे युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन के स्नेहा पिता के रूप में हिमालय के किसी प्रान्त के सम्राट् देख पड़ते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। बलि को वामन की सहायता से जीतनेवाले इन्द्र शायद फारसी सम्राट् थे। यश वंश नहुष के समय में डगमगा कर अन्त में अधिकारच्युत हुआ और प्रह्लाद नामक किसी दैत्य की अध्यक्षता में उस वंश में फारसी इन्द्र पद स्थापित हुआ। दूसरा इन्द्र घराना युधिष्ठिर के समय हिमाचल में था। रावण के समय में भी एक इन्द्र थे। इन तीनों वंशों के अतिरिक्त कोई चौथा ऐतिहासिक

इन्द्र वंश नहीं समझ पड़ता है। अतएव मरुत्त से होड़ करनेवाले इन्द्र केवल मादात्म्यवर्द्धक अथच काल्पनिक समझ पड़ते हैं। मरुत्त के कुछ ही पूर्व मान्धाता ने पौरव कुल को राज्यच्युत कर दिया था। अब इन्हीं (मरुत्त) ने पौरव वंशी राजकुमार दुष्यन्त को गोद लिया। मरुत्त का उत्तराधिकार पाने से दुष्यन्त का प्रभाव बढ़ा जैसा कि पौरव कुल में कथित है। तुर्वश वंश यहीं से पौरव कुल में मिल जाता है। कहते हैं कि दाक्षिणात्य राजकुल पांड्य, चोल, और कर्ल तुर्वश वंशी थे। महाभारत आदि पर्व में यवन भी तुर्वश वंशी कहे गये हैं।

द्रुह्यु वंश, पंजाबी नरेश।

ययाति के बटवारे में द्रुह्यु को यमुना के पच्छिम तथा चम्बल के उत्तर वाला देश मिला। इनके २७ वें वंशधर पर्यन्त, बीच के कुछ नाम छोड़ कर, पुराणों में लिखे हैं। द्रुह्यु वंशी नं० २१, अङ्गार को सूर्यवंशो मान्धाता ने हराया, जिससे इन लोगों को और भी पच्छिम हटना पड़ा। इनके पुत्र गान्धार में थे। सूर्यवंशियों ने वहाँ भी इनका पीछा न छोड़ा, किन्तु इन्होंने मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्त को बन्दी बना लिया। ऋग्वेदानुसार कारागार में ही पुरुकुत्त के पुत्र त्रसदस्यु का जन्म हुआ। अनन्तर प्रतापी मुचकुन्द ने अपने भाई पुरुकुत्त का मोचन किया। सयाने हाने पर पिता के बन्दी हाने का बदला लेने को त्रसदस्यु ने दुष्यन्त से प्रेम स्थापित रखने को उनका पौत्रिक पौरव राज्य सम्भवतः बिना युद्ध किए फेर दिया तथा गान्धारों पर आक्रमण करके द्रुह्युओं का करारी पराजय दी। तब ये लोग और भी पच्छिम हट कर स्लेच्छ देश का चले गए। कुछ द्रुह्यु वंशी मध्यभारत में भी बसे, जहाँ इन की भोज संज्ञा हुई। इसके पीछे बहुत काल तक द्रुह्यु वंशियों का पता नहीं लगता। इनके वंशधरों में (नं० २६) प्रचेतस प्रतापी थे। उनके वर्णन पुराणों में हैं। अनन्तर उत्तर पांचाल नरेश नं० ३९, सुदास के समय में हम फिर द्रुह्यु वंशियों का पंजाब में पाते हैं। वे कब इधर स्थापित हुए, सो पता नहीं, किन्तु आनवों, तौ शों, भार्गवों आदि के साथ परुष्णी नदी के किनारे हम इन्हें भी ऋग्वेद में सुदास से हारने देखते हैं। इसके पीछे द्रुह्यु वंश के नाम

से इनका पता नहीं है किन्तु भोज वंश के नाम से इन्होंने जो काम किये उनके विवरण यथा स्थान मिलेंगे। महाभारत आदि पर्व केवल भोजों को द्रुह्य वंशी कहता है।

आनव वंश, उत्तर पच्छिमी शाखा।

सम्राट् ययाति के बटवारे में अनु को गङ्गा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग मिला। इनके पीछे (नं० २१) महामनस पंजाब में बढ़े। वायु ९९, १६, ७, तथा मत्स्य ४८, १४ में महामनस चक्रवर्ती नरेश तथा सात समुद्रों के स्वामी कहे गए हैं। इनको सप्तद्वीप पति कहा है। समझ पड़ता है कि जब इनके पितामह जनमेजय की मान्धातृ ने हराया तब अपने पैत्रिक प्रान्त में ठहरना असम्भव समझ कर कुछ आनव पूरव की ओर चले गए और कुछ पच्छिम को। समय पर पच्छिम जाने वालों के नेता महामनस हुए। वहाँ पीछे इन लोगों ने सिन्धु, सौवीर, कैकय, मद्र, वाल्हीक, शिवि और अम्बष्ट राज्य स्थापित किए। इनमें से कैकयों की टूटी-फूटी वंशावली दी हुई है, तथा इतरों के कथन मात्र हैं। हमारे पौर्वाणिक व्यास लोग मध्यप्रदेश की वंशावली देते तथा उनके कथन करते थे। इतरों के मध्यदेश वालों से जैसे कुछ सम्बन्ध रहे, वैसे उनके विवरण आये अथच शेष छोड़ ही दिए गए। महामनस के पुत्र उशीनर और तितिलु थे। तितिलु पूर्व की ओर चले आये। इनके वंश का कथन आगे होगा। उशीनर ने पच्छिम काशी उपनाम अटक बनारस अपनी राजधानी बनाई। इनके राज्य में यौधेय, अम्बष्ट, नवराष्ट्र और कृमिला शहर भी थे। इनके पुत्र शिवि की पुराणों में शरणागत वत्सल होने की भारी प्रशंसा है। कहते हैं कि आपने केवल एक कपोत के कारण प्राण दिए। शिवि औशीनर से शिवपुर का शिवि वंश चला, तथा चार पुत्रों द्वारा पच्छिम की ओर बढ़ कर आपने वृषदभ, कैकय, मद्र, और सौवीर के राज्य जमाये। पंजाब इनके अधिकार में आ गया। कैकय की पुत्री कैकयी (राम की सौतेली माँ और भरत की सगी माता) तथा पुत्र युधाजित थे। जब इस वंश का राज्य गन्धर्वों ने नष्ट कर दिया, तब अयोध्या से दलबल समेत आकर भरत ने गन्धर्वों को पराजित

करके अपने दो पुत्रों में नाना का राज्य बाँट दिया। तत्त को तत्तशिला मिली और पुष्कर को पुष्करावती (आधार वायु ८८, १८९, ९०, विष्णु IV ४, ४७, अग्नि ११, ७, ८, रघुवंश XV ८८, ९, पद्य V ३५, २३. ४, VI २७१, १०)।

इसके आगे पुराणों में यह वंश वर्णित नहीं है। या तो यह लोग उसी आर के क्षत्रियों में मिल गए होंगे, या समय पर शत्रुओं द्वारा जीते जाकर इनके वंशधर राज्यच्युत हुए होंगे। पहला अनुमान सुसंगत समझ पड़ता है क्योंकि इनकी दोनों राजधानियों (तत्तशिला और पुष्करावती) के नाम बहुत काल तक चले। कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि कुछ आनव म्लेच्छ देशों में जा बसे। महाभारत आदि पर्व म्लेच्छों को अनुवंशी कहता है।

आनववंश, पूर्वी आंग शाखा।

उपर्युक्त नरेश नं० २२, तितिलु पूर्व में आकर अंग (वर्तमान भागलपुर) में स्थापित हुये। इनके पौत्र हेम के पौत्र (नं० २६) बलि एक प्रसिद्ध और विजयी राजा थे। इनकी सुदेष्णा रानी में इन्हीं की आज्ञा से ताँवश मरुत का यज्ञ कराने वाले संवत् के भतीजे तथा उचथ्य और ममता के पुत्र प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अन्धे दीर्घतमसे ने पाँच पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम अंग, बंग, कलिंग, सुम्ह और पौण्ड्र थे। अनन्तर इन्हीं मामतेय ने नेत्रवान हाँकर गोतम नाम धारण किया, तथा दुष्यन्त पुत्र पौरव सम्राट् भरत का ऐन्द्रमहाभिषेक कराया। बलि के पाचों पुत्रों ने बढ़ कर पूर्वी प्रान्तों में राज्य किया। इनके द्वारा शासित देश इन्हीं के नामों से प्रख्यात हुए। ये सब पूर्वी बिहार से बंगाल तक पर फैले थे। बंग (वर्तमान वीरभूमि मुर्शिदाबाद, बर्दवान, और नरिया), पुण्ड्र (छोटा नागपुर), सुम्ह (बाँकुरा और मर्दानापुर), और कलिङ्ग (उड़ीसा) Kapsen के अनुसार आनवों के थे। बलि पुत्र अंग (नं० २७) ने पिता ही की राजधानी मालिनी में राज्य किया। इन्हीं के नाम पर देश अंग (वर्तमान मुँगेर तथा भागलपुर) कहलाया। इनके वंशधर प्रसिद्ध नरेश लोमपाद (नं० ४०) राम के पिता दशरथ के मित्र थे। कौशल्या की पुत्री

शान्ता को गोद लेकर इन्होंने उसका ऋष्य शृंग से विवाह किया। इनके प्रपौत्र चम्प ने चम्पापुरी बसाई, जो अङ्ग की राजधानी हुई। इसी वंश के किसी राजकुमार उद्र का राज्य उड़ीसा में जमा। लोमपाद के वंशधर जयद्रथ (नं० ४८) ने एक ऐसी कन्या से विवाह किया, जिसकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय था। इस कारण यह वंश सूत कहलाने लगा। आगे का वर्णन यथा स्थान आवेगा। इस वंश का विवरण महाभारत, रामायण तथा पुराणों में है। दीर्घतमस का वर्णन म० भा० के अतिरिक्त ऋग्वेद, वायु ९९, मत्स्य ४८ तथा बृहद्देवता IV १५ में भी है। इस काल के उपर्युक्त महापुरुषों के विवरण जो पुराणों से अन्यत्र मिलते हैं, उनके भी कथन यहाँ किए जाते हैं। इनमें वेदर्वि निम्न हैं :—

दीर्घतमस, वीतिहव्य, जमदग्नि, राम परशुधर और शिवि। यदु, द्रुह्यु, अनु और तुर्वश के नाम ऋग्वेद में बार-बार आये हैं। गन्धार में बहुत करके रावलपिण्डी और पेशावर के जिले लगते थे। उसमें तक्षशिला और पुश्करावती शहर थे। अन्तिम को अब प्रेग और चारसद (पेशावर से उत्तर पच्छिम १७, मील) कहते हैं। ऋग्वेद I १२६, ७, में गान्धारियों की उन की प्रशंसा है। अथर्ववेद V २२, १४, में गन्धारी लोग निन्द्य होकर मूजवन्तों के साथ कथित हैं। पीछे वहाँ विद्वत्ता की प्रसिद्धि हुई, जहाँ वेदों तथा १८ विद्याओं की शिक्षा होती थी। छान्दोग्य, VI १४, में उद्दालक, आरुणि, गान्धारी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं। उद्दालक जातक नं० ४८७, में उद्दालक तक्षशिला जाकर विद्या सीखते हैं। सेतुकेतु जातक नं० ३७७ कहता है कि उद्दालक पुत्र सेतुकेतु ने तक्षशिला में विद्या पढ़ी। कौटिल्य भी वहाँ के विद्यार्थी थे। जातक (४०६) में कश्मीर और तक्षशिला गान्धार में थे। गन्धार राज द्रुह्यु वंशी थे। ऋग्वेद में गन्धार वाले उत्तर पच्छिमी लोग थे।

केकय लोग गन्धार और व्यास नदी के बीच में थे, (रामायण, II ६८, १९, २२, VII ११३, १४)। राजधानी राजगृह या गिरिव्रज जलालपुर भेत्तम पर थी। एक मागध गिरिव्रज भी था। मत्स्य आर वायु पुराण कहते हैं कि उशीनर केकय और मद्रक लोग

आनव थे। ऋग्वेद VIII ७४, कहता है कि आनव मध्यपञ्चाव में थे।

मद्र के दो भाग हैं, अर्थात् उत्तर और दक्षिण मद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर माद्र हिमालय के उस पार लिखे हैं। कश्मीर के निकट उत्तर कुरु में दक्षिण माद्र मध्यपञ्चाव में थे। केकय तथा इरावती के बीच में (महाभारत VIII ४४, १७) यह राज्य सियालकोट और निकट के जिलों पर था। यह गुरु गोविन्दसिंह के समय तक मद्र कहलाता था। राजधानी सांकल थी (महाभारत)। कलिङ्ग जातक ४७९ और ५०१ कुश जातक में वहाँ राजकीय सत्ता एक राजाधीन है। पहले मद्र अच्छा था, किन्तु कर्णपर्व में माद्रों की निन्दा है।

उशीनर का प्रान्त मध्यदेश में था। ऐतरेय ब्राह्मण VIII १४, कहता है कि मध्यदेश में कुरु, पांचाल, वश एक वंश का नाम था तथा उशीनरों का राज्य था। वौशीतकि उपनिषत् में उशीनरों का साथ मत्स्य, कुरु, पांचाल और वशों से हैं। कथा सरित्सागर में उशीनर कनखल के पास हैं। पाणिनि भी इनका कथन करते हैं। महाभारत में राजधानी भोज नगर है तथा ऋग्वेद, X ५९, ७, १०, में उशीनरानी। अनुक्रमणः और जातकों में उशीनर और तत्पुत्र शिवि के कथन हैं। मत्स्य में अलवर, जैपुर तथा भरतपुर के भाग थे। राजधानी वैराट जैपुर में थी। ऋग्वेद VII १८, ६ में मत्स्य लोग सुदास से हारते हैं। अङ्ग मगध के पूर्व में है। राजधानी चम्पा थी, तथा चन्दन नदी हृद।

मथुरा शूरसेनों की राजधानी थी। इसका नाम ऋग्वेद में नहीं है। ग्रीक लेखक मथुरा तथा शूर सेनों के कथन करते हैं। यादवों में वीतिहोत्र, सात्वत आदि के नाम हैं, तथा सात्वतों में देवावृद्ध, अन्धक महाभोज और वृष्णि के। शतपथ ब्राह्मण VIII ६, ४६, में दौष्यन्ति भरत सात्वतों का हराकर उनका अश्वमेध बिगाड़ते हैं। ये सात्वत भीमसात्वत के पहले हुए होंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में सात्वत दक्षिणात्य हैं (VIII १४, ३) जिनके राजा भोज हैं। माहिष्मती, विदर्भ आदि यादवों की राजधानियाँ थीं। ऐतरेय ब्राह्मण VII ३४, में विदर्भराज भीम तथा गान्धार राज नग्नजित के समकालीन वभ्रु देववृद्ध हैं। अवन्ती में मालवा, नीमार तथा निकट की भूमि लगती थी। उत्तरी

राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवन्ती। आजकल उज्जैन और अवन्ती एक ही शहर के नाम हैं। सम्भवतः उस काल दो हों। दक्षिणापथ की राजधानी माहिष्मती (मान्धाना) नर्मदा पर थी। महाभारत में अवन्ती के विन्द अनुविन्द नर्मदा के निकट के थे। ऐतरेय ब्राह्मण VIII १४, दक्षिणी भागों से यादवों तथा भोजों का सम्बन्ध बतलाता है। पहला घराना हैहयों का था। इनका कथन कौटिल्य करते हैं। इन्होंने नागों को जीता। मत्स्य पुराण इनमें पाँच भाग मानता है, अर्थात् वीतिहोत्र, भोज, अवन्ती, कुण्डिकेर या तुण्डिकेर और तालजंघ।

काम्बोज उत्तरापथ में गन्धार के निकट था। राजपूर काम्बोजों का केन्द्र था; यथा, “कर्णराजपूरे गत्वा काम्बोज निर्जितस्तथा।”

राज्यों की पाँच श्रेणियाँ थीं, अर्थात् साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, और राज्य। भोज पहले यदुवंश के अंग थे। पीछे भोज्य से दक्षिणात्य राज्य का प्रयोजन मिलने लगा। शतपथ ब्राह्मण XIII ५, ४, ६, में मरुत्त अर्वाक्षित अयागत्र थे, अर्थात् शूद्र पिता और वैश्या माता से उत्पन्न।

महिषी, परिवृक्ता, वावाता और पालागली नाम्नी चार रानियाँ होती थीं। मुख्य महारानी महिषी थी, प्रेमहीना परिवृक्ता, मुख्य प्रेमिका वावाता और अन्तिम, मन्त्री की कन्या, पालागली। भारी सम्राट् का ऐन्द्रमहाभिषेक होता था। शर्यात, विश्वकर्मा, सुदास, मरुत्त और भरत के ऐसे अभिषेक हुए। ग्रामिक आदि राजा को सलाह देते थे।

विष्णु पुराण का कथन है कि बाहु तालजंघ से हार कर और्व के आश्रम गये। सगर ने शक, यवन, काम्बोज, परद और पल्लवों को जीता। वशिष्ठ ने उन्हें बचा कर प्रजा के रूप में बसने दिया। महाभारत आदि पर्व में वशिष्ठ ने शवरो तथा स्लेच्छों के द्वारा विश्वामित्र को जीता। जनमेजय के सर्पसत्र में आस्तीक ने, म० भा० आदि पर्व में गय, शशिविन्दु, अजमीढ़, रामचन्द्र और युधिष्ठिर के यज्ञों की प्रशंसा की। द्रोण पर्व में व्यास ने युधिष्ठिर के समझाने में निम्न १६ प्राचीन भारतीयों को श्रेष्ठ कहा:—मरुत्त (यज्ञकर्ता सम्राट्),

सुहोत्र (भारी वीर, यज्ञकर्ता, राजधानी में स्वर्ण बाहुल्य), अङ्ग, (यज्ञकर्ता), शिविऔशीनर (दानी, यज्ञकर्ता), दाशरथी राम, भगीरथ (सार्वभौमराजा, हजारों कन्यायें विप्रों को दीं), दिलीप इल्व-लात्मज (यज्ञकर्ता), मान्धातु (युवनाश्वत्माज, विजेता, यज्ञकर्ता), ययाति (यज्ञकर्ता), अम्बरीष नाभागात्मज (विजयी, रण, मख दान यहीतीन काम थे), शशिविन्दु (अश्वमेध में स्वपुत्र दान में दिए), गय (यज्ञकर्ता), रन्तिदेव (संकृतपुत्र, भोजन दान, यज्ञ), दुष्यन्त पुत्र भरत (दाँत पकड़ कर सुप्रतीक हाथी वश किया; कई अश्वमेध तथा विश्वजित यज्ञ किए), पृथु (पृथ्वीपुत्री, यज्ञकर्ता), परशुराम (विजयी) ।

त्रेतायुग का सम्मिलित वर्णन ।

चालुस मन्वन्तर के पीछे मनु वैवस्वत और बुध ने भारत में सूर्य और चन्द्रवंशों के राज प्रायः साथ ही साथ स्थापित किए । ये दोनों समुद्र दामाद थे । मनु अयोध्या में जमे, और बुध प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग के निकट भूँसी) में । मनु की मुख्यता थी और उन्हीं के नाम पर मन्वन्तर चला । उनके पुत्र सुयुम्न के तीन पुत्र पूरब में गीवां और सोन पर जमे, शर्याति आनर्त में तथा नाभानेदिष्ठ वैशाली में । मनु पुत्र धृष्ट का प्रभाव वाल्हीक देश की ओर कहा जाता है । इक्ष्वाकु मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे । ये अयोध्या में राजा हुए । इनके पुत्र शकुनि की अध्यक्षता में बहुतेरे ऐक्ष्वाकु उत्तरापथ (पंजाब की ओर) गए । वशाति और दंडक के नेतृत्व में इसी प्रकार कुछ ऐक्ष्वाकु दक्षिण पथ गए । वहाँ इनका उपनिवेश दंडक के व्यवहार से असफल हुआ । इक्ष्वाकु के समय में रावी नदी के निकट से आकर माथव नामक सरदार ने गृहण का पुरोहित बना कर मिथिला में राज्य जमाया । उनकी राजधानी जयन्त हुई । दस बारह पुत्रों के पीछे इक्ष्वाकु वंशी निमि और तत्पुत्र मिथि मिथिला में स्थापित हुये । ऐक्ष्वाकु (नं० ४) पुरंजय ककुत्स्थ इन्द्र के मुख्य सहायक और भारी नरेश थे । इन्हीं दिनों चन्द्रवंश में नं० ४, पुरूरवस और नं० ५, नहुष महान हुए । विश्वरूप और वृत्रवध के पीछे कुछ कारणों से इन्द्र को अपना पद

छोड़ना पड़ा, और नहुष इन्द्र हुए। इन्द्र का स्थान भारत के बाहर कहीं समझ पड़ता है। नहुष इन्द्रत्व चला न सके और पदच्युत हुए तथा इन्द्र फिर स्थापित हुए। शायद इसी अवसर पर पुरंजय ने उनकी सहायता की हो। अनन्तर चन्द्रवंशी नहुष पुत्र ययाति (नं० ६) प्रसिद्ध विजयी हुए। इन्होंने राज्य बहुत बढ़ाया। दो रानियों में इनके पाँच पुत्र हुए। जेठे पुत्रों से आज्ञा भङ्ग के कारण अप्रसन्न होकर ययाति ने कनिष्ठ पुत्र पुरु को सम्राट् बनाया, तथा चारों ज्येष्ठ पुत्रों को बाह्य प्रान्त दिए।

सूर्य और चन्द्रवंशों में इस काल कई राज्य स्थापित हो चुके थे। ययाति के पीछे कई पुशों तक महत्ता में शायद ये दोनों समान रहे हों। दोनों कुलों में छठे पुश से बीसवीं पीढ़ी पर्यन्त प्रायः ढाई सौ वर्ष तक किसी नरेश की महत्ता न हुई, यहाँ तक कि इस काल के कई नाम भी लुप्त हो गए। भारत के प्राचीन शासकों में किसे दबा कर ये दोनों वंश स्थापित हुए सो अकथित है। यह भी नहीं विदित है कि इन प्रायः ढाई सौ वर्षों में सूर्य, चन्द्र वंशों की तुलनात्मक शिथिलता के समय भी उन लोगों ने इन्हें जीतने का कोई प्रयत्न किया। शायद इन दिनों के भूपाल न तो बहुत निकलते हुए थे, न ऐसे निर्बल कि कोई उनके राज्य ही छीन लेता। सुदास नं० ३९ के समय तक वैदिक वर्णन भारी-भारी अनार्य राजाओं का अस्तित्व बतलाना है। पुराणों में भी इस साधारण काल में कुछ अनार्यों के आर्यों से युद्ध कथित हैं, किन्तु वे प्रभावपूर्ण न थे। इस शिथिल काल के पीछे सब से पहले महत्तायुक्त यादव नं० २०, भूपाल शशिविन्दु हुए। इन्होंने पौरवों को पराजित करके अनेक यज्ञ किए। अनन्तर इनका वंश फिर शिथिल पड़ गया और इनके दामाद सूर्यवंशी (नं० २१) मान्धाता प्रबल पड़े। इन्होंने अनु, द्रुह्य, और तुर्वश वंशियों को पराजित किया तथा पुरुवंश को राज्यच्युत कर दिया। उधर थोड़े ही दिनों में तुर्वश वंशी मरुत भी प्रबल पड़ कर सम्राट् हो गए और उनके दत्तक पुत्र दुष्यन्त पौरव प्रतापी होकर अपना राज्य फिर जमाने में यत्नवान हुए। इस स्थिति का मुख्य कारण सूर्यवंशियों का द्रुह्यवंशियों के पीछे पड़ कर गान्धार तक

प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न था। यदि सूर्यवंशी अयोध्या से इतनी दूर जा राज्य स्थापन के फेर में न पड़ कर मध्यदेश में महत्ता रखते, तो पहले पराजित मरुत्त का इतना प्रभाव न बढ़ पाता। फलतः पौरव राज्य अयोध्या की अधीनता से निकल गया, तथा इनका गान्धार में भी प्रभाव चिरस्थायी न रहा। उपर्युक्त प्रयत्न में तल्लीन रह कर मान्धाता के पौत्र त्रसदभ्यु ने शायद प्रसन्नतापूर्वक दुष्यन्त को पौरव राज्य फेर दिया अथच गान्धारों को पराजित किया। कुछ ही दिनों में वहाँ अयोध्या का राज्य शेष न रहा होगा और (नं० ३४) दिलीप खट्वांग पर्यन्त अयोध्या ने कोई भारी विजय न पाई। इस काल वृक ने हैहयों के आक्रमण से राज्य रक्षित रक्खा, तथा नाभाग और अम्बरीष ने यश भी प्राप्त किया, किन्तु अयोध्या का प्रभाव विशेषतया बढ़ न सका।

उधर दुष्यन्त पुत्र भरत (नं० २४) ने महत्ता प्राप्त करके ऐन्द्रमहा-भिषेक पाया अथच यादव हैहय ने भारी ऐश्वर्य संपादित किया। उनके दबाव से दूसरी यादव शाखा को विदर्भ (बगर) की ओर जाना पड़ा। पौरव नं० ३०, हस्तिन ने पच्छिम की ओर बढ़ कर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। इनके वंशधरों ने थोड़े ही दिनों में विदर्भ (द्विमीढ़ शाखा), उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, काशी और कान्य-कुब्ज के राज्य स्थापित कर लिये। उधर यादवों में हैहय वंशी बढ़े और दूसरी यादव विदर्भ शाखा भी बढ़ कर मथुरा में स्थापित हुई। राज्ञसों का भी प्रभुत्व तिमिध्वज, शम्बर, बर्चिन, भेद और रावण के आधिपत्य में बढ़ा।

सूर्यवंशियों ने भी दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र तथा सगर वाले तीन नवीन राज्य कमाये। मध्यभारतमें उस काल निषधराज वीरसेनात्मज नल (नं० ३५) एक प्रतापी राजा हुए। इधर हरिश्चन्द्र और रोहिताश्व ने अच्छे नाम पैदा किए। दक्षिण कोशल नरेश ऋतुर्षण नल के साथी थे। कान्यकुब्ज में विश्वामित्र राज्य छोड़ वेदर्षि हो गए। इनका वशिष्ठ से जो वैमनस्य हुआ, उसका प्रभाव हरिश्चन्द्र, सुदास, संवर्ण, दक्षिण कोशल तथा उत्तर कोशल पर पड़ा। मध्यभारत में भार्गव वंश भी विशेष महत्ता युक्त हुआ। हैहयों का राज्यवर्द्धनवाला

प्रयत्न इस काल कथनीय है। उन्होंने इसी के कारण काशीराज, सगर, कान्यकुब्ज नरेश, यादवों तथा भार्गवों से शत्रुता पाली और अन्त में उनका वंश राज्य हीन हो गया। इसी भगड़े में वैशाल तथा कान्यकुब्ज राज्य भी लुप्त हो गए। इस काल की तीन महती घटनायें हैहय पराभव, दिवोदास, और सुदास के विजय तथा राम रावण युद्ध हैं। हैहय वंश का पतन परशुधर भार्गव ने किया और अन्त प्रतर्दन तथा सगर द्वारा भरद्वाज एवं अग्निऔर्व भार्गव की सहायता से हुआ। दिवोदास ने दशरथ की सहायता से तिमिध्वज शम्बर को मारा तथा सुदास ने दस राजाओं के युद्ध में अनार्य राजा भेद एवं वर्चिन को पस्त कर दिया। पौरवों से भिड़ने में सुदास का प्रभाव गिरा। राम ने रावण को मार कर भारत में तत्कालीन अन्तिम अनार्य बल को नष्ट किया। अतएव हम देखते हैं कि परशुराम, प्रतर्दन, सगर, भरद्वाज और अग्नि और्व के प्रयत्नों से पराये अधिकारों को न मानने वाला हैहय वंश गिरा तथा दशरथ, दिवोदास और सुदास के पुरुषार्थ से शम्बर, वर्चिन, भेदादिक अनार्य राजे पस्त हुए। इनमें से वर्चिन की बहुतेरे आर्य नरेश भी सहायता करते थे। राम ने रावण को मार कर अन्तिम और परमात्कृष्ट अनार्य बल का क्षय किया। वशिष्ठ ने धर्म की आड़ में म्लेच्छों द्वारा अपने राजकीय बल की स्थिरता रख कर कान्यकुब्ज नरेश विश्वामित्र को हराया, किन्तु इन्होंने राज्य छोड़ एवं ऋषि होकर वशिष्ठ के म्लेच्छ दल का ध्वंसन किया। अनन्तर तालजंघ हैहय ने म्लेच्छों द्वारा कई उत्तरी भूपालोंको गिरा कर अपना बल बढ़ाया, किन्तु प्रतर्दन और सगर के पुरुषार्थ से हैहय और म्लेच्छ दोनों मिट गए। इस प्रयत्न में और्व तथा भरद्वाज ने भी योग्य सहायता दी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में म्लेच्छ बलवृद्धि विश्वामित्र, और्व तथा भरद्वाज के प्रयत्नों से रुकी एवं तृशंकु, प्रतर्दन, और सगर द्वारा नष्ट हुई। अब आगे के अध्याय में त्रतायुग के मुख्य उन्नायक श्री रामचन्द्रजी का विवरण किया जाता है। इस काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति हम वैदिक विवरण में छठवें से आठवें अध्यायों तक दिखला आये हैं। इन विषयों का प्रचुर वर्णन ऋग्वेद तथा इतर वैदिक साहित्य में मिलता है। इसे बहुतेरे

ग्रन्थकारों ने विस्तारपूर्वक लिखा है। कुछ आधारों का भी कथन होकर यह अध्याय समाप्त होगा।

मन्वन्तर काल से त्रेतायुग तक के कथनों के शेष प्रमाण।

मन्वन्तरों के ऐतिहासिक कथन पाँचवें अध्याय में हैं, और त्रेतायुग के नवें से १३ वें तक। इन कथनों के वैदिक प्रमाण ६ वें से ८ वें अध्यायों में लिखे गए हैं। इनके पौराणिक आधार बहुधा पीछे लिखे हैं, किन्तु कहीं-कहीं नहीं भी हैं। वे अब एक स्थान पर यहां लिखे जाते हैं।

मन्वन्तरों के प्रमाण।

मार्कण्डेय ५३, ७७, आग्नेय भाग २ अध्याय २, आदि ब्रह्म ५, शिवि वायवीय ५८, अध्याय।

ब्रह्माण्ड भाग ५ अ० ५ (भरत), भविष्य पहला भा०, देवी भागवत ८, ४, १०, ८, ११, वराह २, स्कन्द, विष्णु भाग २, १, १३, व ३, १।

सूर्यवंश।

ब्रह्म, ७, २२६, आदि ब्रह्म ७, पद्म, सृष्टि, ८, विष्णु, भाग ४, २, भागवत भाग नवां १, १३, । (करुष अम्बरीष, शशाद, पुरुकुत्स, निमि)। देवी भागवत भाग ७, अ० ८, ९, (शशाद) मार्कण्डेय २०. (कुवल्याश्व) आग्नेय प्रथम, ६७।

पद्म यस्वर्ग २५, (मान्धाता) भागवत नवां ५, ६, देवी भागवत ७ वां, ९।

ब्रह्माण्ड, लिंग पुराण (अम्बरीष) ब्रह्म १३८, (शर्याति)।

हरिश्चन्द्र, राज्य त्याग (स्कन्द पुराण में, ब्रह्म १०४), साधारण शेष (विवरण ऐतरेय ब्रा०, ७, ३, अध्याय) भागवत नवां।

७, इसमें शूकर के संबंध में हरिश्चन्द्र परीक्षा का कथन है। पद्म यस्वर्ग २४, देवी भागवत सातवां भाग, १०, २५, भाग छठवां १३। मार्कण्डेय, ८।

राम, बाल्मीकीय रामायण, ब्रह्म १५४, (लवकुश), १७६ (रावण), पद्म सृष्टि ३२, (शूद्र मुनि वध)।

पद्य यस्वर्ग । १ से ६८ तक, प्रश्नोत्तर २६९, देवी भागवत तीसरा भाग, २८ ।

देवी भागवत का नवां अध्याय १६, (माया सीताहरण), आग्नेय पहला भाग, ७३, १८१ ।

यदुवंश विष्णु चौथा भाग ११, भागवत नवां भाग २३, २४, (विदर्भ भी), लिंग ६८, यदुवंश (क्रोष्टु वाला), पद्य सृष्टि १३, विष्णु चौथा भाग १२ ।

दुष्यन्त भरत पद्य यस्वर्ग १ (दुष्यन्त), ६ (भरत), महाभारत आदि पर्व, भागवत नवां भाग २० (भरत) ।

हैहय देवी भागवत छठवां भाग २१, २३, अन्य बातों के साथ कालकेतु का वध करके एकावली का विवाहना भी लिखित है, पद्य सृष्टि १२, (सहस्रार्जुन) विष्णु चौथा भाग ११ (सहस्रार्जुन, परशुराम), भागवत नवां भाग १५, महाभारत । चन्द्रवंश...आदि ब्रह्म ११, देवी भागवत पहला भाग ११, विष्णु चौथा भाग ६, नवां भाग, १४, २४ (अजमीढ़ भी) देवी भागवत् पहला भाग १२ (इलासुद्युम्न) ।

ययाति, ब्रह्म १२, १४६, विष्णु चौथा भाग १० । महाभारत आदि पर्व; लिंग ६७ । भागवत नवां भाग १०, स्कन्द कूर्म ब्रह्माण्ड ।

नहुषी, पद्य, भूमि, १०५; विष्णु चौथा भाग, १० महाभारत; देवी भागवत छठवां भाग ७, स्कन्द ब्रह्माण्ड (मिथिला) ।

च्यवन; पद्य, भूमि १०५, विष्णु चौथा भाग, देवी भागवत भाग सातवां १, ७; हरिवंश (श्रीकृष्ण, मिथिला गमन), भागवत दसवां खण्ड ८६ (भागवत धर्म, वासुदेव), भागवत ११ वां २, (बलराम द्वारा सूतवध), भागवत दस ७८, ब्रह्म १८०, १९४, (सान्दीपनि), १९५ (जरासिन्ध), २०२ (नरकासुर), २०५ (बाणासुर), २१० (वंशध्वज), २१२ (स्लेच्छों द्वारा स्त्री हरण) ।

पद्योत्तर २७८ (सुदामा), विष्णु पांचवां भाग २, ३८, महाभारत, हरिवंश, पूरा कृष्ण चरित्र, आदि बल ९३, ब्रह्म ८८ (उषा सूर्य समागमन), ब्रह्माण्ड में भी ।

बलि बावन; ब्रह्म ७३, हरिवंश ।

सगर, ब्रह्म ८७, पद्य सृष्टि (भगीरथ), पद्यस्वर्ग, १५, विष्णु भाग चौथा । शिववायवीय ६१, भागवत नवाँ भाग, ८, आग्नेय पहला भाग ६८ ।

अहल्या, ब्रह्म ८७, पद्य सृष्टि ५१, आग्नेय पहला भाग । ८०; रामायण ।

शुक ब्रह्म ९५ पद्य सृष्टि १३ (मातावध, जयन्ती विवाह, ब्रह्माण्ड भार्गव), देवी भागवत चौथा भाग ११, १२ ।

पुरूरवस महाभारत ब्रह्म १०१, १५१, पद्य सृष्टि ८, १२, विष्णु भाग चौथा ७, महाभारत । अगस्त्य लोपामुद्रा, महाभारत, ब्रह्म ११०, पद्य सृष्टि १९, २२ (समुद्र पान), वराह ६९, ७०, वातपि दानव भस्म, स्कन्द में तथा काशी में; अगस्त्य दुर्दम के समय में । दुर्दम हैहय वंशी नं० ३१ थे । उधर अलर्क के पितामह प्रतर्दन हैहय वीतिहव्य नं० ३७ को जीतते हैं, सो अलर्क के समकालीन अगस्त्य हैहय नं० ३९ के भी समकालीन बैठते हैं । इस प्रकार से अगस्त्य का आठ हैहय पीढ़ियों तक चलना निकलता है । अगस्त्य राम और अलर्क के समकालीन रामायण और हरिवंश के अनुसार थे ही, सो यदि आठ पीढ़ियों तक चलना इनका अनुचित हो, तो स्कन्द पुराण में लिखित दुर्दम को समकालीनता अग्राह्य होगी । स्कन्द पुराण का कथन बहुत मान्य है भी नहीं ।

काशी विष्णु चौथा भाग ८ (धन्वन्तरि), मार्कण्डेय, ३८ (अलर्क) हरिवंश में लोपामुद्रा द्वारा अलर्क को वरदान । स्कन्द (प्रतर्दन, दिवोदास), ब्रह्म, १२२ ।

आपस्तम्ब, ब्रह्म १३० ।

पांचाल—महाभारत, हरिवंश, आग्नेय, पहला भाग । ६३ (मुद्गल) ब्रह्म १३६ ।

बृहस्पति...पद्य सृष्टि १४, नास्तिक मत ।

ब्रह्म पुराण में (नृसिंह), १४९ (अजीगर्त), १५० (चन्द्र तथा तारा), १५२ (अष्टावक्र), २१२ ।

२१३ में वराह नृसिंह वामन ।

दत्तात्रेय, जमदग्नि, राम, कृष्ण कल्कि ।

पद्य पाताल में, विभीषण मोचन १००, पद्योत्तर में ३ (जालन्धर), १५, (वृन्दा), पद्यसृष्टि ४ पद्योत्तर २६० तथा भाग आठवां । ७ एवं महा-भारत में समुद्र मन्थन, सृष्टि खण्ड ६, ४२, हिरण्यकशिपु, पद्योत्तर में २२८, (मत्स्य), २५९, (कूर्म), २६४, (वराह), २६७, (वामन), २६८, परशुराम ।

नृसिंह, लिंग ९६, स्कन्द, भागवत सातवां ९ ।

ध्रुव, विष्णु ११, पद्य यस्वर्ग... १२ लिंग । ६२, भागवत चौथा भाग ८ ।

वामन, पद्य, सृष्टि, २५, भागवत, ८ वां । १८, आग्नेय पहला खंड, ६०, स्कंद (वामन) ।

वेन पृथु, पद्य, सृष्टि, ८ पद्य भूमि, २६, २९, ३६, (वेन द्वारा जैन धर्म), विष्णु १३, ब्रह्म १४१ ।

शिववायवीय... ५३, ५७, भागवत चौथा भाग १३, १५, २४ ।

वराह, पद्य, सृष्टि, ७३, भागवत तीसरा खंड १३, स्कन्द १० खंड १५, २० इसमें वराह का दांत टूटना भी लिखित है ।

प्रह्लाद... पद्य, सृष्टि, ७४, (सुरत्व प्राप्ति), विष्णु, १७, २१, (वंश), शिव ज्ञान संहिता, ५९ देवी भागवत चौथा भाग, ९ ।

रावण, पद्य, यस्वर्ग, ११ शिवज्ञान खंड ५५ ।

दशावतार, वराह ४, स्कन्द ।

व्यास, महाभारत, स्कन्द, सनत्कुमार, संहिता, १८, २१, शंकर संहिता, वेद विभाग, भागवत १२ वां ६, ७, जनमेजय के यहां वेद विभाग, अथर्ववेद ।

शिवि, पद्य यस्वर्ग, १८ महाभारत ।

उशीनर ... पद्य यस्वर्ग, १८ ।

दिवोदास, पद्य यस्वर्ग २३ ।

राधा । पद्य, पाताल, ७०, ८३, देवी भागवत नवां भाग २, १३, ५०, ब्रह्मवैवर्त, १२४ ।

सौभरि ऋषि, पद्योत्तर २३३ ।

कुशध्वज वंश, विष्णु चौथा भाग ५ ।

तुर्वश...विष्णु चौथा भाग, १६ ।

दुह्यु, विष्णु चौथा १७ ।

अनु...विष्णु चौथा १८, कर्ण भी, शिव वायवीय, ५६ ।

जह्नु, विष्णु चौथा २० ।

खांडिक्य, विष्णु पांचवां ६ (केशिध्वज को ज्ञान) ।

नल, शिव ज्ञान खंड ६२ ।

तृमूर्ति...शिव वायवीय ११, बराह १० ।

पाशुपतव्रत; शिव वायवीय २९ ।

रन्तिदेव, स्कन्द में ।

सुदर्शन, देवी भागवत तीसरा भाग १४, २५, (युधाजित संबंधी कथन) ।

श्वेत द्वीप, देवी भागवत छठवां २८, म० भा० शान्तिपर्व ।

कन्धर, मार्कण्डेय २ ।

देश भक्ति, देवी भागवत आठवां ११, विष्णु पुराण तथा भागवत में भी ।

वैशाली का मनुवंश-मार्कण्डेय ११२ (प्रघ्न को शूद्रता), ११३, ३८ (प्रघ्न शूद्र), नाभाग, प्रमति भलन्दन, वत्सपी, खनित्र, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित, वैशालिनी हरण, अवीक्षित वन्दीत्व, उद्धार, वैराग्य वैशालिनी का दानव से अवीक्षित द्वारा उद्धार, वैशालिनी से विवाह, मरुत्त, नरिष्यन्त, सुमन का स्वयंवर, नरिष्यन्तवध, वपुष्मत, दम वैशाली, गरुड़ ।)

भविष्य पुराण शतानीक से कहा गया । इसमें सुदर्शन तक वर्णन है । संवर्ण, प्रद्योत, यूनानी, तर्लीश, इलीश, स्लेच्छागमन, कारण, अग्निवंश विस्तार, विक्रमादित्य, पद्मावती, हरिदास, भर्तृहरि, वोपदेव, आल्हा ऊदल, चन्द कवि तथा शिवाजी के भी कथन इस पुराण में हैं ।

ऊपर जहां-जहां महाभारत और हरिवंश के कथन आये हैं, उनके अतिरिक्त भी इन दोनों ग्रंथों में प्रायः सभी कथायें आ गई हैं । महाभारत के आदि, सभा, वन, उद्योग और शान्ति पर्वों में स्फुट कथायें भरी पड़ी हैं ।

तेरहवां अध्याय

भगवान् रामचन्द्र ।

तेरहवीं शताब्दी (बी० सी०)

इस अध्याय की कथा मुख्यतया बाल्मीकीय रामायण पर आधारित है और कहीं-कहीं महाभारत वन पर्व, विष्णु पुराण, हरिवंश और श्रीभागवत का थोड़ा सा आधार है । इनसे इतर आधार बारहवें अध्याय के अन्त में दिये हुए हैं । महाराजा दशरथ के राजत्व-काल में भारत की क्या दशा थी उसका दिग्दर्शन गत अध्यायों में कराया जा चुका है । इन महाराज के वृद्धप्राय हो जाने तक भी कोई पुत्र न हुआ । इनकी रानी कौशल्या से शान्ता नाम्नी एक कन्या मात्र उत्पन्न हुई थी । उसे भी इनके मित्र राजा रोमपाद ने दत्तक ले लिया था । ये महाराजा अंग देश के स्वामी थे । जब बहुत काल पर्यन्त दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तब उन्होंने पुरोहित वशिष्ठ की सम्मति से अपने दामाद ऋष्य शृंग को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । थोड़े दिनों में इनकी तीनों रानियों से चार पुत्ररत्न हुए । बड़ी रानी कौशल्या के आत्मज भगवान् रामचन्द्र दशरथ के सब से बड़े राजकुमार थे । इनसे छोटे कैकेयी-पुत्र भरत हुए, तथा उनसे भी छोटे सुमित्रा के यमज पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न । इस प्रकार चार पुत्र पाकर महाराजा दशरथ ने अपने को धन्य माना । उचित समय पर इन राजकुमारों को शास्त्र और शस्त्र का अभ्यास कराया गया ।

जब रामचन्द्र की अवस्था सोलह वर्ष के लगभग हुई, तब ऋषिवर विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ के पास आकर निवेदन किया, “राक्षस लोग मुझे यज्ञ नहीं करने देते, सो कृपा करके कुछ दिनों के लिये आप रामचन्द्र को दीजिये तो इनकी रक्षा से मेरा यज्ञ पूर्ण हो जावे ।” पहले तो बालकों का अल्पवय विचार कर महाराजा दशरथ को इस निवेदन में बड़ा गड़बड़ देख पड़ा, किन्तु पीछे से उन्होंने वशिष्ठ के समझाने

पर राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ कर दिया। जान पड़ता है कि राजकुमारों के साथ कुछ सेना भी गई होगी, यद्यपि इसका वर्णन ग्रन्थों में नहीं है। विश्वामित्र ने मार्ग में दोनों राजकुमारों को पूरी शस्त्र-विद्या सिखाई। ऋषिवर को देखते ही कामवन में ताड़का ने इन पर आक्रमण किया किन्तु अपकारिणी होने पर भी स्त्री समझ कर रामचन्द्र उस पर प्रहार करने से आनाकानी करते रहे। अन्त में जब विश्वामित्र के कहने से राम ने जाना कि वह बड़ी ही प्रबला थी और यह भी समझ पड़ा कि महर्षि पर प्रहार करने ही की थी, तब इन्होंने विवश होकर युद्ध में उसका बध कर डाला। अनन्तर ऋषि के साथ राम उनके सिद्धाश्रम में पहुँचे। दूसरे दिन राम की इच्छा-नुसार महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। यह देखकर मारीच और सुबाहु सेना समेत यज्ञ-ध्वंसनार्थ चढ़ दौड़े। रामचन्द्र ने लक्ष्मण को साथ लेकर उनका सामना किया। घोर संग्राम हुआ, जिसमें राक्षसी दल को भारी हानि पहुँची और सुबाहु मारा गया। यह देख मारीच हत-शेष राक्षसों के साथ उत्तरीय भारत को छोड़ दण्डकारण्य में जा बसा। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही भगवान् रामचन्द्र ने उत्तरीय भारत को राक्षसों से छुटकारा दिलाकर भारी यश प्राप्त किया। अब विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगया।

इस काल मिथिला देश के राजा सीरध्वज उपनाम जनक ने यह प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर का भारी शैव धनुष चढ़ाकर बाण युक्त कर देगा, उसी के साथ राजकन्या सीता का विवाह होगा। बहुत से राजकुमार तथा राजा लोग धनुष चढ़ाने मिथिला गये थे, किन्तु सब को विफल मनोरथ हो अपनी कीर्ति गवाँकर लौटना पड़ा था। इन हारे हुए लोगों में रावण भी था। उससे भी पिनाक न चढ़ सका था। धनुष चढ़ाये जाने के लिये अयोध्या भी निमन्त्रण जा चुका था। रामचन्द्र के शौर्य से विश्वामित्र परम प्रसन्न हुए और उनको समझ पड़ा कि यह धनुष चढ़ा सकेंगे। इसलिये यज्ञ पूर्ण होने के पीछे वे राजकुमारों के साथ मिथिला पहुँचे। महाराजा सीरध्वज ने उनका यथायोग्य स्तकार किया। उचित वार्तालाप के पीछे विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान् रामचन्द्र धनुष चढ़ाने पर सन्नद्ध हुए। इन्होंने

पृथ्वी-मण्डलस्थ राजकुल के सारे पराक्रम को दमन करनेवाले भारी शैव पिनाक को सहज ही में चढ़ा दिया और उसे ज्यायुक्त करके उस पर इस जोर से बाण ताना कि बज्रवत कठोर पिनाक एक तिनके की भाँति टूट गया। मिथिलापुर में सैकड़ों लोगों के धनुष चढ़ाने में विफल मनोरथ हाने से सीता के ब्याह विषयक भाँति-भाँति के संकल्प-विकल्प उठ रहे थे। रामचन्द्र ने पल भर में इन शंकाओं को निर्मूल कर दिया। अब जनकपुर में बधाई बजने लगी। महाराजा जनक के विश्वविमोहिनी रूपराशि सीता के अतिरिक्त एक और कन्यारत्न थी, तथा इनके भाई कुशध्वज के दो कन्याएँ थीं। इसलिये महाराजा सीरध्वज ने महाराजा दशरथ को पत्र भेज कर उनके चारों राजकुमारों का अपनी कन्याओं और भतीजियों के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। महाराजा दशरथ ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और इन चारों भाइयों के विवाह यथासमय जनकपुर में हो गये। राम को सीता, भरत को माण्डवी, लक्ष्मण को उर्मिला और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति मिलीं।

चारों पुत्रों का विवाह करके महाराजा दशरथ जिस काल अयोध्या को लौट रहे थे, तब मार्ग में उनकी परशुराम से भेंट हुई। ये हैहयवंश-विध्वंसकारी ही परमशुराम थे। वृद्ध परशुराम ने शिवशिष्य हाने के कारण रामचन्द्र द्वारा शैव धनुष तोड़ा जाना सुनकर भारी क्रोध किया और वे युद्धार्थ संनद्ध भी हुये, किन्तु रामचन्द्र की विनय और पुरुषार्थ से प्रसन्न होकर तथा अपने पिता के मामा विश्वामित्र का दबाव मानकर पीछे से अपना परमोत्कृष्ट धनुष उनको देकर बन चले गये। परशुराम के हार मानने से रामचन्द्र की ख्याति संसार में और भी अधिक हुई। अब महाराजा दशरथ पुत्र-बधुओं तथा पुत्रों समेत अयोध्या पहुँचे और फिर से पूर्ववत् राज्य करने लगे। कुछ दिनों के पीछे सीता समेत रामचन्द्र मिथिलापुरी गये और कई साल वहीं रहे।

जब राजकुमार श्रीराम अयोध्या को पधारें, तब थोड़े दिनों के लिये शत्रुघ्न को साथ लेकर राजकुमार भरत अपने ननिहाल गये। इसी बीच में महाराजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवराज पद देने का विचार

किया। इस पर उनकी प्रियतमा रानी कैकेयी को उसकी दासी मन्थरा ने समझाया कि किसी प्रकार अपने पुत्र के लिये युवराज पद प्राप्त करो। पहले तो कैकेयी ने इस प्रस्ताव को धर्मविरुद्ध कह कर मन्थरा का बहुत भर्त्सन किया, किन्तु पीछे से उसके समझाने में आकर उसी के मन्त्रणानुसार चलना स्वीकार कर लिया। जब कैकेयी का विवाह दशरथ से हुआ था, तब यह निश्चित हो गया था कि दशरथ से उत्पन्न कैकेयी का ही पुत्र उत्तराधिकारी होगा। राम का प्रभाव बहुत बढ़ जाने से पुत्र प्रेमवश दशरथ ने इस प्रतिज्ञा का मान उचित न समझा।

किसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को दो वर देने की प्रतिज्ञा की भी थी और रानी ने उन्हें उस काल न माँगकर भविष्य के लिये थाती स्वरूप रख छोड़ा था। मन्थरा ने उन्हीं का स्मरण दिलाकर कैकेयी से कहा कि अपने पुत्र के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्षों का वनवास माँग लिया जाय। अब कैकेयी कोपभवन में चली गई। राजा ने वहाँ जाकर उसे मनाना चाहा तो उसने अपने दोनों वरदान माँग कर उनके हृदय में काँटा सा चुभो दिया। महाराजा दशरथ सब लड़कों का उचित प्यार करते थे किन्तु राम उनके जीवनाधार ही थे। बिना राम का देखे उनको एक घड़ी चैन नहीं पड़ती थी। इसलिये इनके वनवास का वरदान सुनकर वे अत्यन्त विकल हुए। सत्य से भ्रष्ट होना उनके लिये त्रिकाल में भी संभव न था, किन्तु राम को वन भेजना उन्हें प्राणत्याग से भी अधिक दुःखदायी था। इसलिये उन्हें सारी रात विलाप करते ही बीती। प्रातःकाल जब लोग राम का अभिषेक होना समझ रहे थे, तभी इस दुर्घटना के समाचार सारी अयोध्या में फैल गये। रामचन्द्र ने अपने पिता की महा दुःखस्था देखकर उन्हें बहुत समझाया और १४ वर्ष के लिये वन जाने में अपनी पूरी प्रसन्नता प्रकट की, किन्तु राजा का दुःख किसी प्रकार कम न हुआ। पिता की मानसिक आज्ञा शिरोधार्य करके राम सुखपूर्वक वन जाने की तयारी करने लगे। इनकी प्रिया सीता और वात्सल्य-भाजन अनुज लक्ष्मण ने छोड़ना किसी प्रकार पसन्द न किया और विवश होकर इन्हें उनको भी साथ लेना पड़ा।

रामचन्द्र ने समझा होगा कि हमारे वन चले जाने पर राजा किसी प्रकार धैर्य्य धारण करेंगे। इसलिये माता पिता को कलपते छोड़ तथा रोती हुई अयोध्या से मुख मोड़ और केवल धर्म को शिरोधार्य मान कर्तव्यपालनार्थ भगवान् रामचन्द्र सीता लक्ष्मण के सहित उसी दिन जंगल को चले ही गये। पितृभक्ति, धर्मपालन और स्वार्थत्याग का इन्होंने इस अवसर पर जो अपूर्व उदाहरण दिखलाया, वह आज भी हतभाग्य भारत का सिर ऊँचा करता है और चरित्र-शोधनार्थ हमारे लिये एक परम पूज्य आदर्श स्वरूप प्रस्तुत है। बहुत से अयोध्यावासी लोग राजभक्ति दिखलाते हुए रामचन्द्र के पीछे लगे। उन्होंने सोचा कि बिना राम की अयोध्या नरक से भी निकृष्टतर है और जहाँ राम हैं वहीं शत अयोध्याओं का सुख है। रामचन्द्र के बहुत समझाने पर भी जब वे लोग न लौटे तब उनका दुःख दूर करने के विचार से रात में छिप कर ये जंगल को चले गये। प्रातःकाल राजकुमार को न पाकर ये लोग विवश होकर अयोध्या लौट आये। भगवान् ने पहली रात तमसा नदी के पास निवास करके दूसरी गोमती-तट पर बिताई। आप यथा समय गंगातट पर शृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ गुहनामक निषाद-पति ने बहुत सेवा की, यहाँ तक कि उसके आचरण से प्रसन्न होकर भगवान् ने उसे मित्र माना। गंगापार होकर श्रीरामचन्द्र प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम को पधारे। वहाँ भरद्वाज ने भगवान् का अच्छा आतिथ्य किया। अनन्तर दोनों राज-कुमार चित्रकूट पहुँचे और वहाँ कई मास विराजमान रहे।

उधर रामचन्द्र की वनयात्रा से महाराजा दशरथ का धैर्य्य बिलकुल छूट गया और वे बालक की भाँति विलाप करने लगे। महारानी कोशल्या, सुमित्रा तथा सब मन्त्रियों के समझाने पर भी इनका धैर्य्य न आया। कहते ही हैं कि बाप सा बत्सल, स्त्री सा सखा और भाई सा सहायक कोई नहीं। सब लोगों के समझाते हुए भी महाराजा दशरथ को अपने प्रियतम पुत्र के क्लेशों का स्मरण कर कर के मन शान्त करने का कोई उपाय न देख पड़ा। जब रामचन्द्र के पास से पलट कर राजसचिव सुमन्त ने विनती की कि सब प्रकार से समझाने बुझाने पर भी दोनों राजकुमारों और सीता में से कोई न लौटा, तब

महाराजा दशरथ की अंतिम आशा भी टूट गई। अब राजा का चित्त शोक से ऐसा संतप्त हुआ कि दो ही चार दिनों में उनका शरीरपात ही हो गया। राजा दशरथ का स्वर्गवास रामचन्द्र के वनगमन के छठवें दिन हुआ। राज-मन्त्रियों ने यह आकस्मिक दुर्घटना देख राजा का शव तेल में डालकर सुरक्षित रक्खा और शीघ्रगामी दूत द्वारा भरत को ननिहाल से बुला भेजा। भरत ने अति शीघ्र अयोध्या आकर सारे समाचार सुने और सब विपत्तियों का मूल कारण अपने ही को समझ कर वे दीन भाव से विलाप करने लगे। सब के समझाने बुझाने और राज-माता कौशल्या की अनुमति पाने पर भी भरत ने १४ वर्ष भी राज्य करना पसन्द न किया और विधिपूर्वक पिता की अन्त्येष्टि क्रिया करके वे रामचन्द्र को वापस बुलाने के लिये राज-परिवार सहित चित्रकूट को प्रस्थित हुए। संसार में जब तक सद्गुणों का मान रहेगा तब तक महात्मा भरत के इस भारी स्वार्थ-त्याग के लिये उनका नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णक्षरां से अंकित रहेगा। मार्ग में निषाद-पति से सेवित हांते और प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आतिथ्य स्वीकार करते हुए राजकुमार भरत यथासमय चित्रकूट में पहुंच कर ज्येष्ठ भ्राता राम की सेवा में उपस्थित हुए।

पिता का अशुभ समाचार सुनकर रामचन्द्र ने बड़ा शोक मनाया और विधिपूर्वक शुद्ध होकर वे भरत को समझाने लगे। भरत ने रामचन्द्र का अयोध्या चलने की बहुत प्रकार से विनती की। अन्त में भगवान् ने आज्ञा दी कि जिस पिता ने पुत्र को त्याग कर सत्य रक्खा और शरीर छोड़ पुत्र-प्रेम का असीम उदाहरण दिखलाया, उस पिता तथा राजा का वचन मेटना सुगम नहीं है। फिर भी मेरे चित्त में इन सब बातों से बढ़ कर तुम्हारा संकाच है। अतः तुम्हीं सब बातों पर विचार करके कहें कि क्या कर्तव्य है? क्या राजाज्ञा की अपेक्ष महिमा का उल्लंघन करके किसी सुयशी पुरुष को राज्यसुखार्थ अथवा वन-दुःख-विमाचनार्थ विचार तक करना चाहिये और क्या तुम्हीं के राजाज्ञा हांते हुए राज्यभार से बचने का प्रयत्न करना उचित है? इन बातों को सुन कर महात्मा भरत किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये, किन्तु कर्तव्य का पूरा ध्यान रखते हुए भी राज्य-ग्रहण की ग्लानि ने उन्हें ऐसा वेरा

कि इस बात के लिये वे किसी भाँति प्रस्तुत न हुए। उन्होंने सोचा कि पिता ने मुझे राज्याधिकार अवश्य दिया है किन्तु मैं उसे ग्रहण न करके भी उनकी आज्ञा भंग करने का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि अपना भी राज्य उचित उत्तराधिकारी को सौंप देने का मुझे सदा अधिकार है। उनका ऐसा विचार समझ और उन्हें किसी प्रकार राज्य ग्रहण न करते देख कर रामचन्द्र ने उनकी इच्छानुसार सिंहासनामीन करने के लिए अपनी पादुकयें उन्हें दीं। उन पादुकाओं के सिंहासन पर रखकर भरत ने प्रतिनिधि के समान अयोध्या से दो मील नन्दिग्राम में रह कर १४ वर्ष राज्य चलाने का संकल्प किया और अपना व्रत निभा दिया।

इधर भगवान रामचन्द्र का असली हाल समझ कर हज्जागें मनुष्य चित्रकूट में इनके दर्शनार्थ आने लगे। इस कलकान से बचने के लिये रामचन्द्र ने दूर देश का प्रस्थान किया। अब ये तीनों दण्डकारण्य में फिगते हुए पञ्चवटी के निकट पहुँचे। वहाँ इन्होंने जनस्थान में अगस्त्य ऋषि के दर्शन किये और उनकी सम्मति के अनुसार पंचवटी में गोदावरी के एक रम्य तट पर पर्णकुटी बनाकर ये निवास करने लगे। कहते हैं कि उस स्थान पर गोदावरी नदी धनुषाकार बहती थी। अगस्त्य ने सब से प्रथम विन्ध्य और महाकान्तार वन को पार करके दक्षिण में जन स्थान पर पहला आर्य उपनिवेश बसाया था। वैदर्भी लोपामुद्रा से आपका विवाह हुआ था। दोनों वेदषि थे। अगस्त्य ने इल्वल राजस को हराकर उपनिवेश बसाया था। वेद में आप वीर कहे गये हैं। अरब समुद्र के लुटेरों को जलयुद्ध में हराकर आपने व्यापार अकंटक किया था। लोपामुद्रा द्वारा राम के मित्र काशी नरेश अलर्क को आशीर्वाद दिया जाना लिखा है। भगवान् रामचन्द्र ने चित्रकूट में लगभग दस मास और पञ्चवटी में प्रायः १२ वर्ष निवास किया। इसी निवास-स्थान के निकट आपने एक बार हड्डियों का ढेर देख उसे टीला समझ कर पूछा कि यह क्या है ? इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया कि ये राजसों द्वारा खाये हुये ब्राह्मणों का हड्डियाँ हैं। १२ वर्ष तक ऋषियों के साथ ज्ञान-वैराग्य की वार्त्ता करते हुए भी भगवान् को यह भारी उपद्रव देख इतना क्रोध आया कि आपने उसी स्थान पर दक्षिण

बाहु उठाकर प्रण किया कि यदि मैं सच्चा क्षत्रिय हूँ तो पृथ्वी को निशिचर-हीन करूँगा। इतिहासज्ञों से छिपा नहीं है कि राम ने यथा समय यह प्रण सच्चा कर दिखाया। इसी स्थान पर निवास करते हुए ऋषियों के सुसंग से रामचन्द्र में वह भारी दृढ़ता एवं चरित्र विशुद्धता आ गई थी कि सब राजाओं में इन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। हमारे सभी राजाओं में आदर्श-आर्य भगवान् रामचन्द्र ही थे।

पंचवटी में रहते हुए इन्हें एक बार सम्राट् रावण की बहिन शूर्पणखा ने देखा और चाञ्चल्यवश वह इन पर तत्काल मोहित हो गई। उसने कई प्रकार से समझा बुझा कर इन्हें अपने साथ विवाह करने पर राजी करना चाहा। इन्होंने उसका प्रस्ताव दृढ़तापूर्वक अस्वीकृत किया, किन्तु उसने इनका पीछा न छोड़ा और सब प्रकार से इन्हें दुःख दिया। उसका ऐसा अरुह्य चाञ्चल्य देखकर इन्होंने उसे रूपगर्विता समझ कर लक्ष्मण को इशारा किया और उन्होंने तत्काल नाक-कान काट कर उसे पूर्णतया विरूपा कर दिया। इनका यह एक ऐसा कर्म है जिसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं हो सकता और जो इनके आदर्श हिन्दू होने के भी प्रतिकूल है।

शूर्पणखा ने अपनी यह दुर्दशा देख रो-रो कर अपने भाई खर को सारा वृत्तान्त सुनाया। वह अपने नाना के भाई माल्यवान की अध्यक्षता में इस और रावण का अन्तपाल था। रावण का वंश कथन नवें अध्याय के २१ वें नोट में है। खर ने दूषण और त्रिशिरा एवं कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ भगवान् पर आक्रमण किया। रामचन्द्र ने धनुषबाण उठा कर सहज ही में इन शत्रुओं का शमन किया। चुने हुए योद्धाओं के साथ अपने नेता खर का विनाश देख कर राजस लोग हाय-हाय करते हुए दण्डकारण्य से भी भागे। रामचन्द्र ने इस प्रकार सुगमतापूर्वक रासक्षों के दोनों भारतीय उपनिवेश ध्वस्त कर दिये। अब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास पहुँची। उसको यह दशा देख रावण ने किसी दुश्चरित्र की आशंका करके मंत्रियों को हटा एकान्त में बहिन से जंगल का वृत्तान्त पूछा। उसने अपनी बुराईयों को दबाकर इतना ही कहा कि राम ने मुझे

आपकी बहिन समझ कर निशिचर-कुल के अपमानार्थ मेरी यह दशा की। इसी के साथ रावण का लालच बढ़ाने के विचार से उसने सीता के रूप की भी बड़ी प्रशंसा की। रावण ने इस दुर्घटना को समझ कर तथा राम के साहस का ध्यान करके निशिचर-कुल के भविष्य पर विचार किया, किन्तु उसे यह निश्चय न हुआ कि राम का पराक्रम कैसा प्रचण्ड है। इसलिये अपमान का बदला अपमान ही द्वारा चुकाने के विचार से वह रथ पर चढ़कर अकेला दण्डकारण्य में मारीच के आश्रम पर पहुँचा। मारीच राम से पहले ही बहुत भयभीत था, इसलिए उसने रावण को राम से विरोध न बढ़ाने का कई प्रकार से उपदेश दिया, किन्तु इसने एक न मानी। तब विवश होकर मारीच इसकी सहायतार्थ चला। मारीच ने रामाश्रम के समीप जङ्गल में ऐसी माया की कि इन्हें मृग का भ्रम हो गया। वह युक्तिपूर्वक दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर निकाल ले गया। बहुत दूर निकल जाने पर रामचन्द्र ने निशिचर का छल जाना और एक ही बाण से उसका बध कर डाला। लक्ष्मण को भी अपने पीछे देख कर रामचन्द्र ने उनका बहुत भर्त्सन किया और कहा कि तुमने सीता को अकेली छोड़ देने में भारी भूल की। लक्ष्मण को स्वयं सीताजी ने राम के पीछे जाने की आज्ञा दी थी और उन्हें आनाकानी करते देख मर्मभेदी कई अनुचित वचन कहे थे जिनके कारण विवश होकर ही वे रामचन्द्र के पीछे गये थे। फिर भी भूल थी ही, क्योंकि सीता के क्रोधपर भी वे इनको रक्षा के लिये छिप कर वहीं रह सकते थे।

इधर सूने में आश्रम जाकर रावण ने यति के रूप में सीता का बलपूर्वक हरण किया तथा रथ पर बिठाकर उनको लिये हुए वह लंका को चला। मार्ग में जटायु नामक एक भद्र पुरुष ने स्त्री की यह दशा देख उसके उद्धारार्थ रावण को ललकारा, किन्तु राक्षसराज ने उसको मृतप्राय कर डाला। आगे चलने पर पाँचों मन्त्रियों समेत सुग्रीव को बैठा देख सीता ने नूपुर समेत अपना एक बख वहीं डाल दिया। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी रामचन्द्र के जानने के अपनी वस्तुयें डालती हुई विलपती सीता रावण के साथ लंका पहुँची। रावण ने सीता के आचरण से मार्ग ही में समझ लिया था कि किसी प्रकार के बल-

प्रयोग से यह वश में नहीं आवेगी और तुरन्त अपना प्राण खो देगी। रावण सीता को राम के अपमानार्थ ही लाया था, किन्तु इनके रूप-लावण्य से वह मोहित भी हो गया था। फिर भी किसी प्रकार इच्छा पूर्ण होते न देखकर उसने सीता को अशोकवाटिका में स्थान दिया। उनकी रक्षा के लिये त्रिजटा के आधिपत्य में कई राक्षसियां और कड़े पहरे को कई राक्षस नियत हुए।

इधर भगवान् रामचन्द्र ने मारीच को मारकर वापस आने पर सूने आश्रम को भ्रष्ट और कमण्डलु को टूटा पाया, तथा सीता को भी वहां न देखा। इन बातों से इन्हें किसी के द्वारा सीताहरण का निश्चय हो गया। सूने आश्रम के इधर-उधर इन्होंने इसका बहुत पता लगाया, किन्तु कोई खाज न चली। अन्त का विवश होकर ये अपनी प्रिय पत्नी की खाज में निकले। थोड़ी दूर चलकर अपने वृद्ध जटायु को क्षण-विक्षिप्त-पूर्ण मरणप्राय दशा में पाया। उससे वार्तालाप करने पर इन्हें इतना ही ज्ञात हो सका कि विलाप करती हुई प्रियतमा सीता को लेकर कोई दक्षिण को गया है और उसी से युद्ध करने में जटायु की यह दशा हुई है। वह कौन था, इसका पता जटायु स्वशरीर-शैथिल्य अथवा अज्ञान के कारण रामचन्द्र को न दे सका। इसी अवसर पर उसने अपना देह छोड़ दिया। उसकी इस उदारता पर मुग्ध होकर भगवान् ने अपने हाथ से उसके शव का दाह-संस्कार किया।

इसके पीछे सीता को खोजते तथा विविध प्रकार से विलाप करते हुए रामचन्द्र लक्ष्मण सहित दक्षिण की ओर बढ़े। यथासमय ऋष्य-मूक पर्वत के समीप पम्पासरोवर पर दोनों पहुँचे। जनस्थान और किष्किन्धा उस काल दक्षिण के सर्वोत्कृष्ट स्थान थे। ऋष्यमूक पर सुग्रीव बानर रहता था। यह किष्किन्धा के राजा बालि का भाई था किन्तु कई कारणों से इन दोनों में बिगाड़ था। बालि ने सुग्रीव को निकाल दिया था और उसकी स्त्री भी छीन ली थी। बालि को मृत समझकर एक बार सुग्रीव राजा तथा उसकी स्त्री तारा का पति बन बैठा था। इसी लिये बालि ने उसकी भी स्त्री छीनी थी। रामचन्द्र को देखकर सुग्रीव को भय हुआ कि बालि ने मेरे निग्रहार्थ तो इन्हें नियोजित नहीं किया है। इसलिये उसने अपने मन्त्री हनुमान् को

राम के पास भेजा और वे वार्तालाप करके इन्हें सुग्रीव के निकट ले गये। वहाँ हनुमान् ने सुग्रीव से इनका परिचय कराया और दोनों ने एक दूसरे का हाल जान समझ कर सहायतार्थ आपस में प्रगाढ़ मैत्रा की और अग्नि के साक्षी देकर उसे दृढ़ किया। सुग्रीव ने सीता जी के नूपुर और पट भगवान् को दिये जिन्हें पहचान कर आपने बड़ा शोक किया।

अब बालि-निग्रहार्थ निश्चय करके रामचन्द्र ने सुग्रीव को उसके साथ युद्धार्थ भेजा और आप एक ताल वृक्ष की ओट से युद्ध देखते रहे। सुग्रीव बहुत छल बल करके भी बालि का बल न रोक सका और उसके एक ही मुष्टिप्रहार से भग्नात्साह होकर भागा। जब सुग्रीव राम के पास पहुँचा तब इन्होंने कहा कि तुम अपने भ्राता के ऐसे समरूप हो कि मैं युद्ध के समय तुम दोनों को पृथक् न कर सका। अब रामचन्द्र ने सुग्रीव को चिह्न-स्वरूप एक माला पहिनाकर युद्धार्थ बालि के पास फिर भेजा। दोनों में फिर युद्ध होने लगा और बालि को प्रबल पड़ते देख रामचन्द्र ने ओट से ही उस पर तीव्र शर का प्रहार किया, जिससे मृतप्राय होकर वह धरणी पर गिर पड़ा। रामचन्द्र के चरित्र-समालोचकों ने इनकी इस करनी पर कुछ सन्देह प्रकट किया है, किन्तु युद्ध में ऐसी नीतियाँ प्रायः करनी पड़ती हैं। शायद राम के सामने जाने से उसके भाग जाने और झगड़ा बढ़ने का भय हो। उसके मरने पर रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बनाया, किन्तु बालि के ही पुत्र अङ्गद को युवराज किया। इस प्रकार उसके पक्ष पर भी दया करके भगवान् ने अपनी न्यायप्रियता का उदाहरण दिखाया है। उसके मरणान्तर उसकी रानी तारा के साथ सुग्रीव ने फिर विवाह कर लिया। अब वर्षाकाल आ गया था, इसलिये सीता की खाज नहीं की जा सकती थी। रामचन्द्र पिता की आज्ञा से किसी ग्राम में नहीं रह सकते थे, अतः सुग्रीव के अनुचरा ने इनके लिये प्रवर्षण गिरि पर कुटी बना दी, जहाँ आपने वर्षा काटी।

वर्षा ऋतु में ही हनुमान् की सम्मति से सुग्रीव ने कुछ बानर सीता की खाजने भेजे थे, किन्तु इस प्रयत्न का कोई फल न हुआ था।

इधर का कोई समाचार न पाकर रामचन्द्र को समझ पड़ा कि सुग्रीव ने हमारा काम भुला दिया है, इसलिये बानरेश को डराकर बुला लाने के लिये इन्होंने लक्ष्मण को किष्किन्धा भेजा। लक्ष्मण ने जाकर क्रोध करते हुये कहा कि सारा पुर जला कर भस्म कर देंगे। इन्हें क्रुद्ध समझ कर सुग्रीव ने समझाने के लिये हनुमान् के साथ महारानी तारा को भेजा। इन लोगों ने कुमार को सब हाल बतला और बहुत प्रकार से नम्रता दिखलाकर प्रसन्न किया। अब सुग्रीव ने भी आमुमित्रानन्दन का अभिवन्दन किया और सब लोग मिल कर रामचन्द्र के पास पहुँचे। वहाँ सब प्रकार से सलाह होकर वृद्ध मन्त्री जाम्बवान् ऋक्ष की अधीनता में चुने-चुने सगदार सीता को खांज निकालने के लिये भेजे गये। इनमें युवराज अंगद और हनुमान् भी थे। खोजते-खोजते ये लोग ठेठ दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुँचे और वहाँ जटायु के भाई वृद्ध संपाति से इन्हें लंका में सीता का हाना विदित हुआ। अब यह प्रश्न उठा कि इतना बड़ा समुद्र तैर कर लंका कौन पहुँच सकता है! सभी ने अपने-अपने सामर्थ्य का कथन किया किन्तु स्वयं अङ्गद तक को जाकर लौट आने की हिम्मत न पड़ी। तब जाम्बवान् की सम्मति से महावीर हनुमान् इस कार्य पर नियुक्त हुए और इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सीता के लिये चिह्न स्वरूप रामचन्द्र ने इन्हें एक अँगूठी दी थी। अब उसी को लेकर हनुमान् अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट कार्य-साधन में प्रवृत्त हुए।

अनन्तर एक ऊँचे टीले पर चढ़कर साहस के सहारे श्री हनुमान् जी समुद्र में कूद पड़े और ४० मील तैर कर दूसरी आर जाने के प्रयत्न में लगे। बीच के टापुओं पर दम लेंते और जान पर खेलते हुए साहसमूर्ति महावीर तैरते ही चले गये। मार्ग में सुरसा नाम्नी नागमाता ने इनके बल और बुद्धि की परीक्षा ली किन्तु प्रसन्न हो एवं आशीर्वाद देकर बह चली गई। आगे चलकर एक टापू पर सिंहिका नाम्नी राक्षसी ने इन्हें पकड़ कर खा जाना चाहा। और प्रकार प्राण बचता न देख विवश होकर हनुमान् का उस स्त्री तक से युद्ध करना पड़ा। उसे क्षण भर में मारकर ये आगे बढ़े और तैरते हुए लंका के टापू पर पहुँच ही गये।

अब साधारण पथिक बनकर इन्होंने लङ्कापुरी में प्रवेश किया। पुरी की रम्यता देखकर इनका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान् महावीर होने के अतिरिक्त छद्मवेष धारण में भी बड़े पटु थे। इन्होंने किसी उचित छद्मवेष में सारा शहर घूमते हुए रावण का महल भी देख लिया और वहाँ सीता को न पाकर इन्हें भारी संताप हुआ। इधर-उधर घूमते हुए इन्हें रावण के अनुज विभाषण मिले। उनके रावण-कृत सीताहरण का कर्म बहुत ही निन्द्य प्रतीत हुआ था। इसलिये हनुमान् का हाल जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई और उन्होंने इन्हें सीता जी से मिलने की सारी युक्ति बता दी। अब ये सीता के निवासस्थल अशोक-वाटिका में पहुँचे और वहाँ अपनी स्वामिनी को घोर विरह-वेदना से खिन्न पाकर इन्हें हर्ष और शाक साथ ही साथ हुए, हर्ष उनके मिलने और सतीत्व पर और शाक दुःखों पर। महावीर ने देखा कि राक्षसियाँ सीता को घेरे हुए हैं और उन्हें रावण का प्रणय स्वीकार करने के लिये भाँति-भाँति के दुःख देती हैं। उन लोगों की बातों से इन्हें यह भाँति-भाँति से समझा बुझा चुका है और नम्रता एवं क्रोध प्रकाश के कई छलबल कर चुका है किन्तु इन्होंने उसके प्रणय का पूर्ण निरादर करते हुए उसकी सदैव उपेक्षा की है और यही कहा है कि जब तू अपने को लाकपालों से बढ़कर समझता और पुलस्त्य ऋषि के कुल का भी अहंकार करता है, तब इन महत्त्वों के विवर्धनार्थ धर्मपालन में भी क्यों नहीं प्रवृत्त होता ?

अब रात्रि बहुत जा चुकी थी, इसलिये राक्षसियाँ अपने-अपने घर चली गईं तथा उनका त्रास से छूटने पर अकेला रहने के कारण सीता की विरह वेदना और भी बढ़ी। इसी अवसर को उचित काल समझ कापवर ने रामचन्द्र की दी हुई अंगूठी देकर सीताजी से पारिचय किया और पत्नी-हरण के पीछे रामचन्द्र ने जा-जो कार्य किये थे उन सब का भी सक्षम में विवरण कह सुनाया। सीताजी ने उस घड़ी का धन्य माना और प्रेमाश्रु से अंगूठा का भिगा दिया। इसके पाछे इनकी आज्ञा लेकर महावीर ने अशोक वाटिका का उजाड़ना आरम्भ किया। इन्होंने मालियों का उपेक्षा करके मधुर फल खाये, शाखायें तोड़ डालीं

और मना करनेवालों पर प्रहार किया । यह दशा देख मालियों ने बहुत से युद्धकर्त्ताओं को बुलाकर इन्हें पकड़ना चाहा किन्तु इन्होंने उन सब का भी विमर्दन किया । अब रावण के पास समाचार गये और उसने अपने पुत्र अक्षयकुमार को इन्हें परास्त करने के लिये कुछ योद्धाओं के साथ भेजा, किन्तु मरुतनन्दन ने उनका भी मानमर्दित किया और अक्षयकुमार को मार ही डाला । यह समाचार सुनकर रावण बड़ा दुःखित हुआ । अब उसने अपने मुख्य पुत्र युवराज मेघनाद को आज्ञा दी कि बानर मारा न जाय वरन् पकड़ कर सामने लाया जाय । मेघनाद ने आकर हनुमान् से द्वन्द्व युद्ध किया और दिव्याम्त्रों के द्वारा इन्हें मूर्छित कर दिया । अब उनके अनुयायियों ने इन्हें बाँध लिया और यथाकाल ये राजसभा में उपस्थित किये गये ।

इन्होंने रावण से सीताजी के छोड़ने की सम्मति पर वार्तालाप किया और अपने को रामचन्द्र का दूत कहकर इसी विषय में उनका भी सन्देश कह सुनाया । रावण ने सीता को वापस करना पसन्द न करके पुत्रवध के कारण हनुमान् के लिये प्राण-दण्ड की आज्ञा दी । इस पर विभीषण ने निवेदन किया कि दूत का मारना राज-धर्म के प्रतिकूल है सो इसे कोई और दंड दिया जाय । यह विचार राजा ने भी पसन्द किया और आज्ञा दी कि जिन हाथों से इसने राजपुत्र का वध किया है वह जला दिये जायें । प्राचीन ग्रंथों में पूँछ के जलाने की आज्ञा लिखी है किन्तु उसका प्रयोजन हाथों से मालूम पड़ता है । राजासों ने तेल और लाख से भिगोये हुये वस्त्र बाहुदहन के लिये एकत्रित किये, किन्तु उनका अभीष्ट सिद्ध न हुआ और महावीर ने भट बन्धन तोड़ जलने हुए वस्त्रों से लंका के कई प्रासादों में आग लगा दी । यह आग एक से दूसरे मकान तक फैलती हुई बहुत दूर तक व्याप्त हो गई और हजारों महल जलकर राख हो गये । इस अग्नि से लंका के प्रासादों को भारी हानि पहुँची । अब लंका में कोई कार्य शेष न देख कर साक्षी के लिये सीताजी से चूड़ामणि प्राप्त करके हनुमान्जी समुद्र में कूद पड़े और तैरते हुए इस ओर अपने साथियों से आ मिले । उन सब ने इनके आने से भारी प्रसन्नता मनाई और सारा हाल सुन कर परम प्रसन्न

हो इनके बाहुओं का पूजन किया ।

अब ये सब लोग सुग्रीव के पास पहुँचे और उनके साथ सभी ने रामचन्द्र का दर्शन किया । रामचन्द्र ने सीता की सुध पाकर बड़ा हर्ष मनाया और महावीर-चरित्र सुनकर उनकी भारी प्रशंसा की । अनन्तर सैन्य सजाकर सुग्रीव ने लंका पर आक्रमण करने की तैयारी की । भगवान् रामचन्द्र ने भारत से लंका तक सेतु बाँध कर अपनी सेना उस पार पहुँचाने का मंसूबा बाँधा । जिस काल सेतुबन्धन का कार्य हो रहा था, तब रावण ने अपने मंत्रियों से इस विषय में सलाह की तो विभीषण ने बड़े तीक्ष्ण शब्दों में राम का प्रताप एवं राक्षसों के असामर्थ्य का कथन किया । इस पर क्रुद्ध हो रावण ने उसकी कुछ निन्दा की । इस अपमान से रुष्ट होकर विभीषण ने लंका से भाग कर राम की शरण ली और भगवान् ने दया एवं कार्यसाधन के विचार से उसे लंकेश बनाने का वचन दिया, तथा समुद्र का जल मँगा कर उसी स्थान पर राज्याभिषिक्त कर दिया । जान पड़ता है कि जो टीलों का समूह भारत से लंका पर्यन्त है, उन्हीं के बीच का उथला पानी पाषाणों आदि से भरकर भगवान् ने सेतु बँधवाया होगा । रावण ने बल के मद में उन्मत्त होकर समुद्र पार करते समय सेना की गति का निरोध नहीं किया । चार दिनों में राम का दल सेतु द्वारा समुद्र पार हो गया । अंगद सेनापति नियत हुए । राम दल के उस पार पहुँचने पर रावण ने शुक-सारण को दूत बनाकर सेना का हाल जानने के लिये भेजा, किन्तु बानर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ी कठिनाई से छोड़ा । भगवान् ने अब अंगद का दूत बनाकर लंका पुरी भेजा, किन्तु रावण ने अधीनता स्वीकार करने तथा सीता को लौटाने की सम्मति न मानी ।

शान्ति होते न देख कर भगवान् ने लंका पुरी का दुर्ग सब ओर से घेर लिया । चारों फाटकों पर चुने चुने योद्धा आक्रमणार्थ रक्खे गये । रावण ने भी चारों फाटकों की रक्षा के निमित्त भारी योद्धा नियुक्त किये । अब विकराल युद्ध का आरंभ हुआ और थोड़े ही दिनों में रामचन्द्र की सेना ने अपना प्राबल्य दिखला दिया । अपने दल की भारी हानि देख और प्रहस्त तथा धूम्राक्ष का निधन सुन राक्षसेश्वर

रावण के चित्त में कुछ उद्वेग आया। अब उसने नाना के भाई माल्यवान्, महोदर, स्वपुत्र मेघनाद तथा अन्य प्रधान-प्रधान सरदारों को बुल कर मन्त्रणा की। महोदर तथा माल्यवान् ने शान्ति की सलाह दी, किन्तु रावण और मेघनाद को सम्राट् पद का दर्प छोड़ कर अधीनता स्वीकार करना मरण से भी निकृष्टतर समझ पड़ा। मेघनाद ने रावण को साहस प्रदान करके राक्षसों का बल सुनाया और अपना प्रमिद्ध पुरुषार्थ दिखलाने के विषय में भी नम्रत पूर्वक विनती की। दूसरे दिन उसने महान शौर्य दिखलाकर स्वयं रामचन्द्र को नागपाश से बद्ध कर दिया, किन्तु अन्य लोगों ने प्रयत्न करके अपने स्वामी को बन्धन मुक्त किया। नागपाश व्यर्थ देख कर रावण ने युद्धार्थ अपने भ्राता कुम्भकर्ण को भेजा, किन्तु परम शौर्य दिखलाकर वह रामचन्द्र के हाथ से मारा गया। इसके पीछे प्रचण्ड युद्ध करके मेघनाद भी लक्ष्मण के हाथ से मरा।

यह बुरा दिन देखकर साम्राज्ञी मन्दोदरी ने रावण को सीता लौटा देने के विषय में बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसने उत्तर दिया कि तुम सीता को दो या न दो, मैं कुम्भकर्ण और मेघनाद के बिना शरीर धारण नहीं कर सकता। इस पर मकराक्ष ने विनती की, “हे सम्राट् ! जब तक तेरा सेवक मैं जीवित हूँ, तब तक लंका में दीन वचन मुख से कौन निकाल सकता है ? अनन्तर रावण की आज्ञा ले पराक्रमी वीर खरात्मज मकराक्ष विभीषण के पुत्र तरणीसेन को साथ लेकर युद्धक्षेत्र में कूद पड़ा। इन दोनों ने निशिचर कुलाधारार्थ प्रचण्ड संग्राम किया, किन्तु रामचन्द्र की असह्य शक्ति के सामने कोई युक्ति काम न आई। मकराक्ष लक्ष्मण के हाथ से मारा गया और तरणीसेन को स्वयं रामचन्द्र ने मारा। अपने पुत्र-विनाश के पीछे विभीषण ने विलाप करते हुए भगवान् से उसका असली हाल बताया। यह सुन रामचन्द्र का बड़ा क्लेश हुआ। युद्ध फिर भी चलता रहा और महोदरादि रावण के मन्त्रों और सरदार एक एक करके धराशयी हुए। सबसे पाछे स्वयं रावण ने कई दिन तक प्रचण्ड युद्ध करके और रामचन्द्र के भारी-भारी योद्धाओं का पराजित करके अन्त में स्वयं भगवान् के हाथ से वारगति प्राप्त की।

स्मिताधर्षणाभाव से लंका की बड़ी हुई सभ्यता भली भाँति प्रदर्शित होती है। रामचन्द्र लंका-विजयार्थ विजयादशमी के दिन चले थे। लंका का युद्ध ८४ दिन होकर चैत्र मास में रावण-वध के साथ समाप्त हुआ। रावण के पीछे रामचन्द्र ने विभीषण को लंका देकर सीता को फिर प्राप्त किया। लोगों के संदेह मिटाने की प्रियतमा की पावक-परीक्षा करके रामचन्द्र ने उनका ग्रहण किया। पावक-परीक्षा के विषय में आज कल संदेह उपस्थित किया जा सकता था, किन्तु इन्हीं दिनों बनारस आदि कई स्थानों पर लोगों ने दहकते हुए कोयलों से भरे हुए कुण्डों पर साधारण लोगों को चलाकर सिद्ध कर दिया है कि किसी न किसी भाँति अग्नि की दाहिका-शक्ति का दमन किया जा सकता है। इस बात से अग्निशुद्धि का महात्म्य अवश्य कम हो जाता है।

कुल मिलाकर जानकी जी लंका में दस मास रहीं। ऊपर कहा जा चुका है कि रावण के पास कुवेर वाला आकाशगामी पुष्पक विमान था। अब वह रामचन्द्र को प्राप्त हुआ और उसी पर चढ़कर पत्नी और भ्राता समेत आप मुख्य-मुख्य सरदारों को भी साथ लेकर अयोध्या रवाना हुए, क्योंकि १४ वर्ष का समय भी अब समाप्त होने ही को था। मार्ग में भरद्वाज के दर्शन करते और निषाद-पति गुह से मिलते हुए चौदहवाँ वर्ष समाप्त होते ही १५ वें वर्ष के ठीक पहले दिन रामचन्द्र ने नन्दिग्राम में प्रिय भाई भरत को दर्शन दिये। वहीं पर चारों भाइयों ने जटाओं को त्याग कर गाजे बाजे के साथ उचित समय पर अयोध्या में प्रवेश किया। रामचन्द्र के प्रवेशोत्सव में अयोध्या नई दुलहिन की भाँति सजाई गई। अब उचित समय पर राम का अभिषेक हुआ और ये सुखपूर्वक राज्य करने लगे।

राम-राज्य में प्रजा खूब सुख के साथ रही। उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था और जितने कष्टों का राज्य निवारण कर सकता था वह मानों प्रजा के लिये बने ही न थे। भारत में सर्वोत्तम राज्य का अब तक रामराज्य कह कर उसका महत्ता सूचित करते हैं। हिन्दू शास्त्रानुसार प्रजा के चारों वर्णों को जिस-जिस धर्म पर चलाना चाहिये, उसी पर रामचन्द्र ने उनको चलाया। आदर्श आर्य होने से

आपने एक बार हिन्दू मिथ्यान्तों के दोष में पड़कर तपस्या करने वाले शूद्र मुनि शम्बू ६ का केवल तपस्या करने के कारण अपने हाथ से वध कर डाला। शम्बूक वध की कथा प्रक्षिप्त है। यह रामायण के प्राचीन भाग में नहीं है।

वन से लौटने पर थोड़े ही दिनों में महारानी सीता ने गर्भ धारण किया। राम के सभी आचरणों को पूज्य दृष्टि से देखते हुए भी उनकी प्रजा ने लुद्रता दिखलाने हुए सीताजी के लंका निवास के विषय में उनके आचरण पर संदेह किया और आदर्श राजा होने तथा प्रजा को उच्च उदाहरण दिखलाने के विचार से रामचन्द्र ने अपनी प्राणोपमा सीता के प्रति “अत्यन्त कठोरता” दिखलाकर उनके सगर्भा होने पर भी लक्ष्मण द्वारा उन्हें महर्षि वाल्मीकि वाले आश्रम के निकट जंगल में छोड़वा दिया। यह देखकर महर्षि ने उनकी रक्षा की। वहाँ सीताजी के कुश और लव नामक दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए और उसी आश्रम में उनका पालन हुआ। रामचन्द्र ऐसे लोकप्रिय हो गये थे कि उनके जीवन-काल में ही महर्षि वाल्मीकि ने तत्कालिक भाषा में एक रामायण काव्य बनाया था, जो उन्होंने रामात्मजों को कण्ठस्थ करा दिया। महर्षि ने बालकों को क्षत्रियोचित शस्त्र-विद्या की भी योग्य शिक्षा दी। थोड़े दिनों में गद्वागजा रामचन्द्र ने नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में जाकर अश्वमेध आरम्भ किया। नैमिषारण्य वर्तमान सीतापुर से सोलह मील की दूरी पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव द्वारा नैमिष में रामायण का गान कराया। इस गान को स्वयं रामचन्द्र ने भी सुना और इसी सम्बन्ध में बातचीत चलने पर गाने वालों का अपने से सम्बन्ध जाना। अब सर्वसम्मति से ये पुत्र प्रसन्नता के साथ ग्रहण किये गये, किन्तु सीताजी एक बार की छोड़ी हुई अयोध्या में फिर से जाना पसन्द न करके पृथ्वी में प्रवेश कर गईं। इस प्रकार इनका पवित्र जीवन समाप्त हुआ।

जिस दिन सीताजी के राजकुमार उत्पन्न हुए थे उसी दिन शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध करने के लिये जाते हुए मार्ग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर ठहरे थे। इस युद्ध का कारण यह था कि

मथुरा का शासक लवणासुर प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा था। सम्भवतः यादव नरेश भीम सात्वत की ओर से वह मथुरा के प्रबन्ध पर नियुक्त होगा। उसके नरभक्षक आदि होने के कथन अत्युक्ति पूर्ण समझ पड़ते हैं। मथुरा प्रान्त के निवासी ब्राह्मणों ने राम का यश सुन अयोध्या जाकर आर्यों की कष्ट-कथा कह सुनाई थी। रामचन्द्र से ऐसा कष्ट कभी नहीं देखा जाता था, इसलिये इन्होंने अपने भ्राता शत्रुघ्न को लवण के मारने और मथुरा का राज्य चलाने के लिये भेजा था। बाल्माकि-आश्रम से आगे बढ़ कर शत्रुघ्न ने मधुपुरी पहुँच लवण का ललकारा और युद्ध में उसका निधन किया था। रामचन्द्र ने चलते समय अयोध्या ही में शत्रुघ्न का माथुर-राज्याभिषेक कर दिया था। इसलिये लवणासुर के मरने पर माथुर प्रान्त की प्रजा ने हर्षपूर्वक इन्हें अपना राजा माना और ये वहीं राज्य करने लगे थे। समझ पड़ता है कि इस काल यादव नरेश भीम कहीं दक्षिण की ओर हट गये होंगे। अश्वमेध के समय नैमिष पहुँचकर शत्रुघ्न ने अश्वरक्षा का काम लेकर उसी के साथ भारत-भ्रमण करके राजाओं को पराजित किया था। शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य १२ वर्ष चलाया।

इस प्रकार महाराजा रामचन्द्र का सम्राट् पद पूर्णरूपेण स्थापित हुआ। आपने प्रजा के संदेह करने पर सीता जी को छोड़ तो दिया था, किन्तु अपने चित्त में उनके चरित्र को दूषित कभी नहीं माना। इसलिये इन्होंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया और यज्ञ के समय स्त्री के स्थान पर सीता की सुवर्णमयी मूर्ति प्रतिष्ठित करके यज्ञ का काम पूरा किया। यज्ञान्त में अपने दोनों पुत्र कुश और लव को पाकर रामचन्द्र भ्राताओं समेत बड़े प्रमत्त हुए। इनके भ्राताओं के भी दो-दो पुत्र हुए थे, अर्थात् सुबाहु और शत्रुघाती शत्रुघ्न के, तक्ष और पुष्कर भरत के तथा अंगद और चन्द्रमेन लक्ष्मण के। इसी समय केकय देश में गन्धर्वों ने भरत के मामा आनव युधाजित् को मार कर उस देश में अपना राज्य स्थापित किया। यह देख रामचन्द्र ने अपने भ्राता भरत की अधीनता में एक सेना भेजी, जिसने जाकर पुष्कर-नरेश गन्धर्वों को पराजित किया तथा केकय देश पर भी राज्य

जमाया। तत्तु को तत्तु शिला मिली और पुष्कर को पुष्करावती (वायु ८८, विष्णु IV ४, ४७; पद्म V ३५-२३-४; VI २७१, १२; अग्नि ११, ७-८; रघुवश XV ८८-९)। इस प्रकार यह राज्य भी सूर्यवंशियों के अधिकार में आ गया। समय पर अन्य कई राज्य भी रामचन्द्र ने प्राप्त किये। अब आपने पुत्रों और भतीजों का सब प्रकार से समर्थ समझ कर जीते हुए और पैतृक राज्य उन्हीं में विभाजित कर दिये। ज्येष्ठ पुत्र कुश को (पद्म VI २७१-५४-५५) अयोध्या का युवराज बना कर कुशावती पर कुशावती में भी राज्य चलाने की आज्ञा दी। यह विन्ध्याचल के दक्षिण है। कालिदास के अनुसार कुश ने समय पर प्रजा की प्रार्थना से अयोध्या फिर से राजधानी बनाई। लव को शरावती उपनाम उत्तर काशल का राज्य मिला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कहते हैं कि लवकाट उपनाम लाहौर नगर लव का ही बसाया हुआ है। श्रावस्ती जिला गोंडा व बहराइच में है। तत्तुशिला को अब शाहधेरी कहते हैं, जो अटक तथा रावलपिण्डो के बीच में कालका सराय से एक मील की दूरी पर स्थित है। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चन्द्रसेन (या चद्र केतु) या चन्द्रचक्रा का कारावध के अन्तर्गत अंगद नगर तथा चन्द्रावती (मल्लेश) के राज्य दिये गये। (वायु ८८, १८७, ८; ब्रह्माण्ड III ६३, १८८-९; विष्णु IV ४, ४७; रघुवश XV ९०; पद्म V ३५, २४; VI २७१-११-२; ये स्थान हिमाचल के निकट थे।) सुबाहु को मथुरा तथा शत्रुघाती को विदिशा (वर्तमान भेलसा) मिले। इस प्रकार रामचन्द्र ने अपने तथा भाइयों के आठों पुत्रों को प्रसन्न करके सभी को राजा बना दिया। भगवान् ने शत्रुघ्न, सुभीम और विभीषण को मिलाकर केवल अपने बाहुबल से ग्यारह राजाओं का अभिषेक किया। अंग, बंग, मरस्य, शृंगवेरपुर, काशी, सिन्धु-सोवीर, सौरष्ट्र, दक्षिण काशल, किष्किन्धा और लंका भगवान की मित्र शक्तियां थीं। रामचन्द्र ने मथुरा से इतर किसी आर्य्य नरेश पर सेना सन्धान नहीं किया। अब तक भारतीय किसी सम्राट् का राज्य एवं प्रभाव ऐसा न बढ़ा था। आर्य्यत्व का भी प्रभाव आप के कारण बहुत बढ़ा।

रामचन्द्र के चरित्र का सब से बड़ा अंग हृदयता थी और अब

यही अयोध्या के सर्वप्रधान रत्न को लूटने वाली हुई। रामचन्द्र ने एक बार प्रण किया था कि यदि कोई मेरी आज्ञा भंग करेगा तो मैं उसका त्याग कर दूँगा। दैववश लक्ष्मण को ही अवश होकर इनकी आज्ञा टालनी पड़ी, जिस पर न चाहते हुए भी इन्होंने उनका त्याग कर दिया। रामचन्द्र से पृथक् होकर लक्ष्मण को सारा संसार शून्य समझ पड़ा और वे महल से सीधे गुप्तारघाट पर पहुँच कर सरयू के जल में लुप्त हो गये। आप की माता और सीता जी स्वर्ग वासिनी हो ही चुकी थीं, अब लक्ष्मण का भी शरीरान्त सुनकर रामचन्द्र से भी न रहा गया और इन्होंने शरीर-त्याग के विचार से अपने शेष दोनों भाइयों के साथ ही देखना चाहा। भरत तो अयोध्या में रहते ही थे, शत्रुघ्न भी अब वहीं पहुँचे। इन दोनों भाइयों ने राम का विचार सुनकर इनके पोछे संसार में शरीर धारण तुच्छ समझ इन्हीं के साथ गुप्तार घाट में शरीर छोड़ दिया। यह दुर्घटना देख अयोध्या के हज्जारों लोगों ने भी ऐसा ही किया। कहा जाता है कि आत्मघात वाले रोग से इस काल अयोध्या उजाड़ सी हो गई।

रामचन्द्र ने यावज्जीवन अपने चरित्र से परमोच्च आदर्श दिखलाया। इन्होंने अपनी तीनों माताओं तथा सभी अन्य लोगों से यथोचित व्यवहार रक्खा। किसी का उचित मनोरथ इनके द्वारा कभी विफल नहीं हुआ। क्या दानशीतला, क्या न्यायपरता, क्या राज्य-शासन और क्या कोई भी चरित्र-सम्बन्धी सद्गुण, इन्होंने सभी बातों में अपने पुनीत जीवन को नमूना बना रक्खा था। इनके इस उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही लोगों ने बालि एवं शूद्र मुनि के वध, शूर्पणखा-विरूपकरण और सीता-त्याग वाले कर्मों की तीक्ष्ण आलोचना भी की है। ये हिन्दुओं में ईश्वरावतार समझे जाते हैं, सो धार्मिक विचारों से भी इनके लाखों भक्त हैं। इसलिये उपर्युक्त बातों के खण्डन-मण्डन में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई है, जिसका सार भी कहना यहाँ अनावश्यक समझ पड़ता है।

इनका चरित्र एक रामायण द्वारा इनके जीवन ही में गाया गया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रन्थ अब भी उपस्थित है। यह बड़ा प्राचीन ग्रन्थ है, किन्तु फिर भी १३ वीं शताब्दी बी० सी० का नहीं

हो सकता। पंडित लोग इसे छठवीं से तीसरी शताब्दी बी० सी० तक के इधर-उधर का ग्रन्थ मानते हैं। वाल्मीकि का जन्म भृगुवंश में हुआ। इसी वंश के शुक्राचार्य थे। महाभारत का कथन है कि वाल्मीकि ने रामायण के ५ काण्ड १२००० श्लोकों में लिखे थे, ७ कांड और २५००० श्लोक उनके लिखे नहीं हैं। महाराज रामचन्द्र सम्बन्धी जितने ग्रंथ संस्कृत और भारतीय वर्तमान भाषाओं में बने हैं उतने बुद्ध और श्रीकृष्ण से इतर यहाँ किसी एक मनुष्य के विषय में नहीं बने। बौद्ध ग्रन्थों में भी रामचन्द्र का वर्णन अधिकता से है। “दशरथ जातक” नामक ग्रन्थ परम प्रसिद्ध जातकों में से एक है। इसमें रामचन्द्र की कथा बहुत अंशों में ज्यों की त्यों लिखी है। अन्य जातकों में भी इनका कथन यत्र तत्र मिलता है। जैन ग्रन्थों में भी इनके वर्णन हैं, एवं एक जैन रामायण भी प्रस्तुत है।

इतने प्रमाणों के होते हुए भी कुछ पाश्चात्य लोगों को भ्रम हो गया है कि रामचन्द्र कल्पित पुरुष मात्र हैं। इसके प्रमाण में वे वेदों में राम नाम के अभाव को पेश करते हैं। जैसा कि ११ वें अध्याय में दिखलाया जा चुका है, वेदों में चन्द्र वंशियों के अधिक वर्णन हैं और सूर्यवंशियों के कम; तथापि वेदों में भी राम नाम का अभाव नहीं है। स्वयं ऋग्वेद में इन्द्र को कई बार राम कहा गया है और यज्ञ करने वाले एक राम नामक शक्तिमान मनुष्य भी हैं। कोई कारण नहीं है कि ऋग्वेद वाले यही यज्ञकर्त्ता सशक्त राम दशरथ-नन्दन राम न माने जावें। यदि राम वास्तव में न हुए होते तो हिन्दू-मत विद्वेषी बौद्ध और जैन लोग अपने ग्रन्थों में इनका वर्णन कभी न करते। फिर ब्राह्मण और वेद ग्रन्थ इतिहास नहीं हैं और उनमें जो नाम आये हैं वे सब प्रसंगवश लिखे गये हैं। इस लिये यदि उनमें कोई विशिष्ट नाम न हो, तो भी यह अभाव उसके अस्तित्व का अकाट्य तर्क नहीं है। बहुत से पाश्चात्य पंडितों ने भी पौराणिक अत्युक्तियों का असिद्ध मानते हुए भी राजवंशों का विवरण ग्राह्य कहा है। इन लोगों में पार्जितर और विन्सेण्ट स्मिथ भी हैं। इन सब कारणों से रामचन्द्र की ऐतिहासिक सत्ता दृढ़ है।

उस काल राजा के न्याय करने में नियम बनाने की आवश्यकता

नहीं पड़ती थी और प्रवीण पंडितों के बनाये हुए राज्य-नियम प्रत्येक देश में चलते थे। सारे भारतवर्ष के सभी मुख्य स्थानों में एक दूसरे से व्यापारिक सम्बन्ध था और अनार्य राज्यों पर भी आर्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा था। रावण-राज्य के भारी सभ्यतापूर्ण व्यवहार इन कथनों की सिद्धि होती है। बालि और सुभीव के राज्य से भी उसकी महत्ता प्रकट होती है। रामचन्द्र के समय दण्डकारण्य में आर्यों का एक उपनिवेश था। इनके विजयों से दक्षिण पर भी आर्यों का बड़ा प्रभाव पड़ा और आर्य लोग बहुतायत से वहाँ बसने लग गये थे। इस काल से कुछ पहले राम के पिता दशरथ और उत्तर पांचाल नरेश दिवोदास ने वेदों में प्रसिद्ध (तिमिध्वज) शम्बर को मार कर उसके १०० दुर्ग तोड़े। अनन्तर इसी समय के लगभग दिवोदास के भतीजे सुदास ने भी भारी अनार्य नरेश वर्चिन को मार कर तथा भेदादि को पराजित करके भारत में अन्तिम अनार्य बल तोड़ दिया। इसका विशेष विवरण ऋग्वेद के सातवें मण्डल में है। अतः शम्बर, रावण और वर्चिन के पराजय से यह काल आर्यों के लिये बड़ी महत्ता का हुआ। रामायण काल में हम गोदावरी में दक्षिण आर्य विस्तार पाते हैं, तथा पम्पा, मलय, महेन्द्र और लंका तक में आर्य प्रभाव स्थापित होता है।

चौदहवां अध्याय

द्वापर युग पूर्वाद्ध—राम के पीछे युधिष्ठिर
काल के पूर्व तक

१३ वीं शताब्दी बी० सी० से १० वीं शताब्दी बी० सी० तक

द्वापर युग के राजवंशों को डाक्टर प्रधान ने विशेष परिश्रम करके हट कर दिया है। राम ने अपने आठों सूर्यवंशी भतीजों को राजा बना दिया जैसा कि गत अध्याय में कहा जा चुका है। उनमें से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के लड़कों से राज्य बहुत शीघ्र छूट गये। भरत के बेटों के प्रभाव बहुत काल तक रहे, ऐसा समझ पड़ता है, क्योंकि इनके नामों पर पुष्करावती और तक्षशिला के प्रान्त शताब्दियों तक इन्हीं नामों से प्रसिद्ध रहे। फिर भी वे लोग तथा उनके वंशधर मध्यदेश से संबंध छोड़कर अपने ही प्रान्त के क्षत्रियों में मिल गए, जिससे पुराणों में इन वंशों के कथन न आये।

कुश वंश ।

रामचन्द्र के बड़े पुत्र कुश को दक्षिण कोशल तथा अयोध्या के प्रान्त मिले। अवध प्रान्त के दो भाग करके भगवान राम ने श्रावस्ती लव को दी तथा अयोध्या कुश को। ऐसा समझ पड़ता है कि बड़े होने से उन्हें दक्षिण कोशल भी मिला। यह विन्ध्य में था, अथच पुर्वोक्त दक्षिण कोशल से पृथक् था क्योंकि वह राज्य महाभारत के पीछे तक चलता रहा। कुश पहले कुशावती में रहने लगे और अयोध्या उजाड़ हो चली। तब यहां के निवासियों ने विनती की और आप कुशावती छोड़कर यहीं चले आये। कुश का विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री कुमुदवती से हुआ। दुर्जय नामक किसी असुर से युद्ध करके कुश ने संसार त्यागा। इनके पुत्र अतिथि को कालिदास ने बड़ा प्रतापी राजा

कहा है। उन्होंने अपने पिता-हंता दुर्जय राक्षस को मारा। इनका नंबर ४१ था। इनके वंशधर (नं० ४९), पारिपात्र के छोटे भाई सहस्राश्व ने कोई दूसरा राज्य स्थापित किया। पुराणों में उनसे दूसरा वंश चला है। पारिपात्र के तीन पुत्र शल, दल, बल, सब एक दूसरे के पीछे राजा हुए। बल के वंश में राज्य चला। नं० ५६ हिरण्यनाभ धर्मात्मा और प्रतापी थे। इन्होंने जैमिनि से योग सीखा, तथा याजवल्क्य को सिखलाया (चौथे अध्याय में ऋषि वंश देखिए)। इनके पौत्र अन्तारात्मज नं० ५८ “पर” थे; जिनके पीछे इस वंश का राज्य न चला। दूसरी शाखा वाले नं० ४९ सहस्राश्व का राज्य ६ पीढ़ी चला। अंतिम राजा नं० ५४ श्रुतायुस महाभारतीय युद्ध के समय में थे। इस नाम के तीन राजे उस युद्ध में लिखे हैं। डाक्टर प्रधान का विचार है कि इन्हीं को महाभारत में अम्बष्ठ श्रुतायुस कहा गया है। मत्स्य पुराण में भी ऐच्चाकु श्रुतायुस का महाभारत में मारा जाना लिखा है। राजसूय में भीम ने अयोध्या नरेश पुण्यात्मा दीर्घयज्ञ को हराया, यह कथन प्रधान में है। यह नाम वंशावली में नहीं है, शायद यह उक्त का उपनाम हो।

लव वंश

रामचंद्र के दूसरे बेटे लव श्रावस्ती नरेश बनाये गये। इनके विषय में कोई विशेष घटना नहीं है। इनके वंश का राज्य बड़े भाई कुश वाले से बहुत अधिक पीढ़ियों तक चला।

लव के पौत्र राजा ध्रुवसन्धि हुए। इनका पहला विवाह कलिंगनरेश वीर की पुत्री मनोरमा से हुआ और दूसरा उज्जैनपति युधाजित की पुत्री लीलावती से। मनोरमा के गर्भ से सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और इसी से एक मास पीछे लीलावती के गर्भ से शत्रुजीत का जन्म हुआ। राजा ध्रुवसन्धि शत्रुजीत को अधिक चाहता था और लोगों का विचार था कि इसी को युवराज बनावेगा। इतने ही में शिकार में राजा ध्रुवसन्धि एक घायल शेर द्वारा मार डाला गया। राज-मंत्रियों ने बड़े होने के कारण सुदर्शन को ही तिलक के याग्य समझा किन्तु उज्जैन और कलिंग नरेश अपने-अपने दौहित्र का पक्ष ले लेकर लड़ने को तैयार हुए। शृङ्गवेरपुर में भारी युद्ध

हुआ जिसमें कलिंग नरेश मारा गया और मनोरमा सुदर्शन को लेकर जङ्गल में भाग गई। सुदर्शन की अवस्था इस काल बहुत छोटी थी। उसे लेकर मनोरमा प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम में रहने लगी और युधाजित उज्जैनपति ने शत्रुजीत को अयोध्या का राजा बना दिया।

युधाजित ने भरद्वाज आश्रम से सुदर्शन को पकड़ मँगाने की भी युक्ति की किन्तु ऋषि ने उसे न भेजा और युधाजित ने भी उन की महिमा के विचार से इस पर जोर न दिया। थोड़े दिनों में काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर होने को हुआ। इस समय तक सुदर्शन भरद्वाज ऋषि की शिक्षा से अच्छा विद्वान् हो चुका था। उसके गुणों से मुग्ध होकर शशिकला ने पत्र द्वारा उसे बुला भेजा। जब सुदर्शन काशी पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ युधाजित, शत्रुजीत, कारुख-पति, भद्रशर, सिंहराज, माहिष्मतीपति, पांचाल-राज, कामरूप, कर्णाटक, विदर्भ, केरल, चोल आदि के राजाओं को वहीं एकत्र पाया। युधाजित ने इस बात का प्रश्न उठाया कि स्वयंवर नरेशों के लिये है सो सुदर्शन का प्रवेश इसमें नहीं हो सकता। इस पर केरल नरेश ने कहा कि राजा ध्रुवसन्धि का बड़ा पुत्र होने से सुदर्शन एक माननीय व्यक्ति अवश्य है। फिर भी युधाजित झगड़ा करता रहा। यह देख कई राजाओं ने मिलकर सुदर्शन को अपने पास बुलाया और उसकी शिष्टता तथा पाण्डित्य से प्रसन्न होकर उसका पक्ष लिया। अब सुदर्शन का विवाह शशिकला के साथ हो गया। यह देख युधाजित और शत्रुजित युद्धार्थ सन्नद्ध हुए। राजा सुबाहु तथा सुदर्शन के पक्षवाले अन्य राजाओं ने युद्ध में विजय पाई और युधाजित तथा शत्रुजीत मारे गये। यह कथा हमने केवल देवी भागवत (III १४-२५) में देखी है, अन्यो में नहीं। उस काल काशी में सुबाह नामक कोई राजा न था तथा उज्जैन में कोई युधाजित था यह निश्चित नहीं है। फिर भी कथा असम्भव नहीं है। भरद्वाज का कोई वंशधर आश्रम में होगा। अब सुदर्शन को अयोध्या का राज्य भी मिल गया। इसने बहुत नीतिपूर्वक राज्य किया। इसके पीछे इसका पुत्र अग्निवर्ण राजा हुआ। यह बड़ा ही कामकिंकर था और इसके अन्याय से सूर्य कुल का प्रभाव बहुत ही घट गया। ऐसा जान पड़ने लगा कि यह

राज्य ही लुप्त हो जायगा, किन्तु इतने ही में इसका शरीरपात हो गया। इसकी गर्भवती रानी ने राज्य प्रबन्ध बहुत अच्छा किया और पुत्रोत्पत्ति के पीछे भी उसके युवा होने पर्यन्त राज्य को सुपालित रक्खा, जिससे यह नष्ट होने से बच गया। युधिष्ठिर के समय इस वंश का राजा वृहद्वल (नं० ५३) था जो चक्रव्यूह में मारा गया तथा जिसका पुत्र वृहत्तम राजा हुआ। इस वंश का शेष विवरण आगे होगा। रामचन्द्र के पीछे राज्य बँट जाने से इनके वंशधरों का प्रभाव कम हो गया। अग्निवर्ण तक का विवरण रघुवंश में है।

सगर वंश

रामचन्द्र के पीछे राजा सगर का वंश नं०, ४३ भगीरथ पर्यन्त चला। पुराणों में यह वंश राम वंश में मिला हुआ है, सो भगीरथ के पीछे इसका पता नहीं है।

दक्षिण कोशल-वंश

दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद राम के प्रायः समकालीन थे। उनके पीछे दोनों लड़कों पर राज्य के दो खंड हो गए। पहले वंश में अश्मक, उरकाम और मूलक के नाम लिखे हैं, तथा दूसरे में सर्व कर्मन, अनरण्य, निधन, और अनमित्र के। इनके भाई रघु लिखे हैं। बौद्ध साहित्य में इस वंश का नाम अस्सक कहा गया है। महाभारत-तीय युद्ध में अश्मक पुत्र ने युद्ध किया। इनका महाभारत के पीछे कुछ प्रभाव बढ़ा, जिसका विवरण आगे आवेगा। उसी में बौद्ध साहित्य के आधार भी होंगे।

विदेह का सूर्यवंश

दशरथ तथा राम के समकालीन सीरध्वज जनक यहां के राजा थे। इनके भाई कुशध्वज सांकाश्य नरेश बनाये गये। इनके वंश में कवल धर्मध्वज, कृतध्वज, और केशिध्वज के समय तक राज्य चला। कृतध्वज के भाई मितध्वज थे, जिसके पुत्र खांडिक्य का राज्य उसी के किसी वंश वाले उपर्युक्त केशिध्वज ने छीन लिया, किन्तु इनसे ज्ञान सीख कर फेर दिया। ऐसा विष्णु-पुराण VI, ६ में लिखा है। यहाँ राज्य

से किसी साधारण अधिकार जागीर आदि का प्रयोजन समझ पड़ता है, क्योंकि खाण्डिक्य राजा थे ही नहीं। ज्ञानियों में इनकी गणना है। मुख्य वंश में, नं० ३८, सीरध्वज के पुत्र भानुमंत राम के साले थे। शकुनिपुत्र स्वागत के भाई ऋतुजित, नं० ४५, ने दूसरा राज्य स्थापित किया। इनके वंश में नं० ५५, उपगुप्त पर्यन्त राज्य चला। नाम सभों के वंशावली में हैं। मुख्य वंश में स्वागत, नं० ४५, के वंशधरों में, नं० ५२, धृति, ५३ बहुलाश्व और ५४, कृति अंतिम नरेश थे। धृति और बहुलाश्व के समय में श्रीकृष्ण चन्द्र इनके राज्य में गए थे (भागवत दशमस्कंध)। यह वंश भी इस काल महत्ता युक्त न था। वंशावली में विदेह वंश का वर्णन इसके आगे नहीं है, किन्तु महाभारत युद्ध के प्रायः दार्ढ़ सै वर्ष पीछे इसने वह महत्ता प्राप्त की, जो इसमें कभी भी न थी। डाक्टर राय चौधरी का विचार है कि पुराणों के कृति शायद अन्तिम विदेह राज कराल जनक हों। यह मत ठीक नहीं समझ पड़ता, क्यों कि उन्हीं के अनुसार कराल जनक पौरव जनमेजय से बहुत पीछे हुए, तथा कृति के पिता स्वयं श्री कृष्ण के समकालीन थे। वैदिक विवरणों में माथव तथा जनक के अतिरिक्त पर अल्हार तथा नमीसाप्य के भी कथन हैं। मैकडानल और कीथ महाशय पर अल्हार को कोशलराज पर अल्लार बतलाते हैं, नमीसाप्यतांड्य ब्राह्मण XXV १७, १८, में प्रसिद्ध यज्ञ कर्ता हैं। इसके पीछे विदेहों का विवरण आगे आवेगा।

सूर्यवंश का सम्मिलित विवरण

द्वापर-युग में इस वंश में लव, कुश, सगर, दक्षिण कोशल और विदेह वंशों के विवरण ऊपर आ चुके हैं। वैशाली वंश त्रेता में ही दूट चुका था। महत्ता में लव वंश का प्राधान्य इस काल भी था, और आगे आने वाला है। फिर भी द्वापर युग में सारा सूर्यवंश दबा रहा और चन्द्र वंशियों की मुख्यता तथा महत्ता रही ! कोशल और विदेह वंशों में कई की वंशावलियां पुराणों में हैं, और हमारे चाथे अध्याय में उल्लिखित हैं। दक्षिण कोशल-वंश बना बहुत काल पर्यन्त रहा, किन्तु उसकी वंशावली गुप्त कालीन पौराणिक संपादकों की भूल से राम के

पूर्व पुरुषों में जुड़ कर आगे के लिये लुप्त होगई। सारे सूर्यवंश में लव के वंशधरों ने सब से बढ़कर महत्ता प्राप्त की, जैसा कि आगे यथा स्थान आवेगा।

मुख्य पौरव-वंश

रामचन्द्र के समकालीन, नं० ३८, कुरु प्रतापी थे। आपने वत्स जीता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आप ही के नाम पर कौरव वंश चला। इनके पुत्र, नं० ३९, सार्वभौम के पीछे इस वंश के भाई चारे वालों ने कई राज्य जमाये, जैसा कि आगे कहा जावेगा, किन्तु मुख्य शाखा में नं० ४८, प्रतीप तक कोई विशिष्ट वर्णन पुराणों में नहीं है। प्रतीप महत्ता युक्त थे। महाभारत में इनके तीन पुत्र देवापि बाल्हीक और शान्तनु या शान्तनु कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में देवापि अरिष्टिषेण के पुत्र हैं। या तो वे पिता के सामने ही मर चुके होंगे, या थोड़े ही दिन राज्य करके गत हो गये होंगे जिससे महाभारत से इनका नाम छंट रहा हो। अरिष्टिषेण का पितृत्व कुछ संदिग्ध भी है, जैसा कि वंशावलियों में कथित है। देवापि के कुष्ट रोग था, सो ब्राह्मणों ने इनके राजा होने के प्रतिकूल आपत्ति उठाई। बेचारे प्रतीप रोने तक लगे किन्तु प्रजा के विरोध से विवश होकर उन्होंने अपने छोटे पौत्र या पुत्र शान्तनु को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि मँभला बाल्हीक पहले ही से अपने मामा शिवि का राज्य पाकर उत्तरापथ जा चुका था। शान्तनु एक अच्छे वैद्य भी थे। शान्तनु को मत्स्य और वायु पुराण महाभिषक कहते हैं। देवापि का कुष्ट रोगी होना, म० भा० १४९, ६, में कथित है। देवापिका प्रतीप का पुत्र होना किन्तु केवल शिष्यत्व के कारण दत्तक पिता अरिष्टिशेण का पुत्र वेद में कहलाना प्रधान का मत है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ९, ३, ३, उनके भाई बाल्हीक को कौरव नरेश प्रातीप्य कहता है, किन्तु यह प्रमाण संदिग्ध है, क्योंकि प्रतीप का पौत्र भी प्रातीप्य कहा जा सकता था। आगे की कथा महाभारत के आधार पर कही जावेगी। महाराजा शान्तनु के जेठे भाई देवापि ब्राह्मण हो गए। इस काल कौरव राज्य सरस्वती से गंगा तक था। उसके तीन भाग थे, अर्थात्

कुरु, जांगलकुरु और कुरुक्षेत्र । तैत्तिरीय आरण्यक, वैदिक अनुक्रमणिका के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमायें निम्न हैं:—दक्षिण खाण्डव, उत्तर तुन्न, पच्छिम परीणह । इस वंश को पुरु भारत वंश कहा है ।

प्रतीप की वृद्धावस्था में गंगा नाम्नी एक सुन्दरी ने इनसे अनोखी दिल्लगी की । वृद्ध प्रतीप एक समय गंगातट पर तपस्या कर रहे थे । उस काल गङ्गा आकर अकस्मात् इनकी दाहिनी जंघा पर बैठ गई । इस रूपराशि की ऐसी ढिठाई से महाराजा प्रतीप संभ्रम पूर्ण होकर कहने लगे, “हे शुभे ! जो तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह करने को मैं प्रस्तुत हूँ, इसलिये आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या इच्छा है ?” यह सुन कर गंगा ने कहा, “हे भूपशिरोमणे ! आप मेरे साथ प्रीतिपूर्वक विहार कीजिये ।” यह सुन प्रतीप ने उत्तर दिया, मैं “कामवश होकर परस्त्रीगमन कभी नहीं करता और असमानवर्णा भार्या से विवाह भी नहीं करता, यह मेरा व्रत है ।” इस बात से प्रकट होता है कि उस काल मिलित विवाहों की प्रथा प्रचलित थी परन्तु राजा प्रतीप उसको पसंद नहीं करते थे । गङ्गा ने उत्तर दिया, “मैं अश्रेयसी और अगम्या नहीं हूँ तथा कुमारी हूँ, इसलिये तुम निर्भय होकर मुझसे विवाह करो ।” प्रतीप ने कहा, “यदि तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, तो मेरी वाम जंघा पर बैठना चाहिये था न कि दक्षिण पर, जिस पर केवल पुत्री अथवा पुत्रवधू बैठ सकती है । जब स्वयं तुम्हीं ने धर्मव्यतिक्रम किया है, तब यदि मैं तुम्हारे साथ विवाह न करूँ, तो तुम्हें मुझको दोष न देना चाहिये । तुम्हारे दक्षिण जंघा पर बैठने के कारण मैं अपने पुत्र शन्तनु के लिये तुम्हारा वरण करता हूँ ।” यह सुनकर गङ्गा ने उत्तर दिया, “हे धर्मज्ञ भूपाल ! जो तुम आज्ञा करते हो वही हो ।” अब राजा ने अपने पुत्र को बुला कर गङ्गा के साथ विवाह करने के लिये आज्ञा दी और उन्हें राज्याभिषिक्त करके आप तप करने के लिए रानी समेत बन को चले गये ।

कुछ दिनों में महाराजा शन्तनु मृगयार्थ गङ्गा जी के किनारे गये, तो उसी उपर्युक्त रूपवती तरुणी से इनकी भेंट हुई । उसने श्री समान ज्योतिर्मय तरुण तन पर उस काल दिव्य आभूषण धारण कर

रक्खे थे । उसकी पद्म-समान तनद्युति पर सुधा-सी श्वेत साड़ी शोभित हो रही थी और वह अतुल रूपराशि उस काल एकाकिनी विराजमान थी । उसे देखते ही महाराजा शन्तनु पुलकित हो गये और उसकी सुधामयी छविपान से अपने नेत्र तृप्त होते न देख, निकट जाकर बोले, “हे शोभने ! तुम देवी, दानवी, अप्सरा, किन्नरी, अथवा मानुषी में से कौन हो ? मैं स्त्री हेतु तुम्हारा वरण करना चाहता हूँ । आशा है कि कृपा करके तुम इस प्रस्ताव को स्वीकृत करोगी ।” यह सुन गङ्गा ने उत्तर दिया, “मैं इस नियम पर तुम्हारी स्त्री होने को सन्नद्ध हूँ कि मैं शुभाशुभ चाहे जो करूँ, तुम न तो मना करो और न कभी मुझसे अप्रिय वचन कहो । इन दोनों बातों में से एक के होने पर भी मैं तुरन्त तुम्हारा त्याग कर दूंगी ।” राजा शन्तनु ने इतने पर भी अपने को धन्य माना तथा गंगा से तथास्तु कह कर और पाणिग्रहण कर के वे उसे अपने महल में ले आये ।

राजा शन्तनु के गंगा से एक एक कर के सात पुत्र उत्पन्न हुए किन्तु रानी ने इन सब को गंगा में डुबोकर मार डाला । राजा को यह कर्म बड़ा ही अप्रिय लगा किन्तु त्याग के भय से उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं । जब आठवाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तब इनसे बिना कहे न रहा गया और ये बोले कि हे रानी ! तुम यह सुत-बध का क्रूर कर्म क्यों करती हो ? हे पुत्रनि ! क्या तुम्हें पाप से कोई भय नहीं है ? गंगा ने उत्तर दिया, “हे पुत्रकाम भूपाल ! मैं तेरा यह पुत्र न मारूंगी किन्तु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अब मैं जाती हूँ ।” जान पड़ता है कि महाराजा प्रतीप से वचन-बद्ध होने के कारण गंगाने शन्तनु के साथ विवाह तो किया, किन्तु इन्हें वह चाहती बिलकुल न थी । इसलिये इन्हें और प्रकार से अपमान करते हुए न देखकर उसने अपना छुटकारा पाने के लिए पुत्र-बध सा क्रूर कर्म किया । यह अनुमान बहुत पुष्ट नहीं समझ पड़ता है । महाभारत में इसका कारण देवताओं से सम्बन्ध रखता है । गङ्गा को किसी भाँति निश्चय हो गया था कि उनके प्रथम सातों बच्चे देवता थे जो नर देह से बचने को स्वयं अपना मारा जाना चाहते थे । फिर शन्तनु के त्याग का कोई पुष्ट कारण नहीं मिलता ।

जो हो, गङ्गा इस अष्टम पुत्र को लेकर चली गई और इसके कुमार होने पर इसे भली भाँति शस्त्र-शास्त्र में पण्डित करके शन्तनु को सौंप गई। राजा शन्तनु बड़े दानी, बुद्धिमान् और सुयशी थे। इन्होंने प्रजा का पूर्ण नीति से पालन किया। इनके उचित कार्यों से प्रसन्न होकर बहुत से राजाओं ने मिलकर सुखपूर्वक इन्हें राजराजेश्वर की उपाधि दी। हस्तिनापुर में बसते हुए शन्तनु ने समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का पालन किया और अतुल श्री प्राप्त की। सदैव क्षिति के समान क्षमा को धारण करते हुए महाराजा शन्तनु ने कुल मिलाकर ३६ वर्ष राज्य-शासन किया। एक बार इनके राज्य में कई वर्ष तक अकाल रहा। इन्हें समझ पड़ा कि इनके द्वारा देवापि का राज्य बेजा लिये जाने से इनके समय में यह विपत्ति पड़ी। अतएव उनके पास जाकर आपने राज्य फेरने का प्रस्ताव किया, किन्तु राज्य न लेकर वे पुरोहित बने। ऋग्वेद में भी आया है कि देवापि ने शन्तनु को यज्ञ कराई। ये वेदधि भी थे।

सभी बातों में पूरी प्रसन्नता प्राप्त करने पर भी महाराजा शन्तनु को यथारुचि वनिता-विलास का सुख प्राप्त न हुआ। एक बार शिकार खेलते हुए आप यमुना नदी के किनारे पहुँचे, तो सत्यवती नाम्नी एक परम रूपवती कुमारी को देख कर इनका चित्त उस पर मुग्ध हो गया। उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह दासराज की कन्या थी और नौका-वाहन का कार्य करती थी। इस पर महाराज ने दास के पास जाकर विवाहार्थ उसकी कन्या माँगी, तो उसने राजा की प्रशंसा और अपने भाग्य की सराहना करके विनती की कि यह विवाह सब भाँति से अनुपमेय होने पर भी भारी दोषयुक्त है, अर्थात् युवराज देवव्रत के होते हुए उसकी पुत्री का पुत्र राजा न होगा। इसलिये यदि वह वचन दे सकें कि राज्य उसकी कन्या के वंश में रहेगा, तो वह उसे सहर्ष अर्पित करे। राजा यह प्रतिज्ञा न कर सके और मन मार कर हस्तिनापुर लौट आये। अब इनका चित्त राज्य-कार्य में न लगता था और ये सदा दास-कन्या का ध्यान किये रहते थे। यदि चाहते तो महाराजा शन्तनु एक क्षण में दास कन्या छीन कर उसे अपनी स्त्री बना सकते थे। फिर भी महाराजा अपनी न्यायप्रियता के कारण ऐसा

नहीं कर सके। राजा के कष्टों का कारण सुनकर युवराज देवव्रत ने दास के पास जाकर पितृ-हितार्थ प्रतिज्ञा की कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा। यह सुन दासराज ने फिर भी संदेह किया कि आपका भावी पुत्र राज्यार्थ विरोध कर सकता है। यह सुन भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण की दूसरी प्रतिज्ञा की। इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण लोगों ने इन्हें भीष्म कहकर पुकारा और तब से देवव्रत के स्थान में ये भीष्म ही कहलाने लगे। अब सत्यवती उपनाम योजनगंधा का विवाह शन्तनु के साथ हो गया और समय पर दो पुत्र भी उत्पन्न हुए, जिनके नाम चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य रखे गये।

राजा शन्तनु अपने छोटे पुत्रों की वाल्यावस्था ही में स्वर्गवासी हुए और भीष्म ने चित्राङ्गद को राजा बनाया। थोड़ी ही अवस्था में चित्राङ्गद बड़ा ही पराक्रमी वीर हुआ, किन्तु इसका अभिमान वीरता से भी बढ़ा हुआ था। यह अपने बल के आगे देवासुरों के पराक्रम की भी निन्दा करता था। यही अभिमान चित्राङ्गद के विनाश का मूल कारण हुआ। चित्राङ्गद नामक एक गन्धर्व भी अभिमानी वीर था। उसने राजा के अभिमान को न सहकर इनसे युद्ध मांगा और सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में इन दोनों का तीन दिन तक द्वन्द्व युद्ध हुआ। अन्त में गन्धर्व ने राजा का बध किया। इस पर भीष्म ने भ्राता का अन्त्येष्टि कर्म करके सत्यवती की सलाह से विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य को बालक समझ कर सत्यवती के मतानुसार पालक बनकर भीष्म ही राज्य चलाने लगे। भीष्म का राज्यशासन रामराज्य के समान सर्वगुण संपन्न था। विचित्रवीर्य के सयाने होनेपर भीष्म ने सुना कि काशीराज की कन्या अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका का स्वयंवर हो रहा था। यह सुन एक छोटी सी चुनी हुई सेना लेकर भीष्म ने काशी पुरी में जा बलपूर्वक तीनों कन्याओं का भ्राता के लिये हरण किया। इसके पूर्व भीष्म ने आठों प्रकार के शास्त्रीय विवाहों का कथन करके इसे शास्त्र-संमत प्रमाणित किया और उपस्थित राजाओं को युद्धार्थ ललकारा। कई राजाओं ने इनसे युद्ध किया, किन्तु सभी को पराजित होना पड़ा। सब के पीछे बड़ी पुत्री

अम्बा के लिये राजा शाल्व ने भारी युद्ध किया, किन्तु वह भी भीष्म के प्रचंड पुरुषार्थ के आगे ठहर न सका ।

अब देवव्रत भीष्म इन कन्याओं को पुत्रियों के समान लिये हुए राजा विचित्रवीर्य के पास पहुँचे । जब भाई के साथ इनका विवाह करने को हुए, तब बड़ी पुत्री अम्बा ने शाल्व को अपना प्रीतिभाजन बतला कर वहाँ जाने की आज्ञा माँगी । भीष्म ने उसकी प्रार्थना उचित समझ कर कई वृद्ध ब्राह्मणों तथा वृद्ध दासी दासों के साथ उसे शाल्व के यहाँ जाने के लिये विदा किया तथा अम्बिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया । जब अम्बा शाल्व के यहाँ पहुँची, तब उसने उसका ग्रहण न किया । उसके ग्रहण में राज-समाज में बदनामी संभव थी । अब अम्बा अपने मातामह होत्रवाहन से मिली । उस राजर्षि ने इसका सारा वृत्तान्त सुनकर इसे महेन्द्रगिरि पर भृगु राम के पास ले जाने का विचार किया । दैववश जिस जंगल में होत्रवाहन तपस्या करता था वहीं उससे मिलने के लिये दूसरे दिन परशुराम आप ही आगये । ये परशुराम सहस्त्रार्जुन के मारने वाले परशुराम से पृथक् थे । ग्रन्थों में दो परशुरामों के नाम आये हैं, अर्थात् एक सहस्त्रार्जुन को मारनेवाले, दूसरे होत्रवाहन के मित्र, जिनका वर्णन अब हो रहा है । यही अन्तिम परशुराम भीष्म के शस्त्रगुरु थे ।

होत्रवाहन ने अपनी नातिन की सारी व्यथा परशुराम से कह सुनाई । यह सुनकर परशुराम ने कहा कि जिसके साथ कहिये, उसी के साथ हम इसका विवाह करा दें, क्योंकि भीष्म और शाल्व दोनों में से एक भी मेरी आज्ञा नहीं टाल सकता । इन्होंने यह भी कहा कि जो मेरी आज्ञा न मानेगा, वह मेरे बाणों से मृत्यु को प्राप्त होगा । अम्बा ने भीष्म ही के साथ विवाह करना उचित समझ कर परशुराम से इसी प्रकार का निवेदन किया । यह सुन होत्रवाहन और अम्बा को साथ लेकर ऋषिवर परशुराम कुरुक्षेत्र में पहुँचे । इनका आगमन सुनकर मंत्रियों, मित्रों और पुरोहितों समेत भीष्म हस्तिनापुर से चल कर इनकी सेवा में उपस्थित हुए । ऋषिवर ने उन्हें अम्बा के साथ विवाह करने का आदेश किया और यह भी

दोष लगाया कि तुमने बिना दी हुई कन्या का हरण करके उसे छोड़ कैसे दिया ? उन्होंने सारा हाल निवेदन करके और अपने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का भी कथन करके विनती की कि मैं विवाह न करने पर बाध्य हूँ। परशुराम ने उनके कथन को स्वीकार न करके युद्ध का निश्चय किया। विवश होकर भीष्म को अपने शस्त्र-विद्या-गुरु से लड़ना पड़ा। २१ दिन पर्यन्त गुरु-शिष्य का कुरुक्षेत्र में घोर द्वन्द्व-युद्ध हुआ। यह देख ऋषि लोगों ने बीच में पड़कर इस युद्ध का निवारण कराया। अब परशुराम ने अम्बा से कहा कि मैं ऋषियों के वचन का निरादर नहीं कर सकता, इसलिये युद्ध छोड़ता हूँ। मैं यह भी कहे देता हूँ कि भीष्म मुझसे जेय अथवा बाध्य नहीं है। अम्बा ने उनके प्रयत्नों के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देकर शेष जीवन तपश्चर्या में बिताने का निश्चय प्रकट किया। उसने ऐसा ही करके अपने चरित्र की दृढ़ता सिद्ध कर दिखाई।

महाराजा विचित्रवीर्य ने राज्य-प्रबन्ध की ओर अपना मन कभी न लगाया और सदा रानियों ही के साथ विहार करने में अपने को कृतार्थ माना। उनकी दोनों रानियाँ जैसी सुन्दरी थीं वैसे ही वह भी रूपवान् थे, किन्तु उचित से अधिक विलास के कारण उनका शरीर बलहीन हो गया और विवाह से सातवें वर्ष उन्हें राजयक्ष्मा रोग ने घेर लिया। मित्र लोग यत्न और वैद्य औषध करते हुए हार गये, किन्तु विचित्रवीर्य नीरोग न हो सके और थोड़े ही दिनों में काल कवलित हो गये। अब सारे महल में हाहाकार पड़ गया और भीष्म भी बहुत चिन्ताकुल हुए। यह बुरा दिन देख राजमाता सत्यवती महारानी ने भीष्म से विचित्रवीर्य की रानियों में नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन का निवेदन किया। भीष्म ने इस उदारता के लिये कृतज्ञता स्वीकार करते हुए अपने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर राजमाता से यह आज्ञा न मानने के लिये क्षमा चाही। कुछ पंडितों का मत है कि अब इस प्राचीन राज-कुल के सब से निकटस्थ सम्बन्धी भीष्म ही रह गये थे और इनको ब्रह्मचर्य व्रत पालन के स्थान पर अपने पूर्व पुरुषों के कुटुम्ब का रुधिर स्वच्छ रखना अधिक श्रेयस्कर एवं प्रगाढ़तर धार्मिक कार्य

समझना चाहिये था। इधर वचन-पालन तथा सत्य का माहात्म्य सभी स्थानों में परमोच्च है और यही भीष्म का मत था। हमारी समझ में सत्य के सामने किसी दूसरी बात के मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीष्म के ये धर्मपूर्ण वचन सुनकर तथा इनकी यह भी अनुमति पाकर कि प्राचीन प्रथानुसार किसी कुलीन ब्राह्मण द्वारा पुत्रोत्पादन कराया जावे, राज-माता सत्यवती ने अपना प्राचीन गुप्त भेद इनसे प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विवाह से पूर्व ऋषिवर पराशर के सम्पर्क से उनके कृष्णद्वैपायन नाम का गुप्त पुत्र उत्पन्न हुआ था। समय पर भारी पण्डित होकर इन्होंने वेदों का सम्पादन करके व्यास की उपाधि आगे चल कर पाई। सत्यवती ने अपने नाम की यथार्थता प्रकट करते हुए भीष्म से कहा कि यदि उचित हो तो बुलाकर विचित्रवीर्य की रानियों में उन्हीं से पुत्र उत्पन्न कराये जायें। यह सुन कर भीष्म ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और सत्यवती द्वारा निमन्त्रित होकर भगवान् वेदव्यास ने भी इसे माना। व्यास की सम्मति से रानियों ने एक वर्ष व्रत साधन करके अपने को शुद्धतर बनाया। इसके पीछे भगवान् वेदव्यास द्वारा अम्बिका के धृतराष्ट्र नामक अन्धपुत्र हुआ और अम्बालिका के पाण्डुनामक धृतराष्ट्र का अनुज उत्पन्न हुआ। राज-माता सत्यवती ने अम्बिका का पुत्र अन्धा समझ कर व्यास को उन्हें एक और पुत्र देने का निवेदन किया और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, किन्तु व्यास के कुरूप होने के कारण अम्बिका उनके पास जा न सकी और अपने स्थान पर उसने दासी भेज दी जिससे विदुर नामक परम ज्ञानी पुत्र की उत्पत्ति हुई। विदुर सदैव पाण्डु और धृतराष्ट्र के भाई समझे गये किन्तु दासी-पुत्र होने से क्षत्रियत्व में इनका यथेष्ट सम्मान न था।

घर में तीन पुत्रों के उत्पन्न होने से राजमाता सत्यवती, भीष्म तथा समस्त प्रजावर्ग को बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। भीष्म सदा की भाँति न्यायपूर्वक राज्य का प्रबन्ध करते रहे। क्रमशः ये तीनों बालक सयाने होकर राज-प्रबन्ध के योग्य हुए और तब सत्यवती, भीष्म,

‘मन्त्रियों एवं प्रवीण ब्राह्मणों की सलाह से जन्मान्ध होने के कारण धृतराष्ट्र राज्य के अयोग्य समझे गये और पाण्डु को राजगद्दी मिली। भीष्म ने गन्धार-नरेश महाराजा सुबल की कन्या गान्धारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह किया। अपने पति के अन्धे होने के कारण पातिव्रत धर्म के बड़े हुए विचार से महारानी गान्धारी ने अपने नेत्रों में पट्टी बांध ली और यावज्जीवन कभी नेत्रों का व्यवहार न किया। ऐसी-ऐसी दृढ़ताओं के उदाहरण किसी भी देश की अकथनीय गरिमा प्रदान कर सकते हैं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के पितामह शूरसेन की फूफू के पुत्र भोजपति राजा कुन्तिभोज अपत्यहीन थे, इस लिये उन्होंने शूरसेन का पहला सन्तान इनसे मांगा और उन्होंने स्वीकार किया। समय पर शूर की पहली सन्तति कन्या रत्न हुई, जिसे राजा कुन्तिभोज अपने घर ले गये और इसका नाम कुन्ती रक्खा गया। समय पर यह बड़ी रूपवती स्त्री हुई। विवाह से पूर्व कारणवश इसका सूर्य नामक व्यक्ति से संगम हो गया, जिससे कर्ण नामक कानीन पुत्र उत्पन्न हुआ। कुन्ती ने इस बच्चे को एक टोकरे में रखकर गंगा जी में बहा दिया। वहां से थोड़ी ही दूर पर सूतपुत्र अधिरथ अपनी स्त्री राधा के साथ स्नान कर रहा था। इन दोनों ने उस टोकरे को निकाल कर बालक को देखा तो गंगा द्वारा दिया पुत्र मान परम प्रसन्न हो उसे अपने घर लाकर पुत्रवत् पालन किया। इस पुत्र का नाम कर्ण हुआ। समय पर यह बहुत बड़ा दानी, सत्यभार्षा, सुयशी और शस्त्रवेत्ता हुआ। इसने पशुगम से अस्त्रविद्या सीख कर हस्तिनापुर में निवास किया। थोड़े दिनों में राजा कुन्तिभोज ने अपनी पुत्री कुन्ती का स्वयंम्बर ठाना। देश-देश के राजाओं में कुन्ती ने पाण्डु को पसन्द कर के उन्हीं के गले में जयमाल डाल दी। विधिपूर्वक व्याह करके पाण्डु पृथा उपनाम कुन्ती का अपने घर ले आये। इनका दूसरा विवाह मद्रपति शल्य की बहिन माद्री से हुआ।

राजा पाण्डु ने इस उत्तमता के साथ प्रजा का पालन किया कि इनकी सभी न प्रशंसा की। धृतराष्ट्र और भीष्म का उचित मान इन्होंने सदैव स्थिर रक्खा। कुछ दिनों में महाराजा पाण्डु

दिग्विजय को निकले । इन्होंने अपनी विजययात्रा दशार्ण देश (बुंदेलखंड) से आरम्भ की और यहाँ के राजाओं से कर लिया । फिर मगध के सब राजा जीते गये । वहाँ से मैथिल देश के विदेह राजाओं को जीतकर काशीपति, सुम्हपति और पौण्ड्रपति को भी पाण्डु ने जीता । इन सब राजाओं से प्रचुर धन लेकर पाण्डु नरेश हस्तिनापुर को वापस गये । भीष्म कुरुवृद्धों समेत पाण्डु की अगवानी को गये । पाण्डु ने इन्हें देख रथ से उतर कर पद-बन्दन किया । भीष्म ने अपने भतीज का मूर्धाघ्राण करके बड़े आदर के साथ हृदय से लगा कर अश्रु जल से उनके बदन कमल का सिञ्चन किया । अब पाण्डु नरेश ने हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पद-बन्दन किये और उनकी आज्ञा लेकर विजय का सारा धन भीष्म, सत्यवती, अम्बिका और अम्बाजिका को बाँट दिया । इनके अतिरिक्त विदुर, अमात्य तथा अन्य राजसेवियों को पुष्कार दिये गये । अनन्तर महाराजा धृतराष्ट्र ने कई यज्ञ करके विपुल दक्षिणा दी ।

कुछ दिन के पीछे कुन्ती और माद्री का मत पाकर महाराजा पाण्डु हिमाचल के दक्षिण आर बन में रहने लगे । इनको मृगया की बड़ी बुरी लत थी । इसलिये ये जंगल में जाकर शिकार खेला और रानियों के साथ बिहार किया करते थे । राजा धृतराष्ट्र इनके लिये आराम की सभी वस्तुयें भेजा करते थे । जंगल में रहते-रहते कारणवश राजा पाण्डु पुत्रोत्पादन के अयोग्य हो गये । इसलिये गतानिपूर्ण होकर उन्होंने राज्य छोड़ दिया और पत्नियों समेत बहुमूल्य वस्त्र त्याग कर अजिनाम्बर धारण किये । पहले उन्होंने अपनी रानियों का हस्तिनापुर वापस भेजने का विचार किया, किन्तु जब उन्होंने पाण्डु का साथ वानप्रस्थाश्रम में भी छोड़ना पसन्द न किया, तब इन्होंने उनका साथ रक्खा । पाण्डु ने रानियों के तथा अपने बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार ब्राह्मणों का दान दे दिये और सेवकों से कहा कि अब हम तुमका बिदा करते हैं, तुम हस्तिनापुर जाकर महाराजा धृतराष्ट्र और भीष्म से निवेदन करना कि पाण्डु ने राज्य छोड़ बनवास ग्रहण किया ।

यह सुन वे लोग हाहाकार करके रोने लगे । इतने पर भी पाण्डु ने

अपना निश्चय न छोड़ा और विवश होकर सब सेबक लोग हस्तिनापुर वापस गये। यह शोकपूर्ण वृत्तान्त सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र बहुत विकल हुए और कई दिनों तक भोजन शयन आदि छोड़कर विरक्त रहे। अन्त में विवश होकर इन्होंने राज्य-कार्य संभालना आरम्भ किया, वरन् यों कहें कि ये सदा की भांति फिर से राजकार्य देखने लगे। पाण्डु के राज्य में धृतराष्ट्र ने यह कभी नहीं जाना था कि वे राजा नहीं हैं। इस लिये अपने ऊपर राजभार आते देख इन्हें किसी प्रकार की प्रसन्नता न हुई। अब महाराजा धृतराष्ट्र राजसिंहासन पर भी बैठने लगे और अपने ही नाम से राजकार्य चलाने लगे, किन्तु इन्होंने अपना अभिषेक कभी नहीं कराया। कम से कम महाभारत में ऐसा लिखा नहीं।

महाराजा पाण्डु ऋषियों के समान और उन्हीं के साथ बन-बन घूमते हुए तथा तीर्थाटन करते जीवन निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों के पाँछे इनका पितृ ऋण से उद्धार पाने का विचार हुआ और इनकी आज्ञा से कुन्ती ने धर्म, पवन, और इन्द्र तथा माद्री ने दोनों अश्विनीकुमारों को क्रम से बुलाकर पाँच पुत्र उत्पन्न किये। कुन्ती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पुत्र हुए तथा माद्री के नकुल और सहदेव। इधर महाराजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुःशासन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, विकर्ण, आदि अनेक पुत्र हुए तथा दुःशला नाम्नी एक कन्या भी हुई। इनके युयुत्सु नामक एक वैश्या-पुत्र भी हुआ। दुःशला का विवाह सिन्धु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। कुछ दिन के बाद जंगल ही में रहते हुए महाराजा पाण्डु का शरीरपात हो गया और महारानी माद्री उन्हीं के साथ सती हो गई। यह देख ऋषियों ने कुन्ती समेत पाँचों पांडु-पुत्रों को हस्तिनापुर ले जाकर महाराजा धृतराष्ट्र को सौंप दिया। पांडवों को पाकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा उचित प्रकार से राजकुमारों की भांति इनका पालन पोषण और शिक्षण करने लगे। पांडवों ने महाराजा धृतराष्ट्र की कृपाओं से उन्हें पितृवत् उपकारी पाया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और पांडु के वंशियों की इस प्रकार दो शाखाएँ हुईं। इसलिए पांडु के पुत्र पाण्डव कहलाए और धृतराष्ट्र के पक्ष वाले कौरव की पुरानी उपाधि से पुकारे जाते रहे।

इन दोनों शाखाओं में युद्ध होकर अन्त में पाण्डव युधिष्ठिर राजा हुये। यही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका वर्णन आगे के अध्याय में होगा। पुरुवंश की यही शाखा इस काल मुख्य रही। इस शाखा का इतना इतिहास हम यहां पर समाप्त करते हैं और अब उसकी अन्य शाखाओं का वर्णन उठाते हैं। पुरुवंश का उपर्युक्त इतिहास महाभारत में है।

विदर्भ का द्वितीयवंश

इस वंश का नं० ४० धृतिमन्त अनुमान से राम का समकालीन समझ पड़ता है। इनका वंशधर नं० ५२ उग्रायुध महत्तायुक्त हुआ। इसने उत्तर और दक्षिण पांचालों का राज्य छीनकर अधिकार जमाया। वहां के तत्कालीन राजे पृषत् के पितामह (नं० ४७) और जनमेजय, (नं० ५३) थे। उग्रायुध ने शान्तनु के पीछे उनकी विधवा सत्यवती से बलपूर्वक विवाह करने का भी प्रस्ताव किया। इसे ऐसा मदनमत्त देखकर देवव्रत भीष्म ने युद्ध में इसका वध किया और दक्षिण पांचाल का शायद कोई उत्तराधिकारी न देख कर वे दोनों राज्य पृषत् को सौंप दिए। उग्रायुध के पीछे यह वैदर्भ राज्य (नं० ५६) बहुरथ पर्यन्त चला (ह, वं, २०, १०८३, ११११, १२)। सिवा पांचाल विजय के इस वंश का कोई विशेष विवरण पुराणों में उल्लिखित नहीं है।

उत्तर पांचाल

रामचन्द्र के समकालीन सोमक के पुत्र अर्कदत्त (नं० ४०) राजा हुए। इनके पीछे डाक्टर प्रधान के अनुसार सात पुश्यों के नाम अज्ञात हैं। अनन्तर (नं० ४८) दुष्टरीतु (और नं० ४९) पृषत् एक दूसरे के पीछे राजा हुए। विदर्भराज उग्रायुध से हारकर दोनों पांचाल राज्य टूट गए, किन्तु भीष्म की सहायता से पृषत् को वे दोनों मिल गए। सम्भवतः पृषत् ने भी उस युद्ध में पौरवों की मदद की हागी। अनन्तर पृषत् पुत्र द्रुपद राजा हुए। अग्निवेष ऋषि के आश्रम में इनकी महाभारत वाले प्रसिद्ध द्रोणाचार्य से मित्रता हुई, किन्तु जब वे इनके यहां गए, तब इन्होंने उनका अपमान किया। इस पर कौरव पाण्डवों के शत्रुगुरु

होकर उन्होंने द्रुपद को पराजित करके इनसे उत्तर पांचाल राज्य ले लिया और ये उत्तर से दक्षिण पांचाल में चले आये। यह राज्य द्रोण के अधिकार में कब तक रहा, सो पता नहीं, किन्तु महाभारत के युद्ध के समय वे राजा नहीं समझ पड़ते और दोनों पांचाल द्रुपद के ही अधिकार में होंगे, ऐसा जान पड़ता है।

द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से पांचों पाण्डवों का विवाह हुआ। इनका पुत्र शिखण्डी दशार्णनाथ हिरण्यवर्म की पुत्री से व्याहा था। महाभारत के युद्ध में द्रोण ने द्रुपद को मारा और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण को। द्रोणात्मज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न और शिखण्डी दोनों को मारा। पुराणों में इस कुल की वंशावली धृष्टद्युम्न पुत्र धृष्टकेतु पर समाप्त है, किन्तु उल्लिखित है कि आदिम कालकाल में इस वंश में कई राजे हुए, जिनके कथन यथा स्थान आवेंगे। धृष्टद्युम्न पाण्डवों के साले और सेनापति थे। पाण्डवी दल में पांचालों की महत्ता थी। सृञ्जय और सोमक द्रुपद के साथी थे (म० भा I १३१, ५१३४, ४५, ६० वं० २०, १११३, ५)।

दक्षिण पांचाल

त्रेता के पीछे इस राज्य में पौरपार (नं० ४१) आते हैं। इनके पुत्र नीप महत्तायुक्त थे। कहीं-कहीं नीप द्विमादों में भी माने गए हैं, किन्तु डाक्टर प्रधान ने भारी खोज से इन्हें दक्षिण पांचालों में रक्खा है। महाभारत में इनका भीष्म से युद्ध लिखा है। या तो वह कथन अशुद्ध होगा या अपनी वंशावली में इनका नम्बर नीचे होगा। इनके वंशधर (नं० ४८) अराहं शुक के दामाद और पौरव प्रतीप के मित्र थे। यह एक प्रसिद्ध भूपाल हा गुजरे हैं। इनकी पत्नी कृत्वी किसी उस शुक की पुत्री हागा, जो व्यास पुत्र से इतर शुक होगा, क्योंकि अराह व्यास के पूर्ववर्ती थे। इस विवाह से ब्रह्मदत्त पुत्र हुआ (मत्स्य, ४९, ५६, ७)।

इनके वंशधर नं० ५३, जनमेजय वैदर्भ उग्रायुध से हारकर राज्य खो बैठे। तब से इस वंश का राज्य लुप्त हागया।

पांचालों के शेष वर्णन

महाभारत में उत्तमौजस तथा सृञ्जय पांचाल थे। धृष्टद्युम्न सोमकों

में मुख्य कहे गए हैं। महाभारत में पांचाल भारतों की शाखा है (आदि पर्व ९४, ३६)। दिवादास, सुदास और द्रुपद पांचाल थे। वैदिक, साहित्य में पांचालों के निम्न राज उल्लिखित हैं:— क्रैव्य केशित, दातव्य शानशास्त्राशहा, प्रवाहण जैवलि, दुर्मुख, जैवसि (ये जैवलि जनमेजय के पीछे विदेह काल में थे)। दुर्मुख उससे भी पीछे के समझ पड़ते हैं। इनका कथन कुम्भकार जातक (४०८) में भी है। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। उत्तर पांचाल के विषय में कुरु पांचालों में समय समय पर बहुत युद्ध हुए। यह कभी कौरवों का रहा और कभी पांचालों का। जब द्रुपद ने द्रोण से लड़ कर अपना पैत्रिक राज्य उत्तर पांचाल खोकर दक्षिण पांचाल मात्र अपने पास रख पाया तब गंगा से चम्बल तक का देश उनके पास रह गया और वे गंगा तट पर माकन्दीपुरी में बसे, ऐसा महाभारत आदि पर्व का कथन है। महाभारत में वह प्रायः द्रुपद पुरु कहलाता था। उधर द्रोण की राजधानी अहिच्छत्र पुरु में हुई। वे कभी-कभी हस्तिनापुर में भी रहते थे। शायद महाभारत युद्ध के पूर्व वे उसे खो चुके थे, क्योंकि उस काल सारे पांचाल देश के राजा द्रुपद ही समझ पड़ते हैं, तथा उत्तर पांचाल के कुछ छंटे मांटे शासक और भी उल्लिखित हैं। पुराणों में पांचाल का विवरण कुछ कम है, किन्तु वैदिक साहित्य में वह प्रचुरता से पाया जाता है, विशेषतया ऋग्वेद में।

चेदि राज्य

पौरव राजा कुरु (नं० ३८) के पीछे वसु ने चेदि जीतकर बुन्देलखंड में यह राज्य स्थापित किया। सुहोत्र कुरु के पौत्र थे। इनके पौत्र (नं० ४२) कृतयज्ञ के दो पुत्र मुख्य हुए, अर्थात् चेदि और उपरिचर वसु। चेदि के नाम पर यह राज्य कहलाया। उधर वसु ने मगध राज्य स्थापित किया, जिसका कथन आगे आवेगा। चेदि की राजधानी शुक्तिमती केन पर थी। चेदि या चिदि मत्स्य से मगध तक राज्य फैलाकर चक्रवर्ती हुए। सम्भवतः उपरिचर वसु पहले इनके अधीनस्थ राजा थे। चेदि और उपरिचर वसु के वंशधर मगध और चेदि के अतिरिक्त कौशाम्बी, करुष और मत्स्य में भी स्थापित हुए (पाजिटर)।

चेदि वंश की कुछ पीढ़ियाँ पुराणों से छूट गई हैं। (नं० ५१) दमघोष को कृष्ण की फूफी व्याही थी। इन दोनों का पुत्र शिशुपाल हुआ। इसे मागध सम्राट् जरासन्ध पुत्रवत् मानता और अपने दल का सेनापति बनाये था। शिशुपाल पाण्डवों का मौसेरा भाई था, किन्तु जरासन्ध के कारण यह श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के विपत्तियों में था। कुन्डिनपुर के राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का व्याह इसके साथ करते थे, किन्तु रुक्मिणी की इच्छा से श्रीकृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। जरासन्ध के मारे जाने पर शिशुपाल इन लोगों से और भी अप्रसन्न हुआ, यहां तक कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण के हाथ से इसका वध हुआ। शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु महाभारत के युद्ध में पाण्डवों की ओर से लड़कर द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया। इसके पीछे इस कुल की वंशावली नहीं चलती है।

मागध राज्य

उपर्युक्त कृतयज्ञ के पुत्र (राजा नं० ४३) उपरिचर वसु ने ऋषभ दैत्य को जीतकर मगध राज्य प्राप्त किया। इसकी राजधानी गिरिब्रज हुई। पहले शायद ये चेदि के कुछ अधीन थे, किन्तु पीछे यह राज्य स्वतंत्र हो गया। इनको शायद चेदि शाखा के कारण चैद्योपरिचर भी कहते हैं। इनका पुत्र (नं० ४४) बृहद्रथ बड़ा प्रतापी हुआ, जिससे यह वंश बर्हद्रथ कहलाने लगा। विराट वाला मत्स्य कुल भी इन्हीं उपरिचर वसु का वंशधर था। कहीं-कहीं ऐसा लिखा है कि इनके पास व्योमयान हाने से ये उपरिचर कहलाते थे। बृहद्रथ का वंशधर ५२, जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राट् हुआ। इसने भारत के बहुतेरे राजाओं को जीतकर गौरव प्राप्त किया।

जरासन्ध बड़ा प्रतापी और पराक्रमी राजा हुआ। यह डीलडौल में भारी था, पर कहते हैं कि इसके शरीर में एक संधि थी, जिसके कारण यह इस नाम से पुकारा जाता था तथा एक प्रकार की इसमें शारीरिक हीनता रह गई थी। इसने अन्य राज्य जीता तथा अपना राज्य बहुत विस्तृत करके सम्राट् पद प्राप्त किया। भारत में शान्तनु के पीछे यही राजा सम्राट् हुआ। यह शिशुपाल को पुत्रवत् मानता

था और मथुरा का राजा कंस इसका दामाद था। हंस और डिम्भक जरासन्ध के मन्त्री तथा सेनापति थे, जो एक दूसरे के भाई, परम पराक्रमी, भ्रातृ प्रेमी, स्वामिभक्त एवं सज्जन पुरुष थे। इसकी इस कारण बड़ी बदनामी हुई कि एकवार इसने एक सौ राजाओं को पकड़ कर उन्हें बलिदान दे डालने का विचार किया और एतदर्थ ८६ नरेशों को अपने बन्दोगुड़ में बांध भी रक्खा था। इसी कारण भगवान् श्रीकृष्ण इससे बहुत अप्रसन्न हो गए और अन्त में इसका विनाश हुआ। जरासन्ध के श्रीकृष्ण से बिगाड़ का वर्णन भगवान् के इतिहास में आवेगा।

जिस काल अपने जामाता कंस का श्रीकृष्ण द्वारा बध सुनकर जरासन्ध ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब निम्नलिखित नरेश इसके साथ चढ़ाई में सम्मिलित थे:—

कारुष (उत्तर-पश्चिमी भारत देश का राजा) दन्त वक्र, शिशुपाल, कलिंग-पति शाल्व, पुंड्र पति, कैषिक (दक्षिण) पति क्रथ, संक्रति, भीष्मक, रुक्मी, वेणुदार, श्रुतस्थु, क्वाथ, अशुमान, अङ्ग, वङ्ग, कोशल, काशी, दशार्ह और सुम्ह के नरेश, विदेह, मद्रपति, त्रिगर्त-नाथ, दरद, यवन, भगदत्त, सौवीर का शैत्र्य, गांधार का सुबल, पांड्य, नग्नजित, काश्मीर का गोनर्द, हस्तिनापुर के दुर्योधन, बलख का चेकितान और (अन्त में) कालयवन। जान पड़ता है कि राजा दुर्योधन तो जरासन्ध के साथ केवल मित्रता वश गये थे पर अन्य राजे उससे अवश्य दबते थे। इस सूची में भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों के नरेश सम्मिलित हैं, जिससे जरासन्ध के प्रभाव का विस्तार प्रकट होता है। उसने मथुरा पर १८ आक्रमण किये और अन्त में यादवों को भगवान् कृष्ण सहित वहाँ से भागकर द्वारिका चला जाना पड़ा। जरासन्ध अपने शारीरिक पराक्रम का इतना अभिमानी था कि दुर्योधन के सखा कर्ण का शौर्य सुनकर इसने उन्हें मगध में बुलाकर उनसे मित्र भाव से द्वन्द्व-युद्ध किया और अपनी संधि में विकार के कारण युद्ध छोड़ कर्ण की प्रशंसा की और उस पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की एवं उसे अङ्ग देश देकर मालिनी नगर का स्वामी बनाया। जरासन्ध का बध भीमसेन द्वारा हुआ जिसका वर्णन आगे आवेगा।

जरासंध की मृत्यु के साथ इस घराने से सम्राट् पद जाता रहा और इसका पुत्र सहदेव एक मांडलिक नरेश मात्र रह गया ।

वह पाण्डवों की ओर से लड़कर महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया और सहदेवात्मज (सोमाधि नम्बर ५४) द्वापर का अन्तिम मागध नरेश हुआ । इस के पीछे यह वंश बहुत काल तक स्थापित रहा, जिसका विवरण यथा स्थान आवेगा । द्वापर के पीछे केवल लव सोमाधि और अर्जुन के वंशों का महत्व भारत में रहा और इन्हीं की वंशावतियां पुराणों में उल्लिखित हैं तथा शेष राजों की पुरतों की गणना मात्र दे दी गई है ।

काशीराज्य

राम के समकालीन काशी नरेश (नं० ४०) अलर्क के पीछे यह वंश राजा (नं० ५५) भद्रसेन तक चौथे अध्याय की वंशावली में लिखा हुआ है, किन्तु पुराणों में अलर्क के पीछे कोई विशेष विवरण नहीं मिलता । अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका किसी काशी राज की कन्यायें थीं, जिनका अपहरण विचित्रवीर्य के लिये भीष्म ने किया । इन्हीं अन्तिम दोनों कन्याओं से कौरव पाण्डव वंश चले । इसी प्रकार सूर्यवंशी लव के प्रपौत्र सुदर्शन का विवाह किसी काशिराज की कन्या से होना कहा गया है, किन्तु उस काशिराज का नाम प्रधान वाली वंशावली में नहीं मिलता । द्वापर में काशीराज्य की मुख्यता नहीं रही, किन्तु आदिम कलिकाल में इसका प्रभाव बढ़ा, जैसा कि यथा-स्थान कहा जावेगा ।

प्राचीन स्फुट राज्य

कान्यकुब्ज राज्य द्वापर में न था । यादव हैहय कुल का राज्य आदिम द्वापर में ही समाप्त हो गया, जैसा कि ऊपर त्रेता के कथन में आ गया है । द्वापर में भी उज्जैन आदि के कुछ राजाओं के कथन यत्र-तत्र आये हैं, किन्तु उनकी वंशावली आदि का पता नहीं है, न उनके राजाओं के ही क्रम बद्ध कथन मिलते हैं । क्रथ कैशिक की वैदर्भी चेदि शाखा का कुछ कथन श्रीकृष्ण के विवाह सम्बन्ध में हैं, जहाँ विदर्भ में एक क्रथ कैशिक वंशा राजा मिलते हैं, किन्तु इनका भी

कोई विशेष कमवद्ध वर्णन नहीं है; जितना कुछ है वह श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में आवेगा। उसी विवरण में सूर्यवंशी यदु द्वारा स्थापित दो अन्य राज्यों के कथन मिलेंगे। महाभारत के सम्बन्ध में बहुतेरे राज्यों के नाम हैं, जिनके पृथक् विवरण यहाँ अनावश्यक हैं। उनमें मत्स्यपति विराट मुख्य हैं। ऊपर मगध के विवरण में आ गया है, कि वे वसु चैद्योपरिचर के वंशधर थे। तुर्वश वंश दुष्यन्त के समय पौरव हो गया, अर्थात् पौरव वास्तव में थे तौर्वश, किन्तु कहलाये पौरव। तुर्वश वंशी यवनों का पृथक् वर्णन अप्राप्त है। द्रुह्य वंशी भोज और स्लेच्छ हुए। स्लेच्छ वे भारत के बाहर जाकर हुए और उनके पृथक् इतिहास नहीं हैं। जो अन्य स्लेच्छों का इतिहास है वही उनका है। भोजों का भी पूर्ण इतिहास पुराणों में नहीं है किन्तु अन्य वर्णनों के संबंध में उनके स्फुट कथन मिलते हैं। पाश्चात्य आनव शाखा ने कई राज्य पंजाब, सिन्ध, राज-पूताना आदि में स्थापित किए। इन देशों के राज्यों में कुछ द्रुह्य वंशी भी होंगे। इन्हीं में भरत पुत्रों के सूर्यवंशी भी मिल गए। इन राज्यों में बहुतेरे महत्ता युक्त भी थे, किन्तु मध्यदेश से दूरस्थ होने से पुराणों में इनके पूर्ण इतिहास या वंश अकथित हैं। पौरव प्रतीप के समय उनके पौत्र बालहीक ने भी अपने मामा शिवि का राज्य बालहीक प्रान्त में पाया, जो पंजाब के उत्तर पच्छिम में है। भारत के स्फुट राज्यों के कुछ विवरण श्री कृष्ण और पाण्डवों की विजयों तथा महाभारतीय युद्ध के सम्बन्ध में आगे आवेंगे।

पूर्वीय राज्य अंग

आनव आंग शाखा में रामचन्द्र के समय में (नं० ४०) लोमपाद और (नं० ४१) चतुरंग थे। (नं० ४८) जयद्रथ के ब्राह्मणी माता तथा क्षत्रिय पिता की कन्या व्याहने से यह वंश आगे से सूत होगया। इस काल जाति भेद की कड़ाई समझ पड़ती है। (नं० ५१) पर एक दूसरे अंग नरेश हुए। शायद इन्हीं के समय जरासन्ध मागध ने अंग राज्य मगध में मिला लिया। अंग के पूर्व पुरुष, (नं० ४७) ब्रह्मनस के दूसरे वंश में इस काल (नं० ५२) अधिरथ थे, जिनका कुन्ती का

किसी सूर्य नामक व्यक्ति से उत्पन्न कानीन आत्मज कर्ण पालित पुत्र था। इसके शौर्य का हाल सुनकर मगधेश जरासन्ध ने मित्र भाव से बुला इससे द्वन्द्व युद्ध किया और उसमें पराजित होने से कर्ण की प्रशंसा करके खुशी-खुशी अंग राज्य फेर कर उसे मालिनी नगर में प्रतिष्ठित किया। सम्भवतः इसी बात से अंग ने भी कर्ण को अपना दत्तक पुत्र बनाया होगा। फिर भी महाभारत में ये अधिरथ और उसकी स्त्री राधा के कारण अधिरथी तथा राधेय कहलाते थे। इससे जान पड़ता है कि इनका दत्तक विधान द्वैमुष्यायन की रीति पर हुआ होगा, जिससे ये अंग और अधिरथ दोनों के पुत्र रहे। कर्ण पौरव सम्राट् दुर्योधन के ऐसे प्रगाढ़ मित्र थे, कि अपने वास्तविक माता पिता कुन्ती और सूर्य के समझाने पर भी पाण्डव बन कर इन्होंने सम्राट् होना तक भी पसन्द न किया, क्योंकि ऐसा करने से दुर्योधन का साथ छोड़कर इन्हें पाण्डवों का सहायक बनना आवश्यक होता। दुर्योधन ही ने कर्ण को अंग राज्य का अभिषेक किया। परशुराम से अस्त्र विद्या पाकर आप अर्जुन के समान ही योद्धा थे, किन्तु महाभारतीय युद्ध में इनके रथ का पहिया कीचड़ में फँस गया, जिससे अर्जुन द्वारा इनका निधन हुआ। इनके पुत्र (नं० ५४) बृषसेन उसी युद्ध में मारे जा चुके थे, सो तत्पुत्र (नं० ५५) पृथुसेन अंग नरेश हुआ। इसके पीछे इस कुल की वंशावली नहीं मिलती, यद्यपि आदिम कलिकाल में भी अंग राज्य बहुत काल पर्यन्त स्थापित रहा। कर्ण महादानी, सत्यभाषी और मित्र वत्सल था। दुर्योधन के लिये आपने भारत विजय भी किया। इनकी कथा महाभारत में है। यह राज्य मगध के पूर्व था। जातक ५४५ राज-गृह को मगध का शहर कहता है। शान्तिपर्व २९, ३५ में, अंग राज विष्णुपद गया में यज्ञ करता है। सभा पर्व में अंग वंग एक राज्य है। कथा सरित्सागर में अंग राज्य समुद्र पर्यन्त फैला हुआ है, जहाँ उसका शहर टंकपुर है। महाभारत काल में राजधानी मालिनी थी, किन्तु पीछे जातकों में चम्पा होगई।

पूर्वी राज्य प्रागज्योतिष

महाभारत के समय प्रागज्योतिषपुर एक राज्य था जिसके राजा

एक दूसरे के पीछे नरकासुर, तत्पुत्र भगदत्त एवं पौत्र बज्रदत्त थे। इसमें दक्षिणी आसाम तथा पूर्वी बंगाल सम्मिलित थे। नरकासुर एक ब्राह्मण कुमार था जिसने काशी में शिक्षा पाई। इसने अपने बाहु तथा बुद्धिबल से यह राज्य उपार्जित किया। अनन्तर मदीन्मत्त होकर इसने बहुतेरी कन्याओं को बल पूर्वक विवाहार्थ कैद किया, जिनका मोचन श्री कृष्ण ने किया। इसी युद्ध में नरकासुर का कृष्ण चन्द्र के हाथ से वध हुआ। भगदत्त दुर्योधन का मित्र था। इसका हाथी खास इन्द्र के गजराज ऐरावत के कुल में उत्पन्न अथच बड़ा प्रबल था। कुछ योरोपीय पण्डितों का विचार है कि भगदत्त की सेना में चीनी लोग भी थे। महाभारत युद्ध में यह अर्जुन द्वारा मारा गया और बज्रदत्त राजा हुआ। यहां तक की कथा महाभारत तथा हरिवंश में है। बज्रदत्त के पीछे क्रमशः धर्मपाल, रत्नपाल, कामपाल, पृथ्वीपाल, सुबाहु आदि इस वंश में राजे हुए। इस राज्य का बंगालवाले समुद्र तट का पूर्वी दक्षिणी भाग पाताल भी कहलाता था। पहाड़ी टिपरा तथा चिटगांव के पहाड़ी भाग कहीं कहीं नाग लोक माने गए हैं। सम्भवतः यहां नागों की भी बस्ती थी।

पूर्वीराज्य, बाणासुर


प्रायः भगदत्त के समय उत्तरी आसाम का स्वामी कोई बाणासुर था, जिसकी राजधानी शोणितपुर थी। यह नरकासुर का भी सखा तथा महादेव का भक्त था। इसकी पुत्री ऊषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ। सम्भवतः बाणासुर इसी नाम के बलिपुत्र वाण का वंशधर हों। इसने या इसके किसी पूर्व पुरुष ने कलिंग राज्य स्थापित किया और पीछे इस वंश को उत्तरी आसाम जाना पड़ा। बोधायन के अनुसार उत्कल पतित आर्यों का देश है। हरिवंश में आया है कि ऊषा के विवाह में जो वाण का कृष्ण से युद्ध हुआ, उसमें पराजित होकर यह कैलाश को चला गया और श्री कृष्ण ने इसके मन्त्री कुम्भाण्ड को राजा बनाया।

यादव राज्य

त्रेता के वर्णन में आया है कि राम के पीछे भीम सात्वन्त, (नम्बर

४३) यादव ने शत्रुघ्न वंशियों से अपनी मथुरा वापस लेकर यादव बल पुनः जागृत किया। अनन्तर भीम सात्वन्त के पुत्र अन्धक, देववृद्ध और भजमान तथा पौत्र कुरुर और वभ्रु यादव पति हुए। इनमें देववृद्ध भजमान, और वभ्रु मुख्य शाखा के भाइयों में थे, तथा अन्धकात्मज कुरुर थे। कंस कुरुर के वंश में थे और कृतवर्मा भजमान के। (नम्बर ४६) वृष्णि के मुख्य शाखा से इतर वंशधर अक्रूर हुए। इनका राज्य गुजरात में था।

कंस भोजराज थे (ह, व० ५५, ३१०२, ४, ११३, ६२६३, ६३८०, म० भा० VII ११ ३८८, ९) और अक्रूर गुजरात पति (वायु ९६, ६० ह व० ४०, २०९५, विष्णु IV १३, ३५, ७०, १४, २)। भोजवंशी मुख्य यादवों से इतर हैहय शाखा में भी थे। उपर्युक्त देववृद्ध वंशी पश्चिमी मालवा के बनस (पर्णाश नदी पर) के स्वामी हुए (पार्जितर)। भजमान के पुत्र वभ्रु भी यादवों में विख्यात थे। (नं० ४६) वृष्णि के अतिरिक्त एक दूसरे वृष्णि भी यदुवंश में थे। इनका पूरा पुष्टनामा (प्रधान के अनुसार) प्राप्त नहीं है। उनका वंश इस प्रकार था:—



वृष्णि दो थे एक उपर्युक्त और पहले (नं० ४६)। गीता में श्री कृष्ण प्रायः वाष्ण्य कहे गए हैं। फिर भी एक ही नाम होने के कारण पुराणों तक में इस वंश कथन में गड़बड़ है। पार्जितर अक्रूर को (नं० ४६) वृष्णि का वंशधर कहते हैं तथा प्रधान दूसरे का। प्रधान ने अधिक छानबीन के साथ वंशवृत्त लिखे हैं।

उग्रसेन (नं० ५३) यादवपति के बेटे कंस ने इन्हें राज्यच्युत करके

स्वयं संघपति की गद्दी पर अधिकार जमाया। उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, जिससे श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। इनका कंस से बिगाड़ हो गया, जिससे उसे मार कर फिर आपने उग्रसेन को राजा या संघपति बनाया। श्रीकृष्ण की कथा कुछ विस्तार के साथ कही जावेगी, किन्तु इससे पूर्व अनेक आधारों से इस वंश के जो मामले ज्ञात होते हैं, उनके सूक्ष्म विवरण दे देना उचित है।

शूरसेनों एवं मथुरा का कुछ हाल त्रेतायुग के इतिहास में आ चुका है। अब उसके पीछे से उठाया जाता है। पाणिनि IV १, ११४, तथा VI २, ३४, में अन्धक और वृष्णि हैं। कौटिल्य में वाष्णियों का संघ (प्रजातंत्र-राज्य) था तथा महाभारत, XII ८१, २५, में भी वृष्णि अन्धकादि का संघ है। वासुदेव तथा उग्रसेन संघ मुख्य थे। पतंजलि तथा घटजातक में कंस बध कथित है। यादव ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हुए (मुशल पर्व)। द्रोणपर्व १४१, १५, में वृष्णि अन्धक ब्राह्मण हैं। व्याकरण के नियमानुसार वसुदेव तथा वासुदेव दोनों का पुत्र वासुदेव है। पुराणों में कृष्ण के पिता का नाम कहीं-कहीं वासुदेव है और कहीं वसुदेव।

अंधक के राज्याभिषिक्त कुल में उग्रसेन और तत्पुत्र कंस नामी हुए। कंस ने अपने चचा देवक पुत्री देवकी का विवाह उक्त प्रसिद्ध यदुवंशी वसुदेव के साथ किया। वसुदेव के सात और स्त्रियाँ थीं, जिनमें रोहिणी प्रधान थी। देवकी रोहिणी से भी प्रधान हुई। जिस काल कंस विवाहोपरान्त प्रेम पूर्वक अपनी बहिन का रथ स्वयं हाँकते हुए उन्हें वसुदेव के यहां लिये जाते थे, तभी किसी महात्मा ने भविष्य भाषण किया, “हे कंस ! तू जिस भगिनी का इतना सम्मान करता है, उसी का आठवाँ पुत्र तेरा हन्ता होगा।” कंस को इस भविष्यवाणी पर पूरा निश्चय बैठ गया और उसने उसी स्थान पर देवकी का सिर काटने को तलवार खींची। यह देख वसुदेव तथा अन्य यादव कुल वृद्धों ने कंस को स्त्री-वध सा नृशंस कार्य करने से रोका। वसुदेव ने बचन दिया कि मैं अपनी इस पत्नी के सब बच्चे तुम्हें दे दिया करूँगा। यह सुन कंस ने देवकी को छोड़ दिया।

वसुदेव ने क्रम से ६ पुत्र कंस को अर्पित किये और उसने उन्हें अपना शत्रु न समझ कर छोड़ दिया। देवकी का सातवाँ गर्भ अकाल में ही स्खलित हो गया। जब उनके आठवाँ गर्भ रहा, तब किसी ने कंस को यह कह कर भुला दिया कि आठ पदार्थों का कुण्डलाकार रखने से उनमें से कोई भी आठवाँ कहा जा सकता है। कंस आत्मबध के भय से ऐसा चलितधैर्य हो गया था कि उसने पूर्ण कादरपन दिखलाते हुए वसुदेव के उन छहों बच्चों का बध कर डाला और देवकी समेत उन्हें कारागृह में डाल दिया। इधर रोहिणी के संकर्षण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी रक्षा के निमित्त वसुदेव ने उसे रोहिणी समेत अपने मित्र नन्द गोप के यहाँ गोकुल भेज दिया। यह स्थान मथुरा से प्रायः १४ मील की दूरी पर है।

भादों मास की कृष्णाष्टमी को अर्द्धरात्रि के समय देवकी के गर्भ से श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म हुआ। कंस ने इनके वचन का विश्वास न करके इन्हें कारागार में बन्द किया था; इसलिये इन्होंने अपने को राजा से वचनबद्ध न समझ कर इस पुत्र के बचाने का प्रयत्न किया तथा रातों रात पुत्र को गोकुल पहुँचा कर नन्द की स्त्री यशोदा से उसी रात्रि में उत्पन्न हुई उसकी कन्या से अपना पुत्र बदल लिया। कहते हैं कि यह भेद यशोदा ने भी न जाना और कृष्ण को अपना ही पुत्र समझ कर उनका पालन पोषण किया। बौद्ध ग्रन्थ घटजातक में लिखा है कि यह बदलाव चोरी से न होकर प्रेमपूर्वक हुआ। जब कंस ने सुना कि देवकी के कन्या उत्पन्न हुई, तब उसने बड़ा आश्चर्य माना, क्योंकि भविष्य वाणी के अनुसार इसी बार उसका मारने वाला पुत्र होने को था। फिर भी किसी प्रकार का संदेह न रहने के विचार से उसने कन्या को भी मारकर अपना मुख काला किया। कुछ दिनों में उसे यह पता लग गया कि वसुदेव ने अपना आठवाँ पुत्र नन्द के यहाँ छिपा रक्खा था। उसने इस पुत्र को मारने के अनेक गुप्त उपाय किये, किन्तु वे सब निष्फल हुए।

श्रीकृष्ण की शारीरिक वृद्धि साधारण से बहुत अधिक हुई, यहाँ तक कि बारह वर्ष की ही अवस्था में उनके शरीर में युवा पुरुष के समान बल आ गया। इसी वर्ष उन्होंने अपने मामा कंस के पातक

असह्य समझ कर उसे युद्धार्थ प्रचारा और उसका वध कर डाला। राजा कंस ने केवल बाल-वध और प्रजा पीड़न ही नहीं किया था, वरन् वह अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राजा हुआ था। अब श्रीकृष्ण ने अपने बूढ़े नाना के अग्रज भाई को कारागृह से निकाल कर फिर से उन्हें राज्य दिया। वास्तव में उग्रसेन राजा न होकर संघ मुख्य मात्र थे, किन्तु कहे राजा ही जाते थे। दूसरे संघ मुख्य कृष्ण हुये। जिस काल श्रीकृष्णचन्द्र नन्द के यहाँ गोकुल और पीछे से वृन्दावन में रहते थे, तब इन्होंने गान, वाद्य और नाच में विशेष रुचि दिखलाई थी। इनके रासों में वृषभानु की पुत्री राधा भी सम्मिलित होती थी, अतः इन दोनों में भी बड़ी मित्रता होगई थी। पहले राधा का विवाह श्रीकृष्णचन्द्र के ही साथ होने वाला था, किन्तु जब यह प्रकट हुआ कि ये नन्दात्मज गोप न होकर बसुदेव-पुत्र यादव हैं, तब वृषभानु ने अपनी पुत्री का विवाह अज्ञान गोप के साथ कर दिया। काली नामक एक नाग-सरदार वृन्दावन के निकट जमुना के किनारे रहता था। उसे भी द्वन्द्व-युद्ध में हरा कर श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी थी कि तुम जाकर अपने देश में समुद्र के निकट रहो। संकर्षण और श्रीकृष्ण ने कंस को जीत कर मथुरा का प्रबन्ध हढ़ किया। श्रीकृष्णचन्द्र ने संकर्षण समेत राक्षों तथा शास्त्रों की शिक्षा अवन्तीपुरी निवासी सान्दीपनि ऋषि से प्राप्त की।

उधर कंस के मरने पर जरासन्ध की दोनों कन्याओं ने आकर पिता से अपनी विपत्ति कह सुनाई। जरासन्ध कंस वध से पहले ही क्रुद्ध था, सो अपनी दो कन्याओं को विधवा देखकर वह बहुत ही दुःखित हुआ। अब उसने एक प्रचंड सेना सजाकर तथा वङ्गनरेश चित्रसेन, चेदिपति शिशुपाल, क्रथकैशिक पति और अनेक पूर्वोक्त अन्य राजाओं को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। कई दिन तक भारी युद्ध हुआ और संकर्षण उपनाम बलराम से स्वयं जरासन्ध ने गदायुद्ध किया। ये दोनों वीर गदायुद्ध में परम पटु थे, इसलिये एक दूसरे को हरा न सके। एक लड़के को गदायुद्ध में पराजित न कर सकने पर जरासन्ध विषयणमन होकर सेना सहित मगधदेश को लौट गया। कुछ दिन में अपनी विधवा पुत्रियों की

करुणा से दुःखित होकर जरासन्ध फिर से मथुरा पर चढ़ दौड़ा किन्तु फल प्रथम आक्रमण के समान ही रहा ।

इसी भाँति सम्राट् जरासन्ध ने मथुरा पर सत्रह धावे किये, किन्तु श्रीकृष्ण और बलराम ने यादवी दल को इस प्रवीणता से लड़ाया और वे भी अपने प्राचीन राज्य पर भारी संकट समझ कर ऐसे जी तोड़कर लड़े कि भारत का यह सम्राट् उन्हें अपने वश में न कर पाया । फिर भी प्रति आक्रमण में यादवी शक्ति कुछ कुछ कम होती गई और जब जरासन्ध ने अट्टारहवीं बार २० अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा को घेरने का प्रबन्ध किया, तब विकट्टु नामक यादव ने श्रीकृष्ण से कहा, “अब हम लोग जरासन्ध से एक बार लड़ने में भी नितान्त असमर्थ हैं ।” इस बात का समर्थन कृष्णचन्द्र के पिता स्वयं बसुदेव ने भी किया । तब कृष्ण भगवान् ने कहा, “जरासन्ध को आप लोगों से कोई वैर नहीं है वरन् केवल हमसे और बलराम से है । इसलिये हम लाग उसके देखते हुये यहाँ से चले जायेंगे, तब वह यादवों को कुछ भी कष्ट दिये बिना हमारे ही पीछे दौड़ेगा और आप लोग प्रसन्नता-पूर्वक रहियेगा । हम दोनों आदमी बाहर जाकर किसी न किसी भाँति इससे पीछा छुड़ा लेवेंगे ।” इस बात पर सब की सम्मति स्थिर हुई और जरासन्ध के आने पर बलराम और कृष्ण ने कुछ देर लड़कर दक्षिण का रास्ता लिया ।

जरासन्ध सूनी मथुरा में किसी को सताना अपने महत्व के प्रतिकूल समझ कर इन्हीं दोनों भाइयों को खोजता हुआ सेना समेत दक्षिण को चला । राम और कृष्ण कई देश में भाते हुए सह्याद्रि पर पहुँचकर वेणु नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे भीष्म के गुरु परशुराम से मिले । इन्होंने प्रणाम करके उनसे अपनी कथा कहकर सम्मति माँगी । उन्होंने कहा, “आप लोग इस काल करवीरपुर में हैं, जिसे यदु के पुत्र ने बसाया था । उनके वंशधरों को पराजित करके इस काल राजा शृंगाल यहाँ राज्य करता है । वह बड़ा क्रूर पुरुष है, इसलिये आप का यहाँ ठहरना ठीक नहीं है । हम आपके साथ चलकर मार्ग बतलाते हैं । हम लोगों को वेणु नदी पार करके यज्ञ गिरि पर एक रात बसकर दूसरे दिन खद्योत नगर पार करना चाहिये ।

वहाँ यदुपुत्र मारस का रचा हुआ कौंचपुर है। वहाँ के राजा महा-कपि से मिलकर हम लोगों को गिरि गोमन्त (वर्तमान गोवा) को चलना होगा। उस स्थान पर जरासन्ध तुम्हें नहीं पा सकेगा।” इन लोगों ने ऐसा ही किया और गिरि गोमन्त से परशुरामजी राम और कृष्ण को वहीं छोड़ कर अपने स्थान को चले गये।

रामकृष्ण को वहाँ रहते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि जरासन्ध ने सेना समेत गिरि गोमन्त को आ घेरा। दूँदने से इन दोनों भाइयों को न पाकर उसने चारों ओर से इस पर्वत पर आग लगा दी। पहाड़ पर अनेक भरने जलपूर्ण थे इसलिये जरासन्ध के जलाने से वह न जला और गड़बड़ में बहुत से योद्धाओं को मारकर ये दोनों निकल गये। इस प्रकार विफल-मनोरथ होने से जरासन्ध अपने अनुयायियों समेत बहुत हतोत्साह होकर मगध देश को चला गया, अकेला चेदिपति शिशुपाल अपनी सेना समेत वहीं रह गया। यह कृष्ण बलराम की फूफी का पुत्र था। इसलिये उनसे मिल कर बोला, “मैं जरासन्ध के भय से उससे मिलकर रहता था और अब तुम्हारा अनुगामी बनूँगा। इस काल मैं चाहता हूँ कि मेरी सेना की सहायता लेकर आप मेरे लिये राजा शृंगाल से करवीरपुर जीत दीजिये।” यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र ने करवीरपुर घेर कर युद्ध में राजा शृंगाल का वध किया। यह देख पद्मावती नाम्नी उसकी पटरानी ने अपने पुत्र शक्रदेव को कृष्ण के सम्मुख खड़ा करके विनती की, “जिस राजा को आपने मारा है उसी का यह पुत्र हाथ जोड़ कर आपके सम्मुख खड़ा है। इसलिये आप जो आज्ञा दें उसी का यह पालन करें।” यह सुन कर भगवान् को दया आ गई और शिशुपाल की इच्छा के प्रतिकूल आप ने उसी बालक का अभिषेक करके उसे करवीरपुर का राजा बना दिया। इसके पीछे राजा शृंगाल के हरिताश्व रथ पर चढ़कर कृष्ण बलदेव मथुरा पधारे और शिशुपाल भग्नमनोरथ हो कर चेदिदेश को चला गया।

कुछ दिनों के पीछे श्रीकृष्ण का समाचार मिला कि कुरिडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अपना विवाह उन्हीं के साथ करना चाहती थी और उसके पिता की भी यही सम्मति थी, किन्तु

उसका भाई स्वयंवर करता था। यह सुन श्रीकृष्ण भारी सेना समेत कुण्डिनपुर पहुँचे और राजा कैशिक के यहाँ ठहरे। उन्होंने इनका उचित आतिथ्य किया। कृष्णागमन से चिन्तित होकर नृपसमूह भीष्मक के सभासदन में मंत्र करने लगा। उस स्थान पर जरासन्ध ने इनकी सारी कथा कह कर प्रस्ताव किया कि इनके साथ सन्धि करनी चाहिये। राजा सुनीथ ने जरासन्ध की सम्मति का प्रतिपादन किया। राजा दंतवक्र ने भी कहा कि श्रीकृष्ण ने कभी अपनी ओर से किसी से बैर नहीं बढ़ाया और वे अब भी कलह बचा कर क्रथ-कैशिक के यहाँ ठहरे हैं। जिसने इनसे नाहक बैर बढ़ाया, केवल उसी को इन्होंने दण्ड दिया है। इसलिये इन्हें कलह के योग्य न समझ कर हम लोगों को इनके पास जाकर मित्रवत् मिलना चाहिये। राज-कुमारी जिसको चुनेगी, वही उसको पावेगा। इसलिये आपस में विग्रह से कोई लाभ नहीं है। यह सुन राजा शाल्व ने कहा कि पहले उनसे बैर बढ़ाकर अब इस प्रकार दैन्य दिखाना क्या शस्त्रधारी क्षत्रियों को शोभा देता है? इसलिये हम लोगों को अपनी शान छोड़ना उचित नहीं और बैर प्रीति का निबाहना ही अच्छा है। यह सुन सब मानी राजा चुप हो रहे और उस दिन कुछ निश्चित न हो सका।

दूसरे दिन सब राजा लोग फिर राजसभा में एकत्रित हुए। इतने में राजा क्रथकैशिक का भेजा हुआ देवदूत सभा में पहुँचकर कहने लगा, “क्रथकैशिक ने कहा है कि कृष्ण से निष्कारण बैर बढ़ाने में कोई लाभ नहीं है। इसलिये जरासन्ध, शाल्व, रुक्म और सुनीथ नामक चार भूपाल अशून्य हित कुण्डिनपुर में रह जावें और शेष सब राजे यहाँ पधार कर श्रीकृष्ण का अभिषेकोत्सव देखें, ऐसी मेरी विनती है।” यह सुन जरासन्ध की आज्ञा लेकर सब राजाओं ने ऐसा ही किया। क्रथकैशिक के यहाँ श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक हुआ और एकत्रित राजाओं का बासुदेव ने वसन, रत्न और हाटक से पूजन किया। श्रीकृष्ण ने राजा भीष्मक को समझाया कि मुझे स्वयंवर में कोई विघ्न नहीं डालना है; आप, जिसे चाहें, सुखपूर्वक अपनी कन्या दे सकते हैं। यह कह कर श्रीकृष्णचंद्र वहाँ से चल दिये और

उनके प्रभाव से चिन्तित होकर भीष्मक नरेश ने सब राजाओं के साथ कुण्डिनपुर आकर सभा एकत्रित करके सारे भूपालों से कहा कि अब स्वयंवर में बड़ा विघ्न समझ पड़ता है, इसलिये आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिये।

यह सुन जरासन्ध, शाल्व, सुनीथ, दन्तवक्र, महाकूर्म, क्रथकैशिक, श्रीशंत वेणुदार और काश्मीरनरेश मन्त्र करने के लिये वहीं रह गये और शेष राजे भीष्मक से विदा होकर मलिनमन अपने-अपने देश को चले गये। अब इन सब की सभा जोड़कर राजा भीष्मक ने जरासन्ध को सम्बोधित करके कहा, “आप सब लोग नीतिनिपुण हैं और आपही की सम्मति से मैंने यह काम किया था। इसलिये अब उचित मन्त्र दीजिये।” इतना कह कर राजा भीष्मक ने अपने युवराज रुक्मी की ओर देखकर कहा, “बसुदेव-देवकी धन्य हैं जिन्होंने श्रीकृष्ण सा पुत्र पाया। परमेश्वर सब का ऐसा ही पुत्र देवे अथवा अपुत्र रखे।” यह सुन राजा शाल्व बोला, “हे भीष्मक! आपने क्रोध करके अपने पुत्र की निन्दा तो की किन्तु यह निन्द्य नहीं है, क्योंकि इसने भी परशुराम से शस्त्र-विद्या सीख कर प्रचण्ड शौर्य उपाजित किया है। कृष्ण के सिवा रुक्मी को जीतने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए मेरा कहना मान कर राजसमाज को चाहिये कि राजा काल्यवन की सहायता लेकर श्रीकृष्ण का मान मर्दित करें।”

इस बात को सभी ने पसन्द किया और जरासन्ध ने भी कहा, “यद्यपि मेरा आश्रय छोड़कर नृपसमाज कुलटा पत्नी की भाँति अपराश्रित होना चाहता है, तथापि समय को विचार और सब का भला समझ कर मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं स्वयं पराश्रय ग्रहण करने के बदले युद्ध में लड़ना श्रेष्ठतर समझता हूँ, किन्तु आप लोगों को इस कार्य से न रोक कर समुचित दूत भी बताये देता हूँ। राजा शाल्व विहिताविहित-विचारी और बड़े ज्ञानी हैं। इनके पास आकाशगामी सौभ नामक विमान भी है। इसलिए इन्हीं को दूत बना कर काल्यवन के पास भेजिए।” यह कहकर जरासन्ध ने शाल्व को आज्ञा दी, “तुम राजा काल्यवन के पास जा मेरे आदेशानुसार व्यवहार बढ़ाकर उससे श्रीकृष्ण के जीतने का मन्त्र करना।” शाल्व ने इसको स्वीकृत

किया। तब आकाश-मार्ग से वे कालयवन के देश को प्रस्थित हुए और शेष राजे अपने अपने स्थान को चले गये।

शाल्व को देखकर राजा कालयवन ने मन्त्रियों समेत आगे बढ़कर अर्घ्यपाद्य देना चाहा, पर इन्होंने कहा कि हम इस काल अर्घ्य के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जरासन्ध आदि राजाओं ने हमें दूत बना कर भेजा है और राजा के लिये दूत अर्घ्यार्ह नहीं है। यह सुन कालयवन ने कहा, “इस अवसर पर आप और भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि आपकी पूजा से सभी की पूजा हो जाती है।” यह कहकर दोनों राजे आनन्दपूर्वक मिले और एक ही सिंहासन पर जा बैठे। अब कालयवन ने पूछा, “जिस जरासन्ध को कृपा से हम सब राजे भयहीन रहते हैं, उसने क्या आज्ञा दी है सो कहिए।” यह सुन कर शाल्व ने कृष्ण-सम्बन्धी विग्रह का सारा वृत्तान्त कहकर कहा, “हम सब लोग केवल आपके कृष्ण के जीतने योग्य समझते हैं। इसलिए आप ही कृष्ण को मारकर राजमण्डल को आनन्द दीजिये और संसार में उत्तम यश प्राप्त कीजिए। आपके पिता ने आपको ऐसी शिक्षा दी है कि कोई भी माथुर वीर आपके सम्मुख ठहर नहीं सकता।” यह सुनकर परम प्रसन्न हो कालयवन ने निवेदन किया, “हे भूपालमणे ! मैं आज पृथ्वी पर धन्य हुआ और मेरे पिता का शिक्षण भी सफल हो गया, क्योंकि सम्राट् जरासन्ध समेत सारे नृपमण्डल ने मुझे जगद्विजयी राम कृष्ण के जीतने योग्य समझ यह महत् कार्य सौंपकर युद्धार्थ निदेश दिया है। सब नृपगण के आशीर्वाद से मैं अवश्य जय प्राप्त करूँगा। यदि सब राजाओं के कार्य में मेरा शरीरपात भी हो जावे तो करोड़ विजयों से श्रेष्ठतर है।” यह कह कालयवन ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान देकर युद्धार्थ तैयारी की और उसी क्षण परम शुभ मुहूर्त समझ कर तुरन्त मथुरा की ओर सेना समेत प्रस्थान किया।

उधर अभिषेक पाने के पीछे जब श्रीकृष्ण मथुरा पहुँचे तब राजा उग्रसेन ने इन्हें भूपाल समझ कर अर्घ्य देना चाहा किन्तु आपने निवारण करके कहा कि आपके लिए जैसे हम थे वैसे ही सदा रहेंगे। पीछे कंस की माता ने कंस का सारा क्रोध भगवान् को अर्पित किया, किन्तु

उदारतापूर्वक उमें भी वापस करके इन्होंने कहा कि मथुरा के राज्य और कोष से हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। अब श्रीकृष्ण पूर्ववत् रहने लगे। थोड़े ही दिनों में कालयवन सम्बन्धी सारा समाचार सुनकर आपने निश्चय किया कि सब राजाओं से शत्रुता करके हम क्षेमपूर्वक मथुरा में नहीं रह सकेंगे। इस विचार से गरुड़ नामक अपने मित्र से सम्मति करके आपने रैवत गिरि के समीप एकलव्य की रची हुई द्वारकापुरी में रहना स्थिर किया। राजा उग्रसेन ने यह विचार सुनकर विनती की कि हम सब लोग भी आपकी सहायता बिना यहाँ नहीं रह सकेंगे, इसलिए हमें भी द्वारका ले चलिए। भगवान् ने यह सम्मति स्वीकार की और सब यदुवंशी मथुरा छोड़ द्वारका को चले गये। द्वारका के स्वामी ने इनका रोकना अपनी शक्ति से बाहर समझ कर किसी प्रकार की आपत्ति न की और यदुवंशी लोग सुखपूर्वक वहाँ बस गये। सब को यथासम्भव पूरा सुपास देकर श्रीकृष्णचन्द्र अकेले मथुरा लौट गये।

इतने में कालयवन ने सेना समेत वहाँ पहुँच कर दुन्दुभी बजाई। श्रीकृष्ण ने उससे कुछ युद्ध करके एक ओर का रास्ता लिया और वह सेना समेत इनके पीछे लगा। श्रीकृष्णचन्द्र ने भागते हुए बहुत दूर जाकर उस गिरि-गुहा में प्रवेश किया जिसमें राजा मुचकुन्द सोते थे। आप वहीं छिप रहे। कालयवन ने भी दो-चार अनुययियों समेत उसी में घुस मुचकुन्द को कृष्ण समझ कर एक लात लगाई। यह राजा मुचकुन्द बड़ा बलवान् था, सो पाद-प्रहार से क्रुद्ध होकर इसने उठते ही कालयवन का बध कर डाला। स्वामी का बध देखकर उसकी सेना तितर बितर हो गई। अब राजा मुचकुन्द से उचित वार्तालाप करके श्रीकृष्ण द्वारका चले आये और महाराजा मुचकुन्द हिमाचल पर जा कर तपस्या करने लगे।

द्वारका जाकर श्रीकृष्ण के मतानुसार यादवों ने उस पुरी का निर्माण किया। अब असीम उदारता दिखलाते हुए श्रीकृष्ण ने उग्रसेन को वहाँ का भी राजा बनाया और उनके पुत्र अनाधृष्ट को सेनापति किया। उडव, कंठ, विकटु, गद, स्वकलक, विप्रथु, चित्रक, पृथु और सात्यकि विविध विभागों के मन्त्री बनाये गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने

९ मन्त्रियों की प्रणाली बनाई, जैसे इधर शिवाजी ने अष्ट मन्त्रियों की स्थापना की। सात्यकि युद्धसचिव बनाये गये, सान्दीपनि ऋषि पुरोहित और दारुक स्वयं कृष्ण के सारथी। राजा रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम के साथ किया।

कुण्डिनपुर के राजा भीष्मक का वर्णन ऊपर आ चुका है। ये महाशय यदुसुत क्रांष्टा के वंशज थे। विदर्भ भीष्मक के पूर्व पुरुष थे। इनका राज्य विन्ध्य शैल के दक्षिण विदर्भ देश में था और उसकी राजधानी कुण्डिनपुर थी। जरासन्ध के पूर्व पुरुष वृहद्रथ के पिता उपरिचर वसु के वंश में दमघोष नाम का राजा हुआ था। यह दमघोष उपरिचर वसु के मागध वंश से पृथक् था। इसका राज्य चेदि देश में था। श्रीकृष्ण की फूकी श्रुतिश्रवा इसको ब्याही थी। इन्हीं दोनों का पुत्र चेदिपति शिशुपाल था। शिशुपाल को जरासन्ध ने सदैव पुत्रवत् माना। उपर्युक्त सम्बन्धों के वर्णन से प्रकट है कि यद्यपि श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव राजा न थे, तथापि तात्कालिक कई राजाओं से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। कुन्तिभोज, कंस, शिशुपाल और पाण्डु इनके निकट के सम्बन्धी थे।

राजा भीष्मक ने रुक्मी के मत से विवश होकर अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ स्थिर किया। तब रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण द्वारा श्रीकृष्ण के पास पत्री भेजी, “आप मुझ को इस दुर्घटना से बचाइये।” यह सुन बलराम के साथ एक भारी सेना लेकर श्रीकृष्णचन्द्र कुण्डिनपुर पहुँचे। जब रुक्मिणी गौरी का पूजन करके लौटने को हुईं, तभी उपर्युक्त समय समझ कर श्रीकृष्ण ने उन्हें रथ पर बिठला द्वारकाका रास्ता लिया और बलराम सेना समेत मार्ग रोक कर युद्धार्थ खड़े रहे। अब दोनों दलों में प्रचण्ड युद्ध होने लगा, किन्तु इसे व्यर्थ समझ कर रुक्मी ने श्रीकृष्ण के पीछे अकेले जाने का विचार किया। उसने प्रतिज्ञा की, “यदि श्रीकृष्ण को मार कर रुक्मिणी न वापस लाऊँ, तो लौट कर इस नगर का मुख न देखूँगा।” ऐसा कह और प्रचण्ड कोदण्ड उठाकर रथारोही रुक्मी श्रीकृष्ण के पीछे परम वेग से धावित हुआ। राजा अंशुमान, वेणुदार तथा श्रुतर्वा रुक्मी के साथ चले। इन लोगों ने नर्मदा के पास जाकर श्रीकृष्ण से प्रचण्ड

युद्ध किया। श्रीकृष्ण ने सहज ही में अंशुमान् और श्रुतर्वा को मूर्छित कर दिया और वेणुशर का दक्षिण बाहु छेद दिया। रुक्मी ने कृष्ण के साथ बहुत देर तक भारी युद्ध किया किन्तु अन्त में श्रीकृष्ण उसे मूर्छित करके रुक्मिणी को साथ लिये द्वारावती चले गए। राजाओं को युद्ध में जीतकर बलराम भी द्वारका वापस आये। उधर श्रुतर्वा रुक्मी और शेष दोनों साथियों को रथ पर डालकर कुण्डिनपुर की ओर चला। रास्ते में चेत कर रुक्मी प्रतिज्ञा भङ्ग होने के कारण कुण्डिनपुर में प्रवेश न करके वहाँ से दक्षिण भोजकट नामक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा।

उधर श्रीकृष्णचन्द्र ने रुक्मिणी के साथ विधिवत् व्याह करके दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम यह थे—प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, सुषेण, चारुगुप्त, चारु, चारुबाहु, चारुविन्द, भद्रचारु और चारुक। इनके अतिरिक्त चारुमती नाम्नी एक कन्या भी हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्रीकृष्ण के सात और पटरानियाँ थीं अर्थात् कालिन्दी उपनाम यमुना (सूर्य की पुत्री), मित्रविन्दा (अवन्तिराज की कन्या), सत्या (अवधनरेश नग्नजित् की पुत्री), जाम्बवती (जाम्बवान् ऋक्ष की पुत्री), भद्रा उपनाम रोहिणी (केकय-पति की पुत्री), सुशीला (मद्रराज की कन्या) और सत्यभामा (सत्राजित् की लड़की)। इनके अतिरिक्त शैव्यराज की पुत्री लक्ष्मणा इनकी नवम रानी थी। सभी रानियाँ पुत्रवती थीं। पुत्रों में प्रद्युम्न, साम्ब, सट, सारण और गद की प्रधानता थी। साम्ब मुल्तान में सूर्य मंदिर बनवा कर शाकद्वीप से ब्राह्मणों को लाये। आर्य भट्ट और बराहमिहिर शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। प्रद्युम्न ने काल शम्बर तथा वज्रनाभ नामक प्रसिद्ध नरेशों को युद्ध में मारा। भगवान् के पौत्रों में अनिरुद्ध और वज्र प्रधान थे। समय पर रुक्मी की कन्या सुभागी का स्वयम्बर हुआ और उसने कृष्ण-पुत्र प्रद्युम्न को पति चुना। यह विवाह प्रेमपूर्वक हुआ। इन दोनों के पुत्र कुमार अनिरुद्ध हुए।

समय पर रुक्मिणी ने रुक्मी की पौत्री के साथ अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी को पत्र लिख कर स्थिर किया। इस विवाह में रुक्मी ने खोटाई करके बलराम जी के साथ द्यूतारम्भ किया और जब वे हारे,

तब हँसी मजाक में अनेक दुर्वचन कहे । जब बलरामजी जीते, तब भी रुक्मी और उसके साथी राजाओं ने बेईमानी करके अपनी ही जीत बतलाई । इस पर सभासदों ने बलराम के ही पक्ष में निर्णय किया । अब राम ने क्रुद्ध होकर मोहरों की भरी हुई एक थैली उठा कर रुक्मी के हृदय में जोर से मार दी जिससे उसका शरीरान्त हो गया । कलिङ्ग-पति दौत निकाल कर हँसा था, अतः उसके मुँह पर लात मार कर इन्होंने उसके दौत गिरा दिये । यह करके आपने जनवासे में जाकर श्रीकृष्ण से सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उन्होंने भावी गति कहकर रुक्मिणी को समझाया और विवाहोपरान्त सब द्वारका लौट आये ।

भगवान् श्रीकृष्ण ने प्राग्ज्योतिष नरेश नरकासुर का अधर्म सुनकर उसकी राजधानी में जा और उसका वध करके बहुत सी कुमारिकाओं का कष्ट मोचन किया । फिर उसके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर आप वापस चले आये । इन्होंने उग्रसेन की आज्ञा से काशी पुरी में पौंड्रक को युद्ध में मारा । श्रीकृष्ण ने धर्मराज्य स्थापन करने का पूर्ण प्रयत्न किया । आपने युद्ध में शौर्य और विजय में क्षमा का सदैव पूर्ण आदर्श दिखलाया । इन्होंने उजड़ी हुई द्वारका को लिया किन्तु किसी और विजित राजा का राज्य नहीं छीना । अपने सब संबन्धियों के साथ इन्होंने सदैव यथायोग्य व्यवहार किया और यादव संघ को चिरकाल तक भली भाँति चलाया । व्यवहार (कानून) का सुस्थापित न होना तथा नेताओं के सम्बन्धी अथच इतर तरणों का अनियन्त्रित हो जाना, संघों पर विपत्ति लाते हैं ।

भगवान् के समय यादवों में अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज नामक पांच विभाग थे । ये पाँचों बाहर वालों के लिये मिले रहते थे, किन्तु आन्तरिक प्रबन्ध में हर एक को स्वतन्त्रता थी । भोजों के नेता अक्रूर थे तथा इनसे बलदेव जी का भी सहयोग था । श्रीकृष्ण से मुख्य द्वेष्ट करने वाले प्रतिद्वन्दी बभ्रु थे, किन्तु मुशल पर्व के पूर्व वास्तविक युद्ध नहीं हुआ । केवल पैतृबाजी सी रहती थी । श्रीकृष्ण और उग्रसेन संघ मुख्य थे । मुशल युद्ध के पीछे भी बभ्रु बच गये । शान्ति पर्व राजधर्म २१वें अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि

संकर्षण बल में मस्त रहते हैं, गद सुकुमारता और प्रद्युम्न सौन्दर्य में तथा स्वयं भगवान को अच्छे सहायक नहीं मिलते अथच आहुक और अक्रूर अधिकार प्राप्त करते जाते हैं। यादवों का संघ (Confederation) मात्र था जो अन्त में बिगड़ कर मिट गया जैसा कि आगे के अध्याय में आवेगा। प्राचीन भारत में प्रजातन्त्र को गण कहते थे और सूद सुक्कव (Compound interest) का चक्रवृद्धि। सरस्वती एवं दृषद्वती से प्रयाग तक मध्यदेश था। बौद्ध ग्रन्थों में बिहार तक इसी में है। इसकी पूर्वी सीमा कंज गल (सन्थाल पर्वत का कांकजोल) है। इसके पूरब, दक्खिन, पच्छिम और उत्तर के देश क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम तथा उत्तरापथ हैं। यह अन्तिम नाम बहुधा पञ्जाब का है।

अब भगवान श्रीकृष्ण का कथन फिर से उठाया जाता है। गान, वाद्य तथा नृत्य में इनकी अलौकिक गति थी। इन सरस गुणों को रखते हुये भी दर्शन-शास्त्र से नीरस विषय पर भी इनका प्रगाढ़ अधिकार था। भगवद्गीता का जगत्प्रसिद्ध ज्ञान इन्हीं ने संसार को सिखलाया, जिसका वर्णन यथास्थान किया जावेगा। धर्म और पूजन में इनकी उपयोगितावाद पर विशेष रुचि थी। इनकी वाल्यावस्था में गोप लोग इन्द्र का पूजन करने वाले थे, तब इन्होंने शिक्षा दी थी कि गोपों के लिये इन्द्र की अपेक्षा गोवर्धन गिरि विशेषतया पूज्य है, क्योंकि गिरि और कानन से हमारा गोधन प्रसन्न रहता है और जिसकी जीवनवृत्ति जिस पदार्थ से है उसके लिये वही पूज्य है। इनके इस उपयोगितावाद को गोपों ने स्वीकार किया था और तभी से इनको गोविन्द की उपाधि मिली थी। श्रीकृष्ण की उदारता विजित राजाओं तथा उग्रसेन से जैसा व्यवहार हुआ उससे विदित होती है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को इन्होंने कई बार बहुत दान दिया। सुदामा का दान इस कथन का उदाहरण है। संसार में अनेकानेक गुणी हो गये हैं और बहुत से लोगों ने अनेक गुणों में भी योग्यता संभ्रान्त की है, किन्तु जितने और जैसे अनमिल गुणों में भगवान् का प्रगाढ़ अधिकार था वैसा दूसरा उदाहरण संसार में पाना कठिन है। आप मित्रवत्सल ऐसे थे कि इन्हीं की सहायता से राजा युधिष्ठिर सम्राट् हो गये।

किन्तु इन्होंने सामर्थ्य रखते हुए भी अपने लिये सम्राट् क्या राजपद की भी कभी इच्छा न की। परम प्रभावशाली हो जाने पर भी आपने अपने बालसखाओं को न भुलाया और प्रभास क्षेत्र पर गोप-गोपियों को निमन्त्रित करके उनके साथ पूर्ववत् वात्सल्य भाव दिखलाया। भारत में विष्णु भगवान् के दस अवतार माने गये हैं, जिनमें चार की भारी प्रधानता है, अर्थात् वामन, रामचन्द्र, कृष्ण और गौतम बुद्ध की। पंडितों ने श्रीकृष्णचन्द्र को इन्हीं कारणों से कदाचित् षोडश कला का पूर्ण अवतार माना है। ब्राह्मण ग्रंथों के अवलाकन से विदित होता है कि “देवकीनन्दन कृष्ण” दर्शन-शास्त्र मनन करने के उत्साही थे। स्वामी शंकराचार्य का निराधार कथन है कि ये दर्शन शास्त्री कृष्ण घोर वंशी ब्राह्मण थे न कि वासुदेव कृष्ण। उनके पास कोई ऐसा आधार अवश्य होगा जो अब अप्राप्त है। यदु-वंश का यह इतिहास हरिवंश और श्री भागवत के आधार पर लिखा गया है।

इस काल के आर्य राजा लोग परम धार्मिक तथा दृढप्रतिज्ञ हुए और ब्राह्मणों का प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता गया। राजाओं में वृद्धावस्था आने पर राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम का विधान दृढता को प्राप्त हुआ और बहुत से राजाओं ने अपने उदाहरण द्वारा इस रीति को आदर दिया। वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मणों, राजपुत्रों तथा साधारण प्रजा में भी बड़ी दृढता से स्थिर हुआ और इसके नियमापनियम पुष्ट करने के विचार से आरण्यक नामक ग्रन्थों की रचना हुई। बहुत से ब्राह्मणों ने शस्त्रविद्या में भी प्रवीणता प्राप्त की और समय समय पर ऋचांक, जमदग्नि, दा परशुरामाँ, अगस्त्य और द्राणाचार्य ने इस विषय में ख्याति पाई। क्षत्रियों ने युद्ध-विद्या की अच्छी उन्नति की और सारे भारतवर्ष में ब्राह्मण-सभ्यता का विस्तार किया।

इस काल उत्तरी भारत से शाणितपुर को छोड़ राजसों दैत्यों आदि का अधिकार पूर्णतया उठ गया और मध्य तथा पश्चिमी भारत में भी आर्य-सभ्यता पूर्णरूपेण फैल गई। राज्य छीनने के लिये कोई राजा दूसरे को प्रायः नहीं जीतता था। राजाओं में विजय बहुत करके प्रभाववर्धनार्थ ही होती थी। किसी नवीन शक्ति के उठने पर सब

राजा लोग मिल कर उसे दबाने का प्रयत्न करते थे। यह रीति इसी काल में स्थिर होकर मुसलमान काल पर्यन्त भारत में पाई जाती है। इस काल के राजाओं में आपस में भाईचारे का व्यवहार बहुत दृढ़ देख पड़ता है। किसी भारी घटना के होने पर बहुत से राजा आपस में मिल कर प्रायः मंत्रणा किया करते थे। राजा भीष्मक की सभा में सब राजा कृष्ण से मेल करना चाहते थे, किन्तु अकेले शाल्व ने सब की राय फेर दी और सभी ने शत्रुता ही की सलाह ठीकर रखी। राजकुमार विद्या-प्राप्ति के लिये प्रवीण गुरुओं के यहाँ दूर देशों में जाकर परिश्रम करते थे। इस कथन के उदाहरण भीष्म, कर्ण, रुक्मी और श्रीकृष्णचन्द्र हैं।

चातुर्वर्ण्य की प्रणाली बहुत दिनों से जन्मज हो गई थी। इसकी दृढ़ता दिनोंदिन बढ़ती गई किन्तु विविध वर्णों में विवाहादि बराबर हंते थे। एक ही गोत्र में भी विवाहों की विधि थी तथा मामा, फूफू आदि की कन्याओं के साथ विवाह की कोई रोक न थी। विविध वर्णों में खान-पान सम्बन्धी कोई निषेध न था और जातियों में ऊँच-नीच के विचार नहीं उठे थे। व्यापार बहुत करके बनजारों आदि के द्वारा चलता था। समुद्र यात्रा का कथन बहुतायत से नहीं है। पाश्चात्य पण्डितों का विचार है कि भारतवासी यूनानियों को ही यवन कहते थे किन्तु हम इसी काल से ही भारतीयों का कालयवन से सम्पर्क देखते हैं। यह नहीं विदित होता है कि कालयवन कहाँ का राजा था, किन्तु जान पड़ता है कि यह कहीं बाहर से भारत में बुलाया गया था। रावण का पुष्पक और शाल्व का सौभ नामक विमान आकाश में उड़ते थे। उपरिचर वसु के पास भी व्योमयान था। इनके अतिरिक्त व्योमयान केवल देवताओं के पास कहे गये हैं। जान पड़ता है कि ये बने तो अवश्य थे किन्तु इनकी उन्नति नहीं हुई थी। सारांश यह कि इस काल में प्रायः सभी बातों में भारतीयों ने अच्छी उन्नति की।

पन्द्रहवाँ अध्याय



महाभारत

दसवीं शताब्दी बी० सी०

यह अध्याय मुख्यतया महाभारत पर आधारित है। गत अध्याय में कौरवों पांडवों की उत्पत्ति का कथन हो चुका है। अपने भ्रातृकुल में बहुत से कुमारों के होने से प्रसन्न होकर पितामह भीष्म ने उनकी शिक्षा का प्रबन्ध उत्तम रीति से करना चाहा। महाराजा शन्तनु ने दो अनाथ ब्राह्मण बालकों (बालक-बालिका) को एक तालाब के किनारे से उठवा कर पाला था। उनके नाम कृप और कृपी रखे गये। कृप ने शास्त्राभ्यास भली भाँति करके परशुराम से शस्त्रविद्या भी सीखी। इन्होंने वृष्णि यादव आदि कुल के अनेक राजकुमारों को विद्या देकर आचार्य पदवी पाई थी। कृपाचार्य जनक के पुरोहित शतानन्द के वंशधर थे। कृपी का विवाह प्रसिद्ध धनुर्धर द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। इन्होंने भी पूरा शास्त्राध्ययन किया और शस्त्र-विद्या में भी बड़ी उत्कट प्रवीणता प्राप्त की थी। ये महाशय महर्षि भरद्वाज के पुत्र अथवा वंशज थे। पहले इन्हें शस्त्र-विद्या-प्राप्ति की भारी उत्कण्ठा न थी। इन्होंने मुख्यतया शास्त्राध्ययन किया था। एक बार धन माँगने के लिए महात्मा परशुराम के पास द्रोणाचार्य ऐसे समय में पहुँचे, जब कि वे अपना सारा धन ब्राह्मणों को बाँट चुके थे और जंगल जाने वाले ही थे। उन्होंने इनकी धनेच्छा समझ कर नम्रतापूर्वक कहा, “प्रियवर! मैं अपनी सारी पृथ्वी कश्यप को दे चुका हूँ और सारा धन-धान्य ब्राह्मणों को बाँटकर इस काल बन-वास ही के लिए चलने को हूँ। अब तो मेरे पास केवल शस्त्र-विद्या और शरीर शेष हैं, इसलिये इन दोनों में से जो आप माँगें वही

प्रस्तुत है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने बिनती की, “हे दानिशिरामणे ! आप प्रयोग, संहार तथा रहस्य विधान सहित सब अस्त्र-शस्त्र मुझे दीजिए।” तब गुरुवर परशुराम ने द्रोणाचार्य को उनकी इच्छा के अनुसार शस्त्रास्त्र-विद्या भली भाँति सिखला दी और इन्होंने भी उस को पूर्णतया सीख कर अद्वितीय गौरव प्राप्त किया। अनन्तर अग्निवेश ऋषि से आपने आग्नेयास्त्र पाया। यह अस्त्र उन्हें भरद्वाज ही ने दिया था।

इधर पौरव राजकुमारों को कृपाचार्य शस्त्र एवं शास्त्र का शिक्षण देते थे। भीष्म-पितामह की इच्छा हुई कि कोई प्रवीणतर गुरु पौत्रों की शिक्षा के लिए बुलाना चाहिये। एक दिन भारत-राजकुमारगण गुल्ली-डंडा खेल रहे थे कि गुल्ली अकस्मात् एक निर्जल कूप में जा पड़ी। उसी के पनघट पर द्रोणाचार्य विराजमान थे। सब कुमार गुल्ली निकालने के अनेक प्रयत्न करके विफलमनोरथ रहे। यह देख द्रोणाचार्य ने हँस कर कहा, “तुम लोग भरतवंशज होकर कुएँ में से एक गुल्ली नहीं निकाल सकते ? देखो मैं ब्राह्मण होकर गुल्ली क्या एक मुंदरी तक सीकों से बेधकर बाहर निकाले देता हूँ।” यह कह कर द्रोणाचार्य ने धनुष उठा कर सीक से गुल्ली बेध दी और दूसरी सीक से उस सीक को बेधा। इसी प्रकार बेधते हुए सीकों के ही द्वारा गुल्ली कुएँ के बाहर कर दी। यह देख राजकुमार युधिष्ठिर ने एक मुद्रिका कुएँ में डाल कर बिनती की कि वह भी निकाली जाय। द्रोणाचार्य ने उसे भी गुल्ली की भाँति सीकों के ही द्वारा निकाल दिया।

यह देख कुमारों ने परम प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य का विवरण भीष्म पितामह को जा सुनाया। यह सुन गांगेय ने समझ लिया कि जैसा उपयुक्त गुरु वे चाहते थे वैसा ही अकस्मात् मिल गया। अब परम प्रसन्न होकर स्वयं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के पास पधारे और प्रणाम करके सब हाल पूछने लगे। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा का वर्णन करके कहा, “कृपाचार्य की भगिनी कृपी से मैंने पितृवियोग के अनन्तर पुत्रेच्छा से विवाह किया था, जिससे अश्वत्थामा नामक तनय प्राप्त हुआ। मैंने धन की कभी इच्छा न की थी, इसलिए मेरे पास एक गौ तक न थी, किन्तु पुत्र वणिकसुतों को दूध पीते देख उसके लिए मचलने

लगा। दूध के अभाव में मैं चावल बांट, पानी में धोल, पुत्र को दूध कहकर पिला देता था और वह बाल्यवश उसको पीकर आनन्द से नाचता था। यह दशा देख मेरे पड़ोसी कहने लगे कि इस ब्राह्मण द्रोण को धिक्कार है जिसे कहीं धन ही नहीं मिलता और जिसका पुत्र क्षीर समझ पिष्टोदक-पान से नाचता है। यह सुन मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगई और मैंने समझा कि मेरी गृहस्थी भली भाँति नहीं चल रही है। मैं तपस्या छोड़ धनोपार्जन का कार्य निन्द्य समझता था और शुद्ध प्रतिग्रह छोड़ दूषित दान नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मुझे इतना कष्ट हुआ।”

द्रोणाचार्य ने फिर कहा, “बाल्यवश मैं पाँचाल राजकुमार द्रुपद महर्षि अग्निवेश के आश्रम में मेरा सहपाठी था और मुझसे कहता था कि वयस्क होने पर उसका राज्य मेरे ही अधीन रहेगा। इसीलिए इस विपत्ति में पड़कर अपने बालसखा द्रुपद का स्मरण करके मैं सकुटुम्ब पाँचाल देश पहुँचा और द्रुपद को राज्याभिषिक्त सुनकर प्रसन्न हुआ, किन्तु मिल कर जब मैंने उसे मित्र कहकर सम्बोधित किया, तब मिथ्या आत्मगौरव के घमण्ड में वह ऐसा चूर हुआ कि मेरे कथनों से अपनी भारी मानहानि समझ कर कहने लगा कि ऐसे भिखमंगों के सखा राजा नहीं होते। उसका यह अनुचित गर्व देख कर मैं एक मानसिक प्रण कर चुका हूँ, जिसे समय पर पूरा करूँगा। अब मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आपकी कामना पूरी करने को तैयार हूँ। इसलिये आप जो कहें सो मैं करूँ।” यह सुन पितामह ने कहा, “आप मुझे भाग्यवश मिल गये; अब मुझ पर अनुग्रह करके यहीं विराजिये। कुरु कुल में जो वित्त है उसके आप ही स्वामी हैं और जो यह राज्य है उसके आप ही राजा हैं। यह कुरुवंश आज से आप ही का हो चुका। आपको जो कुछ वाञ्छित हो उसे तुरन्त संपादित समझिये और इन पुत्रों को सद्विद्यादान कीजिये।” यह कहकर द्रोण का सविधि पूजन करके भीष्म ने विविध भाँति के धन-धान्य से युक्त चारु सदन उन्हें समर्पित किया और कौरव-कुमारों को शिष्य बनाने के लिये उन्हें सौंप दिया।

द्रोणाचार्य ने इस योग्य स्तुति से परम प्रसन्न हो कर नियम के

साथ कुमारों को शस्त्र-विद्या सिखलाना आरम्भ किया। अर्जुन और कर्ण धनुषविद्या में श्रेष्ठ हुए और दुर्योधन तथा भीम गदायुद्ध में। पाँछे से इन दोनों ने श्रीकृष्ण के भाई बलराम से भी गदायुद्ध की उच्च शिक्षा पाई। कर्ण ने द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र सीखने का भी प्रस्ताव किया किन्तु इन्होंने उत्तर दिया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के योग्य है न कि शूद्र के। यह सुन द्रोण से विद्या-प्राप्ति में भग्नोत्साह हो कर पराक्रमी तथा महत्त्वाकांक्षी कर्ण महेन्द्रगिरि पर चला गया और अपने को ब्राह्मण कह कर परशुराम से पूरी विद्या प्राप्त करने में समर्थ हुआ।

एक बार कर्ण की जंघा पर शीश रखकर परशुराम सो गये। उसी समय अकस्मात् एक कीड़ा नीचे से आकर कर्ण की जाँघ का ऐसे स्थान पर काटने लगा कि जहाँ बिना जाँघ उठाये उसका निवारण नहीं हो सकता था। कर्ण ने गुरु की निद्रा भंग न करने के विचार से जंघा नहीं हिलाई, यद्यपि कृमि के काटने से उससे रुधिर की धारा बहने लगी। शोणित के सिर में लगने से महर्षि परशुराम जाग पड़े और सारा वृत्तान्त सुन कर कर्ण के कष्टों पर बड़े दुःखित हुए, किन्तु यह भी ताड़ गये कि कष्ट में इतना शारीरिक धैर्य ब्राह्मण के लिये कठिन है, अतः यह मेरा शिष्य कोई क्षत्रिय समझ पड़ता है। उनके पूछने पर कर्ण ने सारा हाल कह सुनाया। परशुराम ने उसकी भुठ्ठाई पर कुछ क्रोध किया किन्तु उसके असीम धैर्य एवं शस्त्र-प्राप्ति की उद्दाम इच्छा से मुग्ध होकर उसे शिष्यत्व से अलग नहीं किया और श्रम करके पूरा बार एवं शस्त्र विद्या-पारंगत बना दिया। अतः में गुरु से आशीर्वाद पाकर कर्ण अपने घर वापस गया।

इधर द्रोणाचार्य कोरव पाण्डवों को विधिवत् शस्त्र-विद्या सिखलाते रहे। इसी बीच में किराताधीश हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोणाचार्य से शस्त्र-विद्या सीखने के लिये आया। इन्होंने किरात को नीच समझ कर शिष्य न बनाया, किन्तु उसने इनकी मृन्मयी मूर्ति सामने रखकर जंगल में शस्त्राभ्यास करना प्रारम्भ किया और थोड़े ही दिनों में ऐसी योग्यता संपादित कर ली कि एक बार शिकारी कुत्ते के भौंकने पर जब तक वह मुँह बन्द करे तब तक इसने उसके मुख को पाँच बाणों

से भर दिया। इसका पराक्रम देख कर अर्जुन को भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई पर पीछे से उन्होंने एकलव्य से अधिक योग्यता संपादित करली। द्रोण का महत्व सुनकर भारत भर से देश देश के राजपुत्र आ आकर इनसे शस्त्र-विद्या सीखते थे।

उचित समय पर जब भारत राजकुमार अस्त्र-विद्या में निपुण होगये, तब द्रोणाचार्य ने यह शुभसंवाद धृतराष्ट्र से कह सुनाया। उस काल सभा में बाल्हीक, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, विदुर और भगवान् वेदव्यास भी वर्तमान थे। सभी ने द्रोण की भारी प्रशंसा की और धृतराष्ट्र ने सतोष प्रकट कर के कहा, कि हे भरद्वाज नन्दन ! आप ने बहुत बड़ा कार्य किया है। यह कह कर महाराजा धृतराष्ट्र ने विदुर को आज्ञा दी, “द्रोणाचार्य की इच्छानुसार कुमारों के शस्त्र-नैपुण्य-प्रदर्शनार्थ उचित प्रबन्ध करा दीजिये और नगर में ढौंड़ी पिटवा दीजिये जिससे सर्वसाधारण भी कुमारों का यह महत्कार्य अवलोकन करके प्रसन्नता प्राप्त करें और समझें कि हमारे रक्षणार्थ कैसे कैसे प्रबन्ध किये गये हैं।” विदुर ने ऐसा ही किया और शुभ दिन पर पुरजन समेत कौरव राज-समाज कुमारों की प्रवीणता देखने को एकत्रित हुआ। रानियां भी यथास्थान उपस्थित होकर इस शुभ अवसर की शोभा बढ़ाने लगीं और दर्शनागार प्रेक्षकों तथा अधिकारियों से खचाखच भर गया।

उचित समय पर श्वेत पट एवं श्वेत माला पहिने हुए अस्त्र-सिन्धु-आचार्य द्रोण अश्वत्थामा तथा शिष्यों समेत दर्शनागार में पधारे। इतने में राजा की आज्ञा से विविध प्रकार के बाजे बजने लगे तथा धर्मधुरीण आचार्य ने विधिवत् क्षेत्र पूजन किया और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे। अब कुमारों ने अपनी अपनी शिक्षा दिखलानी प्रारंभ की। सब से बड़े होने के कारण युधिष्ठिर ने ही सब से पहिले अपनी कला दिखलाई। इनके भाई भीम और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। स्थिर तथा चल लक्ष्यवेध में कुमारों ने अच्छी प्रवीणता प्रदर्शित की और भांति भांति के बाहनों पर चढ़-चढ़कर भिन्न प्रकार के लक्ष्यवेध में नैपुण्य दिखाया। फिर भीम और दुर्योधन गदा ले लेकर कृत्रिम युद्ध दिखाने लगे, किन्तु इमैन प्राचीन

वैमनस्य होने के कारण कृत्रिम के स्थान पर वास्तविक युद्ध होने लगा। यह देख पिता की आज्ञा से अश्वत्थामा ने बीच में खड़े होकर इन दोनों का युद्ध निवारण किया। इसके पीछे शूरशिरामणि अर्जुन ने सब से बढ़कर अपना कौशल दिखलाया।

ज्योंही अर्जुन ने कार्य समाप्त किया कि द्वार से एकायक भुजदंड ठोंकने की बज्राघात के समान ध्वनि सुन पड़ी। सभी ने आश्चर्यित हो कर उधर ही की ओर दृष्टि लगाई और लोंग इधर उधर हट गये तथा महाबली कर्ण ने मार्ग पाकर रंगस्थल में आ सब का निरीक्षण किया। उसने पाँचों पाण्डवों को द्रोणाचार्य के साथ खड़े पाया और धृतराष्ट्र पुत्रों को अश्वत्थामा के पास। कर्ण के सिंह-समान शरीर पर सहज कवच एवं कर्णकुण्डल शोभा देते थे और वह सूर्य के समान प्रकाशमान हाथ में धनुषबाण लिये गुरुकाय से चरणगामी पर्वत के समान शोभित था। रंग का भली भाँति निरीक्षण करके परशुराम के इस प्रिय शिष्य ने कृपाचार्य और द्रोण को सादर नमस्कार किया। 'यह कौन आया' इसी विचार में बहुत लोंग चकित थे कि कर्ण ने दर्पपूर्वक ये गम्भीर वचन कहे, 'हे अर्जुन ! मैं अधिरथ एवं राधा का पुत्र कर्ण तुम्हारी वीरता का तृणवत् मानकर तुम्हारे दिखलाये हुए कौशल से कहीं बढ़कर नैपुण्य दिखलाता हूँ।' यह सुनकर अर्जुन को साथ ही साथ लज्जा और क्रोध ने आ घेरा तथा दुर्योधन परम प्रसन्न हुआ। अनन्तर द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कर्ण ने अर्जुन के दिखलाये हुए सारे कार्य फिर से कर दिखाये।

यह देख दुर्योधन ने उसका भारी सम्मान करके कहा, "तुम मुझे भाग्यवश मिल गये ; राज्य सहित मेरी जो कुछ संपत्ति है, उसका तुम यथेष्ट भोग करो।" इस महासत्कार को नमितमूर्धा होकर स्वीकार करते हुए वीर कर्ण ने अर्जुन के साथ द्वन्द्व-युद्ध करने की इच्छा प्रकट की और द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर वीर अर्जुन भी अमोघ कोदण्ड धारण करके युद्धार्थ सन्नद्ध हुआ। यह देख कर्ण और अर्जुन दोनों के अपने प्रिय पुत्र होने से महारानी कुन्ती बन्धु-विरोध से चक्षितधैर्य होकर ऐसी घबराई कि मूर्छित ही हो गई। विदुर ने यह

अनर्थ देख चंदनादि उपचार से महारानी की मूर्छा भंग की। रनिवास की डम गड़बड़ से खिन्न होकर आचार्य कृप ने युद्ध को अनुचित मान कर्ण से कहा, “द्वन्द्व-युद्ध शास्त्रानुसार सम वय, बल और प्रतिष्ठा युक्त पुरुषों में हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिये तुम्हारे सूत-पुत्र होने के कारण तुम कुलीन अर्जुन से द्वन्द्व-युद्ध करने के योग्य नहीं।” यह सुन कर्ण ने कुछ भी न कहा किन्तु दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, “हे आचार्य! शास्त्रानुसार राजयोनि तीन प्रकार से समान होती है, अर्थात् शूर, कुलीन और सेनाधीश; ये तीनों समभाव से पूज्य क्षत्रिय हैं और किसी कुलविशेष में जन्म ग्रहण करने से क्षत्रियत्व की दृष्टि में कोई ऊँच नीच नहीं। यदि वीर कर्ण को राज्यरहित समझकर अर्जुन इनसे युद्ध नहीं करता, तो मैं इन्हें अंग देश का राज्याभिषेक्त भूपाल बनाता हूँ।” यह कह कर दुर्योधन ने विधिपूर्वक कर्ण का अभिषेक करके राज्य चिह्न दिये और वीर कर्ण छत्र चामरों से सुशोभित हुआ। इस सम्मान से प्रसन्न होकर कर्ण का पालक पिता अधिरथ शिथिलाङ्ग होने पर भी यष्टि के सहारे चलता हुआ कर्ण के पास पहुँचा और पुत्र ने उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया तथा उसने कर्ण को हृदय से लगाकर अभिषिक्त शिर का आघ्राण किया और हर्ष-अश्रुओं से उसका सिंचन करके अपने को धन्य माना। युद्ध संबन्धी दो-चार साधारण वादविवाद होने के पीछे अब सूर्य भगवान् अस्ताचल को पधारे और सब लोग प्रसन्न मन अपने अपने निवासस्थान को चले गये। इस दिन युधिष्ठिर को यह भय हुआ कि कर्ण के समान योद्धा पृथ्वी-मंडल पर नहीं था।

कृतास्त्र हो जाने पर भारत कुमारों ने द्रोणाचार्य से गुरुदक्षिणा मांगने के विषय में निवेदन किया और आचार्य ने कहा, “पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ कर तुम सब लोग मेरे पास बांध लाओ।” यह सुन कौरवी सेना ने युद्धार्थ तैयार होकर प्रस्थान किया और राजकुमारों ने द्रुपद पुर काम्पिल्य पर दलबल समेत आक्रमण किया। द्रुपद ने वीरता के साथ इनका सामना किया, किन्तु अर्जुन के आगे उसकी एक न चली और इन्होंने सहज ही में उसे पकड़ कर द्रोणाचार्य के सम्मुख उपस्थित कर दिया। अब द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई

और इन्होंने द्रुपद की दृष्टि में भी अपना पद उसके समान करने के लिये उसका आधा राज्य उत्तर पांचाल लेकर शेषार्द्ध दक्षिण पांचाल पर उसे पुनः प्रतिष्ठित किया। द्रोणाचार्य ने कुछ दिन तक इस राज्य का पालन किया, किन्तु इसे कब और कैसे छोड़ दिया इसका वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। जान पड़ता है कि राज्यशासन-कार्य अपने अनुकूल न पाकर द्रोणाचार्य ने थोड़े ही दिनों में द्रुपद का आधा राज्य भी उसे वापस दिया होगा। जो हुआ हो, वे युद्ध काल में रहते हस्तिनापुर ही में थे।

अब सब कुमार फिर से सुख पूर्वक हस्तिनापुर में रहने लगे और थोड़े दिनों में राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज पद दे दिया। युधिष्ठिर को राज्य पाने का अधिकार था अथवा नहीं इस प्रश्न पर मतभेद संभव है। शास्त्रानुसार निरिन्द्रिय अथवा जन्मान्ध पुरुष राज्य नहीं पा सकता, किन्तु उसके पुत्र अव्यङ्ग न होने पर पा सकते हैं। फिर भी यदि कोई राजा एक बार किसी कारण से गद्दी पा जावे तो उसके पीछे उसी के उत्तराधिकारी राज्य पावेंगे न कि उसके पहिले वाले के। यहां धृतराष्ट्र के जन्मान्ध होने से पाण्डु उचित प्रकार से राजा हुए, किन्तु उन्होंने पुत्र जन्म के पूर्व रानियों समेत स्वेच्छापूर्वक राज्य छोड़ दिया। उस काल पर्यन्त धृतराष्ट्र के भी कोई पुत्र न था। जिस नेत्र-दोष के कारण धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य के उत्तराधिकारी नहीं हुए थे, उसी कारण पाण्डु के भी नहीं हो सकते थे। विदुर दासी पुत्र होने से राज्य के अधिकारी नहीं थे और उचित उत्तराधिकारी भीष्म राज्य चाहते न थे। इस कारण से जन्मान्ध होते हुए भी धृतराष्ट्र ही राजा हुए और तब पाण्डवों और धार्तराष्ट्रों का जन्म हुआ। पाण्डवों के जन्म काल में पाण्डु का राज्याधिकार शेष न था और थोड़े ही दिनों में धृतराष्ट्र भी पुत्रवान् हो गये। धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन था। इसलिए शास्त्रानुसार दुर्योधन को ही युवराज होना चाहिये था, किन्तु इन बातों का विचार उस काल हस्तिनापुर में नहीं हुआ और युधिष्ठिर युवराज बनाये गये।

पाण्डवों का दुर्योधन से बाल्यकाल से ही बैर चला आता था।

लड़कपन के खेल-कूद में ही भीम ने कई बार दुर्योधन के भाइयों को इतना तंग किया था कि इन्होंने एक बार भीम को जहर पिलाकर गंगा जी में फेंकवा दिया था, किन्तु कुछ नाग लोगों ने औषध करके बे-सुध भीम की प्राण-रक्षा की थी। पाण्डवों से ही विजय पाने के लिए दुर्योधन कर्ण का भारी सम्मान करता था। अब युधिष्ठिर के युवराज होने से उसकी राज्य-कामना मुर्झाती हुई देख पड़ी और उसने नीतिज्ञ कणिक द्वारा अपने पिता को राजनीति का उपदेश कराया। अनन्तर किसी प्रकार से विवश करके उसने धृतराष्ट्र को इस बात पर सहमत किया कि वारणावत नगर में पाण्डव लोग लाक्षागृह में फूँक दिये जायँ। इसका प्रबन्ध दुर्योधन ने पुरोचन नामक एक प्रवीण शिल्पी द्वारा किया। वारणावत को अब बरनावा कहते हैं जो मेरठ के उत्तर-पश्चिम १९ मील की दूरी पर स्थित है। पाण्डव लोग फुसलाये जाकर सैर के लिए वारणावत भेजे गये। उनके जाते समय विदुर ने धृतराष्ट्र से सारा भेद जानकर युधिष्ठिर को पहले ही से म्लेच्छ भाषा में सावधान कर दिया। वारणावत पहुँचकर इन लोगों ने प्रकट में असावधानी रक्खी किन्तु गुप्त भाव से भागने की सुरंग तय्यार कर तथा स्वयं पुरोचन को लाक्षागृह में भस्म करके सुरंग के मार्ग से गंगातट का रास्ता लिया और विदुर की भेजी हुई नौका से गंगापार करके जंगल ही जंगल एकचक्रपुर का मार्ग पकड़ा।

कनिंगहम का विचार है कि एकचक्रपुर वर्तमान आरा नगर को कहते हैं, किन्तु यह मत संदिग्ध है। चकर नगर नामक एक स्थान वर्तमान इटावा के दक्षिण-पश्चिम सोलह मील पर स्थित है। डाक्टर थ्यूरर का मत है कि उस काल का यही एकचक्रपुर है। वहाँ जाते हुए पाण्डवों की हिडम्ब नामक राक्षस से भेंट हुई। इसकी बहिन हिडम्बा भीम पर आसक्त हो गई। इसी बात पर हिडम्ब का भीम से युद्ध हुआ और वह मारा गया। अब युधिष्ठिर की सम्मति से न चाहते हुए भी इन्हें हिडम्बा से विवाह करना पड़ा जिससे घटोत्कच नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पाण्डवों ने ब्राह्मण बनकर दस मास पर्यन्त माता कुन्ती समेत एकचक्रपुर में निवास किया। अन्त में वहाँ के अन्यायी शासक बक नामक राक्षस से इनका विरोध हो गया और भीम ने उसका

बध कर के नगर को संकटमुक्त किया। अब इनकी व्यास भगवान् से भेंट हुई और उनकी सम्मति से ये लोग द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए द्रुपदपुर (काम्पिल्य) को गये।

मार्ग में अर्जुन का अंगारपर्ण नामक गन्धर्व से युद्ध हुआ और उसने पराजित हाकर बहुत से घोड़े इनको दिये जो थाती की भाँति उसी के पास रखे गये। द्रुपदपुर में बहुत से राजा लोग स्वयंवर के लिए उपस्थित हुए। एक भारी धनुष सभा में रखा गया और कहा गया कि जो कुलीन वीर पुरुष इसे ज्यायुक्त करके ऊपर घूमते हुए मत्स्यलक्ष्य के प्रतिबिम्ब को नीचे रखे हुए तेल के कड़ाह में देखकर केवल पाँच बाणों से लक्ष्य का भेद कर देवेगा, उससे द्रौपदी विवाह करेगी। सीता-स्वयंवर के समय धनुष चढ़ने पर विवाह करने के लिये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार माना गया था किन्तु द्रौपदी के स्वयंवर में यह अधिकार केवल कुलीनों को प्राप्त था। यह अन्तर दोनों समयों के प्रचलित विचारों का अच्छा उदाहरण है।

इस स्वयंवर में राम और कृष्ण भी उपस्थित थे। उन्होंने पाण्डवों को देख कर पहचान लिया और उनका लाक्षागृहदाह-सम्बन्धी शोक दूर हो गया। जरासन्ध, शिशुपाल, शल्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, प्रभृति राजाओं और वीरों ने धनुष चढ़ाने का प्रयत्न किया किन्तु ये सब विफलमनोरथ हुए। अनन्तर वीरवर कर्ण ने ज्यायुक्त करके उसपर बाण चढ़ाया किन्तु द्रौपदी ने कहा, 'मैं सूतसुत कर्ण के साथ विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह कुलीन नहीं है।' इस बात पर कर्ण ने प्रत्यंचा उतार कर धनुष रख दिया। इसके पीछे कई और वीरों के प्रयत्न निष्फल हुए। अन्त में उठ कर अर्जुन ने धनुष चढ़ा कर नियमानुसार पाँच बाणों से मत्स्य-लक्ष्य का निपात किया और द्रौपदी ने उसके गले में जयमाल डाल दी। अब पाण्डव लोग द्रुपद-कन्या को लेकर अपने निवास-स्थान कुलाल गृह को चले गये। कई कारणों से अर्जुन तथा माता कुन्ती की इच्छानुसार द्रौपदी का पाँचों पाण्डवों के साथ विवाह होना स्थिर हुआ। द्रौपदी तथा उसके कुटुम्बी भी इस बात पर कुछ तर्क-वितर्क करके व्यास भगवान् की सम्मति

से सहमत हुए। कृष्ण-बलराम ने भी पाण्डवों से मिलकर उनके लाक्षा-गृह से बचने पर प्रसन्नता प्रकट की और सर्वसम्मति से इन्होंने ब्राह्मण वेष छोड़ कर अपना पाण्डव होना प्रसिद्ध किया। अब इन लोगों का विवाह हो गया और आपस में नियम करके इन्होंने प्रत्येक पाण्डव के लिये द्रौपदी के सालभर में दो दो महीने और १२-१२ दिन बाँट दिये। अब पाण्डव लोग प्रसन्नतापूर्वक द्रुपदपुर में रहने लगे।

लाक्षागृह के दाह से कौरवों को यह समझ पड़ा था कि पाण्डव लोग उसी में जल मरे। इसलिये सभी ने उनके सम्बन्ध में मरणोत्तर संस्कारादि भी कर डाले थे। विदुर को उनके भागने का समाचार ज्ञात था किन्तु उन्होंने इसका हाल किसी से न कहा। भीष्म और द्रोणाचार्य को पाण्डव-विनाश सुनकर बड़ा खेद हुआ और महाराजा धृतराष्ट्र भी बड़े दुःखित हुए थे। पीछे से स्वयंवर-समाचार सुनकर उनका जीवित रहना ज्ञात हुआ। इस पर महाराजा धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण, विदुर और संजय की सम्मति ली तो इन सभी ने कहा कि कुल बातों पर विचार करके आधा राज्य पाण्डवों को दे दिया जाय और आधा कौरवों के पास रहे। इसी सम्मति के अनुसार महाराजा धृतराष्ट्र द्वारा प्रेरित होकर विदुर पाण्डवों को द्रौपदी समेत द्रुपदपुर से बुला लाये और महाराजा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने आधा राज्य लेना स्वीकार करके इन्द्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली) में अपना निवास-स्थान बनाया।

अर्जुन कई कारणों से थोड़े दिन के लिये भारत-भ्रमण का निकले। इसी भ्रमण में आपने नागसुता उलूपी तथा मणिपुर-नरेश की कन्या चित्राङ्गदा से विवाह करके दोनों में एक-एक पुत्र उत्पन्न किया। उलूपी का पुत्र इरावान् हुआ तथा चित्राङ्गदा का बभ्रुवाहन। मणिपुर-नरेश के कोई पुत्र न था, इसलिये उन्होंने बभ्रुवाहन को लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया। घूमते हुए अर्जुन द्वारावती पहुँचे। उस काल वहाँ बलराम की बहिन सुमद्रा का स्वयंवर हो रहा था। इस कन्या-रत्न को देखकर अर्जुन का चित्त चंचल हुआ और श्रीकृष्ण की गुप्त सम्मति एवं महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर

इन्होंने युक्ति से सुभद्राहरण कर लिया। यह हाल सुन यादव लोग युद्धार्थ सन्नद्ध हुए किन्तु श्रीकृष्ण के समझाने पर उन्होंने अर्जुन को बुलाकर सुभद्रा के साथ उसका विवाह कर दिया। इधर शेष चारों पाण्डवों ने भी एक एक विवाह किये। पाण्डवों ने एक एक अपना अपना पुत्र द्रौपदी में उत्पन्न किया और एक एक द्वितीय स्त्री में। सुभद्रा के अभिमन्यु नामक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांडवों के दस पुत्र हुए और घटोत्कच, इरावान् तथा बभ्रुवाहन का भी मिलाने से इनकी संख्या तेरह होती है। राजा दुर्योधन के लक्ष्मण पुत्र और लक्ष्मणा कन्या हुईं। कर्ण के पुत्रों में वृषसेन और वृषकेतु मुख्य थे। द्वारावती से लौट कर अर्जुन ने खाण्डवप्रस्थ नामक जंगल जला कर बहुत सी भूमि कृषि के योग्य निकाला। उस जलते हुए जंगल से आपने मय नामक दानव की रक्षा की जिसने राजा युधिष्ठिर के लिये एक बड़ी विचित्र सभा तय्यार की। इसी से जारतर, द्रोण, सारीसृक और स्तम्बमित्त नामक चार वे मन्दपाल ऋषि के पुत्र बचाये गये जो शूद्रा से उत्पन्न थे और प्रायः अन्तिम वेदधि हुये। इन के मन्त्र ऋग्वेद के दसवें मण्डल में हैं। यह कथन कुम्ब कीनम म० भा० (XIII ५३, २१-२२) का है। खाण्डव-वन के कथन तैत्तिरीय आरण्यक (V १, १) पंच विश ब्राह्मण (XXV ३, ६) और शात्यायन में भी हैं।

इस प्रकार अपने प्रताप की भारी वृद्धि देख कर श्रीकृष्ण-चन्द्र की सम्मति से राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया जिसमें उनका सम्राट् पद भी प्राप्त हो जाय। इस अभिलाषा का सब से बड़ा बाधक जरासन्ध ही समझ पड़ा। इसा ने श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य छीन कर अपने वश में किया था और सब राजाओं का जात कर बहुत काल से यह सम्राट् पद का भाग भा कर रहा था। श्रीकृष्णचन्द्र ने विचार किया कि यदि व भाम और अर्जुन के साथ लेकर छद्म वष म मगधपुर जावें और जरासन्ध से द्वन्द्व-युद्ध मांगें, तो शायदाभिमान से वह अवश्य लड़गा और मारा भी जायगा, नहीं तो सना के साथ लड़ने में क्या परिणाम हागा, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। इस बात पर भाम तथा अर्जुन का भी रुच

देख कर युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार किया और कृष्ण, भीम एवं अर्जुन ब्राह्मण बन कर मगधपुर पहुँचे। इन लोगों ने ब्राह्मणोचित चिह्नों के साथ बहुमूल्य वसनाभरण भी धारण किये और अपने उन्नत शरीरों को चन्दनादि से सुशोभित किया। इन्होंने जरासन्ध के महल में फाटक से न घुस कर तीन कद्दाये फलांग कर प्रवेश किया और ये लोग एकायक उस के सामने जा खड़े हुए। इनके इन अनुचित कर्मों पर क्रुद्ध न होकर सम्राट् जरासन्ध ने इन्हें पूजनयोग्य विचार कर इनसे कुशलप्रश्न किया। भीमार्जुन अपने अनुचित कर्म के कारण ऐसी सभ्यता के व्यवहार की आशा नहीं रखते थे, सो जरासन्ध की मृदुलता पर किंकर्तव्यविमूढ़ होकर अवाक् खड़े रह गये, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र ने बात बनाकर कहा, “हमारे दोनों साथी मौनव्रती होने से केवल रात्रि में बात कर सकते हैं।” यह सुन जरासन्ध ने इन्हें मखालय में स्थान दिया और इनके आतिथ्य का प्रबन्ध करके वह स्वयं अन्तःसदन को चला गया।

सन्ध्या को वह इन लोगों के पास फिर आया और तब इन्होंने कहा, “हम लोग अतिथि होकर दूर से आपके पास आये हैं, इसलिये जो दान मांगें वह आप कृपा कर दीजिये।” यह सुन सम्राट् ने कहा, “हे छद्मवेषी ब्राह्मणो ! आप लोग यहीं बैठिये।” अब ये चारों आदमी वहीं बैठे और तब जरासन्ध ने इनके वेष की निन्दा करते हुए कहा, “स्नातक लोग गन्धमाल्य समेत नहीं फिरा करते। तुम्हारे शुण्डादण्ड समान भुजदण्ड ज्याघात से अंकित हैं और कर्मों से अब्राह्मणत्व पूर्णतया प्रदर्शित है।” यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा, “शत्रुसदन में अद्वार से ही प्रवेश उचित है। आपने क्षत्रियों को पकड़ कर कारागार में डाल दिया है और अब उनकी रुद्र बलि करने का भी विचार आप कर रहे हैं। अब तक हमने मनुष्य का ऐसा अपमान न कहीं देखा न सुना। आप स्वयं क्षत्रिय होकर दूसरे क्षत्रिय का पशु के समान बलिदान करना चाहते हैं, यह किस शास्त्र का विधान है, सो हमारी समझ में नहीं आता। ऐसा प्रचंड पापी समझ कर हम लोग आपके मारने के लिये यहां आये हैं। सैन्य बाहुल्य अथवा बल-दर्प से कोई मनुष्य नर-जाति का ऐसा प्रचण्ड अपकार करके

राक्षस ही कहलाने के योग्य रह जायगा। हम ब्राह्मण नहीं हैं और तुमसे युद्ध चाहते हैं। हम स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं और ये दोनों भीमार्जुन हैं। इसलिये आप या तो सब बन्दी राजाओं को छोड़ दीजिये या हमसे लड़कर यमपुरी का मार्ग लीजिये।'

श्रीकृष्ण की ये बातें सुनकर जरासन्ध ने उत्तर दिया, "बिना युद्ध में जीते हमने एक भी राजा नहीं पकड़ा है। दुःखद जीवधारियों का दमन करना क्षत्रियों का धर्म है और मेरा विचार है कि जीतकर पकड़े हुए मनुष्य से कोई चाहे जैसा व्यवहार करे। इसलिये जिन राजाओं को देवतार्थ पकड़ रक्खा है, उन्हें किसी प्रकार न छोड़ूँगा। मैं सहसैन्य से सहसैन्य और अकेले से अकेला लड़ने के लिये सदैव सम्राट हूँ तथा दो तीन से भी अकेला लड़ता हूँ।" सम्राट् से युद्ध निश्चित समझ कर श्रीकृष्ण ने पूछा, "हम तीनों में से जिसके साथ आप युद्ध करना चाहें वही सज्जित हो"। जरासन्ध ने उत्तर दिया, "अर्जुन अभी लड़का है और तुम भगोड़े हो क्योंकि मेरे भय से तुमने मथुरा छोड़कर सिन्धु की शरण ली। अतः तुम भी युद्ध के योग्य नहीं हो, सो मैं भीमसेन से लड़ूँगा।" कार्तिक की प्रथमा प्रतिपदा को युद्ध होने लगा और चौदह दिन तक बराबर मल्लयुद्ध होता गया। ये लोग दिन भर लड़ते और रात्रि को विश्राम लेते थे। चौदहवें दिन भीम ने सम्राट् जरासन्ध को स्ववश करके उसका बध किया। फिर जरासन्ध के रथ पर चढ़कर इन तीनों ने बन्दी राजाओं का मोचन करके उन्हें युधिष्ठिर के राजसूय में आने के लिए निमन्त्रित किया। इन राजाओं ने हेममणि से इनका पूजन किया। अनन्तर जरासन्धपुत्र सहदेव का राज्याभिषेक करके ये तीनों वीर इन्द्रप्रस्थ वापस आये। यज्ञ-सम्बन्धी शुभ दिन स्थिर हुआ और तब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र, युधिष्ठिर एवं भीम के पदबन्धन करके तथा तीनों कनिष्ठ पांडवों से बन्धित होकर द्वारका चले गये।

थोड़े दिनों में राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों द्वारा भारतविजय का विचार किया और इसलिए इन्होंने विजयार्थ चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। अर्जुन उत्तर दिशा को गये, सहदेव दक्षिण को, भीम पूर्व को और नकुल पश्चिम को। अब हम महा-

भारत के अनुसार इन लोगों के जीते हुए देशों तथा राजाओं का कथन करते हैं। प्राचीन स्थानों के वर्तमान नाम जहाँ तक ज्ञात हो सके हैं कोष्ठकों में दर्ज कर दिये गये हैं।

अर्जुन ने अपनी विजय-यात्रा कुलिन्द (सहारनपुर) से प्रारम्भ की। वहाँ से उलूक के राजा वृहन्त को जीतकर आपने देवप्रस्थ नरेश सेनाविन्दु को जीता और फिर मोदापुरी के निकटस्थ सब राजाओं को हराया। वहाँ से पौरव राजा विश्वगश्व को जीतते हुए काश्मीर के राजा लोहित एवं उरग देश (जिला हजारा) में अभिसारीपुरी (हजारा) के भूपाल रोचमान को पराजित किया। फिर सिंहपुर, बाल्हीक (बलख या व्यास एवं सतलज नदियों के बीच का देश), काम्बोज (अफ़ग़ानिस्तान) तथा सुम्भ के नरेशों को जीतकर आप ऋषिक लोगों के देश में पहुँचे और विकराल युद्धानन्तर उनको वश कर सके। अनन्तर श्वेतगिरि (सफ़ेद कोह) नरेश को जीतकर शाक-द्वीप (मध्य एशिया) में आपने प्रतिबिन्ध्य आदि राजाओं को पराजित किया। वहाँ से तिब्बत की ओर जाकर अर्जुन ने उस देश में घुसना चाहा। तब वहाँ के राजसेवियों ने कहा, “इस देश में भारतीय मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इससे तुम यहाँ मत आओ; हम लोग तुम्हारी कामना योंही पूरी किये देते हैं।” यह कहकर उन लोगों ने दिव्य भूषण वसन तथा मणिगण कर-स्वरूप देकर अर्जुन को संतुष्ट किया और तब इन्होंने मानस सरोवर जाकर ऋषियों के दर्शन किये तथा गंधर्व रक्षित देश जीत कर किंपुरुषों (शिकिम वालों) को हराया। वहाँ से हाटक, गुह्य देश जीतते हुए आपने प्राग्ज्योतिष (कामरूप उपनाम आसाम) के नरेश भगदत्त को जीतकर उससे कर लिया। उक्त देशों और नरेशों के अतिरिक्त अर्जुन ने आनर्त पति, कालकूरपति, राजा सुमंडल, किरातों, पहाड़ी जातियों वा चीनियों को जीता और फिर अन्तर गिरि, वहिर्गिरि व उपगिरि को जीतकर वामदेव, सुदाम, सुकुल, उत्तर उलूक, उत्सव संकेत की अनार्य जातियाँ, त्रिगर्त, कोकनद, सुभल, दरद, निष्कृत गिरि, दक्षिणी साइबेरिया और पश्चिमी चीन को पराजित किया। आपने उपयुक्त सभी देशों के राजाओं से दंड स्वरूप कर लेकर इन्द्रप्रस्थ को प्रस्थान किया।

भीमसेन की विजय-यात्रा पांचाल देश (रुहेलखंड से काम्पिल्य तक दो भागों से) प्रारंभ हुई। वहाँ के राजा द्रुपद से साम द्वारा कर लेकर आपने कोसल (अवध) नरेश वृहद्बल तथा अवधपुरी (अयोध्या) नरेश धर्मात्मा दीर्घयज्ञ को हराया।

वहाँ से कुमारधीश श्रेणिमान् तथा काशिराज सुबाहु को जीतकर आपने कुण्डिन नगर में शर्मक वर्मक नामक विदेह राजाओं को पराजित किया। अनन्तर वैदेह जनक को जीता। इन नामों से मिथिला के छोटे-छोटे राजाओं का प्रयोजन समझ पड़ता है। यहाँ से चल कर मगध (दक्षिणी बिहार) से कर लेते हुए भीमसेन ने अंग देश (भागलपुर) से कर लिया और फिर मोदागिरि (मुगेर) और मल्ल (हजारी बारा तथा मानभूमि) नरेशों को जीतकर बङ्ग (मध्य बङ्गाल) नरेश समुद्रसेन को पराजित किया। अनन्तर ताम्रलिप्त (दक्षिणी बङ्गाल), पौंड्र (उत्तरी बङ्गाल), सप्त क्रिगत (टिपरा), तथा सुम्भ (अराकान) से कर लेते हुये भीमसेन ने मलय (पूर्वीघाट) को जीता। वहाँ से दशार्ण (छत्तीसगढ़), अश्व-मेघपति रोचमान, पुलिन्द (पश्चिमी बुंदेलखंड तथा सागर) पति सुमित्र, चेदि (चंदेरी) पति शिशुपाल तथा गोपाल वृत्त के राजाओं से कर लिया। फिर वत्स (प्रयाग के पश्चिम) को जीत कर मत्स्य (अलवर तथा जयपुर) से भी कर लिया।

सहदेव ने भी मत्स्य को जीता, जिससे जान पड़ता है कि उस काल मत्स्य देश में कई राजे थे जिनमें से कुछ भीमसेन ने जीते और शेष सहदेव ने। दशार्ण देश का राजा उस समय सुधर्मा था, जिसने भीमसेन से अकेले निरायुध युद्ध किया। इन्होंने उसे जीतकर अपना सेनापति बना लिया। पौंड्र नरेश वासुदेव था। ताम्रलिप्त और सुम्भ के राजे स्लेच्छ्र कहे गये हैं और यह भी कथित है कि भीमसेन ने सागर तट के स्लेच्छ्रों को जीता। भीम ने भड़क, गोपालाक्ष, उत्तरी कौशल नरेश, भल्लट, सुक्ति मति गिरि, सुपर्श के क्रय, मत्स्य, मलद, मदधर गिरि, सोमदेय, वत्स भूमि नरेश भर्ग, निषाद पति, मणिमान, भगवान् पर्वत, दक्षिणी मल्ल, शक, बर्बर, प्रसुम्भ (मिदनापूर), दंडधर, गिरि ब्रज, कौशिकी, कच्छ नाथ, महोजस, समुद्रसेन,

चन्द्रसेन, कर्कत के अनार्य राजे व लौहित्य देश (दक्षिणी आसाम) भी जीते । अनार्य राजाओं ने बहुमूल्य भेंटें दीं । इस प्रकार पूर्व दिशा के राजाओं को जीतकर भीम उनसे कर लेकर इन्द्रप्रस्थ वापस आये ।

सहदेव ने इन्द्रप्रस्थ से चलकर सूरसेनाधिप अर्थात् माथुर नरेश को हराया । इससे जान पड़ता है कि जरासन्ध ने मथुरा का राज्य बहुत जल्द छोड़ दिया था और कोई दूसरा यादव वहाँ का राजा हो गया था । यही वह सूरसेनाधिप कहा गया है । मथुरा से सहदेव ने मत्स्य देश (अलवर और जयपुर) में घुसकर कई राजाओं से कर लिया और तब राजपूताना के एक अन्य राजा दन्त वक्र को हरा कर राजा सुमित्र को भी पराजित किया । वहाँ से गोशृंग गिरि के निषाद राजे जीते गये जिनमें श्रेणिमान् भी एक था । नरराष्ट्र को जीत कर सहदेव ने ननिहाल कुन्तिभोज (मालवा में एक राज्य) में प्रेम से कर लिया । वहाँ से चम्बल नदी के किनारे बसने वाले जम्भकसुत को हराकर सेक (चम्बल और उज्जैन के बीच) देश जीतते हुए सहदेव ने अवनती (उज्जैन) के राजा बिन्द और अनुबिन्द को परास्त किया । फिर आपने भोजकट (बरार में अमरावती या इलिचपुर) नरेश भीष्मक को जीतकर वेणा (कृष्णा) नदी तट, महाकान्तार जंगल, प्राकोटक नाटक (करनाटक), हेरम्ब, मारुध, नाचीन, अर्बुक तथा वात के राजाओं को हराया । अनन्तर पुलिन्द (पश्चिमी बुंदेलखंड तथा सागर) के कुछ राजाओं को जीत कर तथा माहिष्मती के राजा नील से कर लेकर किष्किन्धा, (बीजानगर के निकट) पाण्ड्य, दंडकवासी सूरसेन, सुरभिपट्टन (मद्रास), ताम्रद्वीप, तिमिंगिल, कर-हाट, केरल (मलाबार), लंका तथा कोंकण को जीतते हुए और भरुकच्छ, सौराष्ट्र (उपनाम काठियावाड़) के राजाओं से कर लेते हुए सहदेव इन्द्रप्रस्थ वापस आये ।

कहा गया है कि किष्किन्धा पुरी के राजा उसकाल भी द्विविद और मयन्द नामक दो बानर थे । इन लोगों के साथ सहदेव का सात दिन युद्ध हुआ । ये बानर रामचन्द्र के समकालिक द्विविद मयंद से इतर थे । संभव है कि द्विविद मयंद वंश-परंपरागत नाम हों । राजा भीष्मक

का सहदेव के साथ दो दिन तक युद्ध हुआ। दक्षिण के द्वीपों में उस काल म्लेच्छ, राक्षस और निषादों का बास था। सुरभिपट्टन, ताम्रद्वीप, तिमिङ्गिल, करहाट, केरल तथा कोंकण के राजाओं ने दूतों से संदेश सुनकर बिना युद्ध किये ही कर दे दिया। सहदेव ने पतच्चर (मेवाड़), कौशल, वेणुमत, नातकेय, हिरम्बक, व मरुध नामक तीन जातियों, कई जंगली नरेशों, बातापिपुर (बादामी), त्रैपुर, अक्रिति, सुराष्ट्र, सुपर्णक, तालका, पुस्पद, द्रविण आदि जातियों, सामुद्रीय अनार्यों, कोला पर्वत, रमक पर्वत, पसन्द उद्र, केरल, अंध्र, तलवन, कलिग, अतविपुरी और पवनष्ट को भी जीता।

नकुल ने रोहीतक (रोहतक) सैरीसक, आक्रोश, शिवि (सवान, सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर), त्रिगर्त (जालन्धर), पंच करपट, मध्यमकेय (मध्यमेश्वर, पंच केदारों में से एक) और वाटधान देशों को जीता। अन्तिम तीनों के राजे ब्राह्मण थे। अनन्तर पुष्करण्य, सिन्धुतट के म्लेच्छ और सरस्वती तट के शूद्र राजाओं को जीतकर तथा अभीरों को बश में करके नकुल ने मत्स्य देश के कुछ राजाओं को जीता। फिर कटपुर, पंचनद (पंजाब), हारहुण, रामठ, मद्र (रावी और चनाब के बीच, राजधानी साकल), सिन्ध, द्वारिका, मालव और दशार्ण के राजाओं से कर लिया गया। मद्र देश के शल्य नकुल के मामा थे और द्वारका के श्रीकृष्ण पूर्ण सहायक। अतः इन दोनों ने प्रेम पूर्वक भेंट दी। रोहीतक के निवासी मत्तमयूर कहे गये हैं और उनसे घोर युद्ध होना लिखा है। सैरीसक पहाड़ था। सिन्ध देश में उस काल म्लेच्छों का निवास था। नकुल ने महेत्थ, अम्बष्ठ, अमर कोह, वाम ज्योतिष, दिव्यकर, द्वारपालपुरी, रमथ, पश्चिमी कई नरेशों, पल्लव, वर्वर, किरात, यवन और शकों को भी जीता। इनके द्वारा प्राप्त भेंटें १० हजार ऊंटों पर लाद कर आई थीं। इस भाँति नकुल ने भी पश्चिम दिशा को जीत कर इन्द्रप्रस्थ में प्रवेश किया।

इन विजयों से समझ पड़ता है कि भारतवर्ष उस काल सैकड़ों माण्डलिक राजाओं में बँटा हुआ था। ठेठ पूर्व, ठेठ दक्षिण, सिन्ध

और पंजाब के कुछ प्रान्तों में अनायी के राज्य थे, किन्तु शेष भारत-वर्ष में सब कहीं आर्य राजे फैले हुए थे। अनायी में म्लेच्छ, निषाद, राक्षस, वानर, बर्बर, यवन, शक, काम्बोज, किरात और आभीर नाम्नी जातियों की प्रधानता थी। विजय यात्राओं में कहीं के भी राजा का वध नहीं हुआ तथा शिशुपाल, शल्य, कृष्ण, कुन्तिभोज नरेश आदि संबन्धियों ने बिना लड़े ही कर दे दिया। कर्ण को जीतने की शक्ति भीम में नहीं थी किन्तु उसने भी नाम मात्र को युद्ध करके कर देना ठीक समझा। हस्तिनापुर में घरौआ दुर्योधन से कर लेने कोई गया भी नहीं। इन बातों से जान पड़ता है कि यद्यपि राजसूय यज्ञ के करने वाले को सम्राट् पद मिलता था, तथापि यज्ञ के कारण लोग उसका विशेष विरोध नहीं करते थे।

उचित समय पर महाराजा युधिष्ठिर ने सब राजाओं को बुलाकर यज्ञारम्भ किया। इस अवसर पर सबों ने फिर से रत्न, मणि आदि भेंट में दिए। इस बार पाण्डवों की ओर से भेंट लेने का कार्य राजा दुर्योधन ने किया। यज्ञ होते समय एकत्रित महाशयों के पूजन में यह प्रश्न उठा कि सब से प्रथम पूज्य कौन है और भीष्म पितामह के मतानुसार श्रीकृष्ण को सर्वश्रेष्ठ समझ कर राजा युधिष्ठिर ने सहदेव के द्वारा सब से पहले उन्हीं का पूजन कराया। यह देख राजा शिशुपाल बड़ा क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, कि शास्त्रानुसार ऋत्विक्, आचार्य, राजा, हितू, सम्बन्धी और गुणी पुरुष ही पूज्य हैं। उसने कृष्ण में इन सब गुणों का अभाव बतला कर भीष्म, पाण्डवों और कृष्ण की बड़ी निन्दा की, तथा वत्सासुर एवं पूतना-विनाश के कारण श्रीकृष्ण की गो-स्त्रीघातक भी कहा। बहुत देर तक वादविवाद होता रहा, किन्तु जरासन्ध के विनाश के कारण शिशुपाल का क्रोध शान्त न हुआ। उसने भगवान् वासुदेव को सौ से अधिक गालियाँ दीं। इस पर श्रीकृष्ण ने नृप-समाज को संबोधित करके कहा, “इस की माता मेरी फूँकी थी, जिससे वचनबद्ध होने के कारण मैंने शिशुपाल के सौ अपराध पर्यन्त क्षमा करने का प्रण किया था। इस संख्या के बढ़ जाने से अब मैं इसे उचित दंड देता हूँ।” यह कहकर भगवान् ने शिशुपाल को प्रचार कर चक्रद्वारा उसका शिर-छेदन किया। अनन्तर

यज्ञ कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया और सब आगन्तुक लोग अपने अपने स्थानों को वापस गये।

मय दानव ने युधिष्ठिर की सभा ऐसी विचित्र बनाई थी कि उसमें जल थल तथा अन्य बातों का भ्रम हो जाता था। राजा दुर्योधन को उसमें कुछ भ्रम हो गया जिस पर द्रौपदी तथा भीम ने उपहास करके कहा कि अंधों के लड़के भी अंधे ही होते हैं। यह बात या तो दुर्योधन ने सुन ली अथवा उनके कानों तक पहुँचाई गई। इससे तथा पाण्डवों की भारी श्रीवृद्धि से उन्हें क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। हस्तिनापुर जाने पर अपने मामा शकुनि की सलाह से महाराजा धृतराष्ट्र की किसी प्रकार से आज्ञा लेकर उन्होंने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया और वहाँ छल के पाँसे रचकर शकुनि की सहायता से युधिष्ठिर का सर्वस्व जुए में जीत लिया। राजपाट हार कर राजा ने अपने चारों भाइयों को भी हार दिया और फिर अपने को भी हार कर द्रौपदी तक को फण पर रखवा। इस बात पर भीष्म द्रोणादि ने उनको बहुत धिक्कारा किन्तु सौबल ने पाँसे फेंक कर द्रौपदी को भी जीत लिया। अब राजा दुर्योधन की आज्ञा से कुमार दुःशासन बलान् पकड़ कर द्रौपदी को सभा में घसीट लाये। रानी ने यह प्रश्न उठाया कि जब राजा पहले अपने को हार चुके थे, तब पीछे से उसे नहीं हार सकते थे। भीष्म और द्रोण ने इस बात का निर्णय द्रौपदी के पक्ष में करना उचित न समझा और इसका फ़ैसला युधिष्ठिर ही पर रख दिया। फल यह हुआ कि सभा में कौरव राजकुमारों ने इस अनाथ राज-महिला के भारी अपमान करने तथा उसे वस्त्र-विहीना बनाने के प्रयत्न का कलंक अपने ऊपर लिया। यह दशा देख धृतराष्ट्र ने पाण्डवों के दासत्व का मोचन करके जीती हुई उनकी सारी संपत्ति फेर दी। इतना करके वे भीष्म द्रोण सहित सभा से उठ गये और तब उसी समय अथवा कुछ दिनों के पीछे फिर से द्यूत खेला गया जिसमें यह निश्चय हुआ कि राजा युधिष्ठिर रानी द्रौपदी तथा भाइयों समेत १२ वर्ष वनवास करके तेरहवें वर्ष कहीं गुप्त रीति से रहें। यदि तेरहवें वर्ष कौरव लोग उन्हें न खोज सकें तो उनका राज्य वापस मिल जावे, नहीं तो फिर इसी नियमानुसार वे वनवास करें।

अब पाण्डव लोग सर्वस्व छोड़कर उपर्युक्त नियमानुसार जंगल को चले गये और कौरवों ने उनके राज्य पर अधिकार जमाया। जंगल में जाकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने उनसे मुलाकात की और कहा, “मैंने राजसूय यज्ञ में जो शिशुपाल का वध किया था, उससे क्रुद्ध होकर कलिङ्गनरेश राजा शाल्व मेरी अनुपस्थिति में द्वारावती (द्वारिका) पर आक्रमण करके पुर तथा उपवनों को भग्न करता हुआ बहुत प्रकार के दुर्वचन कहकर मुझे खोजने चला गया। अपने नगर में लौट आने पर मैंने जब यह हाल सुना, तब सेना सहित उसकी खोज करता हुआ मैं समुद्र के निकट पहुँचा। उसी स्थान पर प्रचंड युद्ध हुआ जिसमें शाल्व मारा गया और उसकी सेना ध्वस्त हुई। इसी कारण मैं इन्द्र-प्रस्थ नहीं आ सका, नहीं तो न द्यूत होने पाता और न आप पर विपत्ति आती। अब चौदहवें वर्ष पृथ्वी कौरवों का रुधिर पान करेगी।” इस प्रकार पाण्डवों को सान्त्वना देकर तथा सुभद्रा आदि को कुछ राजकुमारों सहित साथ लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका चले गये। राजा युधिष्ठिर ने माता कुन्ती को हस्तिनापुर में ही विदुर के पास छोड़ दिया था। अब राजा ने द्रौपदी के अतिरिक्त शेष रानियों को उनके पुत्रों समेत अपने अपने मायके भेज दिया और पाँचों द्रौपदीयों को लेकर द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न काम्पिल्य को चले गये। तेरह वर्ष के पीछे कौरवों से युद्ध अनिवार्य समझ कर महाराजा युधिष्ठिर को भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के भारी पराक्रमों से चिन्ता हुई। इस पर अर्जुन ने हिमालय पर जाकर पूर्ण धनुर्विद्या सीखने का निश्चय किया। इसलिए अपने भाइयों तथा रानी द्रौपदी की आज्ञा लेकर उन्होंने हिमाचल पर जा शिव नामक किरात से धनुर्विद्या सीखी और फिर इन्द्र नामक एक प्रतापी पर्वतीय राजा के यहाँ पाँच वर्ष निवास किया। उस राजा के हितार्थ अर्जुन ने उसके शत्रु कालिकेय (असीरिया वालों) तथा निवातकवची दैत्यों का नाश किया।

इधर राजा युधिष्ठिर ने रानी द्रौपदी और भाइयों समेत लोमश और धौम्य के उपदेश से तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया। इन्द्र सेनादि परिचारक गण उनके साथ अश्व, शस्त्र, रथ, आयुध आदि लेकर चले। इस यात्री समाज ने काम्यक बन में त्रिरात्र निवास

करके स्थान स्थान पर ठहरते हुए यथा समय नैमिषारण्य में पदार्पण किया। यहीं पर धन, तथा गोदान करके ये लोग गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग पहुँचे, जहाँ सभी ने विधि से स्नान कराया तथा अक्षयवट, भारद्वाजाश्रम और भृगु तीर्थ के दर्शन किये। अनन्तर ये लोग हंसकूट (रत्नगिरि जिला पटना में) गये और कौशिकी नदी (कोसी) के पार उतरे। यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम विद्यमान था जहाँ विधि पूर्वक स्नान करके यह यात्रीसमाज गंगासागर (गंगा और समुद्र के संगम स्थल) पर पहुँचा। यहाँ स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर ये लोग समुद्र ही के किनारे चल कर कलिंग (उड़ीसा के दक्षिण और द्रविड़ के उत्तर) देश की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में वैतरणी नदी के पार करके समुद्र के किनारे चलते हुए ये पुण्य क्षेत्र गोदावरी पर पहुँचे। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके तथा ब्राह्मणों को दान देकर महाराजा युधिष्ठिर द्रविड़ देश को चले। इन्होंने अगस्त्यनारी (जिला नासिक में) और शूर्पारक (सुरत, सिंधार अथवा कालहापुर के दक्षिण में कोई स्थान) आदि तीर्थों को देखते हुए प्रभास क्षेत्र में (गुजरात में सोमनाथ मन्दिर के निकट) पदार्पण किया। वहाँ वृष्णिकुल के मुख्य मुख्य वीर पुरुष पाण्डवों से मिलने आये और उनकी दशा पर शोक मनाते रहे। श्रीकृष्णचन्द्र से विदा होकर पाण्डव लोग वैडूर्य पर्वत और नर्मदा नदी को गये।

अनन्तर सैन्धवारण्य पहुँच कर इन्होंने पुष्कर क्षेत्र में स्नान किया। फिर यमुना, सरस्वती, विपाशा आदि नदियों को पार करते हुए ये लोग कश्मीर में गये जो मानसरोवर का द्वार कहा गया है। यहाँ इन्होंने प्रख्यात वातिक खंड देखा जहाँ से गंगा नदी बहती है, जहाँ मैनाक पर्वत विद्यमान है और जिसे श्वेत मन्दिर पर्वत सुशोभित करता है। इसके उपरान्त यह समाज गन्धमादन पर्वत (जो बदरिकाश्रम से उत्तर पूर्व कुछ दूर से आरंभ होता है) पर गया। यहाँ से आगे की यात्रा बहुत कठिन देख कर और द्रौपदी से उसका होना असंभव समझ कर धर्मराज चिन्ताकुल हुए। तब राजा तथा द्रौपदी की आज्ञा लेकर भीमसेन ने हिडम्बा-पुत्र घटोत्कच को बुलाया। उसने बहुत से अनुयायियों समेत यात्रा में योग दिया और अशक्त

लोग राक्षसों के कन्धे पर बैठ बैठ कर चले और मार्ग में बहुत से देश पार किये गये। इस प्रकार जाते हुए इन लोगों ने रम्य पर्वत कैलास के दर्शन किये और उसी के समीप नर-नारायण का आश्रम देखा। इसी स्थान पर इन की यात्रा समाप्त हुई, अर्जुन ने आकर राजा के दर्शन किये और अपनी शस्त्र-शिखा की पूर्णता बतला कर उन्हें प्रसन्न किया। अब ये सब लोग फिर इधर उधर जंगलों में बने रहे।

उधर राजा दुर्योधन ने विष्णु यज्ञ करने का विचार किया और तब कर्ण ने उनके लिये भारत में दिग्विजय की। अनन्तर विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण हुआ। थोड़े दिनों में राजा युधिष्ठिर के वनवास का बारहवां वर्ष समाप्त हुआ और तेरहवें में मत्स्यपुर जाकर पाण्डव लोग नियमानुसार छद्म वेष में राजा विराट् की नौकरी करने लगे। यहां विराट् के साले कीचक ने द्रौपदी पर मुग्ध हो और उसे दासी मात्र समझ कर स्ववश करने के अनेक प्रयत्न किये, यहां तक कि भीमसेन को विवश होकर गुप्त रीति से उसका वध करना पड़ा। होते होते इनका अज्ञात वाला तेरहवां वर्ष भी समाप्तप्राय हुआ और ये प्रकट होने वाले ही थे कि कुछ कौरव राजकुमारों ने राजा विराट् के गोधन का हरण कर लिया। इस काल अर्जुन क्लीब वेष में विराट् पुत्री उत्तरा को नाचना गाना सिखाते थे।

अब इन्होंने युद्ध में कौरवों को पराजित किया और यह गुप्त भेद खुल गया। तब लोकापवाद के भय से विराट् ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह इन्हीं से करना चाहा, किन्तु अर्जुन ने यह कह कर कि बालिका उत्तरा मुझे सदैव आचार्य मानती थी और मैं उसे पुत्री समान देखता था, उसका विवाह अपने साथ अनुचित माना और विराट् का आदेश सफल करने को अपने ही पुत्र अभिमन्यु के साथ पाणिग्रहण करा दिया।

अब पाण्डवों ने प्रकट होकर दुर्योधन से अपना राज्य मांगा और बल संचित करना आरंभ किया। यह सुन राजा दुर्योधन ने भी अपने पक्षियों को निमंत्रित किया और दोनों ही ओर सेना एकत्रित होने लगी। राजा युधिष्ठिर की ओर वृष्णि वंशी सात्यकि, शिशुपाल

पुत्र चेदिराज धृष्टकेतु, जरासन्ध-पुत्र सहदेव और जयत्सेन, राजा पाण्ड्य और राजा विराट् एक एक अक्षोहिणी सेना लेकर आये, तथा पांचालराज द्रुपद दो अक्षोहिणी सेना लाये। कोई राजा नील भी इनके पक्ष में थे जो युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा मारे गये। उधर राजा दुर्योधन की ओर प्राग्ज्योतिष पति भगदत्त, वाल्हीक-नरेश सोमदत्त, मद्रपति शल्य, भोजनरेश कृतवर्मा, सिन्धु नरेश जयद्रथ, काम्बोजनरेश श्रुतायु, माहिष्मती-नरेश नील, अवन्ति के राजा बिन्द, अनुबिन्द और केकय-राजा सौदार्य आये। भगदत्त नरकामुर नामक एक ब्राह्मण का पुत्र था, किन्तु उसकी सेना में चीनी योद्धा भी थे (म० भा० II २५, १००८; V १८, ५८४)। महाभारतीय युद्ध के पीछे इस के पुत्र वज्रदत्त ने भी अश्वमेध के सम्बन्ध में अर्जुन से युद्ध किया। दुर्योधन के सहायकों में से बिन्द और अनुबिन्द के पास दो अक्षोहिणी थीं और शेष सहायकों के पास एक एक अक्षोहिणी। एक अक्षोहिणी में हाथी, घोड़े, रथ आदि के अतिरिक्त प्रायः १,६४,००० युद्धकर्ता मनुष्य होते हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण पथ, कुरु जांगल, पंजाब, मरुभूमि, रोहित कारण्य (करणवती उपनाम केन नदी के समीप वाले) कालकूट, अहिछत्र, दोआब (अन्तर वेद) आदि देशों के अनेक छोटे मोटे राजे दुर्योधन की ओर आये। अतः दुर्योधन के मुख्य सहायकों की सेना ११ अक्षोहिणी थी और इसके अतिरिक्त अमुख्य सहायकों की तथा घरू सेना विशेष थी। कृतवर्मा और सात्यकि दोनों यादव थे, किन्तु इन्होंने एक दूसरे से प्रतिकूल पक्ष लिये। इससे प्रकट होता है कि इसी काल से यादवों में दो प्रतिकूल दल हो गये थे, जिनका वैमनस्य श्रीकृष्ण के होते हुए भी न दूर हो सका। इसी विभ्राट् ने समय पर यादवों का विनाश किया जैसा कि आगे ज्ञात होगा। मद्रपति शल्य पाण्डवों के मामा थे, किन्तु सत्कार करके दुर्योधन ने उन्हें अपनी ओर कर लिया। उन्होंने शेष पंजाबी नरेशों का साथ देकर भी दुर्योधन का पक्ष लिया। देशों के अनुसार पाण्डवों के साथी हुये मत्स्य, चेदि, कारूष, काशी, दक्षिण पांचाल, पाश्चात्य मागध तथा पाश्चात्य यादव गुजरात सुराष्ट्र से। उधर दुर्योधन की ओर पंजाबी, उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणात्य शक्तियां थीं। इन में प्राग्ज्योतिष, चीन, किरात

(उत्तर पूर्व), काम्बोज, यवन, शक, मद्र, केकय, सिन्धु, सौवीर, भोज, दक्षिणपथ, आन्ध्र (दक्षिण पूर्व), माहिष्मती और अवन्ती भी थे ।

पाण्डवी दल का सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न हुआ और कौरवी दल के भीष्म पितामह । कई बार दोनों राजाओं के बीच दूत आये गये और युधिष्ठिर ने कहला भेजा कि या तो आधा राज्य दे दो अथवा पाँच प्रान्त ही सही । दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र तथा अन्य सुहृदों के समझाने पर भी सन्धि का प्रस्ताव न माना और साक्षात् श्रीकृष्ण के दूतत्व करने पर कहा, “बिना युद्ध के सूच्यग्र भी जमीन न दूँगा ।” पलटते हुए श्रीकृष्णचन्द्र ने कर्ण से कहा, “तुम कुन्ती के ज्येष्ठ पुत्र होने से पाण्डु के भी सहोद पुत्र हो । इसलिए सूतज-पन छोड़कर पाण्डवपद ग्रहण करो तथा सब से बड़े भाई होने से राज्य भी लो और युधिष्ठिर को युवराज बनाओ ।” कर्ण ने इतना भारी उत्कोच भी धर्म के आगे तुच्छ समझा और उत्तर दिया, “अब तक संसार में परमधर्मी और दानी का यश भोग करते हुए मैं अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात सा परम गरिष्ठ पातक कैसे कर सकता हूँ ?” श्रीकृष्ण के विफल मनोरथ रहने पर माता कुन्ती ने भी कर्ण के पास जाकर यही प्रस्ताव किया और अपने माता के पद का महत्त्व भी उसी में मिला दिया । कर्ण के पिता सूर्य ने भी इसी बात की सम्मति दी । माता कुन्ती ने यह भी कहा, “जब तुम और अर्जुन एक हो जाओगे, तब दुर्योधन अवश्यमेव सन्धि कर लेगा और क्षात्र-विनाश मिट जायगा ।”

इन गौरवपूर्ण सम्मतियों को सुनकर भी कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ना बड़ा ही गह्य कर्म मानता रहा और हाथ जोड़ कर बोला, “हे माता ! वीरपुरुष को राज्य-सुखार्थ धर्म छोड़ना शोभा नहीं देता । राजा दुर्योधन ने मुझे मन्त्री, भाई, भट, सखा सभी मानकर पाला है और मेरे ही बल के सहारे वह पाण्डवों को पराजित करना चाहता है । ऐसे स्वामी को ऐसे समय छोड़ना कीर्तिविनाशक और महान् अपराधकर है । अतः मैं आपकी आज्ञा न मानने में विवश हूँ किन्तु मानसिक भय के मिटाने को यह सच्चा प्रण करता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर आपके शेष चारों पुत्रों

को नहीं मारूंगा, जिससे पाँचों पुत्र जीवित रहेंगे अर्थात् अर्जुन के न होने से कर्ण और कर्ण के न होने से अर्जुन विद्यमान रहेगा।' यह सुन कुन्ती ने भावी को अमिट जानकर प्रिय वचन कह कर घर का रास्ता लिया और चलते समय इतना कह दिया कि युद्ध के समय इस प्रण को भूल मत जाना। अब दोनों ओर से युद्ध की अंतिम तय्यारी हुई और दोनों सेनायें युद्धार्थ कुरुक्षेत्र में पधारी।

जब कौरवों तथा पाण्डवों की सेनायें युद्धार्थ एक दूसरी के सम्मुख उपस्थित हुईं तब अर्जुन को निकट के सम्बन्धियों से युद्ध करने में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ने इनका सारथ्य ग्रहण किया था सो उन्होंने यह शैथिल्य देख गीता का ज्ञान समझा कर इन्हें युद्धार्थ सन्नद्ध किया। १८ दिन तक घोर युद्ध हुआ। इन १८ दिनों में कौरवी दल का नेतृत्व भीष्म पितामह ने दस दिन किया, द्रोणाचार्य ने पाँच दिन, कर्ण ने दो दिन और शल्य ने आधे दिन। इसके अलावा बीच में कई बार मिलाकर ८-१० दिन युद्ध बन्द रहा। इतने दिनों में अनेकानेक युक्तियों से पाण्डवों ने सारा कौरवी दल अशेष कर दिया और प्रधान पुरुषों में केवल कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा बच गये। उधर पाण्डवों की सात अक्षोहिणियों में भी केवल एक ही बची। दुर्योधन को मरणप्राय दशा में देखकर अश्वत्थामा ने महाक्रोध किया और बचे बचाये कौरवी दल की सहायता से रात में यह पाण्डवी दल भी अशेष कर दिया। अब पुरुष प्रधानों में पाण्डवों की ओर भी उन पाँच भाइयों के अतिरिक्त श्रीकृष्ण, सात्यकि और धृतराष्ट्र का वैश्यापुत्र युयुत्सु बच गये।

युद्ध में भीष्म का पराक्रम सब से बढ़ा रहा और द्रोणाचार्य ने सबसे अधिक पुरुष-प्रधानों का बध किया। कर्ण और अश्वत्थामा ने भी अच्छा पुरुषार्थ दिखलाया। कर्ण ने अर्जुन से इतर चारों पाण्डवों को जीतकर अपने प्रणानुसार छोड़ दिया पर अर्जुन के हाथ उसका विनाश हुआ। पाण्डवों की ओर अर्जुन सर्वप्रधान थे। उन्हीं के बल तथा श्रीकृष्ण की युक्तियों से राजा युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा करके दूर देश का प्रस्थान किया तथा कृत-

वर्मा द्वारावती चले गये और कृपाचार्य हस्तिनापुर जाकर अपने घर में पूर्ववत् रहने लगे। महाभारत का युद्ध अगहन और पूस में हुआ। भरद्वाजवंशी बहुत से ब्राह्मण एवं अन्य कुल आज तक भारतवर्ष में हैं। वे सब अश्वत्थामा के ही वंशधर हैं। इनके अतिरिक्त कहते हैं कि दक्षिण का पल्लव राजकुल अश्वत्थामा वाली शाखा का भारद्वाज वंशधर था तथा प्रसिद्ध वाकाटक सम्राट् भी इसी कुल के थे।

राजा युधिष्ठिर ने अब पूरे कौरवी राज्य पर अधिकार जमाया। इन्होंने राजा धृतराष्ट्र का सम्मान पूर्ववत् स्थिर रक्खा तथा कृपाचार्य, विदुर और संजय का भी यथेष्ट मान किया। भीष्म पितामह युद्ध में बहुत घायल हो गये थे किन्तु उसके पीछे कई मास पर्यन्त जीवित रहे। इन्होंने राजा युधिष्ठिर को नीति का उपदेश दिया जिसका विशद वर्णन महाभारत के शान्ति पर्व में है। महाभारत के युद्ध में इतना बड़ा जन-विनाश हुआ कि इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता था क्योंकि प्रायः ३५ लाख की हताहत संख्या पर विश्वास करना अबतक असंभव सा समझ पड़ता था, किन्तु अब योरोपीय महायुद्ध की हताहत संख्या को देखते हुए महाभारत में लिखित संख्या को कोई असंभव नहीं कह सकता।

राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पीछे अश्वमेध किया। अर्जुन हयरक्षक होकर गये और इन्होंने प्रायः सभी राजाओं को बड़ी सुगमता पूर्वक परास्त कर दिया। मणिपुर में इनका अपने पुत्र बभ्रुवाहन के साथ युद्ध हुआ और पुत्रस्नेह वश ये उससे हार भी गये किन्तु पीछे से मेल हो गया और उसने छोड़ा छोड़ दिया। प्रायः १२ वर्ष हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के समय में रहकर महाराजा धृतराष्ट्र गान्धारी, कुन्ती और विदुर समेत बनवासार्थ चले गये। थोड़े दिनों के पीछे यज्ञाग्नि से बढ़कर उस बन में भारी पावकप्रकोप हुआ जिसमें कुन्ती और गान्धारी सहित महाराजा धृतराष्ट्र जल मरे। विदुर का शरीरपात उनसे पहले ही हो चुका था।

राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन के पीछे ३६ वर्ष राज्य किया। इस वर्ष यादवों की घरू अशान्ति ऐसी उभड़ी कि थोड़े ही कारण से उनमें युद्ध हो पड़ा। इस काल वे लोग ऐसे मदोन्मत्त हो गये कि राजधर्म

छोड़ कर ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करने लगे थे जिससे कई ब्राह्मणों ने शाप भी दिये थे। फल यह हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्र के सामने ही कृतवर्मा और सात्यकि के पत्नियों में युद्ध होने लगा। श्रीकृष्ण के पुत्र पौत्रों ने सात्यकि का साथ दिया और जब भोजान्धक वंशियों ने सात्यकि, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गद, चारुदोष्ण आदि कुमारों तथा सरदारों का वध ही कर डाला, तब श्रीकृष्णचन्द्र भी मुशलाख लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। फल यह हुआ कि थोड़े ही समय में यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया। यह देख बलरामजी ने समुद्र में घुसकर अपना शरीर छोड़ दिया। श्रीकृष्णचन्द्र प्रभास के निकट एक वृक्ष के नीचे उदास मन लेते थे कि एक बहेलिये ने मृग समझ इनके ऊपर विषाक्त बाण चला दिया जिससे इनका भी शरीरपात हो गया। यह दुर्घटना देख दूसरे दिन कृष्ण-पिता वसुदेव भी मारे शोक के स्वर्गवासी हुए। यह बड़ी विचित्र बात है कि अयोध्यावासी रामचन्द्र के पिता दशरथ तथा द्वारकावासी श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव दोनों ही पुत्र-वियोग से मरे। परशुराम के अतिरिक्त भारत में यही दो सर्वोत्कृष्ट वीर हुए हैं।

जान पड़ता है कि आपस की फूट के अतिरिक्त कुछ शत्रु लोगों ने भी यादवों पर अत्याचार किये क्योंकि अर्जुन के पास दूत भेजते समय श्रीकृष्णचन्द्र ने कहला भेजा था कि तुम्हारे द्वारिका पहुँचने के सात दिन पीछे समुद्र इस नगरी को डुबो देगा। द्वारिकापुरी गुजरात प्रान्त में समुद्र तट पर है। शायद बेलजियम और हालैण्ड की भाँति यहाँ भी मोटी भीतें बना कर समुद्र से कुछ भूमि ली गई थी और नगर का मुख्य भाग उन्हीं भीतों के सहारे समुद्र से निम्नतर भूमि में बसा था। शत्रुओं ने शायद इन्हीं भीतों को फोड़ कर नगर का डुबाना चाहा था और इसी के लिये अर्जुन के आने की अवधि दी गई थी। यदि केवल समुद्र द्वारा नगर डूबने की बात होती, तो यादव लोग सारा राज्य छोड़ने के स्थान पर कुछ दूर हटकर नगर बसाने का प्रयत्न करते। समुद्र द्वारा केवल प्राकृतिक शक्तियों से नगर के डूबने में अवधि भी नहीं हा सकती थी। जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र वंशी, पंजाबी राजाओं की सहायता से पंचनद में बसे होंगे। ३६ वर्षों में बल सम्पादित करके भोजों आदि की सहायता से उन्होंने

यादवों को मारा तथा अर्जुन को हराया। काठियावाड़ के काठी क्षत्रिय अपने को धृतराष्ट्र वंशी कहते भी हैं। काठी लोग सिकन्दरी आक्रमण के समय पंचनद में रहते थे। यादव विनाश गान्धारी के शाप से हुआ, ऐसा महाभारत में भी कथित है। जान पड़ता है कि इन्हीं के वंशधर और मायके वाले यादव विनाश कर्ता मुख्य शत्रु होंगे। इसलिये शत्रु-शांका का विचार निश्चित समझ पड़ता है।

दारुक सूत के मुख से श्रीकृष्ण का यह सन्देशा सुनकर अर्जुन अकेले रथ पर चढ़कर द्वारिका पहुँचे और महाशोक ग्रस्त हो मृत यादवों की दाहक्रिया किसी प्रकार समाप्त करके सात दिन के भीतर धन, स्त्री, बच्चों, सेवकों, पुरजनों आदि को, तथा बहुत सा सामान साथ ले कुरुक्षेत्र को रवाना हुए। इसके अनन्तर ही द्वारावती समुद्र के पेट में लीन हो गई। इस दुर्वटना के पीछे जान पड़ता है कि कुछ यादव लोग दक्षिण को चले गये और शेष अर्जुन के साथ उत्तर को। समय पर दक्षिणात्य यादवों ने उस देश पर अपना शासन जमाया जिसका वर्णन यथास्थान आवेगा। इधर हतशेष यादव-समाज लिये हुए अर्जुन जिस काल पञ्चनद में ठहरे तब निस्महाय समझ कर लूट के लालच से इन पर आभीरों ने आक्रमण किया। राजसूय सम्बन्धी दिग्विजय में नकुल ने आभीरों को परास्त किया था। सम्भव है कि उसी का बदला लेने के लिए आभीरों ने कौरवों से मिलकर यह आक्रमण किया हो। शाकमूडित होने के कारण अर्जुन इनका सामना न कर सके और इन लोगों ने यादवों का सारा धन तथा सहस्रों स्त्रियाँ लूट लीं। बचे-खुचे सामान तथा मनुष्यों का साथ लेकर परम शाक-विह्वल अर्जुन कुरुक्षेत्र पहुँचे।

वहाँ से हार्दिक्य पुत्र तथा भोजपुर की स्त्रियों को अर्जुन ने मातृकावत नगर में स्थान दिया तथा इन्द्रप्रस्थ में आकर श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्र को वहाँ का राजा किया और सात्यकि के पुत्र को सरस्वती-तट का देश दिया। इन तीनों नवीन यादव राजाओं को अर्जुन ने राजनीति का उपदेश किया और द्वारका के पुरजन वज्र को सौंप दिये। मातृकावत बरार के निकट यादवों का पुराना प्रान्त था। पीछे यह भोजों का हो गया था। इन्हीं भोजों की शत्रुता से यादव विनाश

हुआ। ऐसे भोजों को अर्जुन ने मातृकावत दिया होगा, क्योंकि वह पहले ही से उन्हीं का था। अब अक्रूर की स्त्रियों तथा सत्यभामा आदि ने संन्यास ग्रहण करके जङ्गल का रास्ता लिया एवं रुक्मिणी, हेमवती, जाम्बवती और शैव्या ने अपना अपना शरीर अग्नि में जला दिया। वसुदेव की रानियों में से देवकी, रोहिणी, मदिरा और भद्रा पति के साथ सती हो गई थीं। इस प्रकार यादवों के पांच लाख योद्धा और असंख्य अन्य पुरुष आपस में ही लड़कर धराशायी हुए। इसके पीछे अर्जुन ने व्यास भगवान् की शरण में जा सब हाल कहकर मन्त्र पूछा। यह सुन उन्होंने सम्मति दी कि अब तुमको भी भाइयों समेत महाप्रस्थान करना चाहिये।

अनन्तर राजा युधिष्ठिर के पास जाकर अर्जुन ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया और व्यास भगवान् की अनुमति भी कही। पाँचों पाण्डवों तथा द्रौपदी की भी सम्मति महाप्रस्थान ही की हुई। बभ्रुवाहन को छोड़ पाण्डवों के बारहों पुत्र महाभारत-युद्ध में मर ही चुके थे और इन पाँचों भाइयों में केवल अर्जुन का पौत्र परीक्षित एक मात्र सन्तान रह गया था जो अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तरा का पुत्र था तथा महाभारत-युद्ध के कुछ मास पीछे ही उत्पन्न हुआ था। अब इसी युवक परीक्षित का राज्याभिषेक करके महाराजा युधिष्ठिर ने इसे नीति सिखलाई और सारी प्रजा इसी को सौंप दी। प्रजा लोगों ने इनसे महाप्रस्थान-संकल्प छोड़ने को बहुत कुछ कहा, किन्तु इन लोगों ने उसको न छोड़ा। राजा युधिष्ठिर ने युयुत्सु को राज्य-प्रबन्ध का भार दिया और कृपाचार्य से कहा, “मैं बालक परीक्षित आपको सौंपे जाता हूँ।” फिर रानी सुभद्रा से कहा, “तुम अपने पौत्र का नीति से पालन करना और इसकी वज्र से प्रीति सदा स्थिर रहे, ऐसा प्रयत्न करना।” इस प्रकार प्रजा एवं कुटुम्ब का प्रबन्ध करके द्रौपदी समेत पाँचों पाण्डवों ने सुन्दर वस्त्रालङ्कारों का त्याग करके वल्कल वसन धारण किये। उम काल सभी के हाहाकार से पृथ्वी आकाश गूँज गये। इन लोगों ने अपने ऊपर से अग्नि उतार कर पानी में डाल दी, फिर पूर्व दिशा को प्रस्थान किया। राज-परिवार तथा प्रजा लोग इनके साथ बहुत दूर तक चले गये। तब इन्होंने किसी प्रकार समझा बुझा कर पुरवासियों को

फेरा और फिर परीक्षित, कृपाचार्य और युयुस्तु को भी वापस किया। इनको जाते ही देख अर्जुन की स्त्री नागसुता उलूपी गंगा में धँसकर मर गई और बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा मणिपुर को चली गई। शेष राजमहिलायें रोती हुई परीक्षित को घेर कर हस्तिनापुर वापस आईं।

पूर्व दिशा को चलते हुए राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी और भाइयों समेत समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण की सम्मति से अर्जुन ने गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर समुद्र में डाल दिये। वहाँ से ये पश्चिम दिशा को चले। क्रम से गुजरात में जाकर इन्होंने जलमग्न द्वारिका का निरीक्षण किया। द्वारिका को प्रणाम करके ये उत्तर दिशा को चले और हिमाचल पार करके इन्होंने वहीं से मेरु का दर्शन किया और कुछ बालू-पूर्ण पृथ्वी को पार करके बर्फिस्तान को देखा। सुमेरु पर्वत कोई कोई काकेशस उपनाम काफ पहाड़ को कहते हैं और कोई रुद्र हिमालय को। इसका दूसरा नाम पंच पर्वत भी है। इसी में द्रौपदी समेत ४ पांडव मृत हो गये और केवल युधिष्ठिर बचे जो पर्वत पार करके इन्द्रपुरी को चले गये। यह इन्द्रपुरी अथवा अमरावती कौन सा स्थान है इसका निर्णय सुगम नहीं है। कुछ पंडितों का विचार है कि महाभारत-युद्ध वास्तव में कुरु स्त्रज्यों की लड़ाई थी। इन दोनों वंशों की मन मैत्री शतपथ ब्राह्मण (वैदिक अनुक्रमणिका II पू० ६३) में लिखी है। पतंजलि (IV १, ४) नकुल सहदेव को कौरव कहते हैं। दस ब्रा० जातक (४९५) में इन्द्रप्रस्थ कौरव्य कहा गया है और लिखा है कि युधिष्ठिर वंशी का वहाँ राज्य था। आश्वलायन गृह्य सूत्र (III ४) में वैशम्पायन महाभारताचार्य हैं। उनका नाम तैत्तिरीय आरण्यक (I ७, ५) तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी IV ३, १०४) में भी है।

महाभारत के समय का यह सूक्ष्म वृत्तान्त अब यहीं समाप्त होता है और इसके विषय में आधुनिक विचारों का कुछ दिग्दर्शन मात्र शेष है। इसी समय के पीछे से भारत में कलियुग का प्रारम्भ माना गया है। कलि के आरंभ का ठीक समय क्या है इस पर पण्डितों में कुछ मतभेद है। कुछ ज्योतिषियों का विचार है कि

महाभारत का युद्ध ६५३ गत कलि में हुआ। पुराणों में कलि का आरंभ कहीं कहीं महाभारत युद्ध या श्रीकृष्ण का मरणकाल माना गया है और कहीं परीक्षित का राजत्वकाल। अन्तिम दोनों समय प्रायः एक ही समझने चाहिये।

ब्राह्मण ग्रन्थों में राजा जनमेजय और परीक्षित के नाम हैं किन्तु पाण्डवों के नहीं। इसी से कुछ लोग संदेह करते हैं कि यदि पाण्डव ऐसे प्रतापी थे तो उनके नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में क्यों नहीं आये? इसी लिए उनका विचार है कि पाण्डव लोग थे ही नहीं। यह तर्क हमको बिल्कुल निस्सार समझ पड़ता है। ब्राह्मण ग्रन्थ धार्मिक हैं न कि ऐतिहासिक। उनमें राजकुलों का वर्णन केवल प्रसंगवश कहीं कहीं आ गया है। इसलिये उनमें किसी नाम विशेष के न आने से उसके अभाव सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इस तर्क का पूर्ण बल मान लेने पर भी इतना ही निष्कर्ष कष्टकल्पना से निकाला जा सकता है कि शायद पाण्डवों का इतना प्रताप वास्तव में न हो जितना महाभारत में वर्णित है। किसी वर्णन का अत्युक्तिपूर्ण होना एक बात है और बिल्कुल निर्मूल होना दूसरी। ब्राह्मण ग्रन्थों में देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम आया है तथा परीक्षित एवं जनमेजय के कई बार कहे गये हैं। बौद्धों के निकाय नामक ग्रन्थों में लिखा है कि प्राचीन काल से पुराणों के सुनने की सर्वसाधारण में प्रथा थी। इससे जान पड़ता है कि प्राकृत पुराण प्रायः नवीं शताब्दी बी० सी० से चले आने थे। भगवान् वेदव्यास ने अपने शिष्य लोमहर्षण को इतिहास रचित रखने का कार्य दिया था। प्राचीन राजकुलों के वंश वृत्त आज तक भली भाँति रचित हैं। ऐसी दशा में यह समझ में नहीं आता कि थोड़े ही काल में नितान्त भूटी कथायें पुराणों जैसे पवित्र ग्रन्थों में स्थान पाकर जन-समुदाय में पूज्य भाव से सुनी जातीं। अतः महाभारत की कथा को मिथ्या कहना हमारी समझ में अयोग्य है। यह बात दूसरी है कि उसके वर्णनों के कुछ अंश अत्युक्तिपूर्ण समझे जायें।

वर्तमान महाभारत में बहुत स्थानों पर ऐसे कथन आये हैं कि राजा दुर्योधन के अधिकांश कार्य अधर्मपूर्ण थे तथा पाण्डव लोगों ने

अधिकतर दशाओं में धर्म का ही पालन किया था। यदि यही बात यथार्थ होती तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और विकर्ण (दुर्योधन का भाई) से प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष इस घराऊ युद्ध में दुर्योधन का साथ कभी न देते। इससे जान पड़ता है कि महाभारत में दुर्योधन का अधर्म तथा पाण्डवों का धर्म बहुत बढ़ाकर लिखे गये हैं। यदि भीष्मादि दुर्योधन के अधर्मी समझते होते तो उसकी नौकरी छोड़कर चले गये होते, न यह कि द्रोण अपना राज्य तक छोड़ कर हस्तिनापुर में डटे ही रहते। जिस काल राजा दुर्योधन मरणावस्था में पड़े थे, तब अश्वत्थामा ने प्रत्यक्ष कहा था कि मुझे पिता के बध से इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि आपकी इस दशा से। स्वामि-कष्ट से खिन्न होकर ही अश्वत्थामा ने पाण्डवी दल को अशेष किया और फिर मरते हुए दुर्योधन के कान में पाण्डव-पुत्रों और द्रुपद-पुत्रों के बध का सुखद समाचार चिल्लाकर सुना दिया। इस पर दुर्योधन मरने का दुःख भूल हर्षगद्गद् हो गया और बोला, “तुम भीष्म, द्रोण और कर्ण से भी अधिक कार्य करके आज मुझसे उन्नत हो गये।”

जिस स्वामी से उसके धर्मवान् सेवक इतने अनुरक्त हों, वह अधर्मी कभी न रहा होगा। यदि वह गृहित कर्म करने वाला होता, तो पूरा कौरव कुल उसी की ओर कभी न होता। राजा शन्तनु के भाई बाल्हीक देश के राजा थे। उनके लिये कौरव पाण्डव दोनों समान थे किन्तु वे भी पुत्र पौत्रों समेत दुर्योधन के सहायक हुए। बाल्हीक का पौत्र भुरिश्वा बड़ा यज्ञकर्ता, धर्मी और योद्धा था। वह भी दुर्योधन ही की ओर आया। स्वयं नकुल के मामा शल्य ने दुर्योधन का पक्ष स्वीकृत किया। पाण्डवों की ओर वे ही लोग हुए जो उनसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे। जितने तटस्थ लोग थे वे सब दुर्योधन ही की ओर आये। इस कथन के उदाहरण स्वरूप भगदत्त, बिन्द, अनुविन्द, नील आदि एवं उपर्युक्त अन्य लोग हैं। जिस काल राजा दुर्योधन मरणावस्था के निकट था, तब उसने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र से वाद करते हुए अपने पक्ष की धार्मिकता और प्राबल्य का प्रतिपादन किया था। इस पर आसमान से उस पर सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि हुई और धन्य-धन्य शब्द हुआ तथा साध्यों और अप्सराओं ने दुर्योधन

का समर्थन किया, जिन बातों से पांडवों सहित स्वयं भगवान् का मुँह लटक आया। इस पर आपने भी स्वीकार किया कि यदि पाण्डव लोग अधर्म न करते तो लोकपालों के समान पराक्रमी कौरव सरदार सर्वदा अजेय रहते अथच पांडवों का पराभव होता।

ये कथन महाभारत के गदा पर्व में आये हैं। इनके असम्भव भाग निकाल डालने से प्रकट है कि उस काल सर्वसाधारण की सम्मति दुर्योधन की धार्मिकताके अनुकूल थी। अग्नि पुराण में यह भी लिखा है कि पाण्डव शक थे, अर्थात् पीछे से आर्य माने गये। जब पाण्डु हिमाचल में थे तभी पाण्डवों का जन्म हुआ ही था सो ये पहाड़ियों के पुत्र थे ही। उस काल के इन्द्र एक पहाड़ी राजा थे क्योंकि अर्जुन भी उनसे पहाड़ ही पर मिले थे। एक स्त्री से कई भाइयों के विवाह की चाल कुछ हिमाचल वालों में अब भी है। द्रौपदी का विवाह ऐसा ही था। पाण्डव लोग महात्मा अवश्य थे किन्तु उपर्युक्त बातें भी पुराणों में उनके प्रतिकूल पाई जाती हैं। इन बातों से समझ पड़ता है कि इस युद्ध में न्याय दुर्योधन ही की ओर था और पाण्डवों के विजयी होने से धीरे धीरे उनकी महिमा अधिक हो गई, यहां तक कि दुर्योधन का पक्ष धर्महीन कहा जाने लगा। कुल बातों पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि पाण्डवों के अस्तित्व पर संदेह करना अनुचित है। ब्राह्मण ग्रन्थों के पढ़ने से भी विदित होता है कि परीक्षित के निकटस्थ पूर्व पुरुषों में कोई भारी घटना हुई थी। यदि महाभारत का युद्ध वास्तव में केवल पाञ्चालों द्वारा कौरव-विजय होता, जैसा कि कुछ समालोचकों का कथन है, तो पुराणों में वास्तविक विजेता को दबा कर कृत्रिम पाण्डवों की विजय-प्रशस्ति बढ़ाने का कोई कारण न था और न ऐसा मिथ्यावाद अति शीघ्र पुनीत इतिहास का पवित्र रूप पा सकता था। इसी वंश के राजा संवर्ण को पांचालों ने जीता था सो उसका भी विस्पष्ट कथन महाभारत में विद्यमान है।

युधिष्ठिर के समय हम देखते हैं कि आर्य-सभ्यता का विस्तार दक्षिण में भी वैसा ही हो गया था जैसा कि उत्तर में। इस काल महाकान्तार वन पूर्णतया आर्यों से बस गया था, जिसमें अनेकानेक

राजे थे, जिनको सहदेव ने राजसूर्य के समय जीता। अतः इस समय में आर्यसभ्यता बढ़ चुकी थी।

राजा दुर्योधन का दामाद कृष्ण-पुत्र शाम्ब था। इसने शाकद्वीपी ब्राह्मण लाकर मुल्तान में बसाये और वहां सूर्य मन्दिर बनवाया। इन लोगों का भी दुर्योधन के वंशधरों से मेल रहा होगा। अर्जुन पर आक्रमण पंचनद में हुआ था जो मुल्तान के निकट है। समय पर दुर्योधन के वंशधर लोग दक्षिण की ओर बढ़कर सौराष्ट्र देश में जा बसे, जो इन्हीं के नाम पर काठियावाड़ कहलाने लगा, क्योंकि इन लोगों की जातीय संज्ञा काठी है। इस जाति के कई राजे अब भी काठियावाड़ में राज्य करते हैं। महाभारत के भारी युद्ध से कौरव-वंश में जो फूट पड़ गई थी, वही इनके पतन का कारण हुई, क्योंकि पांडवों की अधीनता में रहना पसन्द न करके धृतराष्ट्र के वंशधर पश्चिम को चले गये, जिससे इनका बल विभक्त होकर दोनों भाग बलहीन हो गये। काठी लोग सौराष्ट्र में पश्चिम पञ्जाब से आये हैं, यह निश्चित है। ये लोग अब भी अपने को धृतराष्ट्र-वंशी कहते हैं। इसी कौरव-पाण्डव-विच्छेद से कुरुवंश के बलहीन हो जाने के कारण इनके द्वारा पराजित जरासन्ध-वंश समय पर इनसे बढ़ गया, जिससे बहुत काल के लिए भारत में मगध की महत्ता स्थापित हुई जैसा कि हम आगे लिखेंगे।

इसी स्थान से महाभारत पर्यन्त भारतीय इतिहास समाप्त होता है और आगे हम कलि के राजवंशों का वर्णन करेंगे। केवल इतना कहना शेष है कि महाभारत के समय में दूसरों के अधिकारों का मान बहुत अधिक होने लगा था। कई राजाओं ने अन्यों को पराजित करके सम्राट् पद पाने का प्रयत्न किया, किन्तु किसी राजा ने दूसरे का राज्य नहीं छीना। इस अच्छे गुण से एक भारी दोष भी उत्पन्न हुआ कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहा और सामर्थ्य रखते हुए भी कई महाराजाओं ने सार्वभौम राज्य स्थापित न किया जिससे देश का बल न बढ़ा और महापुरुषों के सार्वभौम प्रभाव प्रायः उन्हीं के शरीरों के साथ अस्त हो गये और उनके उत्तराधिकारियों को न मिले। इस कथन के उदाहरण-स्वरूप सुदास, रामचन्द्र, जरासन्ध,

युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण हैं, जिनके उत्तराधिकारी सोमक, कुश, सहदेव, परीक्षित और वज्र नाममात्र को प्रतापी रह जाते हैं। यदि अकबर की भाँति ये लोग भी सार्वभौम राज्य स्थापित कर जाते, तो जहाँगीर, शाहजहाँ के समान इनके अयोग्य सन्तान भी सार्वभौम पद से बहुत शीघ्र वञ्चित न होते। केवल मौय्यों ने इस प्रणाली का सम्मान नहीं किया जिससे उन शासकों में कई एक बहुत प्रभावशाली हुए। भारतीयों ने आर्यसभ्यता-गृहीत राजाओं के राज्य निष्कारण नहीं छोड़े। इन लोगों में युद्धों के कारण राज्यलोभ से इतर होते थे। कालिदास ने कहा भी है कि यहाँ के राजे राज्य-लोभ से विजय न करते थे वरन् केवल यश के लिये। अतः हम देखते हैं कि कभी कभी अच्छे सिद्धान्त भी उचित से अधिक बल पाकर देश का विनाश कर देते हैं।

महाभारत के पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भारतीय २८ वेदव्यासों में एक हुये तथा इनके वंशधर वाकाटक समय पर भारतीय सम्राट् हुये और अन्य पल्लव वंशधर प्रायः छै शताब्दियों तक कांची राज्य के शासक रहे। अश्वत्थामा से ही भरद्वाज गोत्री कई ब्राह्मण वंश भी चले। अपने समय के सप्तर्षि में भी अश्वत्थामा की गणना हुई। दुर्योधन के वंशधर अब तक काठियावाड़ में कई नरेश हैं। श्रीकृष्ण के वंशधर कई पुस्तों तक माथुर नरेश रहे तथा दक्षिण में कई शताब्दियों तक एक अन्य शाखा शासक रही और अन्त में अलाउद्दीन द्वारा पराजित हुई। अजुन और कर्ण वंशियों वाले राज्यों के कथन आगे आवेंगे।

सौलहवाँ अध्याय

आदिम कलिकाल

९१४ से ५६३ बी० सी० तक

महाभारत के समय में हम लिख आये हैं कि चन्द्रवंशियों में तीन घराने प्रधान थे, अर्थात् मागध, कौरव, और यादव । मागधों का नेता जरासन्ध सम्राट् हुआ था किन्तु कौरवों ने उसे जीत कर युधिष्ठिर को सम्राट् बनाया । यादवों का घराना एक प्रकार से नौ बढ़िया था और उसका महत्व श्रीकृष्णचन्द्र के साथ बढ़ कर उन्हीं के साथ लुप्तप्राय हो गया । पुराणों में वज्र के वंशधरों में केवल प्रतिबाहु और सुचारु के नाम लिखे हैं जो उनके पुत्र और पौत्र थे । श्रीभागवत के अनुसार महाराजा वज्र ने इन्द्रप्रस्थ छोड़ मथुरा को राजधानी बनाया । जान पड़ता है कि जब जनमेजय के समय में नागों की अवनति हुई तभी कौरवों के मित्र वज्र ने अपने कुल की पुरानी राजधानी मथुरा प्राप्त की । वर्तमान जैसलमेर-नरेश का घराना वज्र का वंशधर है, किन्तु इसकी उन्नति बहुत पीछे से सम्बन्ध रखती है । आदिम कलि-काल में वज्र का कोई भी वंशधर महत्ता को न प्राप्त हुआ । रामचन्द्र का घराना महाभारत-काल में बृहद्बल, बृहदक्ष, उरुक्षेप आदि पर अवलम्बित था । इन लोगों ने उस काल कोई महत्ता प्रकाशित न की और अपने संकुचित राज्य की रक्षा पर ही ध्यान दिया । मागध घराना राजा बृहद्रथ के कारण बार्हद्रथ राजकुल कहलाता था । इनके प्रतिनिधि सहदेव, सोमाधि आदि ने भी कोई गरिमा न दिखलाई । राजा दुषद का पांचाल राजकुल उनके पौत्र धृष्टकेतु से ही समाप्तप्राय हो गया । हैहयों में भी इस

काल कोई प्रभाव न देख पड़ा। जान पड़ता है कि भारत-युद्ध और यादव-विनाश से यह प्राचीन राजकुल ऐसे थकित-पराक्रम हो गये थे कि थोड़े से धक्के से ही भरभरा कर गिर पड़े। जिन घरानों के राज्य जीवित भी रहे उनकी दशा मृतप्राय रही। पुराणों में आदिम कलिकालिक तीन राजाओं के वर्णन और शेष की संख्या मात्र लिखी हैं।


पौरव-कौरव-परीक्षित वंश

पार्जितर के अनुसार महाभारतीय युद्ध ९५० बी० सी० के लगभग हुआ, तत्पश्चात् ३६ वर्ष राज्य करके पाण्डवों ने महा प्रस्थान किया और अर्जुनात्मज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर में सम्राट् हुआ। वायु पुराण के अनुसार परीक्षित का जन्म महापद्मनन्द से १०५० वर्ष पूर्व हुआ, तथा वे महाभारतीय युद्ध के समय गर्भ में थे। महाभारत उनका राजत्व काल ६० वर्ष बतलाता है और यह भी कहता है कि गद्दी पाने के समय वे ३६ वर्ष के थे, एवं अन्त पर्यन्त, अर्थात् ९६ वर्ष की आयु तक, मृगयाशक्त रहे। इन कथनों से इनका राजत्व काल उचित से बढ़ा हुआ समझ पड़ता है। राय-चौधरी महाशय की सम्मति है कि पौरव कुल में एक ही परीक्षित हुए, दो नहीं। इनका नाम अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में है। श्रेष्ठ राजा थे। मद्र राजकुमारी मद्रावती से विवाह हुआ। इनके समय राज्य के कुरु जांगल, कुरु और कुरुक्षेत्र नामक तीन भाग थे। तैत्तिरीय आरण्यक इसे पुरु भारत वंश कहता है। महाभारत के अनुसार मृगया के सम्बन्ध में शृंगी ऋषि के पिता के गले में मृत सर्प डाल कर ये पुत्र द्वारा शापित हुए। जब कृष्ण के द्वारिका जाने पर जरासन्ध ने मथुरा पर अधिकार किया और उसके मरणोपरान्त वह अधिकार शिथिल हुआ, सम्भवतः तभी नागों ने वहां राज्य जमाया। महाभारतीय युद्ध में पूर्ण पराजय पाने से पंजाबी रियासतें बिलकुल शिथिल पड़ गईं, ऐसा समझ पड़ता है, क्योंकि तक्षशिला में नागों का राज्य स्थापित हुआ। वे मथुरा पर भी अधिकृत हुए और परीक्षित तक का सफल सामना कर सके, जिससे जान

पड़ता है कि हस्तिनापुर तक पञ्जाब में उनका सामना करने वाला कोई न था। उन्हीं से बिगाड़ होने पर तत्क्षक द्वारा राजा परीक्षित मारे गए। नागों का मुख्य राज्य तक्षशिला में था। महाभारत में तक्षकनामक नाग के काटने से मृत्यु लिखी है, किन्तु प्रयोजन नाग सरदार का है।

सम्राट् जनमेजय और वंश

परीक्षित के सन्तान निम्नानुसार हुए:—



निचल्लु और रथगृत्स के पीछे कौरवों का महत्व गिर गया। ऐतरेय ब्रा०, (१४) में वे राजा मात्र थे।

जनमेजय भारी सम्राट् हुए। इन्होंने नागों को हरा कर तक्षशिला पर भी अधिकार जमाया। शायद इन्हीं के विजयों से नागों का माथुर राज्य गिर गया और वहाँ कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ यादव का अधिकार जमा। उन्होंने नागों के जीतने में जनमेजय की सहायता की होगी, क्योंकि इन दोनों के मित्र राज्य थे। अनन्तर पितृ वध से क्रोधित जनमेजय ने खोज खोज कर नाग सरदारों का वध किया। वासुकि कुलज नीलरक्त, कौणप, पिच्छल, शल, चक्रपाल, हलीमक, कालवेग, प्रकालग्न, सुशरण, हिरण्यवाहु, कक्षक और कालदन्तक सरदार राजा जनमेजय की कोपाग्नि में जल कर स्वाहा हो गए। इनके अतिरिक्त तक्षक पुत्र शिशुरोम और महाहनु मारे गये तथा पुच्छाण्डक, माण्डलक, उड्धिभ, छरभ, भंग, शिली, सलकर, मुक, प्रवेपन और

मुद्गर नामक तक्षक वंशी अन्य सरदार भी मरे। और भी ऐरावत, कौरव्य, धृतराष्ट्र आदि के वंशधर असंख्य नागों का बध हुआ (महा-भारत)। जनमेजय ने नागवंश को लुप्तप्राय कर दिया और शायद इस पाप के विमोचनार्थ नाग-यज्ञ भी किया। नागराज वासुकि ने अपने भागिनेय आस्तीक को भेज कर जनमेजय से बहुत कुछ विनती कराई। तब इस नागारि ने शेष नाग कुल पर कृपा की। वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में लिखा है कि मथुरा में एक दूसरे के पीछे सात नाग राजे हुए। कालिया नाग को श्रीकृष्ण ने उस प्रान्त से खदेड़ा था। जरासन्ध के समय में अथवा उससे कुछ पीछे किसी शौरसेन राजा ने वहां राज्य किया था और तब नागों का अधिकार जमा था। यह प्रभाव जनमेजय और वज्र ने लुप्त करके वहां फिर से यादव राज्य स्थापित किया। परीक्षित के समय में तक्षशिला और कश्मीर पर भी नागों का अधिकार कथित है। अब तक्षशिला का राज्य जनमेजय के अधिकार में आया।

ब्राह्मण ग्रंथों में जनमेजय भारी विजेता लिखे हैं। महाभारत में वे तक्षशिला जीतते हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण में भी उनका सर्प सत्र लिखित है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जनमेजय सार्वभौम राजा होना चाहते थे। तक्षशिला जीतने से नानिहाल मद्रदेश में भी उनका प्रभाव समझ पड़ता है। यह मध्य पञ्जाब में था। एक पौरव नरेश सिकन्दर से लड़े। Ptolemy टालेमी पाण्डवों को साकल (सिया-लकोट) का शासक बतलाता है। जनमेजय ने दो अश्वमेध किए। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि एक में इन्द्रदेवापिशूनक ऋत्विज थे तथा ऐतरेय ब्राह्मण दूसरे का ऋत्विज तुरकावपेय को बतलाता है। गोपथ ब्राह्मण के समय जनमेजय एक प्राचीन शूर समझे जाते थे। किसी-किसी का यह भी विचार है कि ये यज्ञकर्ता दो पृथक जनमेजय हो सकते हैं। रामायण II ६४, ४२ में वे प्राचीन भारी नरेश थे। शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण, उनकी राजधानी आसन्दीवन्त कहते हैं। उधर महाभारत, रामायण II (८६) तथा पाणिनीय (२.१०, १) अष्टाध्याय में हस्तिनापुर राजधानी है। सम्भवतः लखनऊ इलाहाबाद या दिल्ली शिमला की भाँति उनकी दो राजधानियाँ हों। जनमेजय के

भाई भीमसेन, उग्रसेन तथा श्रुतसेन शतपथ ब्राह्मण, XIII (५, ४, ३) और शांख्यायन श्रौतसूत्र, XVI (९, ७,) में कथित हैं। महाभारत में उनके कुछ भाइयों का होना उल्लिखित है। वायु तथा मत्स्य पुराणों में निचलु तक सब के नाम हैं। इनके समय हस्तिनापुर गंगा में बह गया और कई सौ मील पूर्व हट कर कौशाम्बी बसाई गई। शांख्यायन श्रौतसूत्र का कथन है कि कौरव कुरुक्षेत्र से खदेड़े गए। छान्दोग्य उपनिषत् मट्ची (वर्षा के पत्थर या टीडी) द्वारा कुरु देश का उजाड़ होना कहता है। राय चौधरी का कथन है कि जनमेजय के पीछे राज्य के दो भाग हो गए, जिनमें मूल शाखा हस्तिनापुर में रही, तथा जनमेजय के भाई कृत्तसेन के वंशधर इन्द्रप्रस्थ में स्थापित हुए। यह शाखा कौशाम्बी बसने के पीछे तक बनी रही। जनमेजय के पीछे कौरवों पर भारी विपत्तियाँ आईं। एक राजपुत्र तथा बहुतेरी प्रजा पूरब की ओर गईं (राय चौधरी)। पार्जितर ने पौराणिक कथनों के आधार पर लिखा है कि निचलु दक्षिण पांचालों तथा सृज्यों से मिल कर कौशाम्बी गये। प्रयोजन यह है कि ये तीनों शक्तियाँ कौशाम्बी (वत्सराज्य) में एक होगईं। समय प्रायः ८२० बी० सी० था।

अब कौरवों का प्रभाव गिर गया और ये मांडलिक नरेश मात्र रह गए। निचलु के पहले अधिसीमकृष्ण कुछ प्रतापी थे। इनके समकालिक सूर्यवंशी दिवाकर और बार्हद्रथ सेनजित थे, ऐसा पुराणों में कथित है। अधिसीमकृष्ण को वायु पुराण सुनाई गई। इनके पीछे नं० (६०) निचलु से (नं० ८१) क्षेमक पर्यन्त यह वंश पुराणों में है। निचलु वंशी उदयन (नं० ७७) एक प्रतापी राजा थे, जिनका वर्णन आगे आवेगा। उनके पुत्र वहीनर शूर कहे गए हैं। पुराणों में अन्तिम नरेश (नं० ८१) क्षेमक दुर्बल कहा गया है। प्रधान के अनुसार उदयन ५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे। ३८२ बी० सी० के निटक महापद्म नन्द ने सारे क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसी समय यह राज्य भी डूबा।

जनक विदेहों की महत्ता

शतपथ ब्राह्मण V, १,१,१३, तथा बृहदारण्यक में जनक सम्राट्

हैं। उशस्ति चाक्रायण के समय कौरवों पर विपत्ति पड़ी। ये जनक के यहाँ आते जाते थे। इनके समय कौरवों की महत्ता तथा पतन दोनों कथित हैं। ऊपर शतपथ ब्राह्मण के आधार पर कहा जा चुका है कि इन्द्रोत देवाप या देवापि शौनक जनमेजय के समकालीन थे। उधर सत्ययज्ञ जनक के समय में थे तथा वे इन शौनक से बहुत पीछे के थे। धृति ऐन्द्रोत शौनक के चेले के शिष्य पुलुषि प्राचीन योग्य थे, जिनके चेले पौलुशि सत्ययज्ञ हुये। छान्दोग्य इन्हें बुडिल आश्वतराशिव तथा उद्दालक आरुणि का समकालीन कहता है और इन दोनों का जनक के यहाँ होना बतलाता है, बृहदारण्यक V (४,८) तथा III (७,१)। सत्ययज्ञ के एक शिष्य भी जनक से मिले (शतपथ ब्राह्मण XI ६,२, १,३)। शतपथ ब्रा० दसवां अध्याय यों कहता है :—

(शतपथ)

जनमेजय के समय वाले—तुरकावषेय

यज्ञवचस राजस्तम्बायन

कुश्रि

बृहदारण्यक

शांडिल्य

वात्स्य

वासकत्तायण

उद्दालक आरुणि

माहिस्थि

याज्ञवल्क्य

} जनक वाले

कौत्स

आसुरि

माण्डव्य

आसुरायण

माण्डूकायनि

प्राश्रीपुत्र आसुरिवासिन

सांजीवी पुत्र

सांजीवी पुत्र

सांजीवी पुत्र दोनों शाखाओं में वही हैं, जिससे सब की समकालीनतायें मिलती हैं। अतएव जनक जनमेजय से ५,६ गुरु शिष्य पीढ़ी नीचे हुए। यह समय डाक्टर राय चौधरी के अनुसार १५० या १८० वर्षों का था। अतएव इस वैदिक साक्षी से जनक परीक्षित से प्रायः २०० वर्ष पीछे हुए। परीक्षित के वंशधर इस काल पुराणों में पाँच ही लिखे हैं। पौराणिक से वैदिक साक्षी श्रेष्ठतर मानी जाती है। इससे जान पड़ता है कि अपनी वंशावली में निचल्लू का नम्बर पाँच छ पुश्यों के नीचे होगा।

कोशल और मिथिला राज्यों के बीच में सदानोर (राप्ती) नदी थी । मिथिला जातकों तथा पुराणों में कथित है । वह नैपाल में अब जनकपुर कहलाता है । वैदिक अनुक्रमणी I, (४३६) में नमीसाण्य मैथिली राजा हैं । सम्भवतः पुराण वाले प्राचीन निमि पहले थे और जातकों के निमि दूसरे । उद्दालक, आरुणि तथा बुडिल आश्वतराशिव उपनिषदों के अनुसार जनक तथा केकय अश्वपति दोनों के यहाँ जाते थे । सम्भवतः अश्वपति वंश का नाम था ।

जनक के समकालीन अन्य नव राज्यों के कथन

ब्राह्मण तथा उपनिषद् ग्रन्थों से जनक के समकालीन नौ और राज्य मिलते हैं, अर्थात् गंधार, केकय, मद्र, उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाल, काशी और कोशल ।

गन्धार

इसका कथन त्रेता तथा द्वापर युग के वर्णनों में भी आ चुका है । छान्दोग्य VI, (१४) में उद्दालक आरुणि गान्धारी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं । उद्दालक जातक (४८७) में उद्दालक तक्षशिला जाकर विद्या सीखते हैं । सेतकेतु जातक (३७७) कहता है कि उद्दालक के पुत्र सेतकेतु ने तक्षशिला में विद्या पढ़ी । उपनिषदों में भी इन श्वेतकेतु के बहुत से विवरण हैं । कौटिल्य चाणक्य वहीं के विद्यार्थी थे । गन्धार जातक (४०६) में कश्मीर और तक्षशिला गन्धार में थे । गन्धार राज दुह्यु-वंशी थे । निमि के समय में गन्धार में नग्नजीत राजा थे, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी (कुम्भकार जातक) । इनके पुत्र सर्वजीत हुए (शतपथ ब्रा० VIII १,४,१०) ।

केकय

जनक के समय केकयों का राजा अश्वपति था । शतपथ X,६,२, छान्दोग्य उ० V, ११,४, कहते हैं कि अश्वपतिने कई ब्राह्मणों को ज्ञान सिखलाया । इनमें आरुणि, औपवेशि, गौतम, सत्ययज्ञ, पौलुशि, महाशाल जाबाल बुडिल आश्वतराशिव, प्राचीन शाल औपमन्यव और उद्दालक आरुणि के नाम हैं । जैन ग्रन्थ कहते हैं कि केकय आधा

आर्य है। (Ancient History of Deccon) में आया है कि केकयों की एक शाखा ८८, १०१, ई० में मैसूर गई।

मद्र, उशीनर, कुरु

इसका विवरण ऊपर भी आ चुका है। मद्रगार सौगायनि तथा काप्य पतंजल यहीं के थे बृहदा उ० (७, १,)। काप्य पतंजल उद्दालक में आरुणि के गुरु थे। प्राचीन साहित्य में मद्र की प्रशंसा है, किन्तु महा-भारत कर्णपर्व में निन्दा है। उशीनर का भी विवरण ऊपर आया है। कौशीतकि उपनिषत् कहता है कि गार्ग्यवालाकि कुछ दिनों उशीनर देश में रहा। यह बालाकि काशीपति अजातुशत्रु और मैथिल जनक का समकालीन था।

शतपथ ब्रा० (XIII ५, ४, ९,) में मत्स्य राज्य ध्वसन द्वैतवन अश्वमेध करते हैं। महाभारत III (२४, २५) में द्वैतवन भील तथा जंगल है। मनु संहिता में यही ब्रह्मर्षि देश है। जनक के समय मत्स्य देश को कौशीतकि उपनिषत् गौरवान्वित मानता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि प्रोत कौशाम्बेय, जनक के यहाँ जाने वाले उद्दालक आरुणि के समकालीन थे। इस काल हस्तिनापुर के बह जाने से तथा मट्ची के उपद्रव से कौरव कौशाम्बी गये। अब से इनका प्रभाव गिर गया, किन्तु भारतों का प्रभाव शतपथ ब्रा० के समय तक रहा। XIII (५, ४, ११)।

पांचाल

निमि जातक ५४१ में अन्तिम कराल जनक से ही पूर्व निमि विदेह राज हैं। प्रवाहण पांचालपति जनक के समकालीन हैं। बृहदा० उ० VI २ तथा छान्दो० उ० (१, ८, १) में प्रवाहण, आरुणि तथा श्वेतकेतु से ज्ञान कथन करते हैं। दुर्मुख, पांचालपति, निमि के सम-कालीन थे। वे विजयी थे। जातक ५४९, उत्तराध्यायन सूत्र भासकृत स्वप्न वासवदत्ता तथा रामायण, I ३२, में चूलनि ब्रह्मदत्त पांचाल राज का नाम है। रामायण में इन्होंने कुश नाम की कुबड़ी कन्याओं से विवाह किया। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में यही संघ राज्य था।

काशी

अथर्ववेद में यहां के लोग विदेहों तथा कोशलों के साथ कथित हैं। श्वेतकेतु के समय में जल जातूकर्ण्य (शांख्यायन श्रौतसूत्र, XVI (२९, ५) काशी, विदेह, और कोशल के नरेशों का पुरोहित था। जातक (४०२) में काशी का एक जनक राजा था। काशीराज पौरव थे। अजातशत्रु तथा धृतराष्ट्र काशी के ऐसे राजे थे जिनके नाम इस काल पुराणों में नहीं हैं। द्वापर में एक अजातशत्रु काशीपति हमारे चौथे अध्याय की वंशावली में हैं। पुराणों में धृतराष्ट्र का काशीशों में नाम नहीं है। अजातशत्रु उपनिषदों में शिकायत करता है कि मैथिल जनक की उदारता के कारण पंडित लोग उसकी सभा में आते ही नहीं। शतपथ ब्रा० में धृतराष्ट्र काशीराज हैं। पौरवों के पीछे काशी में जो ब्रह्मदत्त वंश स्थापित हुआ, वह शायद वैदेह हो, ऐसा डाक्टर राय चौधरी का मत है। हरिवंश में श्रीकृष्ण के समय काशी में ब्रह्मदत्त नामक राजा का कथन है। सम्भवतः उसी समय से यह वंश वहाँ स्थापित हो गया। जातक (४२१) में ब्रह्मदत्त वंश नाम है। जातक (४१९) में वह विदेह पुत्र है। उपनिषदों में अजातशत्रु उद्दालक का समकालीन था। उद्दालक जातक अजातशत्रु को ब्रह्मदत्त कहता है। शतपथ ब्रा० (V ५, १४) में भद्रसेन, जो अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु ही कहा गया है। गुप्तिल जातक (२४३) काशी को भारत में मुख्य शहर बतलाता है तथा महावाग भी इसकी प्राचीन महत्ता कहता है। जैनों का कथन है कि काशिराज अश्वसेन ७७७ बी० सी० में मृत उनके तीर्थंकर (पार्श्व) के पिता थे। काशिराज धृतराष्ट्र अश्वमेध करते थे, किन्तु शतानीक शत्राजित ने उन्हें हराया। बृहच्छत्र जातक (३३६) में एक काशिराज श्रावस्ती में घुसकर कोशलेश को बन्दी बनाता है। अन्य जातकों के कई ब्रह्मदत्त काशीनरेश कोशल पर अधिकार स्थापित करते हैं। अस्सक जातक पोतलि अस्सक की राजधानी को काशिराज का शहर बतलाता है।

काशिराज मुंज कोशल, अंग और मगध को हराता है। विश्वकसेन, उदकसेन और भल्लाट समय-समय पर काशिराज थे। रैप्सन के

अनुसार काशीराज्य के पच्छिम वत्सराज्य था, उत्तर में कोशल राज्य और पूर्व में मगध। समय-समय पर वत्सों, कोशलों और मगधों ने काशी जीती। वत्सों और कोशलों की उन्नतियों के बीच में ब्रह्मदत्त के समय काशी बढ़ी। इसने बुद्ध से प्रायः १५० वर्ष पूर्व कोशल जीत लिया। ६७५ बी० सी० पर्यन्त काशी का अच्छा प्रभाव रहा।

कोशल

यह बहुत करके वर्तमान अवध प्रान्त में है। रामायण II ३२, १७, में चित्ररथ दशरथ के समकालीन थे। दशरथ जातक में दशरथ और राम वाराणसी के राजा हैं। शतपथ ब्रा० में कोशल राज्य कुरु पांचाल के पीछे किन्तु विदेह के पूर्व महत्तायुक्त है। प्रश्न उपनि० VI १ तथा शांख्यायन श्रौत सूत्र XVI ९, १३ में हिरण्यनाभ कौशल्य का नाम है। शतपथ ब्रा० XIII ५, ४, ५ में आप सुकेश भारद्वाज के समय में थे। ये भारद्वाज प्रश्न I १ में कौशल्य आश्वलायन के समकालीन थे। मभिक्षम निकाय II १४७ में यही आश्वलायन गौतम बुद्ध के समकालीन तथा सावत्थी के हैं। बुद्ध का जन्म ५६३ बी० सी० में हुआ। अतएव यही समय कौशल्य हिरण्यनाभ का है। यह नाम इस काल अपनी वंशावली में नहीं है, जिसमें यह समय महाकोशल, प्रसेनजित या विदूदभ का हो सकता है। हिरण्यनाभ इन तीनों में से किसी का शायद उपनाम हो। एक हिरण्यनाभ (कुशवंशी), (नं० ५६) थे, किन्तु उनका समय इनसे नहीं मिलता। इन कारणों से डाक्टर राय चौधरी का विचार है कि हिरण्यनाभ, प्रसेनजित और शुद्धोदन कोशल के अंशों के शासक थे। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती क्रमशः कोशल की राजधानियाँ हुईं। बौद्धकाल में अयोध्या गिर चुकी थी, किन्तु साकेत और श्रावस्ती भारत के षट् मुख्य नगरों में थीं। षट् जातक (४५४) अयोध्या नरेश कालसेन का कथन करता है। वंश, महाकोशल आदि की राजधानी श्रावस्ती थी। महावग्ग XVII (२९४) का कथन है कि ब्रह्मदत्त काशी नरेशों के समय कोशल छोटा सा राज्य था। ६२५ बी० सी० के निकट कोशल का अधिकार काशी पर हो जाता है।

अब पुराणों के अनुसार कोशल वंश का कथन होता है। रामचन्द्र

के पुत्र कुश का वंश द्वापर अथवा कलि के आदि में गिर चुका था । कलि में श्रावस्ती नरेश लव (रामपुत्र) के वंशधर बृहद्लण (नं० ५४) पहले राजा थे । इनके प्रपौत्र प्रतिव्योमात्मज दिवाकर (नं० ५८) पुराणों में पौरव अधिसीम कृष्ण का समकालीन कहा गया है । वे मध्यदेशान्त-गंत अयोध्या नरेश कथित हैं, जिससे जान पड़ता है कि इस काल तक कुशवंश का राज्य भी लव वंशियों के अधिकार में आ चुका था । भविष्य पुराण में दिवाकर का वर्णन वर्तमान काल में है । आदिम कलि काल वाले राजाओं के कथन पुराण ग्रंथ थोड़े ही में करते हैं । इनके पुत्र सहदेव विख्यात कहे गए हैं और तत्पुत्र बृहद्रथ महाशय । (नं० ६६) किन्नर को विजयी की उपाधि मिली है और (नं० ६७) अन्तरिक्ष को महान् की । (नं० ७३) रणजय बुद्धिमान हैं और तत्पुत्र सृजय युद्ध-प्रिय । सुमित्र (नं० ८०) के विषय में कथित है कि यह अन्तिम राजा था । इस के पीछे सूर्यवंश का राज्य नहीं चला । विष्णु पुराण में आया है कि (नं० ७५) महाकोशल के भाई शाक्य के पुत्र शुद्धोदन थे जिनके पुत्र गौतम बुद्ध हुए । इनके वंशधर क्रमशः राहुल, लुद्रक, कुंडक, सुरथ और अन्तिम (नं० ८२) सुमित्र थे ।

अतः दोनों वंशों के अन्तिम नरेश सुमित्र होने से यह दूसरी वंशावली कुछ संशयाकीर्ण हो जाती है ।

अंतिम काल में कोशल, वत्स, अवन्ती और मगध राज्य प्रधान थे । महाकोशल के पीछे प्रसेनजित कोशलेश पाँचों राजाओं में मुख्य थे । उस काल शाक्य वंश में वासभ खत्तिया नाम्नी एक दासी से एक राज-कन्या उत्पन्न थी, जिसका किसी प्राचीन वैमनस्य के कारण शाक्यों ने प्रसेनजित से विवाह कर दिया । इसी विवाह से उत्पन्न विदू-दभ पुत्र अन्त में कोशलेश हुआ । प्रधान के अनुसार ५३३ बी० सी० में प्रसेनजित गद्दी पर थे । इनके प्रपौत्र सुमित्र को महापद्म नन्द ने ३८० बी० सी० के निकट राज्यच्युत करके कोशल मगध में मिला लिया ।

मत्स्य

इसमें अलवर, जैपुर और भरतपुर के भाग थे । राजधानी वैराट जैपुर में थी । ऋग्वेद VII (१८, ६) में मत्स्य लोग सुदास से हारते

हैं। शतपथ ब्राह्मण XIII ५, ४ ९ में मत्स्यराज ध्वसनद्वैतवन अश्वमेध करते हैं। मनु संहिता में यह ब्रह्मर्षि देश है। कौशीतकि उपनिषत् में मत्स्य देश जनक के समय गौरवान्वित है। यहां संघ-राज था। महाभारत V ७४, १६ में राजा चेदि मत्स्य के भी शासक थे। म० भा० II ३२६, ४ में अपर मत्स्य चंबल के उत्तर पहाड़ी देश के शासक थे। रामायण II ७१, ५, में वीर मत्स्य कथित हैं।

विदेहों का फिर कथन

जातकों में आया है कि एक निमि जनक के पीछे राजा थे। कराल जनक के पीछे यह शाखा लुप्त हो गई। निमि जातक में कराल जनक के ठीक पहले निमि राजा थे। कुम्भकार जातक तथा उत्तरा-ध्ययन सूत्र में पांचालराज दुर्मुख, गन्धार राज नग्नजित तथा कलिंग राज करन्दु के निमि समकालीन थे। दुर्मुख के पुरोहित वाम-देवात्मज बृहदुक्थ थे (वैदिक अनुक्रमणी II ७१, १, ३७०)। वाम-देव सहदेवात्मज सोमक के समकालीन थे (ऋग्वेद IV १५, ७, १८)। सोमक का विदर्भ राज भीम तथा गन्धार राज नग्नजित से धार्मिक सम्बन्ध था (ऐतरेय ब्राह्मण VII ३४)। अर्थ शास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मण कुमारी से अनुचित व्यवहार करने से कराल विदेह तथा भोज दाण्डक्य अपने-अपने राज्य तथा सम्बन्धियों के सहित नष्ट हो गए। जनकों का राज्य टूटने पर मिथिला में वज्जिव संघ (प्रजातन्त्र राज्य) स्थापित हुआ। इसमें शायद काशीपति का हाथ था। बृहदा० उ० III, (८, २) में कथित है कि काशी और विदेह राज्यों में भगड़े प्रायः हुआ करते थे।

महाभारत XII, (९९, १, २) में काशीश प्रतर्दन का मिथिलश जनक से युद्ध कथित है। पालीटीका परमन्थ जोतिका, I (१५८, ६५) कहती है कि जो लिच्छवी वज्जियन संघ में मुख्य थे, वे काशी की राजकन्या के सन्तान थे। पीछे वाले जनक राजाओं के समय में कुछ आर्यों ने विन्ध्य पार करके दक्षिण में राज्य स्थापित किया। इनमें विदर्भ एक था। ऐतरेय ब्राह्मण VII (३४) में विदर्भ राज भीम नग्नजित के समकालीन थे। अतएव निमि के समय विदर्भ राज्य

वर्तमान था। करन्दु कलिंगराज भी निमि के समकालीन थे। अतएव उस काल कलिंग राज्य भी था। महागोविन्द सुत्तन्त II (२७०) में कलिंग राज सत्तभु, मैथिल राज रेणु, तथा काशिराज धृष्टराष्ट्र समकालीन थे। पाणिनि IV (१, १७०) तथा बोधायन I (१, ३०, ३१) कलिंग का कथन करते हैं, जिसकी राजधानी दन्तपुर नगर में थी। इस प्रकार उपर्युक्त साहित्य से सम्राट् जनक, रेणु, नमिसाण्य, निमि और कराल जनक के नाम इस काल के विदेह नरेशों में मिलते हैं।

दक्षिणात्य रियासतें

महागोविन्द सुत्तन्त में अस्सक राज्य गोदावरी पर है। वहां का ब्रह्मदत्त, रेणु तथा धृष्टराष्ट्र का समकालीन था। ऐतरेय ब्राह्मण VIII (१४) में भोजराज दक्षिण में है। उसकी प्रजा सत्वत है। शतपथ ब्राह्मण XIII (५, ४, ११, २१) में भोजों के अश्वमेध का घोड़ा लेकर भरत उन्हें हराते हैं। भरत का राज्य गंगा यमुना के निकट था। उसी के समीप यह भोज राज्य होगा। मत्स्य (४४, ३६) तथा वायु (९५, ३५, ३६) पुराणों में भोज विदर्भों की बिरादरी में थे। कालिदासीय रघुवंश V (३९, ४०) में विदर्भ राज भोज हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कई भोज राज्य हैं। दंडक भी भोजराज्य था, जहां की राजधानी सुम्भावती थी (जातक ५२२)। इन आर्य राज्यों के अतिरिक्त विन्ध्य के दक्षिण भारत में अनार्य आन्ध्र, शबर, पुलिन्द और मूतिब (ऐतरेय ब्राह्मण VIII (१८) भी राज्य करते थे। मत्स्य और वायु पुराणों में शबर और पुलिक दक्षिणपथ के निवासी हैं। कुछ शबर अब ग्वालियर तथा विज्जगा-पट्टम के पहाड़ में हैं। राय चौधरी के अनुसार पुलिक नगर दशार्ण के दक्षिण पूर्व विदिशा या भेलसा था। मूतिबों का निश्चय नहीं है। विदेहों के पीछे बिम्बिसार के समय तक वैदिक साहित्य कुछ अधिक नहीं कहता, किन्तु बौद्ध साहित्य सहायता देता है। सूत्रकाल में माहिष्मती (मान्धाता), भृगुकच्छ (भरोच), शूर्पारक (सोपर कोंकन), अश्मम (पौण्डन्य), मूलक (प्रतिष्ठान), कलिंग (दन्तपूर) और उकल (उत्कल अर्थात् उत्तरी उड़ीसा) की शक्तियां थीं।

मगध

द्वापर सम्बन्धी विवरण में हम भारतीय युद्ध के पीछे सहदेवात्मज (नं० ५४) सोमाधि को गद्दी पर देख आये हैं। इनकी राजधानी गिरिज्ज थी। पुराणों में इस वंश के राजत्वकाल निम्नानुसार हैं:—

नाम राजा	नम्बर वंशावली	वर्षों में राजकाल
सोमाधि	५४	५८
श्रुतश्रवस	५५	६४
अयुतायुस	५६	२६
निरमित्र	५७	४०
सुक्षेत्र	५८	५६
बृहत्कर्मन, सेन	५९	२३
१६ बाहर्द्रथ राजे		७२३

इस प्रकार केवल पांच पुश्तों के राजत्वकाल का जोड़ २६७ वर्ष है, जिससे प्रति पीढ़ी का परता साढ़े तिरपन वर्ष है। इसी प्रकार १६ राजाओं में यही परता प्रायः ४५ वर्ष आता है। पुरातत्वज्ञ ऐसे कथनों को अग्राह्य मानते हैं। अन्तिम नरेश नं० ७५ रिपुंजय ५६३ बी० सी० में गद्दी पर बैठे तथा ५१३ बी० सी० में अपने मंत्री पुणिक, पुलिक, मुनिक, शुनिक अथवा सुनक द्वारा मारे गए। गौतम बुद्ध का जन्म-काल ५६३ बी० सी० में है। मंत्री का वंश प्रद्योत कहलाता है जिसका वर्णन आगे यथास्थान होगा।

शुद्धोदन और गौतम बुद्ध का शाक्यवंश

सिद्धार्थ उपनाम गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन तथा पुत्र राहुल उपयुक्तानुसार लव वंश के नरेश थे। शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य लिखा है और पितामह का संजय। संजय से ऊपर वाले पूर्व पुरुषों के नाम क्रमशः रणञ्जय, कृतञ्जय, धर्मा, बृहद्राज, अमित्रजित्, सुपर्ण, अन्तरिक्ष, किन्नर, सुनक्षत्र आदि हैं। ये लोग कपिलवस्तु के राजा (संघ मुख्य) थे। पुराणों से यह पता नहीं चलता है कि इस वंश से अवध का राज्य कब छूटा और इसने कपिलवस्तु में कब शासन जमाया। कपिल वस्तु जिला गोरखपुर के उत्तर में एक विख्यात स्थान

हो गया है। इसकी ख्याति बौद्ध संसर्ग पर ही विशेषतया निर्भर है। बौद्धग्रन्थ महावंश लंका में पहली शताब्दी के लगभग लिखा गया। इसका ऐतिहासिक मूल्य पूर्णतया निर्विवाद नहीं है। पण्डितों ने इसमें बहुत सी ऐतिहासिक अशुद्धियाँ पाई हैं। फिर भी इसके बहुत से वर्णन शुद्ध भी हैं। इसके अनुसार अयोध्या-नरेशों में शाक्यों के अन्तिम पूर्व पुरुष महाराजा सुजात थे। पौराणिक राजवंश में सूर्यवंश का कोई भी राजा सुजात नहीं कहलाता था। महावंश के अनुसार सुजात की पटरानी से पाँच पुत्र और पाँच कन्याएँ उत्पन्न हुईं और जयन्ती नाम्नी रानी से जयन्त नामक एक छठा पुत्र था। महाराज ने जयन्त ही को अपना उत्तराधिकारी बनाया और पाँच पुत्रों को निर्वासित कर दिया।

ये लोग पाँचों बहिनों को लिए हुए काशीराज के यहाँ रहने लगे जहाँ इनके सुव्यवहार से प्रजा इनपर अनुरक्त हो गई। इस बात से शङ्का मान कर काशिराज ने भी इन्हें देश से निकाल दिया और तब ये लोग उत्तर चलकर महर्षि कपिल के आश्रम में पहुँचे और वहीं ऋषिवर के आदेशानुसार जंगल काट कपिलवस्तु नगर बनाकर बस गये। वहाँ क्षत्रिय जाति के अभाव में इन पाँचों भाइयों ने अपनी ही एक-एक बहिन के साथ विवाह कर लिया। यह सुन इनके पिता महाराजा सुजात ने विद्वन्मण्डली एकत्रित करके प्रश्न किया कि राजकुमारों का यह कार्य शक्य है अथवा अशक्य। विद्वानों ने आपद्धर्म के विचार से इसे शक्य होने की व्यवस्था दी और तभी से यह राजकुल शाक्य कहलाने लगा। विद्वानों की राजा के प्रतिकूल इस व्यवस्था देने से सिद्ध होता है कि उस काल के भी विद्वान् लोग आजकल ही के समान पक्षापात रहित थे।

सुजात नाम को पौराणिक वंशों के किस राजा का उपनाम समझना उचित है, इस प्रश्न का निर्णय कठिन कार्य है। पौराणिक वर्णनों के अनुसार राजा युधिष्ठिर के समकालिक सूर्यवंशी राजा बृहद्बल अयोध्यानरेश न थे वरन् साकेत (अवध) में एक दूसरे प्रान्त के स्वामी थे, तथा अयोध्या में एक दूसरा ही राजा था। बृहद्बल के वंशधरों ने पीछे अयोध्या का राज्य पाया। इस कुल के अन्तिम राजा

सुमित्र और उसके पूर्व पुरुष पौराणिक वर्णानुसार स्वयं गौतम बुद्ध की सन्तान थे। महावंश के प्राचीन नाम पौराणिक सूर्यवंश के नामों से नहीं मिलते हैं। यह ग्रन्थ लङ्का में सिंहली भाषा में लिखा गया था। इतनी दूरी पर सुने सुनाये नाम लिखने से विरोध का होना स्वाभाविक ही है और इसके मिटाने का प्रयत्न भी व्यर्थ समझ पड़ता है, क्योंकि गौतम बुद्ध की वंशावली के पौराणिक वर्णन भी निश्चित नहीं समझ पड़ते, जैसा कि ऊपर आ चुका है। विष्णु पुराण द्वारा कथित वंशावली हम दे ही चुके हैं। अब सूक्ष्मतया महावंश का भी कथन लिखे देते हैं।

शाक्यवंशी राजा उत्कामुख के अमृता नाम्नी कन्या हुई जो वयस्क होने पर कुष्ठ रोग ग्रस्त हो गई। यह देख राजकुमारों ने उसे हिमाचल की एक गुफा में छोड़ दिया। वहाँ कोलि नामक राजर्षि के प्रयत्न से राजकन्या रोगविहीना हुई और इन दोनों का विवाह भी हो गया। कोलि और अमृता के पहाड़ ही में रहते हुए ३२ पुत्र उत्पन्न हुए और वयस्क होने पर माता की आज्ञा से ये लोग कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ शाक्य महाराजा ने इनका अच्छा स्वागत करके रोहिणी नदी के पूर्व स्थान दिया जहाँ ये लोग कोलिग्राम बसा कर रहने लगे। इन लोगों का शाक्य कुमारियों के साथ विवाह हुआ और ये कोलिय कहलाने लगे। बहुत दिन पीछे देवदह के कोलिय राजवंश में राजा सुप्रभूत के माया और महाप्रजावती नाम्नी दो कन्याएँ और पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। इधर शाक्यवंश में राजा सिंहनु के पुत्र राजा शुद्धोदन हुए जिन्होंने उपर्युक्त दोनों कन्याओं के साथ विवाह किया। इन्हीं महाराजा शुद्धोदन और मायादेवी के पुत्र प्रसिद्ध महात्मा गौतम बुद्ध हुए।

महाराजा शुद्धोदन परम सच्चरित्र पुरुष तथा प्रजावत्सल संघ मुख्य नरेश थे। इनकी प्रकृति बहुत शान्त थी। अनेक यज्ञादि करने पर शुद्धोदन से पैंतालीसवें वर्ष वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में उनकी रानी मायादेवी के गर्भ रहा। बौद्धग्रन्थ ललित विस्तार में लिखा है कि गर्भाधान के थोड़े ही दिन पीछे महामाया ने स्वप्न देखा कि “एक महात्मा जिसका वर्ण हिम रजत के समान स्वच्छ था और जिसकी

प्रभा चन्द्र सूर्य के समान थी, उसके उदर में प्रवेश कर गया।’ ब्राह्मणों का मत हुआ कि इस स्वप्न का फल यह है कि रानी का बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध। अब तक शुद्धादन के कोई सन्तान न थी इसलिए इस गर्भाधान से बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। महामाया की इच्छा थी कि पुत्रात्पत्ति उसके पिता के घर में हो। इस विचार से पति की सम्मति ले अपनी बहिन प्रजावती के साथ वह दवदह के लिए प्रस्थित हुई। शाक्य राज्य हा में राजा के बनवाये हुए लुम्बिनी कानन में उनकी रानियां ठहरीं। शुद्धादन भी लुम्बिनी कानन तक उन्हें पहुँचा कर वापस चले गये। लुम्बिनी में रात का महामाया ने चार स्वप्न देखे, एक यह कि छः दाँता वाला एक सुन्दर श्वेत गज उसके उदर में घुस गया। दूसरा यह कि वह आकाश में उड़ रही है और अन्तिम दो स्वप्न थे कि वह एक ऊँचे पहाड़ से उतरती है तथा सहस्रों मनुष्य उसके सामने दण्डवत् करते हैं। इसी कानन में महामाया को ऐसे समय में प्रसव-वेदना हुई जब वह उद्यान में सैर कर रही थी। रानी प्रसव-वेदना से विकल हो एक साल-वृत्त की डाली पकड़ कर खड़ी हुई थी जब बुद्ध महात्मा का जन्म हुआ। यह शुभ समय माघ पूर्णिमा ५६३ बी० सी० का है।

सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हम यहाँ समाप्त करते हैं। शेष इतिहास आगे के अध्यायों में यथास्थान लिखा जायगा। पुराणों में लिखा है कि उपयुक्त ऐदवाकु दिवाकर, के समय पर्यन्त बाहद्रथ सेन-जित तथा कौरव राज (अधिसीम कृष्ण) के पीछे महापद्मनन्द तक राजे निम्नानुसार हुए:— २७ पांचाल नरेश, २४ काशिराज, २८ हैहय भूपाल, ३२ कलिंगपति, २५ अश्मक भूपति, २४ ऐदवाकु नरपात, २६ कौरव-पौरव नराधप, २८ मैथिल नृप, २३ शौरसेन महापति और २० वात-होत्र नरपाल। इसी काल में विदिशानरेश नागराज शेष का पुत्र भोगी, शत्रुओं का पराजित करने वाला हुआ। वायु पुराण के अनुसार इसका नाम पुरञ्जय था। इसने नाग वंशियों का पराक्रम बहुत बढ़ाया। इसके वंशधर रामचन्द्र, चन्द्रांशु, नृखवन्त, धनधर्मण, वगर और भूतनद प्रसिद्ध राजे हुए। उपयुक्त अनकानक राजकुलों में से अनेकों का अस्तित्व नाम मात्र का अथच अनिश्चित था। आदिम कलिकाल के

अंत में इनमें से बहुत कम घराने जीवित पाये गये; जो बच गये वे महापद्मनन्द द्वारा ३८२ बी० सी० तक नष्ट हुये ।

सोलह रियासतें

गौतम बुद्ध के समय मगध में बिम्बिसार नरेश थे । अन्तिम विदेहों के पीछे से बुद्धकाल के पूर्व तक सोलह रियासतों का कथन आया है । बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय इनके नाम निम्नानुसार कहता है—

काशी, कोशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतिय (चेदि), वंस, (वत्स), कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गन्धार और काम्बोज । ये सब महाजनपद कहलाते थे । ये कलार जातक तथा महाकोशल के बीच में हुए । यही नामावली जैन भगवती सूत्र में निम्नानुसार है:—अंग, वंग, मगध, मलय, मालव, अच्छ, कौच्छ, पाद, पांड्य, लाढ़ (राढ़), वज्जी, मोलि, काशी, कोशल, अवह और शम्भुत्तर । मालव शायद अवन्ती एवं मोलि मल्ल हैं । इनमें से काशी, कोशल और मत्स्य के विवरण ऊपर आ चुके हैं । जातकों में लिखा है कि काशी राज्य का फैलाव किसी समय २००० वर्गमील था । कोशल की श्रावस्ती वर्तमान नैपाल में गोरखपुर से उत्तर पश्चिम ७० मील की दूरी पर है । इस काल कोशलों का राज्य बनारस और साकेत पर भी था और शाक्यसंघ इनको अधीश्वर मानता था । कोशल राज्य, दक्षिण में गंगा और पूरब में गण्डक तक फैल चुका था । किसी कोशलेश वंश ने काशी जीतने का प्रयत्न किया तथा कंस काशी विजेता कहलाता था ।

अंग

अंग राज्य मगध के पूर्व था । चन्दन नदी दोनों राज्यों के बीच में थी । राजधानी चम्पा वर्तमान भागलपुर के निकट है । इसके मगध से युद्ध हुआ करते थे । पहले यहाँ महाभारत में प्रसिद्ध कर्ण का राज्य था । जातक (५४५) राजगृह को अंग का शहर कहता है । गौतम बुद्ध के समय चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस बड़े शहर थे । व्यापारी लोग जहाजों पर चम्पा से स्वर्ण-भूमि तक जाते थे । अथर्ववेद (V२२, १४,) में आंगों, मूजवन्तों, गान्धारों तथा

मागधों के कथन हैं। ऐतरेय ब्रा० VIII (२२) में अंग वैरोचन राजा थे। महागोविंद सुत्तंत में धतरस्थ अंगपति थे। अंग के पुत्र दधिवाहन उत्तराधिकारी थे। कहते हैं कि उनकी कन्या चन्द्रवाला स्त्रियों में पहली महावीर की शिष्या जैन थी। पौराणिक वंशावली के अनुसार कोई अंग और दधिवाहन त्रेता में भी पड़ते हैं। कौशाम्बी नरेश शतानीक (नं० ७६) ने चम्पा पर धावा किया। अंगपति ब्रह्मदत्त ने मगधपति भट्टिय को हराया। वत्सपति अंगराज के साथी थे। कौशाम्बी नरेश (७७) उदयन ने वृद्ध वर्मन को फिर से अंगपति बनाया। (प्रियदर्शिका अंक IV, बिबिसार ने अपने पिता के समय ब्रह्मदत्त से अंग जीत कर मगध में मिला लिया।

मगध

इसमें वर्तमान पटना और गया जिले हैं। गिरिब्रज या गया के निकट पुराना राजगृह राजधानी थी। ऋग्वेद III ५३,४ में प्रमगंड कीकट नरेश था। यास्क निरुक्त (६,३२) कीकट को अनार्य कहते हैं। अभिधान चिन्तामणि में कीकट मगध है। अथर्ववेद V (२२,१४) में मगध का कथन है। पहले मागध बुरे थे। शांखायण आरण्यक में इनका मान हुआ। महाभारत में बृहद्रथ पहले मगधपति हैं। ऋग्वेद I (३६ १८ X ४९,६) में जरासन्ध से असंबद्ध बृहद्रथ हैं। उस काल इसमें ८०००० ग्राम लगते थे और यह विन्ध्याचल तथा गंगा, चंपा और सोन नदियों के बीच में था। इसकी परिधि २३०० मील कही गई है (रिजडेंबिड्स)। गौतम बुद्ध की उत्पत्ति से पीछे वाला मागध विवरण यथा स्थान आवेगा।

वज्जी, वज्जी

इस काल यह प्रजातंत्र राज्य था। इसका फैलाव २३०० वर्गमील बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। मिथिला वैशाली से उत्तर पच्छिम ३५ मील पर है। इसी के निकट जनकपुर नामक स्थान है। विदेह राज्य टूट कर ही वज्जी संघ बना। इसमें निम्न कथित अष्ट कुल थे:—विदेह, लिच्छवि, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोग, ऐच्चाकु और कौरव। पहले चार प्रधान थे। विदेहों की राजधानी मिथिला थी तथा लिच्छवियों की वर्तमान

मुजफ्फर नगर जिले में वैशाली (प्राचीन विशाला पुरी) थी। क्षत्रियों की राजधानियाँ वैशाली के निकट, कुंडपुर और कोल्लाग थीं। इनमें सिद्धार्थ और तत्पुत्र महावीर जिन थे। वज्जी का कथन पाणिन IV (२, १३१) में है। वैशाली पूरे संघ की भी राजधानी थी। उसके तीन भाग थे। वैशालिक वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु पुत्र विशाल थे (रामायण के अनुसार) तथा पुराणों में वे नाभाग के वंशधर थे। विशाल के पीछे हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धूम्राश्व, सृजय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुत्स्थ और सुमति का होना राय चौधरी कहते हैं। सहदेव और सृजय शतपथ ब्राह्मण II (४४, ३४) में हैं। लिच्छवि बाहरी न होकर असली क्षत्रिय थे। वे जैनों तथा बौद्धों के सहायक थे। महावीर जिन तथा कुणिक अजातशत्रु की मातायें लिच्छवि थीं।

मल्लसंघ

मल्ल के दो भाग थे, जिनकी राजधानियाँ कुशिनारा या कुशावती, और पावा थीं। चानी यात्री ह्यूयनसांग के अनुसार यह पहाड़ी राज्य शाक्य के पूर्व और वज्जी के उत्तर में था, किन्तु अन्यों का विचार है कि यह संघ राज्य वज्जी के पूर्व और शाक्य के दक्षिण में था। कुशिनारा कमिया के निकट था। पावा वर्तमान पड़रौना है। मल्लों और लिच्छवियों को मनु व्रात्यक्षत्रिय कहते हैं, शायद इनके जैन बौद्ध प्रेम के कारण। लिच्छवियों ने जाट गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त को अपनी कन्या भी ब्याही। विदेह के समान पहले मल्ल भी राजतन्त्र था। कुश जातक में ओवकक (ऐक्ष्वाकु) मल्ल राज थे। अन्य राजा महासुदसन थे। महाभारत ii (३०, ३) में भी एक मल्ल-राज थे। भोग नगर, उलूपिया और उरुवेल-कण्य भी मल्लों के नगर थे। बिम्बिसार के पूर्व मल्लसंघ था। जैन कल्पसूत्र कहता है कि ९ मल्ल तथा ९ लिच्छवियों ने मिलकर काशी कोशल के १८ गण राजस बनाये। समय पर मगध ने मल्ल भी जीत लिया।

चेतिय या चेदि

इस राज्य के दो उपनिवेश थे, जिनमें एक नैपाल में और दूसरा

कौशाम्बी के पूर्व पुराने चेदि बुन्देलखंड तथा निकट के देश में था और कभी नर्मदा तक फैलता था। राजधानी सुत्तिमती थी। ऋग्वेद VIII (५, ३७, ३९) दानस्तुति कशु चैद्यु का कथन करता है। चेतिय जातक यों राजवंश देता है:—महासम्मन, रोज, वररोज, कल्यान, वर कल्यान, उपोसथ, मान्धाता, वर मान्धाता, चर, उपचर या अपचर। शायद यही महाभारत के उपरिचर वसु हों। जातक तथा महाभारत दोनों इनके पांच-पांच पुत्र बतलाते हैं। जातक ४८ कहता है कि काशी से चेदि के मार्ग में डाकू लगते थे।

वंश वत्स

इसकी राजधानी कौशाम्बी (वर्तमान कोसम) प्रयाग के निकट थी। रामायण I (३२, ३-६) तथा महाभारत I (६३, ३१) कहते हैं कि चेदि राज ने कौशाम्बी बसाई। काशी राज (नं० ३९) वत्स वंशकर थे (हरिवंश २९. १३, महाभारत XII ४९, ८०) शतानीक (दूसरे) पौरव (नं० ७६) ने विदेह राजकुमारी से विवाह किया तथा दधिवाहन के समय अंग पर आक्रमण किया। जातक (३५३) कहता है कि संसुमार गिरि का भर्गराज्य वत्स का करद था।

कुरु

जातकों में इन्द्रप्रस्थ पर युधिष्ठिर के वंशजों का राज्य लिखा है, तथा धनंजय कौरव्य और सुतशोम के नाम शासकों में हैं। राष्ट्रपाल कौरव सरदार थम। जैनों के उत्तराध्यायन सूत्र में कुरुदेश के इशुकार नगर में इशुकार राजा लिखे हैं। सम्भवतः यह परीक्षित की उस दूसरी शाखा के शासक थे, जिसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ तथा इशुकार थी। अनन्तर कौटिल्य के अनुसार कुरु देश में संघ राज्य स्थापित हुआ।

पांचाल

यहाँ के दुर्मुख निमि के समकालीन थे। दुर्मुख विजयी कहे गए हैं। चूलनि ब्रह्मदत्त पांचाल राज्य का कथन जातक (५४६), उत्तराध्यायन सूत्र, भासकृत स्वप्न वासदत्ता, तथा रामायण, I ३२, में है। कौटिल्य यहां भी संघ राज्य बतलाते हैं।

शूरसेन

कञ्चान बौद्ध के समय सूरसेनों के राजा अवन्तिपुत्र थे। उनके द्वारा मथुरा प्रान्त में बौद्ध धर्म फैला। काव्य मीमांसा में कुविन्द सूरसेन राजा थे। मेगास्थानीज के समय में शूरसेन लोग थे।

अस्सक (अश्मक)

सुत्तनिपात (९७७) अस्सक को गोदावरी के निकट बतलाता है। यह महाराष्ट्र में था। पाणिनि IV (१, १७३) में यह दक्षिणात्य प्रान्त है। यह जाति उत्तर पच्छिम में भी थी, जिसे ग्रीक लोग असिकनोई कहते हैं। द्रोणपर्व में भी अश्मक पुत्र का कथन है। राजधानी पोतन या पांतलि थी। यही महाभारत का पौदन्य था। मूलक इसके दक्षिण था। अनेन्तर अश्मकों ने मूलक और कलिंग पर अधिकार किया। सीमनन्द जातक में अस्सकों का अवन्ति से सम्बन्ध है। वायु पुराण ८८ (१७७, ८) में अश्मक और मूलक ऐच्चाकु हैं। ये दक्षिण कोशल के सूर्यवशी राजे थे। महागोविंद सुत्तन्त में निम्न लिखित लोग समकालीन हैं:—ब्रह्मदत्त अस्सक राज, सत्तभु कलिंगराज, वैस्सभु अवन्तिराज, भरत सोवीर राज, रेणु विदेहराज, धतरत्थ अङ्गराज, धतरत्थ काशिराज। चुल्ल-कलिंग जातक में अरुण अस्सक राज कलिंग जीतता है।

अवन्ती

जब वीतिहोत्र और अवन्ति का बल समाप्त होगया तब एक मंत्री ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया। इसी को चण्ड प्रद्योत भी कहते थे। चौथी शताब्दी बी० सी० में अवन्ती मगध राज्य में आ गई थी।

गन्धार

निमि के समय गन्धार में नग्नजीत थे, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी (कुम्भकार जातक)। इनके पुत्र सर्वजीत हुए। छठी शताब्दी बी० सी० में पुष्कणाति गन्धार पति थे, जिन्होंने बिम्बिसार

को पठौनी भेजी तथा युद्ध में प्रद्योत को हराया। पाण्डवों ने गन्धार को धमकाया तथा फारस ने उसे जीत लिया। ५१६ बी० सी० वाले डेरियस की प्रजा में गन्धार लोग भी थे। गन्धार में पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान और उत्तरी पच्छिमी पंजाब थे। राजधानी तक्षिला थी।

काम्बोज

यह प्रान्त उत्तरापथ में गन्धार के निकट था। राजपूर इसका राज घर था। ह्यूयन्त्सांग का राजपुर पुंच के दक्षिण या दक्षिण पूर्व था। इसकी पच्छिमी सीमा काफ़रिस्तान से मिली थी। यास्क के समय काम्बोज भारतीय आर्यों से पृथक् थे। वंश ब्रा० में काम्बोज औपमन्यव ऋषि हैं। भूरिदत्त जातक, (५४३) में उनके जंगली रिवाज थे। ह्यूयन्त्सांग भी ऐसे ही कथन करते हैं। नन्दिनगर काम्बोजों का शहर था। महाभारत में चन्द्र वर्मन और सुदक्षिण काम्बोज थे। उस काल यह राज शक्ति है किन्तु कौटिल्य में संघ शक्ति। राजधानी द्वारिका थी।

उपरोक्त १६ रियासतों के विवरण में जहाँ आधार नहीं लिखा है, वहाँ डाक्टर राय चौधरी या रिजडेविड्स का आधार समझना चाहिए।

कर्ण पर्व में पांचाल, कुरु, शाल्व, मत्स्य, शूरसेन, नैमिष और चेदि प्रशंसनीय हैं, तथा आंगों, गन्धारों एवं मद्रकों की निन्दा है। महाभारत के विविध वर्णनों के समय अनिश्चित हैं, क्योंकि जय के रूप में उसके प्राचीन ग्रंथ होने पर भी उसमें परिवर्द्धन इतने होते आये हैं कि यह नहीं कहा जा सकता, कि उसका कोई कथन किस काल के भारतीय विचारों का द्योतन करता है? भारतीय विविध प्रान्तों की सभ्यता के विषय में आपस्तंब और बोधायन के विवरण यथा स्थान आवेंगे, जिनके कथन समय की दृष्टि से दृढ़ हैं।

पहले काशी कौशलों के युद्ध हुए। काशी वाले पहले कुछ जीत कर अन्त में नष्ट हो गए। महाकौशल और प्रसेनजित काशी पर भी अधिकृत थे। कौशल नरेश के पांच मातहत थे, अर्थात् काशी,

यायाति, सेतव्या नरेश, हिरण्य नाभ कौशल, और कपिलवस्तु के शाक्य । महाकोशल के समय मगध में बिंबिसार राजा थे ।

बुद्ध के समय में ये सोलहों राज्य वर्तमान न थे वरन् इनमें से कुछ लुप्त हो चुके थे जैसा कि ऊपर दिखाया गया है । फिर भी बौद्धों के अंगुत्तर और विनय ग्रन्थों में इन सोलह राज्यों की नामावली लिखी है जिससे जान पड़ता है कि यह कुछ प्राचीनतर समय से सम्बन्ध रखती है । दक्षिण के राज्यों का वर्णन इसमें नहीं है । कुछ बौद्ध ग्रन्थों में पैठण उपनाम पतित्थान का नाम आया है । यह आंध्रों की राजधानी थी । दक्षिणपथ का भी नाम है । इससे दक्षिण देश का अर्थ निकलता है । महाभारत में भी सहदेव के विजय में दक्षिणपथ का नाम मिलता है । निकाय ग्रन्थों में कलिङ्ग के बन का नाम लिखा है और यह भी कहा गया है कि उस काल दूर देशों में समुद्र यात्रायें होती थीं तथा जहाज चलते थे । कालिंग उपनिवेश की राजधानी दन्तिपुर में थी । वाल्मीकीय रामायण इन प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पुरानी है । उस में लिखा है कि रामचन्द्र के समय में ठेठ दक्षिण में चोल और पाण्ड्य राज्य थे । इस कथन से इतना अवश्य सिद्ध होता है कि वाल्मीकि के समय वाले उत्तरी आर्य लोग दक्षिण का हाल बहुत कुछ जानते थे । बहुतेरे पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग पंजाब से पूर्व की ओर गंगा और यमुना के निकट से आये । रिस डेविड्स का कथन है कि इन मार्गों के अतिरिक्त आर्य लोग सिन्धु नदी के किनारे कच्छ हाते हुए अवन्ती गये और कश्मीर से पहाड़ के किनारे किनारे कोशल हाते हुए शाक्य, तिरहुत, मगध और अंग देशों में पहुँचे ।

छठा सातवीं शताब्दी बी० सी० के कुछ भारतीय मुख्य नगरों का वर्णन कर देना भी उचित समझ पड़ता है । (१) अयाध्या कोशल देश में सरयू के किनारे स्थित थी । इसका वर्णन ऊपर कई बार आ चुका है । सूर्य-वंशियों की यह प्रधान राजधानी थी किन्तु महाभारत और बुद्ध के समयों में इसकी कोई प्रधानता न रही । (२) काशी उपनाम वाराणसी सदैव से अपने वर्तमान स्थान पर स्थित है । बौद्धकाल के पीछे इस राज्य का फैलाव ८५ मील का कहा गया है । (३) चम्पा अङ्ग

देश की राजधानी थी। यह भागलपुर के पूर्व २४ मील पर स्थित है। भारतीय उपनिवेशियों ने कोचीन-चाइना में इसी नाम की एक पुरी बसाई। कश्मीर में भी चम्पा नामक एक नगर था। (४) कम्पिला उत्तरी पाञ्चाल की राजधानी थी। (५) कौशाम्बी (कोसम्भी) पुरी को कौरव राजा ने हस्तिनापुर के डूब जाने पर बसाया, ऐसा महाभारत में लिखा है। यह यमुना नदी के किनारे काशी से २३० मील की दूरी पर है। पीछे से यह वत्सों की राजधानी हुई। बौद्ध ग्रन्थों में इसका वर्णन बहुतायत से आया है। (६) मथुरा यमुना नदी के किनारे अब भी स्थित है। इसमें बहुत से प्राचीन चिह्न मिलते हैं। बुद्ध के समय में मथुरानरेश को अवन्तिपुत्र भी कहते थे। इससे जान पड़ता है कि उसकी माता उज्जैन के घराने की थी। गौतम बुद्ध भी यहाँ पधारे। मथुरा का पुराना नाम मधुपुरी था। पीछे से मधु के वंशियों से छीनकर इस पर रामचन्द्र के भाई शत्रुघ्न ने राज्य जमाया। इनके भी वंशजों को निकाल कर यादव भीमरथ ने इसे अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध के समय में इसकी बहुत अवन्ति हो गई थी किन्तु मिलिन्द के काल (१५७ बी० सी०) में यह फिर उन्नत दशा में थी। इसके नाम पर दक्षिण में भी एक नगर बसाया गया। (७) मिथिला विदेह-नरेश की राजधानी तिरहुत में थी। (८) राजगृह उपनाम राजगिरि बिम्बिसार का बसाया हुआ है। इस नामके दो नगर थे जिन में से पुराने को गिरिव्रज कहते थे। बिम्बिसार ने नया राजगृह बसाया। (९) रौरुह सौ-बीर (सूरत) की राजधानी थी। यहाँ वणिज व्यापार बहुत होता था। कहते हैं कि यहूदी राजा सालोमन के जहाज भी व्यापारार्थ यहाँ आते थे। पीछे से इसका नाम रोरुआ भी हो गया। (१०) सागल भारत के उत्तर पश्चिम में था। यह मद्र देश की राजधानी थी और महाभारत के समय में साकल कही जाती थी। राजा मिलिन्द यहीं राज्य करते थे। (११) साकेत (वर्तमान सुजान-कोट) जिला उन्नाव (अवध प्रदेश) में सई नदी के किनारे पर था। प्राचीन काल में यह कई बार कोशल का राज-निवास था। बुद्ध के समय में कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी जो साकेत से ४५ मील पर थी। हिन्दुस्तान के ६ बड़े नगरों में उस काल यह भी एक था।

(१२) श्रावस्ती (सावत्थी) पुरी सूर्यवंश के राजा श्रावस्त की बसाई हुई थी । इसका स्थान जानना कठिन है । यह साकेत से ४५ मील उत्तर, राजगृह से ३३७ मील उत्तर-पश्चिम, सांकाश्य से २२५ मील, अचिरवती नदी के किनारे स्थित थी । बुद्ध के समय में यह राजा प्रतिनर्द की राजधानी थी । (१३) (उज्जैनी) उज्जैन प्राचीन काल में भी अपने वर्तमान स्थान पर थी । अशोक पुत्र महीन्द्र यहीं उत्पन्न हुआ । इसी ने लंका में बौद्धमत फैलाया । (१४) वैशाली लिच्छवी राजकुल की राजधानी थी । बुद्ध के समय में यहाँ वज्जी लोग रहते थे जिनसे अजातशत्रु का युद्ध हुआ । यह तिरहुत प्रदेश में गङ्गाजी से २५ मील की दूरी पर थी । इनके अतिरिक्त २० मुख्य नगरों में निम्न भी थे:—आलवी, इन्द पत्त, संसुमार गिर, कपिल वत्थु, पातलिपुत्तक, जेतुत्तर, संकस्स, कुसिनारा और उक्कथ (राय चौधरी) । इस काल में निम्न स्थानों पर विश्वविद्यालय थे:—

(१) तक्षशिला (तक्षसीला) (२) कन्नौज, (३) काशी, (४) उज्जैन, (५) मिथिला, (६) मगध, (७) श्री धन्य कटक, (८) राजगृह, (९) वैशाली, (१०) कपिलवस्तु, (११) श्रावस्ती, (१२) कौशाम्बी, (१३) जेतवन, और (१४) नालन्द । यहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी आ आकर विविध विद्याओं की शिक्षा पाते थे ।

इस काल भारत में नगरों की न्यूनता और ग्रामों की बहुत प्रधानता थी और ग्राम-निवासी किसी प्रकार गिरे हुए अथवा नीच नहीं समझे जाते थे । वे अपने ही लिए काम करते और मजदूरी करना अपनी महत्ता के प्रतिकूल समझते थे । उनको अपने ग्राम, कुटुम्ब और पद का अभिमान था और बहुत करके उन पर उन्हीं के मुखियाओं का शासन था जिनको वे स्वयं चुनते थे । रिस डेविड्स कहते हैं कि उस काल प्रत्येक गाँव एक छोटा सा प्रजातन्त्र राज्य था । दास-प्रथा इस काल भारत में अज्ञात थी । राजा युधिष्ठिर के समय में कुछ दास अवश्य थे जिनकी गणना हवशियों की भांति नीच श्रेणी में न हो कर साधारण गार्हस्थ्य सेवकों की भांति होती थी । ३०५ बी० सी० वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास-प्रथा

अज्ञात थी। इससे जान पड़ता है कि दास-प्रथा ने भारत में कभी जोर नहीं पकड़ा।

कौटिल्य के अर्थ शास्त्र से दासों का अस्तित्व प्रकट है, किन्तु ग्रीक राजदूत उनका अभाव बतलाता है। जान पड़ता है कि दास कहे जाने वालों की संख्या इतनी कम थी और उनसे ऐसा सुव्यवहार था कि राजदूत ने उन्हें भी अदास समझा।

जातकों के देखने से प्रकट होता है कि बौद्ध काल के पूर्व सब जातियों के मनुष्य अपनी जातियों से इतर व्यापार भी करने लगे थे। ब्राह्मण लोग व्यापार करते थे तथा धनुर्विद्या, मृगया, कपड़ा बुनना, पहिया बनाना आदि के भी काम करने लग गये थे। वे खेती बहुतायत से करते और गाएँ तक चराने लगे थे। क्षत्रिय लोग व्यापार करते थे और धनुर्विद्या के काम की नौकरी भी। एक क्षत्रिय के विषय में लिखा है कि उसने कुम्हार, माली, बावर्ची और झुआ बनाने वाले के काम किये थे। फिर भी इन लोगों की जातियों में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ।

मुर्दों के जलाने की इस काल कई प्रथायें थीं। बड़े आदमियों के शव जलाये जाते थे और उनकी राख इकट्ठी करके गाड़ दी जाती थी तथा उसी पर स्तूप बनाया जाता था। साधारण मनुष्यों के शव जलाये जाते और कभी कभी मैदानों में रख दिये जाते, जहाँ या तो उन्हें पशु पक्षी खा जाते अथवा वे सड़ कर नष्ट हो जाते थे। कुछ ऐसी ही प्रथा पासियों में भी अब तक है। उस समय के प्रचलित व्यापारों के नाम महाराजा अजातशत्रु और गौतम बुद्ध की बातचीत में कहे गये हैं। यद्यपि यह छठी शताब्दी बी० सी० की है तथापि यही दशा बौद्धकाल के कुछ पहले थी। व्यापारों के नाम निम्नानुसार हैं :—(१) हाथी सवार, (२) घुड़-सवार, (३) रथी, (४) धनुर्धारी, (५—१३) सेना की भिन्न-भिन्न ९ श्रेणियाँ, (१४) दास, (१५) बावर्ची, (१६) नाई, (१७) नहलाने वाले, (१८) हलवाई, (१९) माली, (२०) धोषा, (२१) जुलाहे, (२२) झुआ बनाने वाले, (२३) कुम्हार, (२४) मुहर्रिर, (२५) मुसद्दी, (२६) किसान।

इनके अतिरिक्त १८ प्रकार के कारीगर भी प्राचीन पुस्तकों में मिलते हैं जिनमें लकड़ी, पत्थर, धातु आदि पर काम करने वालों को समझना चाहिये। चमड़ा और हाथी दांत का काम, रँगने, जौहरीपन, मछली मारने, कसाई, मल्लाह, चित्रकार आदि के भी कार्य बहुतायत से होते थे। इनके अतिरिक्त सौदागरों की भी संख्या बहुत थी तथा इनकी रक्षा के लिये स्वेच्छासेवक पुलिस भी होती थी। रेशम, मल-मल, जिग्ह बख्तर, कारचोबी, कम्मल, दवाये, जवाहिरात, हाथीदांत आदि के व्यापार बहुतायत से होते थे। सौदा में बदलौअल नहीं होती थी वरन् मुद्राओं का व्यवहार था। महाभारत आदि में सोने की मुद्राओं का वर्णन है। बौद्धकाल में तांबे के सिक्के क्षिपन का हाल लिखा है किन्तु चांदी के सिक्कों का वर्णन नहीं है। सौदागर एक दूसरे पर हुंडी काटते थे। सूद का लेना उचित समझा जाता था। मनुस्मृति में सवा रुपया सैकड़ा मासिक सूद लिखा है और कहा गया है कि इससे अधिक लेने वाला पापभागो होता है। रिस डेविड्स ने लिखा है कि गरीबी कहीं नहीं दीखती थी। किसी स्वतन्त्र मनुष्य का मजदूरी करना मात्र बड़ी विपत्ति समझी जाती थी। जमींदार लोग उस काल में न थे और प्रजा को पर्याप्त भूमि जोतने को मिलती थी।

व्यापारिक मार्गों का हाल रिस डेविड्स ने अच्छा लिखा है। श्रावस्ती से पट्टिथान (पैठण) पर्यन्त मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर था। श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता सीधा न था वरन् पहाड़ की तराई होकर। मार्ग में सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशिनारा, पावा, हस्तिप्राम, भण्डप्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालन्द पड़ते थे। पूर्व से पश्चिम का रास्ता बहुत करके नदियों द्वारा था। गंगा में सड़जाति और यमुना में कौशाम्बी पर्यन्त नावें चलती थीं। व्यापारियों का निम्न स्थानों को जाना भी लिखा है :—विदेह से गंधार को, मगध से मौवीर का, भरुकच्छ (भड़ोच) से बर्मा को, और दक्षिण से बावेरु (बैबिलोन) को। चीन का आना जाना पहले पहल मिलिन्द के ग्रन्थों में मिलता है। रेगिस्तानों में लोग रात को चलते थे और मार्ग बताने वाले नक्षत्रों के

सहारे रास्ता ठीक रखते थे। लंका का नाम नहीं आया है। ताम्रपर्णी द्वीप का कथन है जिससे लंका का प्रयोजन समझ पड़ता है।

वैदिक समय से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य-काल इसी समय के साथ समाप्त होता है। आर्य-सभ्यता ने भारत में राजनीति, धर्म, समाज, साहित्य, व्यापारादि की जो जो उन्नति की, उसका वर्णन हम ऊपर दे आये हैं। अब तक भारतीय समाज ने प्राचीन परिपाटियों का उचित मान करके धीरे धीरे विकास करते हुए सभी विभागों में उन्नति दिखलाई किन्तु दस्यु-पराजय से इतर कोई क्रान्ति अथवा भारी उथलपथल नहीं हुआ। प्रायः सभी बातों में ऋषियों, राजाओं, सुधारकों आदि ने प्राचीनता का उचित मान रखकर नवीन परिशाधनों में मन लगाया। जैसे एक दिन का शिशु बढ़ते बढ़ते पूरा जवान होकर बुढ़ा तक हो जाता है, किन्तु किसी दिन उसमें भारी परिवर्तन देखने में नहीं आता, इसी प्रकार हमारा भारतीय आर्यसमाज उन्नति करता हुआ शैशव एवं युवावस्था को पार करके आदिम कलिकाल के प्रारम्भ में वृद्ध दशा का पहुँच गया। वैदिक विचारों की उन्नति चरम सीमा के भी आगे निकल गई और ऋग्वेद का सीधा सादा धर्म ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्नति करता हुआ सूत्रों के तनाव में ऐसा उलझा कि विधि-निषेध ही ने उसका स्थान ले लिया और यही धर्म के मुख्याङ्ग बन बैठे। अतः हमारा भारतीय हिन्दू-समाज सरल धर्म, सरल मत एवं सरल आचारों के विचार को खो कर कट्टर पण्डितों की पोथियों का हर बात में आश्रित सा हो गया। यहाँ तक कहा गया है कि इन्द्र से विद्यार्थी, वृहस्पति से गुरु और दिव्य सहस्र वर्ष अध्ययन काल हाने पर भी व्याकरण का अन्त नहीं मिलता है। यही दशा भारतीय धार्मिक सिद्धान्तों की हुई। हमारी विद्याओं में आ सब कुछ गया किन्तु भारी ग्रन्थों के गूढ़ीकरण में सरल सिद्धान्तों का ज्ञान ऐसा दुर्ज्ञेय हो गया कि साधारण समाज को कर्तव्य जानने के लिए अड़चन पड़ने लगी। इन सब कारणों से भारतीय समाज का ऐसा समय आ गया कि जब क्रान्ति का होना अनिवार्य सा हो जाता है। इसी लिए हम देखते हैं कि थोड़े ही दिनों में जैन और बौद्धधर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर

हिन्दू समाज के पहले भारी डिसेंटर (विरुद्ध-मत-प्रवर्तक) थे । इन्हीं के प्रादुर्भाव से हमारे साहित्य और मत में वैदिक समय का अन्त हो गया और बौद्ध तथा पौराणिक विचारों का पुष्टिकरण होने लगा । भगवान् बुद्ध की उत्पत्ति भारतीय इतिहास में एक नवीन युग सा स्थापित कर देती है ।

अब प्रजातन्त्र रियासतों, मागधों तथा एक दो स्फुट विषयों पर कथन करके हम यह अध्याय समाप्त करेंगे ।

प्रजातंत्र रियासतें

उपर्युक्त १६ रियासतों में वैशाली के वज्जियन तथा पावा और कुशिनारा के मल्लों के प्रजातन्त्र राज्य महत्तायुक्त थे । छोटे प्रजातन्त्रों में निम्न की गणना है :--कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, संसुमार पहाड़ में भग, अल्लकप्य के बूलिय, केसपुत्त के कालाम, और पिप्पलिवन के मोरि । प्रजातंत्रों की यह नामावली रिस डेविड्स में है । राय चौधरी ने भी इसे लिखा है । शाक्यों में बहिनों से भी विवाह होता था (रायचौधरी) । भग्नों का कथन ऐतरेयब्रा० VIII ८ में है जहाँ भार्गवराज राजा कैरिशि सुत्वन का विवरण है । छठी शताब्दी बी० सी० में ये लोग वत्सराज के अधीन थे । केशिपुत्त केशिन लोगों का कथन शतपथ ब्रा० (वैदिक अनुक्रमणी) में है । मोरिय लोगों में स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्य थे ।

राजाओं के नाम

उस काल गन्धार के राजा पुक्कसाति थे, सौवीर (सिन्ध नदी के निचले देश) में रोहक के रुद्रायपण, शूरसेन के अवन्तिपुत्त सुवाहु और अंग के ब्रह्मदत्त ।

अनार्य राज्यों में यवक आलवक की राजधानी आलवी थी । अन्य यक्कराज्य भी थे ।

ऐन्द्र महाभिषेक

निम्न सम्राटों के ऐसे अभिषेक हुए :--

‘परीक्षित से पूर्व, शार्यात, विश्वकर्मा, सुदास, मरुत्त और भरत ।

परीक्षित के पीछे-जनमेजय, शतानीक, आम्बाष्ठ्य युधाश्रौष्ठि, और अंग ।

(रायचौधरी)

बार्हद्रथ कुल के अन्तिम राजा रिपुञ्जय को उसके मंत्री पुलिक, (मुनिक, मुनिक अथवा शुनक) ने मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया । इसके वंशधर पालक, विशाश्ययूप, जनक और नन्दि-वर्धन ने एक दूसरे के पीछे राज्य किया । पुराणों के अनुसार इनका राजत्व-काल १३८ वर्षों का है । प्रद्योत के विषय में लिखा है कि उसने पड़ोसी राजाओं पर अपना अधिकार जमाया और भला मनुष्य होने पर भी २३ वर्ष अधर्मपूर्ण राज्य किया । इस वंश का विशेष कथन यथास्थान होगा । परीक्षित से शिशुनाग तक (शिशुनाग को छोड़ के) का समय पुराणों में इस प्रकार से दिया है--

विष्णु पुराण—१०५० वर्ष ।

भागवत्—११५० वर्ष ।

मत्स्य और वायु पुराण—१०५० वर्ष ।

प्रद्योतों के पीछे मगध में शिशुनाग ने अपना राज्य जमाया । यह नहीं लिखा है कि शिशुनाग कौन था और किस प्रकार राजा हुआ ? केवल इतना कहा गया है कि प्रद्योतों का बल चूर्ण करके यह नरेश बना । कुल मिलाकर दस शिशुनाग राजे हुए जिनका राजत्व-काल ३६० वर्ष पुराणों में लिखा है । इन्हीं में से राजा अजातशत्रु ने २५ वर्ष राज्य किया और उसके पिता बिम्बिसार ने २८ वर्ष । ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालिक थे ।

पार्जितर महोदय ने महाभारत काल से मौर्य पर्यंत शासकों के समय निम्नानुसार दिए हैं:—

राजे और महाराजे ।

समय बी० सी०

सेनजित बार्हद्रथ, गद्दी पाए ।

८५०

सेनजित और उनके पीछे १५ बार्हद्रथ राजे ।

२३१ वर्ष ।

प्रद्योतों का अधिकारारम्भ ।

६१९

पांच प्रद्योत राजे

५२ वर्ष

शिशुनाग अधिकारारम्भ ।

५६७

दस शिशुनाग राजे ।

१६५ वर्ष

महापद्मानन्द का राज्यारम्भ ।

४०२

महापद्म और उसके आठ पुत्र ।

८० वर्ष

चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारम्भ ।

३२२

इस अध्याय के लिखने में डाक्टर राय चौधरी तथा रिस डेविड्स से सहायता ली गई है ।

— — —

सत्रहवाँ अध्याय

ब्राह्मण साहित्य काल (रचनाएँ)

९५०-६०० बी० सी०

हम ऊपर कह आये हैं कि यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना दसवीं शताब्दी बी० सी० के पीछे तक होती रही। फिर भी ऋक् की मुख्यता के कारण वैदिक समय दसवीं शताब्दी पर्यन्त ही माना गया है। सामन्, यजुः और अथर्व के विषय में हमें जो कुछ कहना था वह सब ऊपर के अध्यायों में कहा जा चुका है। यहां केवल इतना कह देना शेष है कि ये वेद भी प्राचीन काल से ही बनते आये थे, सो इनके सभी कथन पीछे से ही सम्बन्ध रखने वाले न समझने चाहिए। जैसे अथर्ववेद में मागध और आज्ञ लोग अनार्य माने गये हैं। इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि छठी सातवीं शताब्दी तक यही दशा रही। वेदों के विषय में यहां केवल इतना कह कर अब हम ब्राह्मण काल की मुख्यताओं का कथन करते हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थ वेदाङ्ग माने जाते हैं, किन्तु हम इस कथन का विरोध न करते हुये भी केवल संहिता भाग को वेद कहते आये हैं। ऐसा ही प्रायः अन्य विद्वानों ने भी किया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में एक प्रकार से वेदों की व्याख्या की गई है। ये संख्या में बहुत थे किन्तु अब प्रायः ७० ही मिलते हैं। इनके दो मुख्य विभाग हैं, अर्थात् कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्ड को उपनिषत् कहते हैं और ब्राह्मण ग्रन्थ कहने से सहसा कर्मकाण्ड ही पर ध्यान जाता है। यद्यपि उपनिषत् ब्राह्मण ही के अङ्ग हैं, तथापि इन दोनों में विषय का बहुत बड़ा अन्तर है। प्रत्येक ब्राह्मण में एक न एक उपनिषत् अवश्य है, किन्तु प्रत्येक उपनिषत् किसी न किसी ब्राह्मण का अङ्ग नहीं है, क्योंकि कुछ उपनिषत् केवल आरण्यकों से सम्बन्ध रखते हैं, और शेष ब्राह्मण और

आरण्यक दोनों से पृथक् हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेकानेक याज्ञिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले नियमोपनियम हैं। आरण्यकों में वान-प्रस्थाश्रम सम्बन्धी नियम हैं। उपनिषदों को निकाल डालने से आरण्यकों में ब्राह्मणों की अपेक्षा ज्ञान कथन बहुत विशेष है। ज्ञान की दृष्टि से भी उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुसार आरण्यकों को ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच में स्थान मिलेगा।

रैसन कृत कैम्ब्रिज हिस्टरी आव् इंडिया के प्रथम अध्याय में कथित ब्राह्मण साहित्य पर मुख्य विचारों का सारांश यहां देकर हम अपने विचार लिखेंगे। पंच विंश ब्राह्मण का गद्य शायद यजुर्वेदीय गद्य से भी पुराना हो। गोपथ ब्राह्मण कौशिक और वैतान सूत्रों से भी पीछे का है। उपनिषदों में बृहदारण्यक और छान्दोग्य सब से पुराने हैं। जैमिनीय उपनिषत् सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण का अंग है। उपर्युक्त उपनिषदों तथा केन और काठक के अतिरिक्त कोई उपनिषत् बुद्ध से पुराना नहीं है। बहुतेरे सूत्रों में जो श्लोक हैं वे उन सूत्रों से बहुत पुराने हैं। ब्राह्मण काल में सभ्यता का केन्द्र कुरुक्षेत्र है। शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों में पाश्चात्यों की निन्दा है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्र हिमालय के उस पार थे। अनन्तर कोशल, विदेह, मगध और अंग की ख्याति होती है। आन्ध्र, पुण्ड्र, मूतिब, पुलिन्द, शबर और नैषध के भी कथन हैं। यास्क कृत निरुक्त प्रायः ५०० बी० सी० का है। अथर्व वेद में मूजवन्त, गान्धार और महावृष के कथन हैं। छान्दोग्य रैक्यपर्ण को महावृष में मानता है। यास्क कहते हैं कि काम्बोज की भाषा साधारण बोलचाल से कुछ पृथक् थी। वैदर्भ भीम का कथन ऐतरेय में है तथा भीम का जैमिनीय उपनिषत् ब्राह्मण में। कौरव राजधानी आसन्दीवन्त, पाञ्चाल राजधानी काम्पील तथा काशी पति की राजधानी वरणावती पर काशी के भी यहां कथन हैं। इस उपनिषत् में आया है कि सरस्वती नदी विनशन की बालू में लुप्त होकर ४४ दिनों की यात्रा पर प्लक्ष प्रासवण में फिर निकलती है। इस ब्राह्मण में नागरिक जीवन का विकास है। भारतों के स्थान पर हम कौरवों और पांचालों के कथन पाते हैं। पांचालों में कृवि, अनु, द्रह्म, सृंजय, वशी, उशीनर आदि होंगे।

कुरु पांचाल आर्य्य सभ्यता के नमूने हैं। उनके यज्ञ तथा भाषा श्रेष्ठतम हैं। वैदिक साहित्य उन में कोई शत्रुता नहीं बतलाता। अथर्व-वेद परीक्षित को भारी कौरव राजा कहता है। प्रति सुत्वन उन के पौत्र थे और प्रतीप प्रपौत्र। शतपथ ब्राह्मण जनमेजय का अश्वमेध यज्ञ बतला कर आसन्दीवन्त को राजधानी कहता है। बृहदारण्यको-पनिषत् परीक्षित वंशियों के पतन का कथन करता है। पर अत्नार कोशल और विदेह दोनों का राजा लिखा है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि माथव विदेघ सदानीर (गण्डक) पार करके विदेह में स्थापित हुये। कौशीतकि उपनिषत् भी काशी और विदेह का सम्बन्ध बतलाता है। जल जातूकर्ण्य कोशल, विदेह और काशी के नरेशों का पुरोहित था। इस से इन तीनों का मेल सम्भव है। अथर्व वेद में अंग और मगध एक दूसरे से दूर हैं। मगध में खनिज पदार्थों का बाहुल्य था। यदि कीकट (गया) मगध में माना जावे तो ऋग्वेद में भी उसकी निन्दा है। ऋग्वेद के समय ऋषि गण तथा राजन्यवर्ग बहुत कुछ वंश परम्परागत वर्ग थे किन्तु लोग एक से दूसरे में हो जाया करते थे। विवाहों के प्रतिकूल बन्धन कम थे। अनन्तर भेद प्रकट होने लगे, विशेषतया विशों में। ये भेद व्यापारानुसार बढ़े। रथकार पृथक् वर्ण से हो गये। समय पर आर्यों में शूद्रा स्त्रियों के विवाह बढ़ने से आर्य्य रुधिर की शुद्धता के प्रश्न उठे! सूत्रों में पुरुषों के विवाह अपनी या नीची जातियों में हो सकते थे। कुछ सूत्रों में आर्यों को शूद्राओं से विवाह की आज्ञा थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में सगोत्रीय विवाह तीन ही चार पुश्यों तक वर्जित थे। वत्स और कवश की मातायें शूद्रा थीं। राजकन्याओं के साथ ब्राह्मणों के विवाह प्रायः होते थे। ऋग्वेद में विश्वामित्र केवल ऋषि हैं किन्तु पंच विश और ऐतरेय ब्राह्मणों में राजा जह्नु के वंशधर भी हैं। वेदानुक्रमणी में कई राजन्य वेदर्वि भी हैं। जनक वैदेह, अश्वपति केकय, काशिराज अजात शत्रु, पांचाल राज जैवलि प्रवाहण ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करते हैं। सत्य काम जाबाल अज्ञात पिता के पुत्र होकर भी ब्राह्मण माने जाते हैं। कोई वैश्य या शूद्र ब्राह्मण न हो सका।

ब्राह्मण काम में राज्य बड़े बड़े भी हो जाते हैं तथा यज्ञों में रीतियां

बढ़ जाती हैं। निम्न लोग गलिन कहलाये जाते हैं:—पुरोहित, राजन्य, महिषी, बाबाता (प्यारी महारानी), परिवृक्तो (त्यक्ता महारानी), सूत, सेनानी, ग्रामणि, क्षत्री (Chamberlain), संग्रहीत्रि (सारथी या कोषाध्यक्ष), भाग दुग्ध (कर वसूल करने वाला), अक्षवाय (जुये का निरीक्षक), और स्थपित (जज)। सभा या समिति का व्यवहार घटता है। राजा कौजदारी (दंड विधान) व्यवहार का अध्यक्ष था। अब तक कानून मुआहिदा न था। पुत्री से पुत्र अच्छे थे। स्त्री का पद कुछ गिर चुका था। क्रव्जे का व्यवहार कुछ कुछ था। राजाओं में बहु विवाह चलता था। खेती की उन्नति हुई। गेहूँ, जौ, सरसों, चावल आदि का प्रचार बढ़ा। शिल्प की भारी उन्नति होकर व्यापारों की संख्या बढ़ी।

अब अन्य आधारों के अनुसार कथन होता है। यजुर्वेद को छोड़ देने से ब्राह्मणों से पुराना समस्त आर्य-जाति का गद्यग्रन्थ कोई नहीं है। ब्राह्मणों के सारांश का नाम कल्प-सूत्र है। प्रत्येक वेद से अनेक ब्राह्मण सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशीतकि हैं। कौशीतकि का अंग सांख्यायन है। सांख्यायन नामक एक ऋषि थे जिन्होंने कल्पसूत्र और गृह्यसूत्र बनाये। इन्हीं के नाम पर यह ब्राह्मण है। जान पड़ता है कि इसी नाम के इनके कोई पूर्व पुरुष थे जिन्होंने यह ब्राह्मण बनाया होगा। हिन्दू शास्त्रानुसार वेदों की भांति ब्राह्मण ग्रन्थ भी अनादि और अपौरुषेय हैं। महात्मा सायणाचार्य ने महर्षि जैमिनि के आधार पर वेदों और ब्राह्मणों को अपौरुषेय सिद्ध किया है। ऐतरेय ब्राह्मण महीदास ऐतरेय के नाम पर है। काशी के राजा अजातशत्रु ने बालाकि नामक ब्राह्मण को ब्रह्मविद्या बताई। राजा प्रतर्दन का नाम कौशीतकि ब्राह्मण में आया है। सामवेद के ब्राह्मणों में ताण्ड्य, षड्विंश, सामविधान, वश, आर्षेय, देवताध्याय, सहितोपनिषत्, छान्दोग्य, जैमिनीय उपनाम तवलकार, सत्यायन और भल्लवी प्रधान हैं। इन सब में ताण्ड्य की मुख्यता है। षड्विंश ब्राह्मण में मूर्ति का कथन है। ब्राह्मणों में पातकों की संख्या में निम्नलिखित बातें भी हैं—मलिन वस्तु का खाना, राजा से नजर लेनी, हिंसा, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए छोटे का व्याह करना, वैश्य या शूद्र की नौकरी करनी,

मन्दिरो में नौकरी करनी और आलस्य । षड्विंश ब्राह्मण में फलित ज्योतिष का वर्णन एवं यजुर्वेद के अतिरिक्त पहले पुनर्जन्म का कथन है । इस ब्राह्मण में देवकीपुत्र कृष्ण एक विद्वान् माने गये हैं । कुमारिल्ल भट्ट ने सामवेद के आठ ब्राह्मणों के नाम लिखे हैं । सायणाचार्य ने उन पर भाष्य लिखा है । छान्दोग्य ब्राह्मण विशेषतया छन्दों में है । कुछ पाश्चात्य परिडों ने लिखा है कि कई ब्राह्मण ग्रन्थों में बौद्ध मत का कुछ प्रभाव देख पड़ता है ।

कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण केवल तैत्तिरीय है । इसमें जरासन्ध के पिता राजा बृहद्रथ का नाम आया है । शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है । यह ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्व प्रधान है और वैदिक ग्रन्थों में ऋग्वेद तथा अथर्व की छोड़ कर इसकी ऐतिहासिक महिमा शेष सभी ग्रन्थों से बढ़ी चढ़ी है । यह ब्राह्मण-काल के प्रायः अन्त में बना । इसमें सौ अध्याय हैं । अतएव इसका नाम शतपथ है । इसमें विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के नाम आये हैं और विष्णु की महिमा कुछ बढ़ी हुई है । शतपथ के देखने से समझ पड़ता है कि कुरु और पाञ्चालों में कोई शत्रुता नहीं थी किन्तु परीक्षित के घराने में कोई भारी घटना हुई थी । मेगास्थनीज के समय में महाभारत में कथित कृष्ण और पाण्डवों का सम्बन्ध भारत में ज्ञात था । शतपथ में परीक्षित-पुत्र जनमेजय का नाम आया है और पित्रवन् के पुत्र सुदास का भी । नरमेध के विषय में शतपथ ब्राह्मण में साफ लिखा है कि मनुष्य का बलिदान कभी नहीं होता था, वरन् उसकी प्रतिमा मात्र का । फिर भी कुछ पाश्चात्य पादरी लोग यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि वैदिक समय में नर-बलि अवश्य होती थी किन्तु ब्राह्मण-काल में सभ्यता का विचार बढ़ जाने से नर-बलि का निषेध होकर नर-प्रतिमा मात्र की बलि का विधान रह गया । अपने इस दुराग्रहपूर्ण कथन का आधार स्वरूप वे केवल शुनःशेष का उदाहरण देते हैं । इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दू ग्रन्थ में उनको नर-बलि का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । इस अवसर पर भी वास्तविक नर-बलि नहीं हुई ।

शतपथ ब्राह्मण विशेषतया याज्ञवल्क्य-कृत समझ पड़ता है ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है कि द्विज देवताओं से हुए और शूद्र असुरों से। यहाँ देवताओं तथा असुरों से आर्यों और अनार्यों से प्रयोजन समझ पड़ता है। प्रलय के समय मनु मत्स्य की सहायता से उत्तरीय पर्वतों की ओर चले गये। वहाँ इन्होंने पाकयज्ञ किया जिससे इडा नाम्नी स्त्री उत्पन्न हुई। उसीसे मनु ने सन्तान उत्पन्न की। ब्राह्मण ग्रन्थ में यह मछली अवतार नहीं मानी गई है और यह कौन मनु थे सो भी नहीं लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को वामन कहा गया है। एक पाश्चात्य पण्डित का कथन है कि वैदिक मन्त्रों में मनुष्य देवताओं से डरता है, ब्राह्मण ग्रन्थों में (मनुष्य) देवताओं को पराजित कर देता है और उपनिषदों में (मनुष्य) देवताओं की कुछ परवा नहीं करता। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया ६ विषयों का कथन रहता है, अर्थात् विधि, अर्थवाद, निन्दा, शंसा, पुराकल्प और परकृति का। इनमें वर्णन यज्ञ सम्बन्धी रहते हैं। महर्षि जैमिनि कहते हैं कि यही सब बातें वेदों में भी पाई जाती हैं।

पाश्चात्य पण्डितों का विचार है कि जब वेदमन्त्र बहुत अधिक हो गये और अधिकतर मन्त्रों की आवश्यकता न रही तब ब्राह्मणों ने अपनी भारी उत्पादिनी शक्ति को याज्ञिक विधि और अर्थवाद के फैलाव में लगाया। यही दशा कुछ कुछ यजुर्वेद से ही प्रारम्भ हो चुकी थी किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में इसकी विशेष उन्नति हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों का मुख्य कार्य मन्त्रों और याज्ञिक विधि का पारस्परिक सम्बन्ध दिखाना और उनका धार्मिक भाव प्रकाशन है। कुछ कथा भागों और चमत्कारिक भावों को छोड़ देने से ब्राह्मण ग्रन्थों का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण जाति यजुर्वेद से ही जन्मज हो गई थी और अथर्ववेद में ही उसका प्रभाव बढ़ गया था। यह ब्राह्मण ग्रन्थों में और भी बढ़ा हुआ देख पड़ता है। वेदों की प्रधानता उच्च विचारों और प्राकृतिक वर्णनों में है, किन्तु ब्राह्मणों की केवल रस्म-रिवाजों में दिखाई देती है। पहले ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के फैलाव मात्र माने जाते थे किन्तु पीछे से उनकी महिमा बढ़ गई और वे वेदाङ्ग समझे जाने लगे। ब्राह्मण ग्रन्थों में विधि का पूरा वर्णन नहीं है

क्योंकि ये ग्रन्थ यज्ञ कराने वाले में इस का कुछ ज्ञान पहले से मान लेते हैं ।

बहुत से ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्थों में बहुत से ऐसे ग्रन्थों के उद्धृत भाग हैं जो अब अप्राप्य हैं । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण ग्रन्थों में एक प्रकार का साम्य पाया जाता है, किन्तु ध्यानपूर्वक पढ़ने से उनके निर्माणकाल का पता उन्हीं की रचना के ढङ्गों से लगता है । यजुर्वेद के पीछे पञ्चविंश और तैत्तिरीय ब्राह्मण सब से पुराने हैं, तथा इनके पीछे जैमिनीय, कौशीतकि और ऐतरेय । ब्राह्मणों में शतपथ सब से नया है । गोपथ और सामवेद के छोटे छोटे ब्राह्मण उससे भी नये हैं । ब्राह्मणों में कुछ गाथायें पद्य में भी हैं । विचार किया जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण कुरु पांचाल देश में बना । कौशीतकि ब्राह्मण से प्रकट होता है कि उत्तरीय भारत में पठन-पाठन-प्रणाली सब से अच्छी थी और वहाँ के पठित विद्यार्थियों का अधिक मान था । शतपथ ब्राह्मण में राजा जनमेजय का नाम लिखा है और आसुरि नामक एक आचार्य का नाम कई बार आया है । ये सांख्यशास्त्र के एक बड़े आचार्य कहे गये हैं । इन के नाम आने से विदित होता है कि सांख्यशास्त्र के मुख्य आचार्य महर्षि कपिल शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले हुए । आसुरि कपिल के शिष्य कहे गये हैं । कपिल दो थे, एक स्वायम्भुव मनु की पुत्री देवहूति के पुत्र और दूसरे सगरात्मजों के मारनेवाले । यह निश्चय नहीं है कि सांख्यकार कपिल इन्हीं दोनों में से एक थे अथवा कोई तीसरे व्यक्ति । स्वायम्भुव मनु के दौहित्र कपिल वैदिक समय से भी पहले के हैं । उस काल में अध्यात्मज्ञान का इतना बढ़ना कि सांख्यशास्त्र ही बन जाता, नितान्त सन्दिग्ध है । सगर के समकालिक कपिल भी सांख्यशास्त्र-निर्माण के लिये उचित से अधिक पुराने समझ पड़ते हैं । इस शास्त्र का निर्माण उपनिषत्काल में समझ पड़ता है । सांख्यकार कपिल बुद्ध काल से पहले के माने जाते हैं ।

कालिदास ने विक्रमोर्वशी और शकुन्तला नाटकों में महाराजा पुरुरवा और दुष्यन्त के वर्णन किये हैं । पुरुरवस और उर्वशी का कुछ कथन ऋग्वेद में भी आया है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । ये दोनों कथायें शतपथ में विस्तार पूर्वक लिखी हैं । महा प्रलय का

भी वर्णन इसी ब्राह्मण में है।

ब्राह्मण-काल में गुरुओं और गुरुद्वारों की परिपाटी स्थिर हो चुकी थी। हम स्वरोचिष मन्वन्तर में लिख आये हैं कि ऋषियों का जंगलों में रहना उसी अवैदिक समय में प्रारंभ हो गया था। इस परिपाटी ने वैदिक समय में बहुत बल पाया। ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मचारी को कृष्ण मृगचर्म धारण करना चाहिये। ब्राह्मण काल में वर्तमान विश्वविद्यालयों की भांति परिषद् नाम्नी संस्थाएँ स्थिर हुईं जिनमें गुरुद्वारों से निकले हुए प्रवीण विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इन परिषदों में बड़े बड़े आचार्य अपने प्रिय विषयों की शिक्षा देते थे। कुरुओं और पांचालों की परिषदें सर्वश्रेष्ठ थीं। इन्हीं के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उत्तरी भारत में पठित विद्यार्थियों का मान अधिक होता था।

ब्राह्मण ग्रन्थों का परम सूक्ष्म वर्णन हम ऊपर दे आये हैं। इनके पीछे आरण्यकों का विषय आता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ “वन सम्बन्धी” है। ब्राह्मणों की उन्नति होने से आरण्यकों का नम्बर आया। कुछ लोग कहते हैं कि आरण्यक वानप्रस्थ लोगों के लिये बनाये गये और इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। कुछ अन्य लोग यह भी अनुमान करते हैं कि यह नाम इस कारण पड़ा कि यह बढ़ी हुई आध्यात्मिक विद्या नगरों में न सिखलाई जाकर वनों में ही सिखलाई जाने योग्य थी। बहुत से आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में ही लिखे गये। ऐतरेय आरण्यक इसी नाम के ब्राह्मण से सम्बन्ध रखता है। इसमें पाँच खण्ड और अट्ठारह अध्याय हैं, जिनमें अन्तिम दो सूत्र साहित्य से मिल जाते हैं। कौशीतकि ब्राह्मण का कौशीतकि आरण्यक है। आरण्यकों के कुछ भाग ब्राह्मण ग्रन्थों के समान हैं और अधिकांश उपनिषदों के। इसलिये जो कथन ब्राह्मण और उपनिषदों के विषय में किया जाय वही इनके विषय में भी घटित होता है। आरण्यकों में बृहदारण्यक सर्वप्रधान समझ पड़ता है। इसका विषय ऐसा आध्यात्मिक है कि यह उपनिषत् भी समझा जाता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों की मुख्य महिमा उपनिषदों पर ही अवलम्बित है।

यदि इस चमत्कारी रत्न को ब्राह्मण साहित्य से निकाल डालें तो वर्तमान पंडितों के लिए ब्राह्मणों की गरिमा लुप्तप्राय हो जाय। उपनिषदों में जगदुत्पत्ति, जीवात्मा और परमात्मा पर विचार किये गये हैं। वैदिक धर्म की गरिमा उपनिषदों पर ही अवलम्बित है; इसीलिये इन्हें वेदान्त कहते हैं। पाश्चात्य पण्डित शोपिनहार का कथन है, “उपनिषदों से मुझे जीवन में शान्ति मिली है और मरणानन्तर भी इन्हीं से शान्ति मिलने की आशा है।” प्रसिद्ध पण्डित मैक्समुलर कहते हैं कि उपनिषत् मानव-मस्तिष्क के बड़े ही चमत्कारिक फल हैं। इनसे संसार भर के प्रत्येक देश, प्रत्येक समय और प्रत्येक साहित्य को गरिमा प्राप्त हो सकती है।

उपनिषत् का शब्दार्थ गुरु के पास बैठ कर सीखने की विद्या है। महर्षि पाणिनि ने इस शब्द से रहस्य विद्या का प्रयोजन लिया है। इसके कई अन्य अर्थ भी लगाये जाते हैं किन्तु हमें यही दो प्रधान समझ पड़ते हैं। छांदोग्य में इसका वही अर्थ किया गया है जो प्रायः साधना का है। शंकराचार्य कठोपनिषत् की प्रस्तावना में इसका अर्थ करते हैं, “पुनरागमन तथा पुनर्जन्म भर को नाश करने वाली विद्या।” उपनिषदों की संख्या अनिश्चित है। ये १२३ से ११९४ तक माने गये हैं। मुख्य उपनिषत् गणना में दस हैं, अर्थात्—

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक।

इनके अतिरिक्त कौशीतकि और श्वेताश्वतर की भी प्रधानता है। इनमें मुख्यता इस बात की है कि साम्प्रदायिक मतसंकीर्णता का अभाव दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद के उपनिषत् नवीन एवं साम्प्रदायिकत्व से पूर्ण हैं। ऋग्वेद के उपनिषत् उसके ब्राह्मणों के नाम पर ऐतरेय और कौशीतकि कहलाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के प्रधान उपनिषदों में तैत्तिरीय तथा मैत्रायणीय हैं और शुक्ल यजुः के ईश और बृहदारण्यक। छांदोग्य उपनिषत् सामवेद का है। अथर्ववेद के उपनिषत् संख्या में बहुत अधिक हैं, जिनमें कठ और मुण्डक प्रधान हैं। ये अथर्ववेद के उपनिषत् तीन प्रकार के हैं अर्थात् ईश्वर संबंधी, योग संबंधी और शिव अथवा विष्णु सम्बन्धी। प्राचीन उपनिषत्

प्रधानतया गद्य ग्रन्थ हैं। इनमें कहीं पद्य भी पाया जाता है और कुछ उपनिषत् पद्य के भी हैं। प्राचीन उपनिषत् ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालिक तथा रचनाशैली से उन्हीं के समान हैं, किन्तु विषयों में बहुत बड़ा अन्तर है। नवीन उपनिषत् बहुत पीछे तक बनते गये। बड़े ग्रन्थों में कुछ गाथायें पाई जाती हैं। इनमें कहीं कहीं गुरुओं और शिष्यों में प्रश्नोत्तर भी मिलते हैं। प्रश्नोपनिषत् में पिप्पलाद ऋषि गार्गी आदि अपने छै शिष्यों को उपदेश देते हैं और कठोपनिषत् में यम नचिकेता को ज्ञान सिखाते हैं।

कहते हैं कि मोक्ष के लिये दो मार्ग हैं, अर्थात् ज्ञान और उपासना। जो लोग परमात्मा को समझ सकते हैं वे सभी पदार्थों में उसी को देखते हैं। जिनकी बुद्धि इतनी दूर न पहुँचे वे वेदविहित कर्मों को करें। कठोपनिषत् के निर्माण-क्रम, रचना शैली और विचार-क्रम बहुत ही उत्तम हैं। इसमें यमराज नचिकेता को जीवात्मा और परमात्मा का अन्तर सिखलाते हैं। इसकी प्रथम वही में जीव का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। बृहदारण्यक में विराज का क्रम उत्तमता से कहा गया है और उसी में ऐसा सृष्टिक्रम दिखाया गया है कि विराज ही से क्रमशः कई नर मादाओं के जोड़े हुए, जिनसे सर्वप्राणी उत्पन्न हुए। काशिराज अजातशत्रु द्वारा बालाकि गार्ग्य का शिक्षण इसी उपनिषत् में लिखा हुआ है। महाराजा अजातशत्रु के समकालिक विदेहराज जनक थे। अजातशत्रु को इस बात की शिकायत थी कि पण्डित लोग उसके यहाँ नहीं रहते थे और मिथिलेश जनक को अपना संरक्षक समझते थे। जनक के यहाँ एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, जिसमें कुरु पांचाल के बहुत से ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। मिथिलेश ने एक हजार गौवें सर्वप्रधान पण्डित को दान कीं। इस पर जब किसी को भी उन्हें लेने का साहस न हुआ तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें ग्रहण किया। अब शेष पण्डित लोग उनसे वाद करने लगे, किन्तु सब पराजित हुए। इन वादियों में विदग्ध उपनाम सकल प्रधान था। छान्दोग्य उपनिषत् में आरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। इस उपनिषत् में बहुत से ऋषिगण केकय-पुत्र अश्वपति के पास परमात्मा का ज्ञान सीखने

गये हैं। श्वेताश्वतरोपनिषत् में सांख्याचार्य कपिल का नाम लिखा है। शंकराचार्य ने इस उपनिषत् की एक बड़ी टीका लिखी। इस टीका में सांख्य और वेदान्त के मतभेद मिटाने का प्रयत्न किया गया है।

वेदान्त के पांच प्रधान भेद हैं अर्थात् अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत। अद्वैत में एक ईश्वर माना गया है, द्वैत में ईश्वर और जीव तथा विशिष्टाद्वैत में ईश्वर, जीव और प्रकृति। फिर भी प्रकृति और जीव ईश्वर के विशेषणमात्र हैं। शुद्धाद्वैत में भी ये तीनों माने गये हैं, किन्तु ईश्वर, जीव और प्रकृति में कम से आनन्द और चित्त का आवरण माना गया है। द्वैताद्वैत भेद तथा अभेद दोनों को मानता है तथा द्वैत ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को सत् के समान कहता है। अतः ये तीनों ही ईश्वर को मान कर चलते हैं। उधर सांख्य में ऐसा द्वैतवाद है जो न केवल प्रकृति और जीव को मानता है वरन् ईश्वर को असिद्ध समझता है। हिन्दू-दर्शन-शास्त्र के छः प्रधान अंग हैं, अर्थात् सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा। इनके मुख्यकर्ता क्रम से कपिल, पतञ्जलि, गौतम, कणाद, जैमिनि और व्यास हैं। ये सब मुनि ब्राह्मण काल के नहीं हैं, किन्तु इन छः दर्शनों के मूल विचारों का प्रादुर्भाव ब्राह्मणकाल ही में या कुछ ही पीछे हुआ। पीछे से जिस जिस आचार्य ने जिस जिस शास्त्र को उन्नत बनाया, उसी के नाम पर वह कहलाने लगा। कपिल और जैमिनि बुद्ध पूर्व के समझे जाते हैं। केनोपनिषत् में ईश्वर की शक्ति बहुत अच्छी तरह दिखलाई गई है, और एक उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है कि बिना ईश्वरीय बल के अग्नि अथवा मरुत एक तिनके को भी जला या उड़ा नहीं सकते। माण्डूक्य उपनिषत् में जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं का वर्णन है और ॐ शब्द की महिमा भी कही गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योषित को हमारे यहाँ वेद का षडङ्ग कहते हैं। इन सबके नाम मुण्डकोपनिषत् में आये हैं। इससे विदित होता है कि इन छः वेदाङ्गों की स्थापना ब्राह्मण काल में हो गई थी।

उपनिषदों का सदुपदेश मुख्यतया ईश्वरवाद है। यह ईश्वरवाद तर्क पर अवलम्बित है, न कि अन्धभक्ति पर। सत्यता की सब से बड़ी महिमा कही गई है। इसके मनोगत कराने के लिए सत्यकाम जाबाल का उदाहरण छान्दोग्य उपनिषत् में दिया हुआ है। कहते हैं कि जब यह महात्मा शिष्य होने के लिए गुरु के पास गये तब उन्होंने इनके पिता का नाम पूछा। इस पर अपनी माता से पूछ कर जाबाल ने गुरु से कहा, “मेरी माता मेरे पिता का नाम नहीं जानती, क्योंकि मेरे गर्भाधान के समय उसके पास कई मनुष्य आये थे जिस लिए वह किसी एक में मेरा पितृत्व स्थापित नहीं कर सकती।” जाबाल की इस सत्यप्रियता से प्रसन्न होकर गुरु ने इस बालक की माता जवाला के नाम पर इसका नाम सत्यकाम जाबाल रखा और अपने शिष्यों में इसको सर्वप्रधानता दी। छान्दोग्य उपनिषत् का मत है कि प्रारंभ में ईश्वर केवल एक था। उसने अग्नि का उत्पादन किया, जिस से जल हुआ और जल से पृथ्वी। ऋग्वेद में स्वर्ग नरक का विचार नहीं है। ब्राह्मणों में स्वर्ग, कर्म, प्रकृति, भविष्य-स्थिति आदि पर विवाद पाया जाता है। उपनिषदों में पुनर्जन्म के विचार उन्नत हो गये हैं। उपनिषदों का मत है कि ज्ञान ने संसार को बनाया, ज्ञान ही उसे स्थिर किए है और ज्ञान ही ईश्वर है।

जैसे कि वैदिक समय में पुरूरवा, नहुष, ययाति, वैवस्वतमनु, चालुष मनु, पृथु, अम्बरीष आदि राजपुरुषों ने वेद रचना में भाग लिया था, वैसे ही ब्राह्मणकाल में जनक, अजातशत्रु, अश्वपति, जैबलि आदि राजपुरुषों ने उपनिषदों में पूरा योग दिया। जैबलि पांचालराज थे और उन्होंने श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। उपनिषदों और वेदों में कुछ भाग लेते हुए भी राजन्य पुरुषों ने ब्राह्मण ग्रन्थों में कोई प्रधानता नहीं दिखलाई। आरण्यकों के विधि सम्बन्धी भागों में भी उनकी प्रधानता नहीं है। इससे प्रकट होता है कि कर्मकाण्ड केवल ब्राह्मणों की रचना है, किन्तु ज्ञान काण्ड में उनको क्षत्रियों से सहायता मिली। यह सहायता जैन और बौद्ध काल में शत्रुता में परिवर्तित हो गई जैसा कि हम आगे लिखेंगे। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि मुख्यतया ज्ञानकाण्ड का आविर्भाव बड़े हुए कर्म-

काण्ड पर क्षत्रियों की अश्रद्धा से हुआ ।

उपनिषदों के समय में याज्ञिक अग्नि सब आर्यों के घर जला करती थी और दैनिक हवन सबके यहाँ होते थे । दैनिक पंच महा-यज्ञ में देवपूजन, पितृपूजन, अतिथिपूजन, संसारपूजन तथा गृह्यदेव-पूजन होता था । इस प्रकार अतिथिस्त्कार हमारे यहाँ सभ्यता मात्र न होकर धर्म का अंग था । मानुष कर्तव्यों में उपनिषदों का क्या विचार है, इसके विषय में तैत्तिरीय उपनिषत् का एक छोटा सा अवतरण यहाँ लिखा जाता है । “सत्य बोलो, स्वकर्तव्य पालन करो, वेदाध्ययन को न भुलाओ, उचित गुरुदक्षिणा देने के पीछे विवाह करके पुत्रोत्पादन करो, सत्य से मत हटो, कर्तव्य से मत हटो, लाभ-दायक पदार्थों को मत भुलाओ, महत्त्व को मत भुलाओ, वैदिक शिक्षा को मत भुलाओ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ को मत भुलाओ, माता को देवी के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो, अनिन्दित कर्मों पर श्रद्धा रखो, औरों पर नहीं, हमारे द्वारा किये हुये उचित कार्यों पर श्रद्धा रखो ।”

विधवा विवाह ब्राह्मण काल में उचित माना जाता था । ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, दर्शन और धर्मशास्त्र पर उस काल बहुत ध्यान दिया जाता था । ये सारे शास्त्र धार्मिक नीतियों से निकले हैं और इनका परस्पर सम्बन्ध भी है । आज कल के विद्वानों ने इसी बात को कसौटी माना है कि जिन शास्त्रों का धर्म से सम्बन्ध हो वे अवश्य भारतीय समझने चाहिये । वेदाङ्ग ज्योतिष की उन्नति ब्राह्मण काल में बहुत हुई । हमारे यहाँ चान्द्र वर्ष का चलन था, जिससे यह सौर वर्ष से सदैव कुछ पीछे हट जाता था । इसी लिए आजकल प्रायः अधिमास अर्थात् लौंद का प्रयोग होता है । लौंद का चलन वैदिक समय में भी था क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है कि यह मास इन्द्र ने बनाया । ब्राह्मण काल में लौंद मास मोटे प्रकार से प्रायः पाचवें वर्ष पड़ता था । अट्ठाईस नक्षत्रों का हाल भी ज्ञात था । वैदिक समय में इनकी गणना पुनर्वसु से चलती थी, आजकल के समान अश्विनी से नहीं । सायनमेष का भी ज्ञान ब्राह्मणों को हो गया था । ब्राह्मण-काल में वैदिक समय के धर्म ने कुछ उन्नति अथवा अवनति की थी ।

अवैदिक समय में यहाँ तरु, पर्वत, भूत प्रेतादि का पूजन चलता था। यह अनाय्यों का धर्म था। आर्यों ने अपने साथ चरुण और इन्द्र के पूजन के विचारों को लाकर फैलाया। धीरे धीरे तैंतीस वैदिक देवताओं का विचार उठकर पुष्ट हुआ और महर्षि विश्वामित्र के काल में एकेश्वरवाद चला तथा देवताओं की यह संख्या बढ़कर ३३३९ हो गई। पुरुष, विराज, प्रजापति, विश्वकर्मा, स्कंभ आदि नामों से ईश्वर का पूजन विधान उठकर पुष्ट हुआ। यही विचार कभी कभी इन्द्र और अग्नि द्वारा भी प्रकट किया गया है। हवनों, यज्ञों, बलि आदि की स्थापना वैदिक समय में ही भली भाँति हो गई थी। अग्निहोत्र आदि के लिये कभी न बुझने वाली स्थिर अग्नि का विधान इसी काल में हो चुका था। ब्राह्मण काल में याज्ञिक रीतियों में बड़ा विस्तार हुआ और उचित रीति से मन्त्रोच्चारण एवं उचित मंत्रों के साथ यज्ञ रीतियों के सम्पादन पर ऐसी श्रद्धा बढ़ी कि वास्तविक धर्म दृढ़ रीतियों के उलम्भाव में कुछ दब सा गया, यहां तक कि बहुत करके रीतियों ने ही धर्म का आसन ग्रहण किया। वेदों के पढ़ने से जो प्रत्येक ऋषि की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और श्रद्धा के विचार सभी स्थानों पर पाठक के चित्त में अङ्कित रहते हैं, उस स्वावलम्बी श्रद्धा एवं दृढ़ता को ब्राह्मण ग्रन्थों में हम नहीं पाते हैं। यही वैदिक और आदिम ब्राह्मण धर्मों का मुख्य भेद है। इसीलिए जान पड़ता है कि इसी रीति-सम्बन्धी दृढ़ता से ऊब कर लोगों ने उनके शिथिलीकरणार्थ वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम के विचार चलाये, जिससे यह सिद्ध किया गया कि निरग्निक सत्कर्मा का दर्जा अग्निवान् से भी ऊँचा है। आरण्यकों का विधान इसी लिए उत्पन्न हुआ जान पड़ता है। आरण्यकों से औपनिषद्विचारों का उठना परम स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ भी। इसी समय में जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया और पुनर्जन्म-सम्बन्धी आवागमन के विचार दृढ़ हुए। कार्मिक सिद्धान्तों की भी स्थापना एवं दृढ़ता इसी शुभ काल में हुई। कठोपनिषत् में एक बड़े सुन्दर उदाहरण द्वारा दिखलाया गया है कि ब्रह्म-विद्या की पदवी सभी सांसारिक पदार्थों से उच्चतर है। नचिकेता

यम से ब्रह्मविद्या जानना चाहता है। यम उसे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र राज्य आदि सभी सांसारिक प्रलोभन दिखलाकर इससे हटाना चाहते हैं, किन्तु वह इन सब को तुच्छ मानकर इसी की खोज में ही लगा रहता है। इस दृढ़ता को देखकर ही यमराज उसे इस विद्या का पात्र समझ कर यह उत्तम ज्ञान सिखाते हैं। प्रयोजन यह है कि बिना सांसारिक प्रलोभनों के छोड़े कोई ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषदों ही द्वारा संसार में पहले पहल ईश्वर का विचार, पूर्ण दृढ़ता और ज्ञान के साथ प्रसिद्ध किया गया। संसार के संबन्ध में माया का विचार पहले पहल श्वेताश्वतर में आया। संसार माया है और ईश्वर मायी। छान्दोग्य उपनिषत् में लिखा है कि यह सारा संसार वही है अर्थात् सत् एवं परमात्मा। हे श्वेतकेतो ! तू भी वही है। इसी स्थान पर शंकराचार्य संबन्धी “तत्त्वमसि” के विचार बीज रूप से छान्दोग्य उपनिषत् में पाये जाते हैं।

उपनिषदों का विचार है कि परमानन्द पूर्ण ज्ञान ही से प्राप्त होता है। शंकराचार्य का मत है कि परमात्मा तथा जीवात्मा में केवल अविद्या का भेद है। यह विचार भी बीजरूप से उपर्युक्त उपनिषत् के कथन में आ गया है। कामिक विचारों की वृद्धि से जीवन और मृत्यु का भेद उठ जाता है और वह एक ही उन्नति के विविध रूप मात्र रह जाते हैं। ऐतरेय और शतपथ मुख्य ब्राह्मण हैं। पाश्चात्य पंडितों ने समयानुसार उपनिषदों के चार भाग किये हैं। वे पहली कक्षा में बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौशीतकि को रखते हैं। यह उपनिषदों के लिए प्राचीनतम कक्षा है। प्रश्न, मुंडक और केन के कुछ भाग इनके पीछे आते हैं। दूसरी कक्षा में कठ, ईश, श्वेताश्वतर, और महानारायण रखे गये हैं। तीसरी में मैत्रायणीय और माण्डूक्य, और चौथी में अथर्ववेदीय उपनिषत्। याज्ञवल्क्य ने महाराजा जनक से संवाद करते हुए सिद्ध किया है कि ईश्वर का अन्वयात्मक कथन असिद्ध है क्योंकि उसका शुद्ध वर्णन व्यतिरेक द्वारा ही किया जा सकता है। अन्वयवाची कथन उसे कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ में मुख्य मुख्य गुण आरोपित करके उसका वर्णन किया जाय। व्यतिरेक में ‘वह क्या नहीं है’ ऐसे कथनों द्वारा उसका ज्ञान

कराया जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य आदि ने ईश्वर को व्यतिरेक द्वारा अस्पृश्य, अविनाशी, अपरतन्त्र, अचल आदि कहा है। आरण्यकों, उपनिषदों आदि में ईश्वर मुख्यतया निर्गुण है। अरूप तो वह है ही, किन्तु गुणों की भी स्थापना उस में कम है। मनुष्य की निर्बलता से उसे गजग्राह की सी पुकार सुनने वाले व्यक्तिमापन्न ईश्वर की मानसिक प्रेरणा रहती है। ऐसा ईश्वर न पाकर केवल परब्रह्म के युक्ति संगत भाव से समाज सन्तुष्ट न रह सका। इस काल तक वैष्णव ईश्वरत्व कम था और विशेषता शैव ईश्वरत्व की थी। उपर्युक्त असन्तोष से बृहस्पति का चार्वाक मत लोकायत विचारों से निकला तथा महर्षि कपिल और जैमिनि के अनीश्वर वाद दार्शनिक रूपों में प्रकट हुये, जिससे सर्व साधारण में अनीश्वर वाद का मान हो गया तथा शैव ईश्वरत्व भी गिर सा गया। समय पर आचारात्मक बौद्ध धर्म चला, जिसने अपने मत में ईश्वर और वेदों को भी स्थान न दिया। वाल्मीकीय रामायण तथा कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र की साक्षी से उस काल (छठी से पहली दूसरी शताब्दी बी० सी०) तक जो मत सर्व साधारण में प्रचलित मिलता है, वह वैदिक रूप लिये हुये कुछ मोटिया पन भी धारण किये था। अनन्तर पाँचवीं शताब्दी बी० सी० के निकट बादरायण व्यास द्वारा गीता का निर्गुण सगुण ईश्वर युक्त आचारात्मक धर्म निकला।

ब्राह्मण काल का यह साहित्यिक इतिहास इसी स्थान पर समाप्त होता है। वैदिक समय में प्राकृत शक्तियों का व्यक्तीकरण और एक प्रकार से देवताओं का बहुलीकरण हुआ, किन्तु ब्राह्मण काल में उस बहुलीकरण से एकीकरण का भाव बड़ी दृढ़ता के साथ दिखलाया गया। वैदिक समय की रचनाओं में साहित्य की प्रधानता है और ब्राह्मणकाल में तर्क पूर्ण दर्शन की। वैदिक समय में उत्पादिनी शक्ति बलवती थी, किन्तु ब्राह्मण काल में स्थिरीकरण का भाव प्रधान रहा। वैदिक कवि बालकों के समान सभी पदार्थों पर आश्चर्य प्रकट करते हैं, किन्तु उपनिषदों के कवि प्रगाढ़ पंडित की भाँति जटिल दार्शनिक प्रश्नों को हल करते हैं। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति आश्चर्य से है, ऐसा पंडितों का मत है।

जब कोई व्यक्ति किसी अज्ञात पदार्थ को देख कर उसे मामूली नहीं समझता और उसके तत्त्व पर विचार करता है तभी पूर्ण ज्ञान के अभाव में उस पर आश्चर्य प्रकट करता है। ज्ञानोन्नतिकरण का यह आश्चर्य सर्वप्रधान सहायक है। हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को मामूली न मानकर उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और अपने प्राथमिक ज्ञानानुसार उसके निगूढ़ रहस्यों का साहित्यपूर्ण वर्णन किया। वे लोग इस काव्य में इतने नहीं भूल गये कि जगत्पिता को जान ही न पाते, किन्तु जगत्पिता पर उनका ध्यान कम था और जगत् पर विशेष। इधर ब्राह्मण काल वाले ऋषिगण बाहरी प्रकृति पर मुग्ध होना छोड़कर उसके निगूढ़तम रहस्यों में घुस गये और अपने परिश्रम का चामत्कारिक फल उपनिषदों के रूप में छोड़ गये हैं, जिस जाज्वल्यमान प्रतिभापूर्ण रचना पर आज सारा संसार मुग्ध है। जिस भाव से वैदिक ग्रन्थ हाथ में लिये गये थे उसका स्वाभाविक फल औपनिषत् ज्ञान था। इसीलिये जहाँ पुरानी रचनायें वेद कहकर पुकारी गईं, वहीं इनका वेदान्त कह कर आदर किया गया। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि जहाँ वैदिक ऋषि जीवन के उल्लास में मग्न हैं, वहीं ब्राह्मण ग्रन्थों का ऋषि दुःखवादी जीवन विचार की जड़ जमाता है। हिन्दू शास्त्र सांसारिक जीवन को दुःख मूलक समझता है। उसी की जड़ मुक्ति के रूप में ब्राह्मण काल में जमती है।

अट्टारहवाँ अध्याय

सूत्र साहित्य काल

७०० से १०० बी० सी० पर्यन्त (मुख्यतया)

अब तक हमारे ऋषियों ने वेदों और ब्राह्मणों की ओर ध्यान रक्खा तथा आरण्यकों और उपनिषदों को दृढ़ किया था। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में अब तक लेखन-प्रणाली का अच्छा प्रचार नहीं हुआ था जिससे ये भारी तथा बहुसंख्यक ग्रन्थ बन कर शताब्दियों पर्यन्त स्मरण-शक्ति द्वारा ही रक्षित रक्खे गये। वे महानुभाव कोटि कोटि धन्यवाद के भाजन हैं जिन्होंने पराई रचनाओं को केवल संसार के हितार्थ इतने दिनों तक स्मरण-शक्ति द्वारा रक्षित रक्खा। फिर भी इस अधिकता से पण्डितों को शिष्यवर्ग मिलते रहे कि इतना परिश्रम करते हुए भी लेखन-कला के विशेष प्रचार की आवश्यकता न प्रतीत हुई। तथापि ज्यों ज्यों ग्रन्थों की संख्या तथा आकार बढ़ते गये, त्यों त्यों उनके रक्षण-संबन्धी कठिनता का भी बोध होने लगा। इसलिए हमारे ऋषियों को भारी भारी तर्क-समुदाय के याद दिलाने को छोटे छोटे सूत्रों की आवश्यकता पड़ी, जिनकी भाषा तार द्वारा भेजे हुए समाचारों से भी अधिक सङ्कुचित है। ऋषियों ने संचिप्त गुण को इतना बढ़ाया कि किसी सूत्र से बिना भाव घटाये अर्थ मात्रा भी घटा पाने से उन्हें पुत्रोत्पत्ति के समान प्रसन्नता होती थी। इन्हीं संचिप्त से संचिप्त लेखों को सूत्र कहते हैं। हमारे भारतीय साहित्य में ब्राह्मण के पीछे इसी उपर्युक्त प्रकार के सूत्र-काल का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध ग्रन्थों से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध के समय से पूर्व भी देश में लेखन का अच्छा प्रचार था, किन्तु आर्यों ने अपने धार्मिक ग्रन्थों का लिखना पसंद न करके कई शताब्दियों पर्यन्त उन्हें फिर भी स्मरण-शक्ति द्वारा ही रक्षित रक्खा। इसीलिए लेखन-प्रचार के कई शताब्दी पीछे पर्यन्त सूत्रकाल चलता रहा। फिर भी लेखन-कला

के कारण नाटक तथा इतिहास ग्रन्थ भी इसी काल से बनने लगे जिनका जन्म ही लेखन-कला के प्रचार से हुआ क्योंकि वैदिक ग्रन्थों की भाँति इनके स्मरण रखने की कोई पर्वाह नहीं करता था। अब हम सूत्रों का कुछ संक्षिप्त कथन करके इस काल के अन्य साहित्यिक प्रस्तारों का वर्णन करेंगे।

सूत्र तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात् श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और गृह्य-सूत्र। इनके पीछे अथवा साथ ही साथ व्याकरणादि के सूत्र बने। पाश्चात्य पंडितों का मत है कि सूत्रों का समय वैयाकरण पाणिनि के समय से कुछ कुछ मिलता है। कुछ सूत्र इनसे पीछे लिखे गये और अधिकांश इनसे बहुत पहिले। बहुत से पण्डित पाणिनि का समय ६०० बी० सी० के निकट मानते हैं, किन्तु मंजु श्री मूल कल्प नामक आठवीं शताब्दी के एक प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ में वे महापद्मनन्द के दरबार में माने गये हैं। यह चौथी शताब्दी बी० सी० का आदि में था। एकाध महाशय अब भी पहला ही समय ठीक मानते हैं। श्रौत सूत्रों में प्रधान यज्ञों की विधियों के वर्णन हैं। किसी सूत्र-समुदाय में एक प्रकार के ऋत्विजों के कर्तव्य का कथन है और किसी में दूसरे का। कई सूत्र-समुदाय पढ़ने से ऋत्विजों के पूरे कर्तव्यों का बोध होता है। ऋत्विज् तीन प्रकार के हैं अर्थात् होता, अध्वर्य और उद्गाता। ब्रह्मा इन सब का निरीक्षक होने से चौथा ऋत्विज कहा जा सकता है। भारतीय पंडित गृह्य सूत्रों को ही धर्म सूत्र भी कहते हैं, किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इनको पृथक् माना है। गृह्यसूत्रों में गृहस्थों के आन्विक तथा इतर कर्तव्यों के विधान हैं। धर्मसूत्रों में सामाजिक एवं न्याय (कानून) संबन्धी नियमों के कथन हैं। इन तीनों प्रकार के सूत्रों के मुख्य आधार वेद ही हैं। इन सूत्रों के वर्णन इतने पूर्ण हैं कि जिसने कभी यज्ञ न देखा हो वह भी इनके द्वारा यज्ञों तथा अन्य कथित विषयों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भारतीय सामाजिक उन्नतियों एवं आचारों का इतिहास जानने में सूत्रग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं। सूत्रों तथा वेदों के अर्थ लगाने में प्रातिशाख्य सूत्र अच्छी सहायता देते हैं। प्रातिशाख्य सूत्रों के अतिरिक्त व्याकरण सूत्र और वैदिक अनुक्रमणिका प्रधान

हैं। अनुक्रमणिकाओं में प्रत्येक सूक्त के कवि देवता आदि के वर्णन हैं।

ऋग्वेद से सांख्यायन और आश्वलायन सूत्रों का सम्बन्ध है। सांख्यायनकार कविगण पीछे से उत्तरी गुजरात में पाये गये थे और आश्वलायन वाले कृष्णा और गोदावरी के बीच में रहते थे। राजाओं के बड़े यज्ञों के वर्णन सांख्यायन में आश्वलायन से अधिक विस्तार से कथित हैं। सांख्यायन में १८ काण्ड हैं, और आश्वलायन में १२। सांख्यायन सूत्रों का सम्बन्ध सांख्यायन ब्राह्मण से है और आश्वलायन का ऐतरेय से। आश्वलायन ऋषि शौनक के शिष्य थे। इन्होंने ही ऐतरेय आरण्यक भी लिखा। सामवेद के तीन श्रौत सूत्र उपलब्ध हैं अर्थात् मशक, लात्यायन तथा द्राह्यायन। मशक का आर्षेय कल्प भी कहते हैं। लात्यायन में मशक के उद्धरण हैं। शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सूत्र है जो चौथी शताब्दी बी० सी० में बना। कात्यायन ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर वार्तिक भी लिखे। प्राकृत व्याकरण भी इन्हीं का बनाया हुआ है। कथासरित्सागर के अनुसार ये नन्द-कुल के मंत्री थे। कहा जाता है कि मुद्राराक्षस के राक्षस मंत्री ही का नाम वररुचि कात्यायन था। कात्यायन गोभिल के पुत्र और दौनक के शिष्य थे। ये चौथी शताब्दी बी० सी० में हुए। इनका शुक्ल यजुर्वेद पर श्रौत सूत्र २६ अध्यायों का है। कृष्ण यजुर्वेद के ६ श्रौत सूत्र हैं जिनके रचयिताओं में आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधायन और भारद्वाज की प्रधानता है। वैषानस (श्रौत सूत्र) तथा मानव श्रौत सूत्र भी इसी वेद से संबन्ध रखते हैं। मनुस्मृति का मानव श्रौत सूत्र से संबन्ध अवश्य है। अथर्ववेद का वैतान सूत्र मात्र है। यह कात्यायन सूत्र के अनुसार चला है तथा अति प्राचीन नहीं है।

गृह्य सूत्र भी श्रौत सूत्रों की भाँति वेदों ही के अनुसार चलते हैं। ऋग्वेद से संबन्ध रखने वाले सांख्यायन, शाम्बव्य तथा आश्वलायन गृह्य सूत्र हैं। शाम्बव्य गृह्य सूत्र में पितृयज्ञ का विधान है। इससे जान पड़ता है कि इस काल में पितृपूजन भला भाँति स्थिर हो चुका था। सामवेद के गोभिल और खदिर गृह्य सूत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य-

सूत्र पारस्कर उपनाम कातीय अथवा वाजसनेय है। यह कात्यायन सूत्र से बहुत संबन्ध रखता है। कृष्ण यजुर्वेद के ७ गृह्य सूत्र हैं और इनके रचयिता प्रायः इस वेद के श्रौत सूत्रकार ही हैं। अथर्व-वेद का कौशिक गृह्य सूत्र है जिसमें भारतीय जीवन का अच्छा चित्र खिंचा है। संस्कारों का वर्णन विशेषतः गृह्य सूत्रों ही में है, जिनके अनुसार ४० संस्कार श्रेय हैं, अर्थात् १८ शारीरिक और २२ याज्ञिक। शारीरिक संस्कारों में पुंमवन (पंचमासा), जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण (मुण्डन), गौदान (दाढ़ी बनवाना), उपनयन, विवाह और अन्त्येष्टि प्रधान हैं। याज्ञिक संस्कारों में पंचमहायज्ञ (ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य और भूत) और अन्त्येष्टि उपनाम सपिण्डीकरण मुख्य हैं। इन्हीं सूत्रों में श्राद्धों का भी वर्णन पूर्णतया मिलता है। जान पड़ता है कि पितृपूजन का विधान भारत में सूत्रकाल में बहुत पुष्ट हुआ। पितरों की प्रशंसा ऋग्वेद में भी पाई जाती है और यजुर्वेद के ३५वें मंडल में पितृयज्ञ का विधान भी है, जिससे पितृ-पूजन की प्राचीनता प्रमाणित होती है। श्राद्धों में कैसे ब्राह्मण निर्मत्रित होने चाहिये और उनका कैसा मान सत्कार हो, यह सब उनमें वर्णित है।

धर्मसूत्रकारों में आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधायन, गौतम, वशिष्ठ आदि प्रधान हैं। धर्मसूत्रों की महत्ता ऐतिहासिकों के लिए श्रौत तथा गृह्यसूत्रों से अधिक है। धर्मसूत्रों ही से बढ़कर समय पर स्मृतियों का निर्माण हुआ। आपस्तम्ब सूत्र में ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ आश्रमों आदि के धर्मों का वर्णन है। इसमें भोज्याभोज्य के कथन हैं और शुद्धिकरण, प्रायश्चित्तादि के भी विवरण आये हैं। विवाह, दाय और अपराधों के वर्णन भी आपस्तम्ब ने किये हैं। उत्तरी लोगों की निन्दा से प्रकट है कि ये महाशय दाक्षिणात्य थे। इनकी भाषा पाणिनाय व्याकरण के पहले की समझ पड़ती है, जिससे जान पड़ता है कि ये चौथी शताब्दी बी० सी० से पहले के हैं। वृत्तर ने इन्हें चौथी शताब्दी बी० सी० में माना है। हिरण्यकेशी का ग्रन्थ आपस्तम्ब से सम्बन्ध रखता है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में अन्य ग्रन्थकारों से कोई विशेष मतभेद नहीं है, जिससे जान पड़ता है कि इनके कई शताब्दी पूर्व

हिन्दूमत दक्षिण में पूर्ण स्थिरता के साथ स्थापित हो चुका था। यदि उस काल दक्षिण में हिन्दू मत नया होता, तो इनका ग्रन्थ प्रचीन आर्य ग्रन्थों के समान सारे देश में सम्मानित कभी न होता, क्योंकि उस में स्थानिक बातें आये बिना न रहतीं।

बोधायन धर्म सूत्र भी आपस्तम्ब ही के समान विषयों पर कथन करते हैं और ये महाशय भी दक्षिणात्य हैं। बूलर का कथन है कि ये महाशय चौथी शताब्दी बी० सी० के पहले के हैं। इससे भी हमारे उपर्युक्त कथन को पुष्टि मिलती है। बोधायन के धर्मसूत्र में कुछ श्रंग भी हैं जो प्रक्षिप्त समझे जाते हैं। दत्त महाशय बोधायन को छठी शताब्दी बी० सी० के समझते हैं। बोधायन ने भारत को तीन भागों में विभक्त किया है। आप गंगा यमुना वाले देश को सर्वोत्कृष्ट कहते हैं, दक्षिणी तथा पूर्वी बिहार, दक्षिणी पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मालवा और दक्षिण दूसरे दर्जे के, तथा बंगाल, उड़ीसा, और ठेठ दक्षिण तीसरे दर्जे के। ये दर्जे आर्यसभ्यता के प्रचारानुसार थे। दूसरी श्रेणी के मनुष्य मिलित जाति के कहे गये हैं। जो कोई पंजाब के आरट्ट, ठेठ दक्षिण के कारस्कर, बंगाल एवं उड़ीसा के पुण्ड्र, बंग तथा कलिंग, दक्षिणी पंजाब के सौवीर और प्रानन लोगों में कहीं गया हो, उसे पुनीत होने का यज्ञ करना पड़ेगा। बोधायन निम्न स्थानों के निवासियों को मिश्र जातियों के मानते हैं :—मुल्तान, सूरत, दक्षिण, मालवा, पश्चिमी बंगाल और बिहार। बौद्ध ग्रन्थ कीशलों का शुद्ध अमिश्र जाति वाले मानते हैं। सूत्रों में पहले पहल (मोहंजोदड़ो के पीछे) देवताओं की प्रतिमाओं के कथन हैं, जैसे ईशान, मीढ़ शी, जयन्त, क्षेत्रपति। धर्म सूत्र ग्रन्थों में कुटुम्बों का न होकर समाज का विशेष कथन है। बोधायन के अनुसार दक्षिणात्यों के विशेष चलन निम्नानुसार हैं :—अपनी स्त्री अथवा बिना जनेव हुये बालकों के साथ भोजन करना, बासी खाना खाना, मामा या फूफू की कन्या के साथ विवाह करना। उन्हीं के अनुसार उत्तर वालों के निम्न कथित चलन हैं :—ऊनका व्यापार करना, शराब पीना, शस्त्रास्त्र का व्यापार करना, समुद्र यात्रा करनी आदि। आपस्तम्ब तथा बोधायन की भाषा देखते हुये गौतमीय भाषा पाणिनीय नियमों

पर विशेष चलती है ।

गौतम ने यद्यपि अपने ग्रन्थ को धर्मशास्त्र कहा है तथापि वास्तव में वह धर्मसूत्र ही समझा जाता है । यह ग्रन्थ कल्पसूत्र का अंग नहीं है जैसा कि आपस्तम्ब और बोधायन के हैं । पाश्चात्य पंडितों का मत है कि बोधायन धर्मसूत्र के कुछ भाग गौतम धर्मसूत्र पर अवलंबित हैं और कुछ उनसे लिये भी गये हैं । गौतम उत्तरीय ब्राह्मण थे और बोधायन दक्षिणस्थ । उस काल किसी ग्रन्थ का उत्तर से दक्षिण को जाना शताब्दियों का काम था । इससे गौतम का काल चौथी पाँचवीं शताब्दी बी० सी० से पूर्व समझ पड़ता है । कुमागिल्ल का कथन है कि गौतम सूत्र सामवेद से सम्बन्ध रखता है । वशिष्ठकृत धर्मशास्त्र में गौतम के अवतरण हैं और मनुस्मृति में वशिष्ठ धर्मशास्त्र के उद्धरण पाये जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि वशिष्ठ का समय गौतम और मनुस्मृति के बीच में है । वशिष्ठ ने मानवसूत्र के भी अवतरण दिये हैं । इससे भी सिद्ध होता है कि मनुस्मृति मानवसूत्र के आधार पर बनी ।

शुल्वसूत्रों में वेदी आदि बनाने के ढङ्ग लिखे हैं । इनसे रेखागणित का अच्छा ज्ञान विदित होता है । कुछ लोगों का विचार था कि ब्राह्मणों ही ने इन सब धार्मिक रीतियों तथा विधियों को चलाया, किन्तु अब यह भली भाँति सिद्ध हो गया है कि यद्यपि ब्राह्मणों ने इनकी उन्नति बहुत अधिकता से की और इन सब को क्रम-बद्ध करके अपना बुद्धि-वैभव दिखलाया, तथापि इन सब का मूल प्राचीन आर्य-सभ्यता में वर्तमान था । इसके उदाहरण-स्वरूप आर्यों तथा पार्सियों के यज्ञ, सोम, यज्ञोपवीत, अग्नियज्ञ, विवाह की सप्तपदी आदि से सम्बन्ध रखने वाले विचार हैं । लकड़ियों को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करने का भी ढङ्ग दोनों जातियों में एकसा पाया जाता है ।

सूत्रवत् वैदिक ग्रन्थों के हमारे यहाँ ६ भाग माने गये हैं, जिन्हें वेदाङ्ग कहते हैं । इनके नाम शिक्षा (उच्चारण), छन्द, व्याकरण, निरुक्त (शब्दविभाग), कल्प (धार्मिक विधि), और ज्योतिष हैं । शिक्षा का कुछ वर्णन हम वैदिक अध्यायों में कर आये हैं । छन्द का विधान पिङ्गल से सम्बन्ध रखता है । कहते हैं कि शेषनाग ने छन्दों का विधान

किया। इससे जान पड़ता है कि छन्दःशास्त्र नागों का बनाया हुआ है। व्याकरण के सबसे पहले आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। इनसे पहले का कोई व्याकरण ग्रन्थ अब हस्तगत नहीं होता, किन्तु स्वयं पाणिनि ने अपने पूर्व के ६४ वैयाकरणों के नाम लिखे हैं। यास्क भी एक प्रकार से वैयाकरण थे, यद्यपि अब उनकी महत्ता केवल निरुक्त पर ही अवलम्बित है। यास्क पाणिनि से बहुत पहिले के हैं। इनके समय में भी व्याकरण का ज्ञान बहुत फैल चुका था, क्योंकि इन्होंने व्याकरण सम्बन्धी दो शाखायें उत्तरी और पूर्वी कही हैं तथा प्रायः २० वैयाकरणों के नाम लिखे हैं जिनमें शाकटायन, गार्ग्य और शाकल्य प्रधान हैं। पाणिनि का व्याकरण ऐसा उत्कृष्ट बना कि इनके पहले वाले सभी वैयाकरणों के ग्रन्थ और यश लुप्त हो गए और यदि यास्क ने निरुक्त न लिखा होता तो उनके ग्रन्थ की भी वही दशा होती जो औरों की हुई।

शांखायन गृह्य सूत्र में सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल के नाम हैं तथा आश्वलायन सूत्र में भारत और महाभारत के। शाम्बव्य सूत्र भी महाभारत का कथन करता है। नवीन सूत्र उसी समय के हैं जब भारत और रामायण बनीं। शतपथ ब्राह्मण में जनमेजय थोड़े ही दिन पहले के महाराजा हैं। वैशम्पायन और व्यास के नाम तैत्तिरीय आरण्यक में हैं, किन्तु महाभारत से उनका सम्बन्ध अकथित है। कात्यायन के वार्तिक में पहले पहल कुरु पाण्डवों का कथन है। (हाकिंस)।

मैकडानेल महाशय के अनुसार यास्क सूत्रकाल के आदि में हुए। पाणिनि के समय का कथन ऊपर आ चुका है। इनके पीछे वाले व्याकरणकारों में कात्यायन और पतञ्जलि प्रधान हैं और ये तीनों मुनित्रय कहाते हैं। कात्यायन नंद वंश के मंत्री होने से चौथी शताब्दी बी० सी० के ही थे और पतञ्जलि पुष्यमित्र के समकालिक होने से दूसरी शताब्दी बी० सी० के। कात्यायन ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे, जिससे पाणिनि इनके पूर्व ठहरते हैं। हम ऊपर कह आये हैं कि बोधायन चौथी पांचवीं शताब्दी बी० सी० के थे। इनके ग्रन्थ में महाभारत का हवाला मिलता है। डाक्टर जॉली के

मतानुसार गौतम पाँचवीं या छठी शताब्दी बी० सी० के हैं, तब बोधायन आते हैं, फिर आपस्तम्ब, अनन्तर वशिष्ठ। डाक्टर जाय-सवाल आपस्तम्ब के विषय में जौली से सहमत होकर उन्हें प्रायः ४५० बी० सी० का मानते हैं, किन्तु गौतम को आपस्तम्ब से पुराना नहीं समझते वरन् उन्हें ३५० बी० सी० के निकट का बतलाते हैं। मूलतः बोधायन का ग्रन्थ आपस्तम्ब से पुराना है, किन्तु उस ग्रन्थ का वर्तमान रूप दूसरी शताब्दी बी० सी० तक आ जाता है। वशिष्ठ १०० शताब्दी बी० सी० से पहले का न होगा। अतएव प्रायः सातवीं शताब्दी से चल कर सूत्रकाल प्रायः पहली शताब्दी बी० सी० तक चला।

पुराणों के वर्णन में हम महाभारत की प्राचीनता के प्रमाण लिखेंगे। उधर यास्क पाणिनि से और भी अधिक प्राचीन समझ पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत भारी भारी वैयाकरणों के नाम आये हैं। निरुक्त एवं ज्योतिष का वर्णन हम ब्राह्मणों के अध्याय में कुछ कुछ कर आये हैं। परिशिष्ट, प्रयोग, पद्धति और कारिका नामक ऐसे चार ग्रन्थ हैं जो सूत्रों से कुछ कुछ मिलते हैं। अनुक्रमणिका ग्रन्थ में कात्यायन कृत सर्वानुक्रमणिका प्रधान है। विधि आदि के विषय पर पूरा बल प्रयोग करते हुए भी हमारे ऋषियों ने आचार ही की प्रधानता रक्खी। वशिष्ठ का वचन है, “जैसे स्त्री की सुन्दरता अन्धे को कोई प्रसन्नता नहीं देती, उसी प्रकार षडङ्गों तथा यज्ञों समेत सब वेद उसके लिए शुभ नहीं होते जिसका आचार ठीक नहीं है।” सूत्रकाल के ज्योतिषकारों में पराशर और गर्ग की प्रधानता है, किन्तु इन लोगों के नामों पर जो ग्रन्थ मिलते हैं वे ईसा से एक ही दो शताब्दी पहिले के हैं।

हम ब्राह्मण-काल के साहित्य-विवरण में लिख आये हैं कि षड्-दर्शन के मूल सिद्धान्त बीज-रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं। इनका विकास सूत्रकाल में कुछ अच्छा हुआ। ऊपर गौतम कृत धर्म-सूत्र का वर्णन कर आये हैं। जान पड़ता है कि यही सूत्रकार गौतम न्याय-शास्त्र के भी आचार्य थे। हमारे यहाँ का न्याय शास्त्र अँगरेजी लॉजिक ही के समान नहीं है, वरन् लॉजिक के सिद्धान्तों को कहकर वह और भी बहुत सी बातों का कथन

करता है। गौतम ने पहले सोलह पदार्थों का सम्बन्ध बता कर यह सिद्ध किया कि उनसे मुक्ति किस प्रकार मिलती है ? इनके थोड़े ही पीछे आचार्य कणाद हुए जिन्होंने न्याय से सम्बन्ध रखने वाले वैशेषिक शास्त्र को प्रकट किया। इनका सिद्धान्त एक प्रकार का परमाणुवाद है और खेतों से बीन कर केवल कण खाने के कारण इनको कणाद कहते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था सां अब ज्ञात नहीं है। उल्क गोत्री होने के कारण ये ओलूक कहलाते थे। हमारे षड्दर्शन में सांख्य और पूर्वमीमांसा अनीश्वरवादी हैं। सांख्य केवल प्रकृति और पुरुष का मान कर चलता है अथच ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता। कपिल ने २५ तत्त्वों को लेकर संसार-सृष्टि बताई है। इन षड्दर्शन वाले वर्तमान ग्रन्थों में एक दूसरे तथा बौद्ध दर्शनों के भी हवाले हैं। इस से इन वर्तमान ग्रन्थों के नवीन भाग दूसरी तीसरी शताब्दी ईसवी के पीछे के हैं।

उपर्युक्त दोनों अनीश्वरवादी शास्त्रों के प्रादुर्भाव से हिन्दू मत में अनीश्वरता का पहले पहल शास्त्रीय रूप में बीजारोपण हुआ और पण्डित-समाज में बड़ी खलबली पड़ी। इसलिए महर्षि गौतम तथा कणाद ने ईश्वरवाद के पक्ष को दृढ़ किया। पूर्व मीमांसा में वेदों की महत्ता सिद्ध की गई है और उन पर पाण्डित्य-पूर्ण विचार प्रकट किए गये हैं। जान पड़ता है कि इसी समय या इस से बहुत पूर्व चार्वाक का शरीरवाद फैला जिसके अनुसार शारीरिक सुख सभी धर्मों का मूल है। महर्षि जैमिनि ने बृहस्पति के इस विचार का खण्डन भी किया है। जैमिनि एक बहुत प्राचीन आचार्य थे, क्योंकि यास्क के ग्रन्थों में इनके सिद्धान्तों का कथन आया है, जिससे इनका यास्क के पहले होना प्रकट होता है। उधर कणाद गौतम के पीछे हुए।

गौतम, पराशर, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि ने मनु का उल्लेख किया है। भृगु, गौतम, शौनक, अत्रि आदि के विचार मनु में पाये जाते हैं। भृगु ने मनु के सिद्धान्तों को एकत्र करके मानव धर्म सूत्र रचा।

पांचवीं शताब्दी बी० सी० के लगभग बादरायण व्यास ने उत्तर मीमांसा के आदिम रूप का निर्माण किया। पूर्व मीमांसा में कर्म-

काण्ड की विशेष प्रधानता रही, किन्तु उत्तर में ज्ञान की। मोटे प्रकार से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का वही सम्बन्ध है जो ब्राह्मण और उपनिषदों का है।

जैन पंडित हेमचंद्र का कहना है कि न्याय के भाष्यकार पक्षिण चाणक्य ही थे। जैमिनि वेदों का महत्त्व स्वीकार करते हैं किन्तु उनका अनादि होना नहीं मानते। गौतम ईश्वर को मानते हैं किन्तु उसकी सृष्टि-शक्ति को नहीं।

भारतवर्ष में वेदान्त या दर्शन की १९ शाखायें थीं। हिन्दू वेदान्त प्रथम ईश्वरवादी था, किन्तु पीछे से अनीश्वरवादी भी हो गया। मुक्ति की समस्या को सब एक मत से मानते हैं।

बृहस्पति कृत चारवाक का मत है कि (१) कष्टप्रद कार्य मत करो। (२) हिंसा न करो। (३) भाग्य नहीं, पुरुषार्थ मुख्य है। आलसी भाग्य पर भरोसा करते हैं। आत्म निर्भर रहे। आत्म-निर्भरता ही शक्ति है। उसी से मोक्ष होती है। (४) परमेश्वर अथवा अन्य लोक नहीं है। (५) वेद और ईश्वर में विश्वास मत करो, क्योंकि वे कृत्रिम और धोखेबाज हैं। (६) सदा बुद्धि पर चलो। बुद्धि बिना धर्म नहीं। (७) आत्मा अमर है और वह क्षिति, जल, पावक और समीर से बना है, अग्नि से भी नहीं। (८) केवल प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सब से पहले बृहस्पति ने अनीश्वरवाद चलाया था और ब्रह्मा ने अथर्व दर्शन। अनीश्वरवाद शूद्र राज्यों में तथा ब्राह्मण-वेदान्त क्षत्रिय-राज्यों में उन्नत हुआ।

जैनों के मुख्य तीन सिद्धान्त हैं अर्थात् (१) सम्पक् दृष्टि, (२) सम्यक् ज्ञान, और (३) सम्यक् कर्म। सम्यक् कर्म में ५ उपभेद हैं अर्थात् (१) सत्यभाषण, (२) अस्तेय, (३) इच्छाध्यान, (४) पवित्रता (मानस, वाचिक एवं कायिक), और (५) अहिंसा।

महाभारत में लिखा है कि आर्य जैन और म्लेच्छों के कारण लोग संदिग्ध हो गए थे। हिरण्यकशिपु और अश्वमेध सबसे पहले शरीर-वादी थे। अश्वमेध ने वैदिक धर्म को संसार से उठाने का प्रयत्न किया और वेद को चुरा लिया।

ब्राह्मण-काल-पर्यन्त जो वेदों और ब्राह्मणों की रचनायें हुई थीं वे सब अपौरुषेय कहलाती हैं, किन्तु सूत्रकाल के ग्रन्थ मनुष्यकृत हैं ऐसा कट्टर पण्डितों का भी कथन है। वैदिक, ब्राह्मण और सूत्र नामक तीन काल कहे गये हैं। इन तीनों कालों में भाषा भी एक दूसरे से भिन्न थी। वैदिक समय में आर्यों की भाषा आसुरी कहलाती थी जिसमें ऋग्वेद एवं सामवेद का गान हुआ। यह आर्यों की सबसे पुरानी भाषा थी। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की भाषा इससे कुछ उन्नत समझ पड़ती है। यद्यपि यह भेद सभी स्थानों पर दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि कुल बातों पर विचार करने से यह भाषा ऋग्वेद से कुछ विकसित अवश्य है। यह विकास ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की भाषा में और भी स्पष्ट होता है। सूत्रकाल में साहित्य का गौरव और लेखकों की संख्या इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे नियमों की रचना होने लगी। इन नियम-सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम व्याकरण पड़ा। इसी व्याकरण के दृढ़ होने से भाषा का संस्कार हुआ, जिससे उसका नया नाम संस्कृत पड़ गया। व्याकरण का आदि काल सूत्रकाल के आरम्भ से ही समझ पड़ता है, और पाणिनि के समय में वह दृढ़ता का प्राप्त हुआ। पाणिनि के पूर्व वाले वैयाकरण भी भाषा का संस्कार करने के प्रयत्न में लगे रहे किन्तु उस में सफलता पाणिनि का हुई। व्याकरण सम्बन्धी विचारों के बहुतायत से समस्त सूत्रकाल की भाषा संस्कृत कही जा सकती है। अतः वैदिक समय की भाषा आसुरी हुई और सूत्रकाल की संस्कृत। ब्राह्मणकाल की भाषा इन दोनों के बीच में थी। इन तीनों को हम आर्य-भाषा कह सकते हैं। नवीन परिष्कृत संस्कृत भाषा का आरंभ काल यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों से है। यह धीरे धीरे दो स्थितियों में सुधर कर वर्तमान रूप का पहुँची है।

ब्राह्मण-काल-पर्यन्त आर्य-भाषा ही की महत्ता रही और प्राकृत भाषा इसके संसर्ग से उन्नति अवश्य करती गई किन्तु उसने ऐसा विभव नहीं प्राप्त किया कि उसमें ग्रन्थ लिखे जाते। यदि कुछ प्राकृत ग्रन्थ उस काल बने भी हों तो वे ऐसे नीरस और शुष्क थे कि बहुतायत से रक्षित नहीं रह सकें। सूत्रकाल से ही हम प्राकृत को पहले

पहल साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण होते देखते हैं। ब्राह्मण लोग सूत्रकाल पर्यन्त उच्च विषयों में लगे रहे। इसीलिए उन्होंने राज-यश-गान अपनी महत्ता के प्रतिकूल समझा। यही कारण है कि राजनीतिक इतिहास रचित करने का भार सूत लोगों पर पड़ा। कहते हैं कि जब महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों में वेद को बाँटा, तब पुराणों का विषय लोमहर्षण सूत का सौंपा। इससे जान पड़ता है कि जब इस विषय को लुप्त समझ कर ब्राह्मणों ने इसका तिरस्कार किया, तब सूतों ने इसे अपनाया। यह सूत लोग आर्य-भाषा में प्रवीण न रहने के कारण प्राकृत की ही आरंभ करते थे। उसी भाषा का साधारण जन-समुदाय में व्यवहार भी विशेष होगा। इसलिए पुराणों के विषय-वर्णन के साथ प्राकृत का पहला लेखन-काल प्रारम्भ हुआ। राजा लोग भी अपना तथा अपने पूर्व पुरुषों का वृत्त एकत्रित करने का प्रयत्न करते थे। सबसे अधिक वंशावलियों पर ध्यान रहता था। यह ऐतिहासिक मसाला भी प्राकृत ही में एकत्रित होता था। जान पड़ता है कि वर्तमान ब्रह्मभट्ट और चारणों की भाँति पूर्व काल में इन बातों पर सूतों ने विशेष ध्यान दिया और इसीलिए राजाओं ने वंशवृत्त-रक्षणार्थ उन्हीं से काम लिया। ये वृत्त भी पहले स्मरण-शक्ति द्वारा रचित रहे, किन्तु लेखनकला के चलन से सब से पहले उसका प्रयोग भी इन्हीं विषयों पर हुआ।

सर्व साधारण तथा स्त्रियाँ भी इतिहासों के सुनने का चाव रखती थीं। शायद इसीलिए कहा गया है कि पुराण स्त्रियों तथा शूद्रों ही के लिए हैं। अतः प्रकट होता है कि राजाओं, सूतों, स्त्रियों तथा शूद्रों के प्रोत्साहन से हमारे यहाँ पहले पहल इतिहास का प्रादुर्भाव हुआ। पार्जितर महाशय ने सिद्ध किया है कि प्राचीनतम संस्कृत-पुराण-ग्रन्थ प्राकृत पुराणों के आधार पर बने और बहुत स्थानों पर श्लोक प्राकृत से जैसे के तैसे उठाकर संस्कृत में अनुवादित हो गये, यहाँ तक कि कहीं कहीं भविष्य पुराण में प्राकृत शब्द के स्थान पर वैसा ही संस्कृत शब्द लाने का प्रयत्न करने से व्याकरण तथा छन्दोदि की भी अशुद्धियाँ हो गईं। यदि उन स्थानों पर प्राकृत शब्द रक्खे जायें तो यह अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। बौद्ध निकाय ग्रन्थों से विदित होता

है कि ऐसे प्राचीन समय में भी सर्वसाधारण में पुराण सुनने की प्रथा थी जब संस्कृत के पुराण ग्रन्थ न बने थे। इन बातों से सिद्ध होता है कि प्राकृत में श्लोकबद्ध पुराण भी बने थे और सर्वसाधारण में उनका मान होता था। उनमें साहित्यिक चमत्कार विशेष न था, इसीलिए संस्कृत-पुराण ग्रन्थ बनने के कारण उनका लोप हो गया। श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलरामजी की तीर्थ-यात्रा के वर्णन में लिखा है कि नैमिषारण्य में उन्होंने किसी सूत को व्यासासन पर बैठे हुए सहस्रों श्रोताओं को पुराण सुनाते देखा। उस श्रोतृ-समाज में अनेक ब्राह्मणों को भी देखकर बलरामजी को पौराणिक सूत की अनुचित महिमा पर इतना क्रोध आया कि इन्होंने तत्काल उसका वध करके एक ब्राह्मण को उसके स्थान पर पुराण बाँचने के लिए नियत किया। (इस कथन का आधार १२वें अध्याय में है।) इस बात से सिद्ध होता है कि उस काल भी पुराण बाँचने की प्रथा थी और सूतों के अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण लोग भी इसमें पटु हो गये थे।

लेखन-कला का भी चलन भारत में सूत्रकाल से ही हुआ। बौद्ध इतिहासकार रिज डेविड्स ने अनेकानेक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से अवतरण देकर सिद्ध किया है कि छठी शताब्दी बी० सी० में लेखनकला भारत में सर्वसाधारण में प्रचलित थी। इनके अनुसार छठी शताब्दी बी० सी० के मध्य अथवा आठवीं के प्रारम्भ में द्राविड़ व्यापारी लोग समुद्रमार्ग से बैबिलोन को प्रायः जाते आते थे। यह देश पश्चिमी एशिया में है। वहीं से इन लोगों ने फारसी की भाँति दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि सीखी और उसका भारत में प्रचार किया। हमारे यहां की प्राचीन ब्राह्मी लिपि भी इसी प्रकार लिखी जाती थी। इसी के पीछे भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ जो वर्तमान लिपि की भाँति बाईं ओर से चलती है। सब से पुरानी लिपि भारत में मोहंजो दड़ो और हड़प्पा में मिली है। यह अभी पढ़ी नहीं गई है। पुरा शास्त्र वेत्ताओं ने इस का समय ३२५० से २५५० बी० सी० में कभी माना है। अष्ट करणी गायों का कथन ऋग्वेद में होने से उस काल भी लेखन का कम से कम कुछ प्रयोग सिद्ध है।

श्याम शास्त्री का मत है कि हमारे यहां की लेखन-विद्या का प्रादुर्भाव देव-पूजन से हुआ, अर्थात् जिस काल प्रतिमाएँ न थीं, तब विविध सांकेतिक चिह्नों द्वारा पृथक् पृथक् देवताओं का पूजन होता था। समझा जाता था कि इन सांकेतिक चिह्नों में देवताओं का निवास है, अर्थात् ये देवनागर हैं। इन्हीं से समय पर लिपि निकली और वह देवनागरी कहलाई। इस मत को मानने से भारतीय लिपि-प्रणाली का बैबिलोन से आना असिद्ध ठहरेगा। जनरल कनिंगहम का भी मत है कि भारत में लिपि-प्रणाली बैबिलोन व पश्चिमी एशिया से असंबद्ध है और यहां पण्डितों ने स्वयं अपनी लिपि का प्रादुर्भाव किया। मोहंजोदड़ो और हड़प्पा के पीछे अशोकादि के प्राचीन शिला-लेख सब खरोष्ट्री में मिलते हैं। अशोक-काल से प्राचीन-तर केवल एक पाषाण लेख नैपाल की तराई में मिला है जिसमें १४ अक्षर मात्र हैं। प्राचीन प्राकृत पुराण ग्रन्थों के अस्तित्व से प्रकट होता है कि भारत में लेखनकला का चलन आठवीं शताब्दी बी० सी० से अवश्य है। जिस काल महर्षि व्यास ने महाभारत बनाई, उस काल पुराण-लेखन में स्मरण से काम नहीं लिया जाता था, क्योंकि महाभारत ही में लिखा है कि व्यासदेव इसे बना बना कर लिखाते गये। इस ग्रन्थ का आदिम नाम जय था, जो छठी सातवीं शताब्दी बी० सी० का कहा जाता है।

यहाँ तक हम सूत्रकाल की विद्या-विषयिणी उन्नतियों का विवरण करते आये हैं। अब उन्हीं के सहारे सामाजिक अवस्था का कुछ वर्णन किया जायगा। धर्म सूत्रों ही से बढ़ कर समय पर स्मृति ग्रन्थों का निर्माण हुआ। सब से पहला स्मृति-ग्रन्थ मानव-धर्म-शास्त्र अथवा मनुस्मृति है। कएव वंशी तीसरे राजा नारायण के राजकवि भास कहे जाते हैं। उन्होंने १३ नाटक रचे। नारायण पहली शताब्दी बी० सी० में थे। इतना प्रकट है कि मानव-धर्म-शास्त्र भास से पहले का है। मनुस्मृति का समय पाश्चात्य पण्डितों ने दूसरी शताब्दी बी० सी० से दूसरी शताब्दी ईसवी तक के बीच का माना है पर इस ग्रन्थ का समय निरूपण कठिन कार्य है क्योंकि यह कई बार करके बना और क्षेपक पूर्ण भी है। कुल मिला कर भारतीय पण्डितों का विचार है कि

इसका आदिम रूप महाभारत के पीछे का नहीं है। आज कल मुख्य स्मृतियाँ १८ मानी गई हैं। स्मृतिकारों में मनु, अत्रि, हारीत, शंख-लिखित (दोनों ने मिल कर एक ही स्मृति रची), पराशर, व्यास, नारद, विष्णु, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य मुख्य हैं। सत्ययुग के लिए मनुस्मृति की प्रधानता मानी गई है, त्रेता में गौतम की, द्वापर के लिए शंख-लिखित की तथा कलियुग में पराशर की।

प्रसिद्ध १८ स्मृतियों के रचयिता निम्नानुसार हैं:—मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख-लिखित, गौतम, शातातप और वशिष्ठ। स्मृतियों का काल बी० सी० पांचवीं से कई शताब्दियों तक चलता है। सामाजिक विवरण के लिये स्मृतियों से बहुत कुछ मसाला मिलता है किन्तु उन्हें छोड़ कर केवल सूत्र ग्रन्थों से भी अच्छा सामाजिक विवरण प्रकट होता है। स्मृतियों का विवरण आगे के भाग से सम्बद्ध है।

सब से पहले हम स्त्रियों के अधिकारों तथा विवाहों के विषय में विचार करेंगे। नारद, देवल तथा पराशर ने स्त्रियों का सबसे अधिक अधिकार दिये। इनके विचार में मासिक ऋतु से भूत जार की शुद्धि होती है और गर्भ तक रह जाने से प्रसव के पश्चात् स्त्री शुद्ध हो जाती है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी का पति बेपता हो जाय तो जाति के अनुसार वह दो से लेकर यथाक्रम ८ वर्षों के पीछे दूसरा पति कर सकती है। पंचापत्तियों में भी इन्होंने स्त्रियों के लिये दूसरे पति का विधान किया है। निकट के सम्बन्धियों में विवाह वर्ज्य किया गया है, यद्यपि युधिष्ठिर के समय तक यह प्रथा जारी थी। मिलित विवाहों की प्रथा सूत्रकाल में भी चलती रही। स्वयं गौतम बुद्ध से एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या व्याहने को कहा था और फिर वही कन्या राजा उदयन को व्याही गई। उदयन कुलीन क्षत्रिय थे, किन्तु उनकी तीन रानियों में से एक ब्राह्मणी थी, एक क्षत्रिया तथा एक वैश्या। इसके बहुत पीछे तक यह चाल चलती रही।

वर्णाश्रम धर्म की प्रथा बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली आती थी। वर्ण विभाग के ही अन्तर्गत जातिभेद भी था। सूत्र-काल

में ब्राह्मण-काल की अपेक्षा जातिभेद की अधिक दृढ़ता हुई किन्तु आश्रमभेद की परिपाटी में कुछ शिथिलता आने लगी। आदिम काल में अधिकांश विद्यार्थी गुरुओं के यहाँ जाकर ब्रह्मचर्य-विधान से विद्या ग्रहण करते थे। अनाथ बालकों के लिये भी शिक्षा का प्रबंध था और वे पुण्य शिष्य कहलाते थे। यह संस्था सूत्रकाल में बहुत कम हो गई और वानप्रस्थ तथा संन्यास की परिपाटी भी कमी को प्राप्त हुई। हिन्दू धर्म के अनुयायी बढ़े और अनेकानेक आदिम निवासी इसमें आये। प्रारंभ में ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत कम थे। उत्तरी भारत में प्रायः वैश्यों ही का प्राधान्य था। उत्साही, स्वतंत्र स्वभाव द्रविड़ों के बहुत से लोग बंगाल और कलिंग को गये और वहाँ उन्होंने राज्य स्थापित किये। उनमें से जो लोग आर्य आगमन समय तक पूर्ण हिन्दू बनने से बच रहे थे उनको इन्होंने अपने में मिला लिया। उनमें से बहुत लोग वैश्य हो गये तथा शेष शूद्र रहे। पतित या जातिच्युत आर्य भी शूद्र ही कहाते थे। इन ४ वर्गों के अतिरिक्त एक बड़ी जाति निषाद भी थी। अब वे अछूतों में हैं और उनकी संख्या प्रायः २५ प्रतिशत है। बहुतेरे विदेशीय भी समय पर जातियों में सम्मिलित हो गये। ग्रीक, पार्थियन, सीथियन, शक, तुर्क, हूण, कुशान आदि सब हिन्दू हो गये। स्वच्छ आचरण के कारण शूद्र भी रसोइया बनाया जा सकता था। स्त्री और पुरुष सब लम्बे बाल रखते थे, विशेष कर वशिष्ठ गोत्र वाले अवश्य ऐसा करते थे। लिखा का उल्लेख प्रथम शतपथ ब्राह्मण में आया है। जो जन-समुदाय कोई विशेष कार्य करता था, उसकी एक पृथक् जाति सी होती थी। अम्बष्ठ, निषाद, उग्र, मागध, वैदेहक, सुनार, बढई, लाहार, कुक्कुटक, चाण्डाल, आदि अनेकानेक जन-समुदाय इस प्रकार के थे। वशिष्ठ, बांधायन और गौतम के अनुसार कुछ जातियों की उत्पत्ति मिश्रित थी, जैसे—चाण्डाल = शूद्र + ब्राह्मणी; वैन = शूद्र + क्षत्रिया; अव्यवासिन = शूद्र + वैश्या; रमक = वैश्य + ब्राह्मणी; पौलकस = वैश्य + क्षत्रिय; सूत = क्षत्रिय + ब्राह्मणी; अम्बष्ठ = ब्राह्मण + क्षत्रिया; उग्र = क्षत्रिय + वैश्या; निषाद = वैश्य + शूद्र। इनको उपजाति भी कहते थे। शांति पर्व में लिखा है कि काले, मिश्रित जन्मी मनुष्य,

जो अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाले, लालची तथा सब कर्मकर्ता थे, शूद्र कहलाये। कहीं कहीं आया है कि मूलतः शूद्र आर्यों और दस्युओं के मेल से उत्पन्न दास श्रेणी के मनुष्य थे। प्रायः वे द्रविड़ (Dravidian) जाति के परिवर्तित लोग थे। कोई कोई यह भी सोचते हैं कि शूद्र मूलतः अनार्यों की कोई भारी जाति थी, और पीछे कुछ आर्यों एवं अन्यो को मिलाकर इसका व्यापक नाम हो गया। अंतिम वेदों में उनको निषाद जाति अर्थात् शिकारी कहा है। ये लोग जैसे के तैसे हिन्दूधर्म में आ गये और इनकी जाति जैसी की तैसी बनी रही। इन लोगों को चार ही जातियों में स्थान मिलना था, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि हिन्दुओं में कोई पंचम वर्ण नहीं है। इसलिये इन लोगों को अपने अपने सामाजिक प्रभावानुसार चातुर्वर्ण्य के किसी न किसी विभाग में स्थान मिल गया। स्थानानुसार ब्राह्मणों के भी दस विभाग हो गये जिनमें उत्तरीय पंचगौड़ कहलाये और दक्षिणात्य पंचद्राविड़। पंचगौड़ों में सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल और उत्कलों की गणना है, तथा पंचद्राविड़ों में महाराष्ट्र, द्रविड़, तैलंग, कारनाटक और गुर्जर की।

वैदिक समय में आर्यसभ्यता का केन्द्र पंजाब एवं कुरु क्षेत्र रहा, ब्राह्मण-काल में कुरुक्षेत्र तथा बिहार और सूत्र समय में कान्यकुब्ज (कन्नौज)। बौद्ध काल में यही केन्द्र मगध हो गया। कश्मीरी ब्राह्मण सारस्वत हैं तथा सनाढ्य और कुछ बंगाली ब्राह्मण कान्यकुब्ज हैं। कहते हैं कि कान्यकुब्जों के ५ घराने बङ्गाल में गए थे, जिनसे बंगाली कान्यकुब्जों का वंश चला। ये लोग शेष बङ्गाली ब्राह्मणों को बेटी प्रायः नहीं देते थे। जैसे ब्राह्मण-काल में वानप्रस्थाश्रम के लिये नियमोपनियम बने थे, उसी तरह सूत्रकाल में गृहस्थ तथा संन्यासाश्रम के रचे गये तथा अन्य आश्रमों के भी दृढ़ हुए। यज्ञों की परिपाटी वैदिक समय में उठकर ब्राह्मण काल में पुष्ट हुई थी। सूत्रकाल में उसकी विशेष उन्नति तो न हुई और बल पतनोन्मुख रहा। किन्तु फिर भी किसी न किसी भाँति वह चलती गई।

सूत्रकाल में विशेष ध्यान गाहस्थ्य नियमों तथा सामाजिक अधिकारों पर रहा और हिन्दू समाज-वर्धन में अच्छी सफलता दिखलाई

गई। महाभारत युद्ध के समय भारत के ठेठ पूर्व, ठेठ पश्चिम और ठेठ दक्षिण में अहिन्दुओं का निवास था, किन्तु सूत्रकाल में वे सब हिन्दू हो गये और समस्त भारतवर्ष में अहिन्दू बहुत कम रह गये। अतः जैसे ब्राह्मण काल में आर्यों ने राजनीतिक उन्नति को चरमसीमा पर पहुँचाया था, उसी प्रकार सूत्रकाल में धार्मिक-विस्तार चरमसीमा को पहुँच गया। मोहं जो दड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त महाभारत युद्ध पर्यन्त भारत में प्रतिमा-पूजन का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। यदि ढूँढ़ खोज कर कोई एकाध उदाहरण दिखला देवे, तो इतना अवश्य कहा जायगा कि देश में प्रतिमा का चलन बहुत ही कम था। प्रकृति पूजन से मानस प्रतिमा पूजन निकला। सूत्रकाल में प्रतिमा-पूजन का चलन कुछ कुछ हुआ किन्तु यह समाज के अधोभाग में ही रहा और ऊँची श्रेणियों में न आया। प्रतिमा की मुख्यता विशेषतया बौद्धमत विस्तार के साथ दूसरी शताब्दी से है। गौ ब्राह्मण महिमा इस काल में और भी बढ़ी और अनजान में भी इनके हिंसक को कठोर दण्ड दिया गया।

व्यापार-सम्बन्धनी जातियों के हिन्दूमत में सम्मिलित होने से इसमें भी जाति संबन्धी दृढ़ता का समावेश होने लगा। ये व्यापारी जातियाँ खान पान, बेटी व्यवहार आदि का संबन्ध अपनी संस्था के बाहर प्रायः नहीं करती थीं। इनके उदाहरण का प्रभाव शेष हिन्दुओं पर भी बहुत पड़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में जो वैवाहिक और खान पान सम्बन्धी स्वच्छन्दता थी, उसका चलन समय के साथ कम होता चला। इसलिये यद्यपि मिलित विवाहादि नितान्त लुप्त नहीं हुए, तथापि इनका चलन दिनां दिन घटता ही गया। यद्यपि शूद्रों की सभी जातियाँ शास्त्रानुसार आपस में सम्बन्ध कर सकती हैं, तथापि वास्तव में ऐसे विवाहों का चलन समाज में नहीं है।

इन लोगों के हिन्दूमत में आने से इनके प्राचीन भूतप्रेतादि के पूजन विधान तथा कराल देवताओं के विचार भी इस में घुसने लगे। अब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन विधान लोक में प्रचलित नहीं हुआ था। यद्यपि विष्णु और शिव के नाम ऋग्वेद में हैं और यज्ञ में इन्हें भी भाग मिलता था, तथापि इनकी गणना अमुख्य देवताओं में थी और ईश्वर के प्रधान स्थानापन्न होने का गौरव इन्हें बिल्कुल

नहीं प्राप्त हुआ था। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में हम शैव ईश्वरत्व पाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में देवताओं में विष्णु को अधिक मान मिला किन्तु कृष्ण का पूजन उस समय तक नहीं चला था। शतपथ ब्राह्मण ही में दक्ष और पार्वती को बलिप्रदान का उल्लेख है। श्रीदेवी का आवाहन प्रथम तैत्तिरीयारण्यक में किया गया। कृष्ण ने सरस्वती का तथा शाम्ब ने सूर्य का पूजन चलाया। सूत्रकाल में अनार्यों द्वारा बहुतायत से हिन्दूमत ग्रहण होने के कारण उनकी धार्मिक योग्यतानुसार कुछ साधारण देवताओं की प्रधानता हिन्दू-मत में बढ़ने लगी। इसलिये रुद्र की उन्नति फिर से होने लगी और उनके अनुयायियों में भूत-प्रेतादि भी सम्मिलित हो गये। महा-भारत-काल में बंगाल में अनार्यों की बस्ती प्रचुरता से थी। सूत्रकाल में इन लोगों के समूह के समूह एक बारगी हिन्दू हो गये। इनमें कराल देवताओं की परम प्रचुरता थी। इसलिये बंगाली हिन्दू धर्म में चक्र-पूजन, काली, भैरव, कापालिक आदि की प्रधानता हो गई।

जब रुद्र का महत्त्व अनार्यों के कारण बढ़ा और उनको संहार का कार्य मिलने का समय आने लगा, तब जगदुत्पादक की भी आवश्यकता पड़ी और इसलिये ब्रह्मा का विचार उठने लगा। ब्राह्मण-काल पर्यन्त ईश्वर से पृथक् ब्रह्मा का कोई विचार नहीं समझ पड़ता और विष्णु भी जगत्संचालक नहीं ज्ञात होते। सब से पहले नारायण ने ब्रह्मा को जाना। सूत्रकाल में इन तीनों विचारों के उठने का मसाला एकत्रित हो गया और बौद्ध काल में उनके त्रिरत्न के जोड़ पर हिन्दुओं में त्रिमूर्ति का भाव उठकर उसकी दृढ़ता हुई तथा अवतारों का विचार भी पुष्ट हुआ। इस प्रकार वर्तमान हिन्दूमत के इन हिन्दू विचारों का बीजारोपण भी सूत्रकाल में हो गया, और समय पर ब्राह्मण धर्म से ही हिन्दू धर्म निकला।

प्राचीन हिन्दू धर्म ब्राह्मण-काल-पर्यन्त रहा और नवीन बौद्धकाल के पीछे से है। धार्मिक उन्नति के लिए सूत्रों तथा बौद्धों के समयों को परिवर्तन-काल मान सकते हैं। वैदिक समय में हिन्दूमत का बीजारोपण हुआ, ब्राह्मण-काल में उसका पुष्टीकरण देखा गया तथा सूत्र काल में प्रस्तार एवं परिवर्तनारम्भ। बौद्धकाल में यह परिवर्तन पूरा

हुआ और पीछे से वर्तमान हिन्दूमत की दृढ़ता देखने में आई ।

मोहंजो दड़ो और हड़प्पा में सिंह बाहिनी मातृदेवी या पृथ्वी देवी की मूर्तियां बहुधा मिलती हैं । यही शक्ति पूजन का मूल था । त्रिनेत्र शिव भी पशुपति के रूप में (हाथी, चीता, भैंसा और गैंडा के निकट) मिलते हैं अथच योनि (अर्घे) और लिंग के रूप में भी । वे दो मृग चर्मों पर बैठे हैं । जानवरों का भी पूजन था तथा सींग देवत्व का चिन्ह था । गिरिपूजन भी चलता था । ऋग्वेद में शिव केवल ३३ देवताओं में से थे, इन्द्र मुख्य थे और विष्णु उपेन्द्र । शक्ति ईश्वर में ही थी, किन्तु मुख्यता इन्द्र, अग्नि और वरुण की थी । यजुर्वेद और अथर्ववेद में शैव ईश्वरत्व है जो औपनिषत्काल तक चला । यजुर्वेद से यज्ञों का महत्व बढ़ा जो ब्राह्मण काल में कर्म काण्ड के साथ वृद्धि-गत हुआ । आरण्यकों और उपनिषदों के साथ ज्ञान काल सबलता पूर्वक चला तथा परमेश्वर के निर्गुण भाव पर बल बढ़ा । निर्गुण परमात्मा निष्कल परब्रह्म परमेश्वर था, और सगुण सकल, अपरब्रह्म ईश्वर । अनन्तर बृहस्पति, कपिल, जैमिनि और बुद्ध के साथ शंकावाद उठकर पुष्ट हुआ तथा आचारात्मक बौद्ध धर्म स्थापित होकर शैव ईश्वरत्व शिथिल पड़ा । यह शंकावाद लोकायत विचारों से चला था । निर्गुण ब्रह्म पर साधारण जन समुदाय की श्रद्धा न जमने का यह फल था । कपिल का प्रादुर्भाव गौतम बुद्ध (५६३ बी० सी०) के पूर्व हो चुका था । बृहस्पति शायद कपिल से भी पूर्व के थे और जैमिनि कपिल और बुद्ध के बीच में समझ पड़ते हैं । बौद्धमत का प्रचार याज्ञिक रीतियों से अश्रद्धा तथा निर्गुण ब्रह्म की ओर लोक रुचि की कमी से हुआ । इन विचारों के कारण ईश्वरवाद को भारी धक्का लगा ।

ऐसी दशा में महर्षि वादरायण व्यास ने पांचवीं शताब्दी बी० सी० के लगभग भगवद्गीता का मूल रूप रचा जिसमें हिन्दू निर्गुणवाद के साथ सगुणवाद मिलाकर ईश्वरभक्ति को दृढ़ किया । अब तक देश में वेदों का मत साहित्यात्मक था, उपनिषदों का तर्कात्मक, तथा बुद्ध का आचारात्मक । आपने गीता में इन तीनों गुणों के साथ सगुण विश्वासात्मक मत भी जोड़कर हिन्दू मत को सर्व-

साधारण में फैलने के योग्य बनाया। सगुणत्व के एक मोटिया भाव होने से आपने गीता में कम से कम विश्वासात्मिकता रक्खी अथच यथासाध्य स्थूलता न आने दी। अतएव इस काल हमारे सामने बाद्ध तथा गीता के दो मत ऐसे आये जा दो महोपदेशकों द्वारा प्रचारित थे। इधर बाल्मीकीय रामायण (छठी से तीसरी शताब्दी बी० सी०) तथा कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र (तीसरी से पहला शताब्दी बी० सी०) में हमें एक तीसरा मत मिलता है जो महोपदेशकों द्वारा तो समर्थित न था, किन्तु देश में प्रचलित खूब था। इसी के सुधारने के बुद्ध-देव और बादरायण ने असफल प्रयत्न किये।

इस प्रचलित मत में अवतार नहीं हैं, तथा वैदिक देवता एवं काम, कुबेर, शुक, कार्तिकेय, गंगा, लक्ष्मी, उमा आदि देवी-देवता हैं। विष्णु और शिव की महत्ता है। नाग, वृक्ष, नदी, नड़ागादि पूजित हैं। देवताओं के मन्दिर और प्रतिमायें हैं किन्तु शिव लिंग नहीं। पशुवलि है। आवागमन सिद्धान्त की पूरी उन्नति नहीं है। तीसरी शताब्दी बी० सी० के महानारायणीय उपनिषत् में विष्णु वासुदेव हैं। प्रतिमा कल्प सूत्र में है किन्तु उसके पूजन का आदेश नहीं। प्राचीन ग्रीक लेखकों की साक्षी से गंगा स्नान में पुण्य माना जाता था। यह पुण्य गीता की गंगा में नहीं है। अर्थशास्त्र में छोटे बड़े देवता हैं। पहाड़ों, नदियों, वृक्षों, आग, चिड़ियों, नागों, गायों आदि के पूजन मरी आदि से बचने का किये जाते थे, तथा इसी अभिप्राय से रीतियों, मन्त्रों और जादू के काम कराये जाते थे। आवागमन, कर्म और मुक्ति के कथन नहीं हैं। यह धर्म कुछ-कुछ अशोक बाल के समान है।

बादरायण व्यास ने वासुदेव मत को वेद विरुद्ध मान कर उसकी समीक्षा की है। इधर गीता में स्वयं कृष्ण विष्णु और वासुदेव हैं तथा शैव माहात्म्य गिरा हुआ है। चौथी शताब्दी से पूर्व वाले बांधायन ने गीता का एक अवतरण दिया है, तथा तीसरी शताब्दी बी० सी० में प्राप्त निदेश नामक बौद्ध ग्रन्थ में व्यूह-पूजन है, किन्तु वह गीता में नहीं है। इससे गीता का अस्तित्व पांचवीं शताब्दी बी० सी० में जाता है। फिर भी उसमें वासुदेव का वैष्णवपन प्राप्त है जो मत

वादरायण के प्रतिकूल है। इसस गीता में पीछे भी घटा-बढ़ी हुई ऐसा प्रकट है। पाश्चात्य पंडितों ने उसमें पहली दूसरी शताब्दी तक के कुछ विचार दिखलाये हैं। समझ पड़ता है कि वादरायण ने गीता में पहले केवल वैष्णव ईश्वरत्व कहा, किन्तु जब आगे चलकर वासुदेव से विष्णु का एकीकरण हुआ, तब वासुदेव सम्बन्धी वैष्णव विचार भी उसमें जुड़ गये। गीता के थोड़ा ही पीछे से व्यूह-पूजन का बल बढ़ा। इसमें बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी ईश्वरांश माने जाते हैं।

बुद्ध के पूर्व की प्रतिमा मोहंजोदड़ो के अतिरिक्त अब केवल श्री की मिलती है, सो भी सांकेतिक। प्रयोजन यह है कि प्रतिमा है नहीं किन्तु संकेत से उसका अस्तित्व बतलाया गया है। प्राचीन बौद्ध मूर्तियां भी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। आगे चलकर बौद्धमत और कुशान साम्राज्य के प्रभाव विस्तार से देश में प्रतिमा पूजन का बल बढ़ा। इसका विवरण दूसरे भाग में यथा स्थान होगा।

यह भाग अब इसी स्थान पर समाप्त होता है। इस अध्याय में बुद्ध से पीछे के भी कुछ विवरण आ गये हैं। कारण यह है कि यह विषय बुद्ध पूर्व से उठकर तीसरी शताब्दी बी० सी० तक चला गया है।



मुद्रक—श्रीगिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग ।

प्रकाशक—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग ।

बुद्ध पूर्व का भारतीय इतिहास

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०	७	बनियर	बनियर
१५	११	भरद्वाज, अग्निवर्चस वशिष्ठ, मित्रयु सावर्णि, सोमदत्ति	भरद्वाज-अग्निवर्चस वशिष्ठ-मित्रयु सावर्णि-सोमदत्ति
१७	१	खंड	गुन्देलखण्ड
२८	१४	इन्द्रद्युम्न परमेष्ठि	इन्द्रद्युम्न—परमेष्ठि
२८	१९	७	६
२९	३	शुक्त (कृष्ण भाई)	(शुक्त, कृष्ण भाई)
२९	२२	खण्डांग	खट्टवांग
२९	२५	शल	—शल
३१	४	रुरुक	रुरुक कं
३१	१०	शेष	शेष
३२	१८	वाह,	वाहु
३४	४	शास्त्रोच्चार	शास्त्रोच्चार
३४	१०	३०	३५
३५	५	श्रुतायुस	श्रुतायुस—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३५	२१	३५	— —
३५	२६	१० कारन्धम—अवीक्षित	कारन्धम—१० अवीक्षित
३६	९	अभयद	अभयद—
३८	८	संजय	सृंजय
३८	१३	वेदधि	वेदधि
३८	२३	चायमान	चयमान
४१	१२	उपयुक्त	उपर्युक्त
४१	१९-२०	३० जहु—अजक	जहु—३० अजक
४३	८	ज्यामत	ज्यामघ
४७	२१	के	के पिता
४७	अन्तिम	सत्य—शिवस्त	सत्य शिवस्त
४८	६	गुरु कावशेय	तुरुकावशेय
४८	७	पुराण	एवं पुराण
५६	१७	पशाखायें	प्रशाखायें
५८	१८	धूमवर्ण	धूमवर्ण
६५	२३	प्राकृति कसदनों	प्राकृतिक सदनों

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७२	१	सावणि	सावणि
८१	१६	जाते ही थे	जाते ही न थे
९६	अन्तिम	५६	६५
९८	१०	१९०	१९१
९९	१९	मातरिश्वम्	मातरिश्वन्
१०१	७	पुरुकुस्त	पुरुकुत्स
१०६	२३	चार	चार में
१०७	१२	७९व	७९वां
१०९	३	पतवारों	बादबानों
११३	२	तुर्ग	दुर्ग
११३	१४	पतवारों	बादबानों
११६	७	हुइ	हुई
११८	शिरोभाग	६	७
१२३	अन्तिम	वध्यप्रश्व	वध्यश्व
१२६	११	परादास	परादास
१३२	४	माई	माई

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४३	९	रक्खे	रक्खो
१४४	१५	दैन्न्य	दैत्य
१४७	अन्तिम	बतन	बर्तन
१६९	५	भाग	भोग
१७४	अन्तिम	प	पौडू
१८१	१६	पांचाल	कोशल
१८६	१७	उत्तरायथ	उत्तरापथ
१९०	२३	योवनावस्था	यौवनावस्था
१९०	२८	संभवः	संभवतः
१९३	१२	बाहर की	बाहर भी
२००	३	कन्द	स्कन्द
२०४	२	थे	ये
२०४	१२	सुवास	सुदास
२०४	२१	जयत	जयंत
२०८	८	शर्फात	शर्यात
२०८	१६	विदेघ	विदेघ

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१३	१७	मृगायार्थ	मृगयार्थ
२१४	१२	द्रोण	द्रोण
२२४	११	पारव	पौरव
२२९	९	३५	३४
२३७	२६	यश	यह
२४०	१६	तोवश	तौर्वश
२४०	२५	मर्दनापुर	मदनापुर
२४२	१२	वश...नाम था	(वश...नाम था)
२४३	१२	अयागव	अयोगव
२४४	१२	चालुस	चालुष
२४६	२१	तिमिध्वज, शम्बर	तिमिध्वज शम्बर
२४८	११	शिबि	शिव
२५२	१९	वैराग्य	वैराग्य,
२५७	१७	रहुँचे	पहुँचे
२६०	शिरोभाग	१२	१३
२६४	२७	सिहिका	सिंहिका

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२६८	१९	है	है'
२६९	११	महात्म्य	माहात्म्य
२७५	४	व्यवहार	व्यवहार से
२७६	१८	पूर्वोक्त	पूर्वोक्त
२७९	२५	केवल	केवल
२८७	१०	बाध्य	बध्य
३०२	१०	वाष्पण्यों	वाष्पण्यों
३२१	अन्तिम	इमें	इनमें
३२८	२८	शाय्याभिमान	शौर्याभिमान
३३४	९	अतविपुरी	अतंविपुरी
३३६	१४	फण	पण
३५५	१३	आर	और
३५६	८	कालिया	कालिय
३६९	२०	बाहद्रथ	बाह्रद्रथ
३७३	२८	वासदत्ता	वासवदत्ता
४०३	१३	आदि में	आदि

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४१७	२३	लाहार	लोहार
४१७	२८	क्षत्रिय	क्षत्रिया
४१८	२९	गाहस्थ्य	गाहस्थ्य

नोट—ग्रन्थ में बिन्दु, मात्रा आदि कहीं कहीं छापने में दूट गये हैं। उन्हें शुद्धिपत्र में स्थान देने से विस्तार बहुत हो जाता। आशा है कि पाठक महाशय ऐसे स्थानों को सुगमता पूर्वक शुद्ध रूप में पढ़ लेंगे।

मिश्र बन्धु

